

THE NEW TESTAMENT

नया नियम



THE NEW TESTAMENT OF INDIA

गिडियन्स इंटरनेशनल

THE NEW TESTAMENT

Hindi

1987

50,000 Copies

©

The Bible Society of India

Published by:

THE GIDEONS INTERNATIONAL

आवश्यकता के समय सहायता

		पृष्ठ संख्या
उद्धार का मार्ग	यूहन्ना ३:३	१३०
	यूहन्ना ३:१६	१३१
	रोमियों १०:६	२२७
चिंता के समय शांति	फिलिप्पियों ४:६,७	२८७
	यूहन्ना १४	१५३
भय के समय साहस	इब्रानियों १३:५ ६	३२८
	२ कुरिन्थियों ४:८-१८	-२५८
क्लेश के समय सहायता	२ कुरिन्थियों १२:८-१०	२६७
	इब्रानियों १२:३-१३	३२६
निर्णय के समय मार्गदर्शन	याकूब १:५-६	३२६
	इब्रानियों ४:१६	३१६
थकान के समय विश्राम	मत्ती ११-२८-३०	१६
	रोमियों ८:३१-३६	२२५
	२ कुरिन्थियों १:३-५	२५५
दुःख के समय सांत्वना	रोमियों ८:२६-२८	२२५
	२ कुरिन्थियों १:३-५	२५५
परीक्षा के समय शक्ति	याकूब १:१२-१६	३२६
	१ कुरिन्थियों १०:६-१३	२४५
धन्यवाद के समय स्तुति	१ थिस्सलुनीकियों ५:१८	२६७
	इब्रानियों १३:१५	३२८
क्षमा प्राप्ति के समय		
आनन्द १	यूहन्ना १:७-१०	३४४

बाइबल में परमेश्वर के मस्तिष्क, मनुष्य की दशा, उद्धार का मार्ग, पापियों के सर्वनाश तथा विश्वासियों के आनन्द का वर्णन है। उसके सिद्धान्त पवित्र, उसके वचन बाध्य, इसका इतिहास मृत्यु तथा इसके निर्णय अचल हैं। बुद्धि की प्राप्ति के लिए इसे पढ़ें, सुरक्षा के लिए इस पर विश्वास करें तथा पवित्र बनने के लिये इस पर आचरण करें। इसमें आपके मार्गदर्शन के लिये प्रकाश, पोषण के लिये भोजन तथा हर्ष के लिये आत्वनता है।

यह यात्री का मार्ग निर्देशक चित्र, तीर्थयात्री की गाठी, चालक का दिशा सूचक यंत्र, सैनिक की तलवार तथा मसीही का शासन पत्र है। इसमें स्वर्गलोक का पुनः स्थापन, स्वर्ग खुला हुआ तथा नरक के द्वारों का काशन है।

ख्रिस्त इसका मूल विषय है। इसका आशय हमारी लाई करना तथा उद्देश्य परमेश्वर की महिमा है।

इसे हमारी स्मृति में समा जाना, हृदय पर राज्य करना तथा हमारा पय-प्रदर्शक होना चाहिए। इसे धीरज साथ, बारम्बार तथा प्रार्थना सहित पढ़ें। यह धन का भण्डार महिमा का स्वर्ग तथा आनन्द का स्रोत है। यह पुस्तक आपको इस जीवन में मिली है, न्याय के दिन गौली जायेगी तथा यह चिर-स्मरणीय रहेगी। इसमें महानतम् उत्तरदायित्व है, महानतम् परिश्रम को यह तिरस्कृत करेगी तथा जो इसके पवित्र लेखों का तिरस्कार करते हैं उन्हें अपराधी ठहराएगी।

गिडियन्स इन्टरनेशनल मसीही व्यापारियों की
संस्था है जिसमें लगभग ७५ देशों के मसीही
व्यापारी संगति तथा सेवा के लिये सम्मिलित हैं। इस
संस्था का उद्देश्य है यीशु ख्रिस्त के सु-समाचार को लोगों
तक पहुँचाना जिस से वे उनको अपने व्यक्तिगत
उद्धारकर्ता के रूप में जान सकें।

विभिन्न कलीसियाओं से संबंधित मसीही मित्रों की
सहायता से इस संस्था के सदस्यों ने अब तक पांच
करोड़ से अधिक बाइबलें तथा नया नियम की प्रतियां
होटलों, हस्पतालों, जेल-खानों, सेना के जवानों, छात्रों
तथा नर्सों में वितरित की है।

परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है कि वह अपने वचन को
आशीष देगे तथा फलदायी बनाएंगे। इस संस्था के सदस्यों
ने अपने कार्य पर आशीष का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है और
यह जानते हैं कि वह अपनी प्रतिज्ञा का पालन कर रहे
हैं। हमारी यह हार्दिक प्रार्थना तथा आशा है कि प्रत्येक
पाठक परमेश्वर की इस अद्भुत पुस्तक को पढ़ते समय
अपनी आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत शिक्षा तथा आशीष
प्राप्त करेगा।

सूची पत्र

पुस्तको के नाम	प्रध्यायों की संख्या	पृष्ठ
मत्ती रचित सुसमाचार	२८	१
मरकुस रचित सुसमाचार	१६	४७
लूका रचित सुसमाचार	२४	७६
यूहन्ना रचित सुसमाचार	२१	१२७
प्रेरितो के कामों का बर्णन	२८	१६५
रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रो	१६	२१५
कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्रो	१६	२३५
कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रो	१३	२५५
गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रो	६	२६१
इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रो	६	२७६
फिलिप्पियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रो	४	२८३
कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रो	४	२८८
थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्रो	५	२९३
थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रो	३	२९७
तोमिथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्रो	६	३००
तोमिथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रो	४	३०५
तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रो	३	३०९
फिलिमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रो	१	३१२
इब्रानियों के नाम पत्रो	१३	३१३
याकूब की पत्रो	५	३२९
पतरस की पहिली पत्रो	५	३३४
पतरस की दूसरी पत्रो	३	३४०
यूहन्ना की पहिली पत्रो	५	३४३
यूहन्ना की दूसरी पत्रो	१	३४९
यूहन्ना की तीसरी पत्रो	१	३५०
यहूदा की पत्रो	१	३५१
यूहन्ना का प्रकाशितवाक्य	२२	३५३

मत्ती रचित सुसमाचार

१ इब्राहीम की सन्तान, दाऊद की सन्तान, यीशु मसीह की वंशावली।

२ इब्राहीम से इमहाक उत्पन्न हुआ; इमहाक से याकूब उत्पन्न हुआ; और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए।

३ यहूदा से फिरिस, और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए; और फिरिस से हिस्त्रोन उत्पन्न हुआ; और हिस्त्रोन से एराम उत्पन्न हुआ।

४ और एराम से अम्मोनादाब उत्पन्न हुआ; और अम्मोनादाब से नहशोन और नहयोन से सलमोन उत्पन्न हुआ।

५ और सलमोन और राहब से बोअज उत्पन्न हुआ। और बोअज और रूत से ओवेद उत्पन्न हुआ; और ओवेद से यिशं उत्पन्न हुआ।

६ और यिशं से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ ॥

७ और दाऊद से मुल्लमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहिले उरिय्याह की पत्नी थी।

८ और मुल्लमान से रहवाम उत्पन्न हुआ; और रहवाम से अबिय्याह उत्पन्न हुआ; और अबिय्याह से आमा उत्पन्न हुआ; और आमा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ; और यहोशाफात से योगाम उत्पन्न हुआ, और योगाम से उज्जिय्याह उत्पन्न हुआ।

९ और उज्जिय्याह से योताम उत्पन्न हुआ; और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ; और आहाज से हिज्जकिय्याह उत्पन्न हुआ।

१० और हिज्जकिय्याह से मनशिशह उत्पन्न हुआ। और मनशिशह से आमोन उत्पन्न हुआ; और आमोन से योगिय्याह उत्पन्न हुआ।

११ और बन्दी होकर बाबुल जाने के

समय में योगिय्याह से यकुन्याह, और उस के भाई उत्पन्न हुए ॥

१२ बन्दी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतिएन उत्पन्न हुआ; और शालतिएन से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ।

१३ और जरुब्बाबिल से अवीहूद उत्पन्न हुआ; और अवीहूद से इत्याकीम उत्पन्न हुआ; और इत्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ।

१४ और अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ; और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ; और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ।

१५ और इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ; और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ; और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ।

१६ और याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ; जो मरियम का पति था जिस से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ ॥

१७ इब्राहीम से दाऊद तक सब चौदह पीढ़ी हुई और दाऊद से बाबुल को बन्दी होकर पहुंचाए जाने तक चौदह पीढ़ी और बन्दी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय में लेकर मसीह तक चौदह पीढ़ी हुई ॥

१८ अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, कि जब उस की माता मरियम की मगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उन के इकट्ठे होने से पहिले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई।

१९ सो उनके पति यूसुफ ने जो धर्मो था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मन्ना की।

२० जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा; हे यूसुफ दाऊद की सन्तान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर; क्योंकि जो उसके गर्भ में है, वह पवित्र आत्मा की ओर से है। २१ वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना; क्योंकि वह अपने लोगों का उन के पापों से उद्धार करेगा। २२ यह सब कुछ इसलिये हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था; वह पूरा हो। २३ कि, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा जिस का अर्थ यह है "परमेश्वर हमारे साथ"। २४ सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया। २५ और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया; और उस ने उसका नाम यीशु रखा ॥

२ हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे। २ कि यहूदियों का राजा जिस का जन्म हुआ है, कहा है? क्योंकि हम ने पूर्व में उनका तारा देखा है और उस को प्रणाम करने आए हैं। ३ यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। ४ और उस ने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उन से पूछा, कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? ५ उन्होंने ने उस से कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा

यों लिखा गया है। ६ कि हे बैतलहम, जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सब से छोटा नहीं; क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा, जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। ७ तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उन से पूछा, कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। ८ और उस ने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उस को प्रणाम करूं। ९ वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो, जो तारा उन्होंने ने पूर्व में देखा था, वह उन के आगे आगे चला, और जहां बालक था, उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। १० उस तारे को देखकर वे अति आनन्दित हुए। ११ और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उस की माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया; और अपना अपना घंटा खोलकर उस को सोना, और लोहबान, और गन्धरस की भेंट चढ़ाई। १२ और स्वप्न में यह चिंतनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए ॥

१३ उन के चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ; उस बालक को और उस की माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा; और जब तक मैं तुझ से न कहूं, तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। १४ वह रात ही को उठकर बालक और उस की माता को लेकर मिस्र को चल दिया। १५ और

हेरोदेस के मरने तक वहीं रहा; इसलिये कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैं ने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया पूरा हो। १६ जब हेरोदेस ने यह देखा, कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ ठट्ठा किया है, तब वह क्रोध से भर गया; और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बतलहम और उसके पास पास के सब लड़कों को जो दो वर्ष के, वा उस से छोटे थे, मरवा डाला। १७ तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हुआ, १८ कि रामाह में एक करुण-नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिये रो रही थी, और शान्त होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं ॥

१९ हेरोदेस के मरने के बाद देखो, प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। २० कि उठ, बालक और उस की माता को लेकर इस्राएल के देश में चला जा; क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे, वे मर गए। २१ वह उठा, और बालक और उस की माता को साथ लेकर इस्राएल के देश में आया। २२ परन्तु यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वहाँ जाने से डरा; और स्वप्न में चितीनी पाकर गलील देश में चला गया। २३ और नासरत नाम नगर में जा बसा; ताकि वह वचन पूरा हो, जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, कि वह नासरी कहलाएगा ॥

३ उन दिनों में यहून्ना बपतिस्मा देने-वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह प्रचार करने लगा। कि २ मन फिरावो:

क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट था गया है। ३ यह वही है जिस की चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई कि जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है, कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की सड़कें सीधी करो। ४ यह यहून्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहिने था, और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था, और उसका भोजन टिट्टियाँ और वनमधु था। ५ तब यहूशलेम के और सारे यहूदिया के, और यरदन के पास पास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए। ६ और अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उस से बपतिस्मा लिया। ७ जब उस ने बहुतेरे फरोसियों और सद्कियों को बपतिस्मा के लिये अपने पास आते देखा, तो उन से कहा, कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किस ने जता दिया, कि मानेवाले क्रोध से भागो? ८ सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। ९ और अपने अपने मन में यह न सोचो, कि हमारा पिता इब्राहीम है; क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता है। १० और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिये जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में भोंका जाता है। ११ मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परन्तु जो मेरे बाद मानेवाला है, वह मुझ से शक्ति-शाली है; मैं उस की जूती उठाने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। १२ उसका सूत्र उस के हाथ में है, और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा, और अपने गेहूँ को तो धाने में इकल करेगा, आना भसा

को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं ॥

१३ उस समय यीशु गलील में यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास उस में वपतिस्मा लेने आया। १४ परन्तु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, कि मुझे तेरे हाथ से वपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू मेरे पास आया है? १५ यीशु ने उस को यह उत्तर दिया, कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है, तब उस ने उस की बात मान ली। १६ और यीशु वपतिस्मा लेकर तुरन्त पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके नित्ये आकाश खुल गया; और उस ने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा। १७ और देखो, यह आकाशवाणी हुई, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मैं अत्यन्त प्रमत्त हूँ ॥

४ तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उस की परीक्षा हो। २ वह चालीस दिन, और चालीस रात, निराहार रहा, अन्त में उसे भूख लगी। ३ तब परखनेवाले ने पास आकर उस से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे, कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। ४ उस ने उत्तर दिया; कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परन्तु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ५ तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मन्दिर के कंगूरे पर खड़ा किया। ६ और उस से कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे; क्योंकि लिखा है, कि वह

तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा; और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे; कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर में ठेस लगे। ७ यीशु ने उस से कहा; यह भी लिखा है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। ८ फिर शैतान* उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर। ९ उस में कहा, कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। १० तब यीशु ने उस से कहा; हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की प्रणाम कर, और केवल उसी की उपासना कर। ११ तब शैतान उसके पास से चला गया; और देखो, स्वर्गदूत आकर उस की सेवा करने लगे ॥

१२ जब उस ने यह सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया, तो वह गलील को चला गया। १३ और नासरत को छोड़कर कफरनहम में जो भील के किनारे जबूलून और नपताली के देश में है जाकर रहने लगा। १४ ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। १५ कि जबूलून और नपताली के देश, भील के मार्ग से यरदन के पार अन्यजातियों का गलील। १६ जो लोग अन्धकार में बैठे थे उन्होंने ने बड़ी ज्योति देखी; और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, उन पर ज्योति चमकी ॥

१७ उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरम्भ किया, कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। १८ उस ने गलील की भील

* अर्थात् इब्लीस।

के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात् शमीन को जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अन्द्रियास को भील में जाल डालते देखा; क्योंकि वे मछव्रे थे। १६ और उन से कहा, मेरे पीछे चले आओ, तो मैं तुम को मनुष्यों के पकड़नेवाले बनाऊंगा। २० वे तुरन्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। २१ और वहां से आगे बढ़कर, उस ने और दो भाइयों अर्थात् जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा; और उन्हें भी बुलाया। २२ वे तुरन्त नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए ॥

२३ और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उन की सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। २४ और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया; और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिन में दुष्टात्माएं थीं और मिर्गीवालों और भोलें के मारे हुएों को उसके पास लाए और उस ने उन्हें चंगा किया। २५ और गलील और दिका-पुलिस और यहूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली ॥

५ वह इस भीड़ को देखकर, पहाड़ पर चढ़ गया; और जब बैठ गया, तो उसके चेले उसके पास आए। २ और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, ३ धन्य हैं वे, जो मन के दीन

हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ४ धन्य हैं वे, जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। ५ धन्य हैं वे, जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ६ धन्य हैं वे, जो धर्म के भूले और पियासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। ७ धन्य हैं वे, जो दयावन्त हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। ८ धन्य हैं वे, जिन के मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ९ धन्य हैं वे, जो मेल करवानेवाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। १० धन्य हैं वे, जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ११ धन्य हो तुम, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निन्दा करें, और सताए और भूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। १२ आनन्दित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिये स्वर्ग में बड़ा फल है इसलिये कि उन्हीं ने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम से पहिले थे इसी रीति से सताया था ॥

१३ तुम पृथ्वी के नमक हो; परन्तु यदि नमक का स्वाद विगड़ जाए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इस के कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। १४ तुम जगत की ज्योति हो; जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। १५ और लोग दिया जलाकर पमाने * के नीचे नहीं परन्तु दीवट पर रखते हैं, तब उस से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। १६ उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के साम्हने चमके

* एक बरतन जिस में डेढ़ मन अनाज नापा जाता था।

कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, बडाई करें ॥

१७ यह न समझो, कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। १८ लोप करने नहीं, परन्तु पूरा करने आया हूँ; क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक विन्दु भी जिना पूरा हुए नहीं टलेगा। १९ इसलिये जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े, और वंसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सब से छोटा कहलाएगा; परन्तु जो कोई उन का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। २० क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरोमियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे ॥

२१ तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दण्ड के योग्य होगा। २२ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दण्ड के योग्य होगा; और जो कोई अपने भाई को निकम्मा * कहेगा वह महासभा में दण्ड के योग्य होगा; और जो कोई कहे "अरे मूर्ख" वह नरक की आग के दण्ड के योग्य होगा। २३ इसलिये यदि तू अपनी भेंट बेदी पर लाए, और वहाँ तू स्मरण करे, कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं बेदी के

साम्हने छोड़ दे। २४ और जाकर पहिले अपने भाई से मेल मिलाप कर; तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। २५ जब तक तू अपने मुद्ई के साथ मार्ग ही में है, उस से भटपट मेल मिलाप कर ले कहीं ऐसा न हो कि मुद्ई तुम्हें हाकिम को सोपे, और हाकिम तुम्हें सिपही को सोपे दे और तू वन्दीगृह में डाल दिया जाए। २६ मैं तुम्हें से सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा ॥

२७ तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, कि व्यभिचार न करेगा। २८ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उस से व्यभिचार कर चुका। २९ यदि तेरी दहिनी आंख तुम्हें ठोकर खिलाए, तो उसे निकालकर अपने पास से फेंक दे; क्योंकि तेरे लिये यही भला है कि तेरे अङ्गों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ३० और यदि तेरा दहिना हाथ तुम्हें ठोकर खिलाए, तो उस को काटकर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिये यही भला है, कि तेरे अङ्गों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए ॥

३१ यह भी कहा गया था, कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्यागपत्र दे। ३२ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़ दे, तो वह उस से व्यभिचार करवाता है; और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे, वह व्यभिचार करता है ॥

३३ फिर तुम सुन चुके हो, कि पूर्वकाल के लोगों से कहा गया था कि भूठी

* ५० अर्थात् यूनानी भाषा में, राका।

शपथ न खाना, परन्तु प्रभु के लिये अपनी शपथ को पूरी करना। ३४ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि कभी शपथ न खाना; न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। ३५ न धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है; न यहूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। ३६ अपने सिर की भी शपथ न खाना क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला, न काला कर सकता है। ३७ परन्तु तुम्हारी बात हाँ की हाँ, या नहीं की नहीं हाँ; क्योंकि जो कुछ इस से अधिक होता है वह बुराई से होता है ॥

३८ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था, कि भ्रात्र के बदले भ्रात्र, और दांत के बदले दांत। ३९ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि बुरे का सामना न करना; परन्तु जो कोई तेरे दहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उस की और दूसरा भी फेर दे। ४० और यदि कोई तुझे पर नालिश करके तेरा कुरता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। ४१ और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए तो उसके साथ दो कोस चला जा। ४२ जो कोई तुझ से मांगे, उसे दे; और जो तुझ से उपार लेना चाहे, उस से मुह न मोड़ ॥

४३ तुम सुन चुके हो, कि कहा गया था; कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, और अपने बँरी से बँर। ४४ परन्तु मैं तुम से यह कहता हूँ, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सतानेवालों के लिये प्रार्थना करो। ४५ जिस से तुम अपने स्वर्गीय पिता की सन्तान ठहरोगे क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर प्रपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मँह बरसाता है। ४६ क्योंकि यदि तुम

अपने प्रेम रखनेवालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिये क्या फल होगा? क्या महसूल लेनेवाले भी ऐसा ही नहीं करते?

४७ और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्यजाति भी ऐसा नहीं करते? ४८ इसलिये चाहिये कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है ॥

६ सावधान रहो! तुम मनुष्यों को दिखाने के लिये अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे ॥

२ इसलिये जब तू दान करे, तो अपने प्रागे तुरही न बजवा, जैसा कपटी, सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उन की बढ़ाई करें, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वे अपना फल पा चुके। ३ परन्तु जब तू दान करे, तो जो तेरा दहिना हाथ करता है, उसे तेरा बाया हाथ न जानने पाए। ४ ताकि तेरा दान गुप्त रहे; और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा ॥

५ और जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान न हो क्योंकि लोगों को दिखाने के लिये सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उन को अच्छा लगता है; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ६ परन्तु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा; और द्वार बन्द कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर; और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा। ७ प्रार्थना करते समय अन्यजातियों की नाई बक बक न

करो; क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उन की सुनी जाएगी। ८ सो तुम उन की नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहिले ही जानता है, कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। ९ सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, " हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है; तेरा नाम पवित्र माना जाए। १० तेरा राज्य आए; तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। ११ हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। १२ और जिस प्रकार हम ने अपने अपराधियों * को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों † को क्षमा कर। १३ और हमें परीक्षा में न ला, परन्तु बुराई से बचा; क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। " आमीन। १४ इसलिये यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। १५ और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे, तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा ॥

१६ जब तुम उपवास करो, तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जानें; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। १७ परन्तु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। १८ ताकि लोग नहीं परन्तु तेरा पिता जो गुप्त में है, तुम्हें उपवासी जाने; इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा ॥

* यू० कर्जदार।

† यू० कर्ज।

१९ अपने लिये पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो; जहां कीड़ा और कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर संध लगाते और चुराते हैं। २० परन्तु अपने लिये स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा, और न कोई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर न संध लगाते और न चुराते हैं। २१ क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। २२ शरीर का दिया आंख है : इसलिये यदि तेरी आंख निर्मल हो, तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। २३ परन्तु यदि तेरी आंख बुरी हो, तो तेरा सारा शरीर भी अन्धियारा होगा; इस कारण वह उजियाला जो तुम्हें है यदि अन्धकार हो तो वह अन्धकार कैसा बड़ा होगा ! २४ कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वा एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा; " तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते "। २५ इसलिये मैं तुम से कहता हूँ, कि अपने प्राण के लिये यह चिन्ता न करना कि हम क्या खाएंगे ? और क्या पीएंगे ? और न अपने शरीर के लिये कि क्या पहिनेंगे ? क्या प्राण भोजन से, और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं ? २६ आकाश के पक्षियों को देखो ! वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न खेतों में बटोरते हैं; तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन को खिलाता है; क्या तुम उन से अधिक मूल्य नहीं रखते। २७ तुम में कौन है, जो चिन्ता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी * भी बढ़ा सकता है ? २८ और वस्त्र के लिये क्यों चिन्ता करते हो ? जंगली

* यू० हाथ।

सोसनों पर ध्यान करो, कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते, न कातते हैं। २६ तोभी में तुम से कहता हूँ, कि सुलमान भी, अपने सारे विभव में उन में से किसी के समान वस्त्र पहिने हुए न था। ३० इसलिये जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है, और कल भाड़ में भोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहिनाता है, तो हे अल्प-विश्वासियो, तुम को वह क्योंकर न पहिनाएगा? ३१ इसलिये तुम चिन्ता करके यह न कहना, कि हम क्या खाएंगे, या क्या पीएंगे, या क्या पहिनेंगे? ३२ क्योंकि अन्य-जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है, कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। ३३ इसलिये पहिले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ३४ सो कल के लिये चिन्ता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिन्ता प्राप्त कर लेगा; आज के लिये आज ही का दुख बहुत है ॥

७ दोष मत लगाओ, कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। २ क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो, उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा; और जिस नाप से तुम नापते हो, उसी से तुम्हारे लिये भी नापा जाएगा। ३ तू क्यों अपने भाई की भ्रांख के तिनके को देखता है, और अपनी भ्रांख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही भ्रांख में लट्टा है, तो तू अपने भाई से क्योंकर कह सकता है, कि ला में तेरी भ्रांख से तिनका निकाल दू। ५ हे कपटी, पहले अपनी भ्रांख में से लट्टा निकाल ले, तब तू अपने भाई की भ्रांख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा ॥

६ पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो, और अपने मोती सूत्रों के प्रागे मत डालो; ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रोई और पलटकर तुम को फाड़ डालें ॥

७ मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा; दूडो, तो तुम पाओगे; खटखटाओ, तो तुम्हारे लिये खोला जाएगा। ८ क्योंकि जो कोई मांगता है, उसे मिलता है; और जो दूड़ता है, वह पाता है? और जो खटखटाता है, उसके लिये खोला जाएगा। ९ तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, कि यदि उसका पुत्र उस से रोटी मांगे, तो वह उसे पत्थर दे? १० वा मछली मांगे, तो उसे सांप दे? ११ सो जब तुम बुरे होकर, अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगनेवालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? १२ इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो, कि मनुष्य तुम्हारे साथ करें, तुम भी उन के साथ वसा ही करो; क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद-वक्ताओं की शिक्षा यही है ॥

१३ सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है; और बहुतेरे हैं जो उस से प्रवेश करते हैं। १४ क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं ॥

१५ भूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेदों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परन्तु अन्तर में फाड़नेवाले भेड़िए हैं। १६ उन के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे क्या भाड़ियों से अंगूर, वा अंकटारों से अंजीर तोड़ते हैं? १७ इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल साता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल साता है।

१८ अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। १९ जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और भाग में डाला जाता है। २० सो उन के फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। २१ जो मुझ से, हे प्रभु, हे प्रभु कहता है, उन में से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परन्तु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। २२ उस दिन बहुतेरे मुझ से कहेंगे; हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हम ने तेरे नाम से भविष्यदायी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचम्भे के काम नहीं किए? २३ तब मैं उन से खुलकर कह दूंगा कि मैं ने तुम को कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करनेवाली, मेरे पास से चले जाओ। २४ इसलिये जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिस ने अपना घर चटान पर बनाया। २५ और मेह बरसा और बाढ़ें आईं, और आन्धियां चलीं, और उस घर पर टक्करें लगीं, परन्तु वह नहीं गिरा, क्योंकि उस की नेव चटान पर डाली गई थी। २६ परन्तु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिस ने अपना घर बालू पर बनाया। २७ और मेह बरसा, और बाढ़ें आईं, और आन्धियां चलीं, और उस घर पर टक्करें लगीं और वह गिरकर सत्यानाश हो गया ॥

२८ जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। २९ क्योंकि वह उन के शास्त्रियों के समान नहीं परन्तु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था ॥

जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। २ और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा; कि हे प्रभु यदि तू चाहे, तो मुझे शुद्ध कर सकता है। ३ यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छूआ, और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा और वह तुरन्त कोढ़ से शुद्ध हो गया। ४ यीशु ने उस से कहा; देख, किसी से न कहना परन्तु जाकर अपने आप को याजक को दिखाता और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उन के लिये गवाही हो ॥

५ और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उस से विनती की। ६ कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में भोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। ७ उस ने उस से कहा; मैं आकर उसे चंगा करूंगा। ८ सूबेदार ने उत्तर दिया; कि हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ९ क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, और सिपाही मेरे हाथ में हैं, और जब एक से कहता हूँ, जा, तो वह जाता है; और दूसरे को कि आ, तो वह आता है; और अपने दास से कहता हूँ, कि यह कर, तो वह करता है। १० यह सुनकर यीशु ने अचम्भा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उन से कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मैं ने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। ११ और मैं तुम से कहता हूँ, कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहीम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। १२ परन्तु राज्य के सन्तान बाहर अन्धियारे में डाल दिए जाएंगे: वहां रोना और दांतों को पीसना होगा। १३ और यीशु ने सूबेदार

से कहा, जा; जैसा तेरा विश्वास है, वंसा ही तेरे लिये हो: और उसका सेवक उसी पड़ी चंगा हो गया ॥

१४ और यीशु ने पतरस के घर में आकर उस की सास को ज्वर में पड़ी देखा ।

१५ उस ने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया; और वह उठकर उस की सेवा करने लगी । १६ जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिन में दुष्टात्माएं थी और उस ने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया, और सब बीमारों को चंगा किया ।

१७ ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो, कि उस ने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया ॥

१८ यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी । १९ और एक शास्त्री ने पास आकर उस से कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा, मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा । २० यीशु ने उस से कहा, लोमड़ियों के भट और आकांश के पक्षियों के बसरे होते हैं; परन्तु मनुष्य के पुत्र के लिये सिर धरने की भी जगह नहीं है । २१ एक और चेले ने उस से कहा, हे प्रभु, मुझे पहिले जाने दे, कि अपने पिता को गाढ * दूं । २२ यीशु ने उस से कहा, तू मेरे पीछे हो ले, और मुरदों को अपने मुरदे गाढ़ने दे ॥

२३ जब वह नाव पर चढ़ा, तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए । २४ और देखो, भील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढंपने लगी; और वह सो रहा था । २५ तब उन्होंने ने पास आकर

उसे जगाया, और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं । २६ उस ने उन से कहा; हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उस ने उठकर आन्धी और पानी को डांटा, और सब शान्त हो गया । २७ और लोग अचम्भा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है, कि आन्धी और पानी भी उस की आज्ञा मानते हैं ॥

२८ जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिन में दुष्टात्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचण्ड थे, कि कोई उम मार्ग से जा नहीं सकता था । २९ और देखो, उन्होंने ने चिल्लाकर कहा; हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा दुःख से क्या काम? क्या तू समय से पहिले हमें दुःख देने यहां आया है? ३० उन से कुछ दूर बहुत से मूअरों का एक झुण्ड चर रहा था । ३१ दुष्टात्माओं ने उस से यह कहकर बिनती की, कि यदि तू हमें निकालता है, तो मूअरों के झुण्ड में भेज दे । ३२ उस ने उन से कहा, जाओ, वे निकलकर मूअरों में पंठ गए और देखो, माग झुण्ड कड़ाड़े पर से भाटकर पानी में जा पड़ा, और डूब मरा । ३३ और चरवाहे भागे, और नगर में जाकर ये सब बातें और जिन में दुष्टात्माएं थी उन का सारा हाल कह सुनाया । ३४ और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर बिनती की, कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा ॥

६ फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया; और अपने नगर में आया । २ और देखो, कई लोग एक भोलें के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास

* बा, दफन कर दूं ।

लाए; यीशु ने उन का विश्वास देखकर, उस भोलें के मारे हुए से कहा; हे पुत्र, ठाढ़स बान्ध; तेरे पाप क्षमा हुए। ३ और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा, कि यह तो परमेश्वर की निन्दा करता है। ४ यीशु ने उन के मन की बातें मालूम करके कहा, कि तुम लोग अपने अपने मन में बुग विचार क्यों कर रहे हो? ५ सहज क्या है, यह कहता, कि तेरे पाप क्षमा हुए; या यह कहना कि उठ और चल फिर। ६ परन्तु इसलिये कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है (उस ने भोलें के मारे हुए से कहा) उठ; अपनी खाट उठा, और अपने घर चला जा। ७ वह उठकर अपने घर चला गया। ८ लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिस ने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है ॥

९ वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महमूल की चौकी पर बँठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया ॥

१० और जब वह घर में भोजन करने के लिये बैठा तो बहुतेरे महमूल लेनेवाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बँठे। ११ यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा; तुम्हारा गुरु महमूल लेनेवालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? १२ उस ने यह सुनकर उन से कहा, बँध भले चंगों को नहीं परन्तु बीमारों को प्रवश्य है। १३ सो तुम जाकर इस का अर्थ सीख लो, कि मैं बलिदान नहीं परन्तु दया चाहता हूँ; क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ ॥

१४ तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा; क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं, पर तेरे चले उपवास नहीं करते? १५ यीशु ने उन से कहा; क्या बराती, जब तक दूल्हा उन के साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे कि दूल्हा उन से अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। १६ कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैवन्द पहिरावन से और कुछ सींच लेता है, और वह अधिक फट जाता है। १७ और नया दाखरम पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं, और दाखरम बह जाता है और मशकें नाश हो जाती हैं, परन्तु नया दाखरम नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बची रहती है ॥

१८ वह उन से ये बातें कह ही रहा था, कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा मेरी पुत्री मरी है; परन्तु चलकर अपना हाथ उस पर रख, तो वह जीवित हो जाएगी। १९ यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। २० और देखो, एक स्त्री ने जिस के बारह वर्ष से लोहू बहता था, उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के प्रांचल को छू लिया। २१ क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। २२ यीशु ने फिरकर उसे देखा, और कहा; पुत्री ठाढ़स बान्ध; तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है; सो वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। २३ जब यीशु उस सरदार के घर में पहुँचा और बासली बजानेवालों और भीड़ को हल्लड़ मचाते देखा तब कहा। २४ हट

जाओ, लड़की मरी नहीं, पर सोती है; इस पर वे उस की हंसी करने लगे। २५ परन्तु जब भीड़ निकाल दी गई, तो उस ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा, और वह जी उठी। २६ और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई।

२७ जब यीशु वहां से आगे बढ़ा, तो दो अन्धे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, कि हे दाऊद की सन्तान, हम पर दया कर। २८ जब वह घर में पहुंचा, तो वे अन्धे उस के पास आए; और यीशु ने उन से कहा; क्या तुम्हें विश्वास है, कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने ने उस से कहा; हां, प्रभु। २९ तब उस ने उन की आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिये हो। ३० और उन की आंखें खुल गई और यीशु ने उन्हें चिताकर कहा; सावधान, कोई इस बात को न जाने। ३१ पर उन्होंने ने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया।

३२ जब वे बाहर जा रहे थे, तो देखो, लोग एक गूंगे को जिस में दुष्टात्मा थी उसके पास लाए। ३३ और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई, तो गूंगा बोलने लगा; और भीड़ ने अचम्भा करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। ३४ परन्तु फरोसियों ने कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है।

३५ और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उन की सभाओं में उपदेश करता, और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। ३६ जब उस ने भीड़ को देखा तो उस को लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों

की नाईं जिनका कोई रखवाला * न हो, ब्याकुल और भटके हुए से थे। ३७ तब उस ने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। ३८ इसलिये खेत के स्वामी से बिनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिये मजदूर भेज दे।

१० फिर उस ने अपने बारह चेलों को पास बुलाकर, उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया, कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें।

२ और बारह प्रेरितों के नाम ये हैं : पहिला शमीन, जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अन्द्रियास; जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना; ३ फिलिप्पुस और बर-नुल्लै थोमा और महमूल लेनेवाला मत्ती, हलफ का पुत्र याकूब और तर्दू। ४ शमीन कनानी, और यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकड़वा भी दिया।

५ इन बारहों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा कि अन्धजातियों की ओर न जाना, और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना। ६ परन्तु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। ७ और चलते चलते प्रचार कर कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ८ बीमारों को चंगा करो : मरे हुएों को जिलाओ : कोढ़ियों को शुद्ध करो : दुष्टात्माओं को निकालो : तुम ने सैंतमेंत पाया है, सैंतमेंत दो। ९ अपने पेटुकों में न तो सोना, और न रूपा, और न तांबा रखना। १० मार्ग के लिये न भोली रखो, न दो कुरते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि

मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। ११ जिस किसी नगर या गांव में जाओ, तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है? और जब तक वहां से न निकलो, उसी के यहां रहो। १२ और घर में प्रवेश करते हुए उस को आशीष देना। १३ यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा परन्तु यदि वे योग्य न हों तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट जाएगा। १४ और जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे, और तुम्हारी बातें न सुने, उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। १५ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी।

१६ देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाईं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ सो सापों की नाईं बुद्धिमान और कबूतरों की नाईं भोले बनी। १७ परन्तु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महा सभाओं में सौंपेंगे, और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। १८ तुम मेरे लिये हाकिमों और राजाओं के साम्हने उन पर, और अन्यजातियों पर गवाह होने के लिये पहुंचाए जाओगे। १९ जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिन्ता न करना, कि हम किस रीति से; या क्या कहेंगे: क्योंकि जो कुछ तुम को कहना होगा, वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। २० क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो परन्तु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। २१ भाई, भाई को और पिता पुत्र को, घात के लिये सौंपेंगे, और लड़केवाले माता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। २२ मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अन्त तक धीरज धरे

रहेगा उसी का उद्धार होगा। २३ जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं, तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुम से सच कहता हूँ, तुम इस्राएल के सब नगरों में न फिर चुकोगे, कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा।

२४ चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं; और न दास अपने स्वामी से। २५ चेले का गुरु के, और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है; जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान * कहा तो उसके घरवालों को क्यों न कहेंगे? २६ सो उन से मत डरना, क्योंकि कुछ डपा नहीं, जो खोला न जाएगा; और न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। २७ जो मैं तुम से अग्निधारे में कहता हूँ, उसे उजियाले में कहो; और जो कानों कान सुनते हो, उसे कोठों पर से प्रचार करो। २८ जो शरीर को घात करते हैं, पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उन से मत डरना; पर उसी से डरो, जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। २९ क्या पैसे में दो गौरये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उन में से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। ३० तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। ३१ इसलिये, डरो नहीं; तुम बहुत गौरयों से बढ़कर हो। ३२ जो कोई मनुष्यों के साम्हने मुझे मान लेंगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के साम्हने मान लूंगा। ३३ पर जो कोई मनुष्यों के साम्हने मेरा इन्कार करेगा उस से मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के साम्हने इन्कार करूंगा। ३४ यह न समझो, कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ; मैं मिलाप कराने को नहीं, पर तलवार चलवाने आया हूँ।

* यू० इबलीस वा बालजबूल।

३५ में तो प्राया हूं, कि मनुष्य को उसके पिता से, और बेटे को उस की मां से, और बहू को उस की सास से अलग कर दूं। ३६ मनुष्य के वंरी उसके घर ही के लोग होंगे। ३७ जो माता या पिता को मुझ से अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं और जो बेटा या बेटे को मुझ से अधिक प्रिय जानता है, वह मेरे योग्य नहीं। ३८ और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। ३९ जो अपने प्राण बचाता * है, वह उसे खोएगा; और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है, वह उसे पाएगा। ४० जो तुम्हें ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है। ४१ जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे, वह भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा; और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे, वह धर्मी का बदला पाएगा। ४२ जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुम से सच कहता हूं, वह किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा ॥

११ जब यीशु अपने बारह चेलों को आज्ञा दे चुका, तो वह उन के नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया ॥

२ यूहन्ना ने बन्दीगृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उस से यह पूछने भेजा। ३ कि क्या आनेवाला तू ही है : या हम दूसरे को बाट जोहें ? ४ यीशु ने उत्तर दिया, कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, वह सब

जाकर यूहन्ना से कह दो। ५ कि अन्धे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं; कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुँहें जिलाए जाते हैं; और कंगालों को सुसमाचार मुनाया जाता है। ६ और धन्य है वह, जो मेरे कारण ठोकर न खाए। ७ जब वे वहां से चल दिए, तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा; तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकारडे को? ८ फिर तुम क्या देखने गये थे? क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहिनते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। ९ तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हां; मैं तुम से कहता हूं, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। १० यह वही है, जिस के विषय में लिखा है, कि देख; मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। ११ मैं तुम से सच कहता हूं, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उन में से यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले से कोई बड़ा नहीं हुआ; पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उस से बड़ा है। १२ यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। १३ यूहन्ना तक मारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यदाणी करते रहे। १४ और चाहो तो मानो, एलिय्याह जो आनेवाला था, वह यही है। १५ जिस के सुनने के कान हों, वह सुन ले। १६ मैं इस समय के लोगों की उपमा किस से दूँ? वे उन बालकों के समान हैं, जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं। १७ कि हम ने तुम्हारे लिये बांसली बजाई, और तुम न नाचे; हम ने

विलाप किया, और तुम ने छाती नहीं पीटी । १८ क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उस में दुष्टात्मा है । १९ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया, और वे कहते हैं कि देखो, पैदू और पियक्कड़ मनुष्य, महमूल लेनेवालों और पापियों का मित्र; पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है ॥

२० तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा, जिन में उस ने बहुतेरे सामर्थ्य के काम किए थे; क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था । २१ हाय, खुराजीन; हाय, बेंतसंदा; जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे मूर और संदा में किए जाने, तो टाट ओढ़कर, और राख में बैठकर, वे कब के मन फिरा लेंगे । २२ परन्तु मैं तुम से कहता हूँ; कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से मूर और संदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी । २३ और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा; जो सामर्थ्य के काम तुम्हें में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते, तो वह आज तक बना रहता । २४ पर मैं तुम से कहता हूँ, कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी ॥

२५ उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु; मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कि तू ने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रगट किया है । २६ हाँ, हे पिता, क्योंकि तुम्हें यही अच्छा लगा । २७ मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता; और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र;

और वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे । २८ हे सब परिश्रम करनेवालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ; मैं तुम्हें विश्राम दूंगा । २९ मेरा जूआ अपने ऊपर उठा लो; और मुझ से भीखो; क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ; और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे । ३० क्योंकि मेरा जूआ सहज और मेरा बोझ हलका है ॥

१२ उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बालें तोड़ तोड़कर खाने लगे । २ फरीसियों ने यह देखकर उस से कहा, देख, तेरे चेलें वह काम कर रहे हैं, जो सब्त के दिन करना उचित नहीं । ३ उस ने उन से कहा; क्या तुम ने नहीं पढ़ा, कि दाऊद ने, जब वह और उमके साथी भूखे हुए तो क्या किया? ४ वह क्योंकर परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की रोटियाँ खाई, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था? ५ या तुम ने व्यवस्था में नहीं पढ़ा, कि याजक सब्त के दिन मन्दिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं । ६ पर मैं तुम से कहता हूँ, कि यहाँ वह हैं, जो मन्दिर से भी बड़ा हैं । ७ यदि तुम इस का अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते । ८ मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है ॥

९ वहाँ से चलकर वह उन की सभा के घर में आया । १० और देखो, एक मनुष्य था, जिस का हाथ सूखा हुआ था; और

उन्होंने ने उस पर दोष लगाने के लिये उस से पूछा, कि क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? ११ उस ने उन से कहा; तुम में ऐसा कौन है, जिस की एक ही भेड़ हो, और वह सब्त के दिन गड़हे में गिर जाए, तो वह उसे पकड़कर न निकाले? १२ भला, मनुष्य का मूल्य भेड़ में कितना बढ़ कर है; इसलिये सब्त के दिन भलाई करना उचित है; तब उस ने उम मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। १३ उस ने बढ़ाया, और वह फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। १४ तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की, कि उसे किस प्रकार नाश करें? १५ यह जानकर यीशु वहाँ से चला गया; और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए; और उस ने सब को चंगा किया। १६ और उन्हें चिताया, कि मुझे प्रगट न करना। १७ कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो। १८ कि देखो, यह मेरा सेवक है, जिसे मैं ने चुना है; मेरा प्रिय, जिस से मेरा मन प्रसन्न है; मैं अपना आत्मा उस पर डालूँगा; और वह अन्वयजातियों को न्याय का समाचार देगा। १९ वह न भगड़ा करेगा, और न धूम मचाएगा; और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। २० वह कुचले हुए सरकण्डे को न तोड़ेगा; और धूम्राँ देती हुई बत्ती को न बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल न कराए। २१ और अन्वयजातियाँ उसके नाम पर आशा रखेंगी ॥

२२ तब लोग एक अन्धे-गूंगे को जिस में दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए; और उस ने उसे अच्छा किया; और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। २३ इस पर सब लोग

चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की मन्तान का है? २४ परन्तु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान * की सहायता के बिना दुष्टात्माओं को नहीं निकालता। २५ उस ने उन के मन की बात जानकर उन से कहा; जिम किसी राज्य में फूट होती है, वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिस में फूट होती है, बना न रहेगा। २६ और यदि शैतान ही शैतान को निकाले, तो वह अपना ही विरोधी हो गया है; फिर उसका राज्य क्योंकर बना रहेगा? २७ भला, यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किस की सहायता से निकालते हैं? इसलिये वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। २८ पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। २९ या क्योंकर कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है जब तक कि पहिले उस बलवन्त को न बान्ध ले? और तब वह उसका घर लूट लेगा। ३० जो मेरे साथ नहीं, वह मेरे विरोध में है; और जो मेरे साथ नहीं बटोरता, वह विथराता है। ३१ इसलिये मैं तुम से कहता हूँ, कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निन्दा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निन्दा क्षमा न की जाएगी। ३२ जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परन्तु जो कोई पवित्र-आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा

* यू० इबर्लीस वा बालजदूल।

किया जाएगा। ३३ यदि पेड़ को अच्छा कहो, तो उसके फल को भी अच्छा कहो; या पेड़ को निकम्मा कहो, तो उसके फल को भी निकम्मा कहो; क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। ३४ हे साँप के बच्चो, तुम बुरे होकर क्योंकर अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है, वही मुँह पर आता है। ३५ भला, मनुष्य मन के भले भएडार से भली बातें निकालता है; और बुरा मनुष्य बुरे भएडार से बुरी बातें निकालता है। ३६ और मैं तुम से कहता हूँ, कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। ३७ क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा।

३८ इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उस से कहा, हे गुरु, हम तुझ से एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ३९ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूँढ़ते हैं; परन्तु यूसुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन को न दिया जाएगा। ४० यूसुस तीन रात दिन जल-जन्तु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ४१ नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्हें ने यूसुस का प्रचार सुनकर, मन फिराया और देखो, यहाँ वह है जो यूसुस में भी बड़ा है। ४२ दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह मुलैमान का जान मुनने के लिये पृथ्वी की छोर से आई। और देखो, यहाँ बर है जो मुलैमान में भी बड़ा है। ४३ जब पराक्रम आत्मा मनुष्य में

से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूँढ़ती फिरती है, और पाती नहीं। ४४ तब कहली है, कि मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी, लौट जाऊँगी, और आकर उसे सूना, भाड़ा-बुहारा और सजा-सजाया पाती हूँ। ४५ तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उस में पँठकर वहाँ बास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती है; इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी।

४६ जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तो देखो, उस की माता और भाई बाहर खड़े थे, और उस से बातें करना चाहते थे। ४७ किसी ने उस से कहा; देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं, और तुझ से बातें करना चाहते हैं। ४८ यह सुन उस ने कहनेवाले को उत्तर दिया; कौन है मेरी माता? ४९ और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की और अपना हाथ बढ़ा कर कहा; देखो; मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। ५० क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई और बहिन और माता है।

१३ उसी दिन यीशु घर से निकलकर भील के किनारे जा बैठा। २ और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। ३ और उस ने उन से दृष्टान्तों में बहुत सी बातें कही, कि देखो, एक बोनेवाला बीज बोने निकला। ४ बोने समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। ५ कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरे, जहाँ

उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग आए। ६ पर मूरज निकलने पर वे जल गए, और जड़ न पकड़ने से सूख गए। ७ कुछ भाड़ियों में गिरे, और भाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला। ८ पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, और फल लाए, कोई सौ गुना, कोई साठ गुना, कोई तीस गुना। ९ जिन के कान हों वह मुन ले।।

१० और बेलों ने पाम आकर उस से कहा, तू उन से दृष्टान्तों में क्यों बातें करता है? ११ उस ने उत्तर दिया, कि तुम को स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उन को नहीं। १२ क्योंकि जिस के पाम है, उसे दिया जाएगा; और उसके पाम बहुत हो जाएगा; पर जिस के पाम कुछ नहीं है, उस से जो कुछ उसके पाम है, वह भी ले लिया जाएगा। १३ मैं उन से दृष्टान्तों में इसलिये बातें करता हूँ, कि वे देखते हुए नहीं देखते, और सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। १४ और उन के विषय में यशायाह की यह भविष्यदवाणी पूरी होती है, कि तुम कानों से तो सुनोगे, पर समझोगे नहीं; और आँखों से तो देखोगे, पर तुम्हें न सूझेगा। १५ क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वे कानों से उबा सुनते हैं और उन्हें ने अपनी आँखें मूढ़ ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें, और कानों से सुनें और मन से समझें, और फिर जाएँ, और मैं उन्हें चंगा करूँ। १६ पर धन्य है तुम्हारी आँखें, कि वे देखती हैं, और तुम्हारे कान, कि वे सुनते हैं। १७ क्योंकि मैं तुम से मंच कहता हूँ, कि बहुत से भविष्यदवाणीयों ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो, देखें, पर न देखें, और जो बातें तुम सुनते हो,

सुनें, पर न सुनीं। १८ सो तुम बानेवाने का दृष्टान्त सुनो। १९ जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था, उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है; यह वही है, जो मार्ग के किनारे बोया गया था। २० और जो पत्थरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है, जो वचन सुनकर तुरन्त आनन्द के साथ मान लेता है। २१ पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है, तो तुरन्त टोकर खाना है। २२ जो भाड़ियों में बोया गया, यह वह है, जो वचन को मुत्ता है, पर इस संसार की चिन्ता और धन का धोखा वचन को दबाता है, और वह फल नहीं लाता। २३ जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है, जो वचन को सुनकर समझता है, और फल लाता है, कोई सौ गुना, कोई साठ गुना, कोई तीस गुना।

२४ उन ने उन्हें एक और दृष्टान्त दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिम ने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। २५ पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बंदी आकर गेहूँ के बीच जंगली बीज * बोकर चला गया। २६ जब अंकुर निकले और बानें लगीं, तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। २७ इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उस से कहा, हे स्वामी, क्या तू ने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उस में कहा से आए? २८ उस ने उन से कहा, यह किसी बंदी का काम है। दासों ने उस में कहा, क्या तेरी इच्छा है, कि हम जाकर उन को

बटोर लें? २६ उस ने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पीधे बटोरते हुए उन के साथ गेहूँ भी उखाड़ लो। ३० कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटनेवालों से कहूँगा; पहिले जंगली दाने के पीधे बटोरकर जलाने के लिए उन के गट्टे बांध लो, और गेहूँ को मेरे खेतों में इकट्ठा करो ॥

३१ उस ने उन्हें एक और दृष्टान्त दिया; कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। ३२ वह सब बीजों से छोटा तो है पर जब बड़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है; और ऐसा पेड़ हो जाता है, कि आकाश के पक्षी आकर उस की डालियों पर बसेरा करने हैं ॥

३३ उस ने एक और दृष्टान्त उन्हें सुनाया; कि स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिस को किमी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया ॥

३४ ये सब बातें यीशु ने दृष्टान्तों में लोगों से कहीं, और बिना दृष्टान्त वह उन से कुछ न कहता था। ३५ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो कि मैं दृष्टान्त कहने को अपना मुंह खोलूँगा: मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रहीं हैं प्रगट करूँगा ॥

३६ तब वह भीड़ को छोड़कर घर में आया, और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टान्त हमें समझा दे। ३७ उस ने उन को उत्तर दिया, कि अच्छे बीज का बोनेवाला मनुष्य का पुत्र है। ३८ खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के सन्तान, और जंगली बीज

दुष्ट के सन्तान हैं। ३९ जिस बीरी ने उन को बोया वह शैतान * है; कटनी जगत का अन्त है; और काटनेवाले स्वर्गदूत हैं।

४० सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसे ही जगत के अन्त में होगा। ४१ मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करनेवालों को इकट्ठा करेंगे। ४२ और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ४३ उस समय धर्मों अपने पिता के राज्य में मूर्ख की नाई चमकेंगे; जिस के कान हों वह सुन ले ॥

४४ स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया, और मारे आनन्द के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया ॥

४५ फिर स्वर्ग का राज्य एक व्योपारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। ४६ जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उस ने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया ॥

४७ फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया, और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। ४८ और जब भर गया, तो उस को किनारे पर खींच लाए, और बैठकर अच्छी अच्छी तो बरतनों में इकट्ठा किया और निकम्मी, निकम्मी फेंक दी। ४९ जगत के अन्त में ऐसा ही होगा: स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। ५० वहाँ रोना और दांत पीसना होगा।

५१ क्या तुम ने ये सब बातें समझी ?
 ५२ उन्होंने ने उस से कहा, हां; उस ने उन से कहा, इसलिये हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है, उस गृहस्थ के समान है जो अपने भण्डार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है ॥

५३ जब यीशु ये सब दृष्टान्त कह चुका, तो वहां से चला गया। ५४ और अपने देश में आकर उन की सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा; कि वे चकित होकर कहने लगे; कि इस को यह जान और सामर्थ्य के काम कहां से मिले ? ५५ क्या यह बड़ई का बेटा नहीं ? और क्या इस की माता का नाम मरियम और इस के भाइयों के नाम याकूब और यूमुफ और शमीन और यहूदा नहीं ? ५६ और क्या इस की सब बहिनें हमारे बीच में नहीं रहती ? फिर इस को यह सब कहां से मिला ? ५७ सो उन्होंने ने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उन से कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। ५८ और उस ने वहां उन के अविश्वास के कारण बहुत सामर्थ्य के काम नहीं किए ॥

१४ उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी। २ और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला है; वह मरे हुएों में से जी उठा है, इसी लिये उस से सामर्थ्य के काम प्रगट होने हैं। ३ क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, यूहन्ना को पकड़कर बान्धा, और जेलखाने में डाल दिया था। ४ क्योंकि यूहन्ना ने उस से कहा था, कि इस को रखना तुम्हें उचित नहीं है। ५ और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था,

क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। ६ पर जब हेरोदेस का जन्म दिन आया, तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। ७ इसलिये उस ने शपथ खाकर वचन दिया, कि जो कुछ तू मांगेगी, मैं तुम्हें दूंगा। ८ वह अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर धाल में यही मुझे मंगवा दे। ९ राजा दुःखित हुआ, पर अपनी शपथ के, और साथ बंधनेवालों के कारण, आज्ञा दी, कि दे दिया जाए। १० और जेलखाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। ११ और उसका सिर धाल में लाया गया, और लड़की को दिया गया; और वह उस को अपनी मां के पास ले गई। १२ और उसके चेलों ने आकर और उस की लीज को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया ॥

१३ जब यीशु ने यह सुना, तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी मुनसान जगह एकान्त में चला गया; और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। १४ उस ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी; और उन पर तरस खाया; और उस ने उन के बीमारों को चंगा किया। १५ जब सांभ हुई, तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा; यह तो मुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किय जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिये भोजन मोल लें। १६ यीशु ने उन से कहा उन का जाना आवश्यक नहीं! तुम ही इन्हें खाने को दो। १७ उन्होंने ने उस से कहा; यहां हमारे पास पांच रोटी और दू मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। १८ उन ने व १, उन को यहां मेरे पाम ले

आओ। १६ तब उस ने लोगों को घास पर बैठने को कहा, और उन पांच रोटियों और दो मछलियों को लिया; और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दीं, और चेलों ने लोगों को। २० और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई बारह टोकरियां उठाईं। २१ और खानेवाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर पांच हजार पुरुषों के अटकल थे ॥

२२ और उस ने तुरन्त अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया, कि वे उस से पहिले पार चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। २३ वह लोगों को विदा करके, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया; और साभ को वहां अकेला था। २४ उस समय नाव भील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा साम्हने की थी। २५ और वह रात के चौथे पहर भील पर चलते हुए उन के पास आया। २६ चेने उस को भील पर चलते हुए देखकर घबरा गए ! और कहने लगे, वह भूत है; और डर के मारे चिल्ला उठे। २७ यीशु ने तुरन्त उन से बातें कीं, और कहा; ढाढ़स ब्रान्धो; मैं हूं; डरो मत। २८ पतरस ने उस को उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है, तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। २९ उस ने कहा, आ : तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। ३० पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा, तो चिल्लाकर कहा; हे प्रभु, मुझे बचा। ३१ यीशु ने तुरन्त हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, और उस से कहा, हे अल्प-विश्वासी, तू ने क्यों सन्देह किया ? ३२ जब वे नाव पर चढ़ गए, तो हवा थम

गई। ३३ इस पर जो नाव पर थे, उन्होंने ने उसे दरइवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है ॥

३४ वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे। ३५ और वहां के लोगों ने उसे पहचानकर आस पास के सारे देश में कहला भेजा, और सब बीमारों को उसके पास लाए। ३६ और उस से बिनती करने लगे, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे : और जितनों ने उसे छुआ, वे चंगे हो गए ॥

१५ तब यरूशलम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे। २ तेरे चले पुरनियों की रीतों को क्यों टालते हैं, कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं ? उम ने उन को उत्तर दिया, कि तुम भी अपनी रीतों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो ? ४ क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, कि अपने पिता और अपनी माता का आदर करना : और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए। ५ पर तुम कहते हो, कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, कि जो कुछ तुम्हें मुझ से लाभ पहुंच सकता था, वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाई जा चुकी। ६ तो वह अपने पिता का आदर न करे, सो तुम ने अपनी रीतों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। ७ हे कपटियों, यंशायह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यद्वारी ठीक की। ८ कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उन का मन मुझ से दूर रहता है। ९ और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। १० और उस ने लोगों को अपने पास बुलाकर उन में कहा, सुनो :

घोर समझो। ११ जो मुंह में जाता है, वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। १२ तब चेलों ने आकर उस से कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? १३ उस ने उत्तर दिया, हर पीघा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया, उखाड़ा जाएगा। १४ उन को जाने दो; वे अन्धे मार्ग दिखाएवाले हैं: घोर अन्धा यदि अन्धे को मार्ग दिखाए, तो दोनों गड़हे में गिर पड़ेंगे। १५ यह सुनकर, पतरस ने उस से कहा, यह दृष्टान्त हमें समझा दे। १६ उस ने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? १७ क्या नहीं समझते, कि जो कुछ मुंह में जाता, वह पेट में पड़ता है, घोर सएडास में निकल जाता है? १८ पर जो कुछ मुंह से निकलता है, वह मन से निकलता है, घोर वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। १९ क्योंकि कुचिन्ता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही घोर निन्दा मन ही से निकलती है। २० येही हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परन्तु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता ॥

२१ यीशु वहां से निकलकर, सूर घोर सैदा के देशों की घोर चला गया। २२ घोर देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली, घोर चिल्लाकर कहने लगी; हे प्रभु दाऊद के सन्तान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। २३ पर उस ने उसे कुछ उत्तर न दिया, घोर उसके चेलों ने आकर उस से बिनती कर कहा; इसे विदा कर; क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती घाती है। २४ उस ने उत्तर दिया, कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा

गया। २५ पर वह आई, घोर उसे प्रणाम करके कहने लगी; हे प्रभु, मेरी सहायता कर। २६ उस ने उत्तर दिया, कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के भागे डालना अच्छा नहीं। २७ उस ने कहा, सत्य है प्रभु; पर कुत्ते भी वह चूरचार खाते हैं, जो उन के स्वामियों की भेज से गिरते हैं। २८ इस पर यीशु ने उस को उत्तर देकर कहा, कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है: जैसा तू चाहती है, तेरे लिये वैसा ही हो; घोर उस की बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई ॥

२९ यीशु वहां से चलकर; गलील की भील के पास आया, घोर पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया। ३० घोर भीड़ पर भीड़ लंगड़ों, अन्धों, गूंगों, टुंडों घोर बहुत घोरों को लेकर उसके पास आए; घोर उन्हें उसके पांवों पर डाल दिया, घोर उस ने उन्हें चंगा किया। ३१ सो जब लोगों ने देखा, कि गूंगे बोलते घोर टुण्डे चंगे होते घोर लंगड़े चलते घोर अन्धे देखते हैं, तो अचम्भा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की ॥

३२ यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस घाता है; क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ हैं घोर उन के पास कुछ खाने को नहीं; घोर मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता; कहीं ऐसा न हो कि मार्ग में थककर रह जाएं। ३३ चेलों ने उस से कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? ३४ यीशु ने उन से पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने ने कहा; सात घोर छोटी सी छोटी मछलियां। ३५ तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। ३६ घोर उन सात रोटियों घोर मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा घोर अपने चेलों को

देता गया; और चले लोगों को। ३७ सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए सात टोकरे उठाए। ३८ और खानेवाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ चार हजार पुरुष थे। ३९ तब वह भीड़ों को विदा करके नाव पर चढ़ गया, और मगदन देश के सिवानों में आया ॥

१६ और फरीसियों और सद्कियों ने पास आकर उसे परखने के लिये उस से कहा, कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। २ उस ने उन को उत्तर दिया, कि सांभ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है। ३ और भोर को कहते हो, कि आज आन्धी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुमला है; तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते? ४ इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूँढते हैं पर यूनस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया ॥

५ और चले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। ६ यीशु ने उन से कहा, देखो; फरीसियों और सद्कियों के खमीर से चौकस रहना। ७ वे आपस में विचार करने लगे, कि हम तो रोटी नहीं लाए। ८ यह जानकर, यीशु ने उन से कहा, हे अल्प-विश्वासियो, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? ९ क्या तुम अब तक नहीं समझे? और उन पांच हजार की पांच रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थीं? १० और न उन चार हजार की सात रोटी; और न यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे? ११ तुम क्यों नहीं समझते

कि मैं ने तुम से रोटियों के विषय में नहीं कहा? फरीसियों और सद्कियों के खमीर से चौकस रहना। १२ तब उन की समझ में आया, कि उस ने रोटी के खमीर से नहीं, पर फरीसियों और सद्कियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था।

१३ यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? १४ उन्होंने ने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला कहते हैं और कितने एलिव्याह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यदक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। १५ उस ने उन से कहा; परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो? १६ शमीन पतरस ने उत्तर दिया, कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। १७ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि हे शमीन योना के पुत्र, तू धन्य है; क्योंकि मांस और लोह ने नहीं, परन्तु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रगट की है। १८ और मैं भी तुझ से कहता हूँ, कि तू पतरस है; और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा; और अधोलोक के फाटक उस पर प्रचल न होंगे। १९ मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुजियां दूंगा; और जो कुछ तू पृथ्वी पर बान्धेगा, वह स्वर्ग में बन्धेगा; और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेंगा, वह स्वर्ग में खुलेगा। २० तब उस ने चेलों को चिताया, कि किसी से न कहना! कि मैं मसीह हूँ।

२१ उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, कि मुझे अवश्य है, कि यहूशलेम को जाऊँ, और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊँ; और मार डाला जाऊँ; और तीसरे दिन जी उठूँ। २२ इस पर पतरस उसे धरल

ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे; तुझ पर ऐसा कभी न होगा। २३ उस ने फिरकर पतरस से कहा, हे शतान, मेरे साम्हने से दूर हो : तू मेरे लिये ठोकर का कारण है; क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं, पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। २४ तब यीशु ने अपने चेलों से कहा; यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आप का इन्कार करे और अपना क्रूस उठाए, और मेरे पीछे हो ले। २५ क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, वह उसे खोएगा; और जो कोई मेरे लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे पाएगा। २६ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? २७ मनुष्य का पुत्र अपने स्वगंदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। २८ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो यहां खड़े हैं, उन में से कितने ऐसे हैं; कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे।

१७ छः दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया, और उन्हें एकान्त में किसी ऊँचे पहाड़ पर ले गया। २ और उन के साम्हने उसका रूपान्तर हुआ और उसका मुँह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया। ३ और देखो, मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। ४ इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु,

हमारा यहां रहना अच्छा है; इच्छा हो तो यहां तीन मण्डप बनाऊँ; एक तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक एलिय्याह के लिये। ५ वह बोल ही रहा था, कि देखो, एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो; उस बादल में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मैं प्रसन्न हूँ : इस की सुनो। ६ चले यह सुनकर मुँह के बल गिर गए और अत्यन्त डर गए। ७ यीशु ने पास आकर उन्हें छूआ, और कहा, उठो; डरो मत। ८ तब उन्होंने ने अपनी आँखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को न देखा ॥

९ जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी; कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुआओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुम ने देखा है किसी से न कहना। १० और उसके चेलों ने उस से पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं, कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? ११ उस ने उत्तर दिया, कि एलिय्याह तो आएगा; और सब कुछ सुधारेंगा। १२ परन्तु मैं तुम से कहता हूँ, कि एलिय्याह आ चुका; और उन्होंने ने उसे नहीं पहचाना; परन्तु जैसा चाहा वसा ही उसके साथ किया : इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उन के श्वाप से दुख उठाएगा। १३ तब चेलों ने समझा कि उस ने हम से यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले के विषय में कहा है ॥

१४ जब वे भीड़ के पास पहुँचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया, और घुटने टेककर कहने लगा। १५ हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर; क्योंकि उस की मिर्गी आती है; और वह बहुत दुख उठाता है; और बार बार प्राण में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। १६ और मैं उस को तेरे

चेलों के पास लाया था, पर वे उसे भ्रच्छा नहीं कर सके। १७ यीशु ने उत्तर दिया, कि हे भ्रविशवासी और हठीले लोगो* में कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहां मेरे पास लाओ। १८ तब यीशु ने उसे घुड़का, और दुष्टात्मा उस में से निकला; और लड़का उसी घड़ी भ्रच्छा हो गया। १९ तब चेलों ने एकान्त में यीशु के पास आकर कहा; हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? २० उस ने उन से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण: क्योंकि मैं तुम से सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, कि यहां से सरककर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा; और कोई बात तुम्हारे लिये अनहोनी न होगी।

२१ जब वे गलील में थे, तो यीशु ने उन से कहा; मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। २२ और वे उसे मार डालेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। २३ इस पर वे बहुत उदास हुए।

२४ जब वे कफरनहूम में पहुंचे, तो मन्दिर के लिये कर लेनेवालों ने पतरस के पास आकर पूछा, कि क्या तुम्हारा गुरु मन्दिर-का कर नहीं देता? उस ने कहा, हां देता तो है। २५ जब वह घर में आया, तो यीशु ने उसके पूछने से पहिले उस से कहा, हे शमीन तू क्या समझता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं? अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उन से कहा, परायों से। २६ यीशु ने उस से कहा, तो पुत्र बच गए। २७ तौभी इस लिये कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं, तू भील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली

पहिले निकले, उसे ले; ती तुम्हें उसका मुंह खोलने पर एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना।

१८ उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? २ इस पर उस ने एक बालक को पास बुलाकर उन के बीच में खड़ा किया। ३ और कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। ४ जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। ५ और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। ६ पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिये भला होता, कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, और वह गहिरें समुद्र में डुबाया जाता। ७ ठोकरों के कारण संसार पर हाय! ठोकरों का लगना भ्रवश्य है; पर हाय उस मनुष्य पर जिस के द्वारा ठोकर लगती है। ८ यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुम्हें ठोकर खिलाए, तो काटकर फेंक दे; टुण्डा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनन्त भाग में डाला जाए। ९ और यदि तेरी भ्रांख तुम्हें ठोकर खिलाए, तो उमे निकालकर फेंक दे। १० काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो भ्रांख रहते हुए तू नरक की भाग* में

* यू० पीदी।

* यू० भाग के नरक में।

डाला जाए। ११ देखो, तुम इन छोटों में से किसी को चुन्छ न जानना; क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि स्वर्ग में उन के दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। १२ तुम क्या समझते हो? यदि किसी मनुष्य की सौ भेड़ें हों, और उन में से एक भटक जाए, तो क्या निम्नानवे को छोड़कर, और पहाड़ों पर जाकर, उस भटकी हुई को न ढूँढ़ेगा? १३ और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वह उन निम्नानवे भेड़ों के लिये जो भटकी नहीं थीं इतना आनन्द नहीं करेगा, जितना कि इस भेड़ के लिये करेगा। १४ ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है वह इच्छा नहीं, कि इन छोटों में से एक भी नाश हो ॥

१५ यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे, तो जा और प्रकेले में बातचीत करके उसे समझा; यदि वह तेरी सुने तो तू ने अपने भाई को पा लिया। १६ और यदि वह न सुने, तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा, कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। १७ यदि वह उन की भी न माने, तो कलीसिया से कह दे, परन्तु यदि वह कलीसिया की भी न माने, तो तू उसे अन्य-जाति और महसूल लेनेवाले के ऐसा जान। १८ मैं तुम से सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बान्धोगे, वह स्वर्ग में बन्धेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे, वह स्वर्ग में खुलेगा। १९ फिर मैं तुम से कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिये जिसे वे मांगें, एक मन के हों, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उन के लिये हो जाएगी। २० क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होने हैं, वहां मैं उन के बीच में होता हूँ ॥

२१ तब पतरस ने पास आकर, उस से कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे, तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करू, क्या सात बार तक? २२ यीशु ने उस से कहा, मैं तुझ से यह नहीं कहता, कि सात बार, बरन सात बार के सत्तर गुने तक। २३ इस-लिये स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिस ने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। २४ जब वह लेखा लेने लगा, तो एक जन उसके साम्हने लाया गया जो दस हजार तोड़े धारता था। २५ जब कि चुकाने को उसके पास कुछ न था, तो उसके स्वामी ने कहा, कि यह और इस की पत्नी और लड़केवाले और जो कुछ इस का है सब बेचा जाए, और वह कर्ज चुका दिया जाए। २६ इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया, और कहा; हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। २७ तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया, और उसका धार क्षमा किया। २८ परन्तु जब वह दास बाहर निकला, तो उसके संगी दासों में से एक उस को मिला, जो उसके सौ दीनार * धारता था; उस ने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा, और कहा; जो कुछ तू धारता है भर दे। २९ इस पर उसका संगी दास गिरकर, उस से बिनती करने लगा; कि धीरज धर मैं सब भर दूंगा। ३० उस ने न माना, परन्तु जाकर उसे बन्दीगृह में डाल दिया; कि जब तक कर्ज को भर न दे, तब तक वहीं रहे। ३१ उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए, और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। ३२ तब उसके स्वामी ने उस को

* दीनार लगभग आठ आने के था।

बुलाकर उस से कहा, हे दुष्ट दास, तू ने जो मुझ से बिनती की, तो मैं ने तो तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा किया। ३३ सो जैसा मैं ने तुम्हें पर दया की, वैसे ही क्या तुम्हें भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? ३४ और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दण्ड देनेवालों के हाथ में सौंप दिया, कि जब तक वह सब कर्जा भर न दे, तब तक उन के हाथ में रहे। ३५ इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा, तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुम से भी वैसा ही करेगा ॥

१९ जब यीशु ये बातें कह चुका, तो गलील से चला गया; और यहूदिया के देश में यरदन के पार आया। २ और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और उस ने उन्हें वहाँ चंगा किया ॥

३ तब फरीसी उस की परीक्षा करने के लिये पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? ४ उस ने उत्तर दिया, क्या तुम ने नहीं पढ़ा, कि जिस ने उन्हें बनाया, उस ने आरम्भ से नर और नारी बनाकर कहा।

५ कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे? ६ सो वे अब दो नहीं, परन्तु एक तन है: इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे। ७ उन्होंने ने उस से कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया, कि त्यागपत्र देकर उसे छोड़ दे? ८ उस ने उन से कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी परन्तु आरम्भ से ऐसा नहीं था।

९ और मैं तुम से कहता हूँ, कि जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से, अपनी पत्नी को त्यागकर, दूसरी से व्याह करे, वह व्यभिचार करता है: और जो उस छोड़ी हुई से व्याह करे, वह भी व्यभिचार करता है। १० तैलों ने उस से कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा सम्बन्ध है, तो व्याह करना अच्छा नहीं। ११ उस ने उन से कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिन को यह दान दिया गया है। १२ क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे; और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया: और कुछ नपुंसक ऐसे हैं, जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिये अपने आप को नपुंसक बनाया है, जो इस को ग्रहण कर सकता है, वह ग्रहण करे ॥

१३ तब लोग बालकों को उसके पास लाए, कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे; पर तैलों ने उन्हें डांटा। १४ यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो: और उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसी ही का है। १५ और वह उन पर हाथ रखकर, वहाँ से चला गया ॥

१६ और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उस से कहा, हे गुरु; मैं कौन सा भला काम करूँ, कि अनन्त जीवन पाऊँ? १७ उस ने उस से कहा, तू मुझ से भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है; पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो आज्ञाओं को माना कर। १८ उस ने उस से कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना। १९ अपने पिता और अपनी

माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। २० उस जवान ने उस से कहा, इन सब को तो मैं ने माना है अब मुझ में किस बात की घटी है? २१ यीशु ने उस से कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है; तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे; और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा; और आकर मेरे पीछे हो ले। २२ परन्तु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था।

२३ तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम से सब कहता हूँ, कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। २४ फिर तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है। २५ यह सुनकर, चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किस का उद्धार हो सकता है? २६ यीशु ने उन की ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परन्तु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। २७ इस पर पतरस ने उस से कहा, कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं; तो हमें क्या मिलेगा? २८ यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सब कहता हूँ, कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, वारह सिंहासनों पर बैठकर इज्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करोगे। २९ और जिस किसी ने धरो या भाइयों या बहिनों या पिता या माता या लड़के-बालों या खेतों को मेरे नाम के लिये छोड़ दिया है, उस को मैं गुना मिलेगा; और वह अनन्त जीवन का अधि-कारी होगा। ३० परन्तु दृढ़तेरे जो पहिले

हैं, पिछले होंगे; और जो पिछले हैं, पहिले होंगे।।

२० स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है, जो सवेरे निकला, कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लगाए। २ और उम ने मजदूरों से एक दीनार * रोज पर उहराकर, उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। ३ फिर पहर एक दिन चढ़े, निकलकर, और लोगों को बाजार में बेतार खड़े देखकर, ४ उन से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ, और जो कुछ ठीक है, तुम्हें दूंगा; सो वे भी गए। ५ फिर उस ने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वंसा ही किया। ६ और एक घंटा दिन रहे फिर निकलकर औरों को खड़े पाया, और उन से कहा; तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्हो ने उस से कहा, इसलिये कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। ७ उस ने उन से कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। ८ सांभ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भण्डारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहिलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। ९ सां जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दीनार मिला। १० जो पहिले आए, उन्हें ने यह समझा, कि हमें अधिक मिलेगा; परन्तु उन्हें भी एक ही एक दीनार मिला। ११ जब मिला, तो वे गृहस्थ पर कुछकुछ के कहने लगे। १२ कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया, और तू ने उन्हें हमसे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और घाम मचा? १३

* एक अठन्नी के लगभग था।

ने उन में से एक को उत्तर दिया, कि हे मित्र, मैं तुम्ह से कुछ अन्याय नहीं करता; क्या तू ने मुझ से एक दीनार न ठहराया? १४ जो तेरा है, उठा ले, और चला जा; मेरी इच्छा यह है, कि जितना तुम्हें, उतना ही इस पिछले को भी दूँ। १५ क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? १६ इसी रीति से जो पिछले है, वे पहिले होंगे, और जो पहिले है, वे पिछले होंगे ॥

१७ यीशु यरूशलेम को जाते हुए बारह चेलों को, एकान्त में ले गया, और मार्ग में उन से कहने लगा। १८ कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं; और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़-वाया जाएगा, और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे। १९ और उस को अन्यजातियों के हाथ सौंपेंगे, कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएँ, और काँड़े मारें, और क्रूस पर चढ़ाएँ, और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा ॥

२० तब जब्दी के पुत्रों की माता ने, अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया, और उस से कुछ मांगने लगी। २१ उम ने उस से कहा, तू क्या चाहती है? वह उस से बोली, यह कह, कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दहिने और एक तेरे बाएँ बैठें। २२ यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने ने उस से कहा, पी सकते हैं। २३ उस ने उन से कहा, तुम मेरा कटोरा तो पीओगे, पर अपने दहिने बाएँ किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, पर जिन के लिये मेरे पिता की और मे तैयार किया गया, उन्हीं के लिये हूँ। २४ यह सुनकर, दसों

चले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। २५ यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो, कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं; और जो बड़े हैं, वे उन पर अधिकार जताने हैं। २६ परन्तु तुम में ऐसा न होगा; परन्तु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे, वह तुम्हारा सेवक बने। २७ और जो तुम में प्रधान होना चाहे, वह तुम्हारा दास बने। २८ जैसे कि मनुष्य का पुत्र, वह इसलिये नहीं आया कि उस की सेवा टहल किई जाए, परन्तु इसलिये आया कि आप सेवा टहल करे; और बहुतां को छुड़ौती के लिये अपने प्राण दे ॥

२९ जब वे यरीहो से निकल रहे थे, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ३० और देखो, दो अन्धे, जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकारकर कहने लगे; कि हे प्रभु, दाऊद के सन्तान, हम पर दया कर। ३१ लोगों ने उन्हें डाँटा, कि चुप रहें; पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद के सन्तान; हम पर दया कर। ३२ तब यीशु ने खड़े होकर, उन्हें बुलाया, और कहा, ३३ तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिये करूँ? उन्होंने ने उम से कहा, हे प्रभु; यह कि हमारी आँखें खुल जाएँ। ३४ यीशु ने तरस खाकर उन की आँखें छई, और वे तुरन्त देखने लगे; और उसके पीछे हो लिए ॥

२१ जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जंतून पहाड़ पर बेंतफगे के पास आए, तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा। २ कि अपने साम्हने के गाँव में जाओ, वहाँ पढ़चते ही एक गदही बन्धी हुई, और उसके साथ बच्चा तुम्हें

मिलेगा; उन्हें खोलकर, मेरे पास ले आओ।
 ३ यदि तुम से कोई कुछ कहे, तो कहो, कि प्रभु को इन का प्रयोजन है: तब वह तुरन्त उन्हें भेज देगा। ४ यह इसलिये हुआ, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था, वह पूरा हो; ५ कि सिम्योन की बेटी से कहो, देख, तेरा राजा तेरे पास आता है; वह नम्र है और गदहे पर बैठा है; वरन लादू के बच्चे पर। ६ चेलों ने जाकर, जैसा यीशु न उन से कहा था, वैसा ही किया। ७ और गदही और बच्चे को लाकर, उन पर अपने कपड़े डाले, और वह उन पर बैठ गया। ८ और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, और लोगोंने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाईं। ९ और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकारकर कहती थी, कि दाऊद के सन्तान को होशाना *; धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश † में होशाना। १० जब उस ने यरूशलेम में प्रवेश किया, तो सारे नगर में हलचल मच गई; और लोग कहने लगे, यह कौन है? ११ लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है ॥

१२ यीशु ने परमेश्वर के मन्दिर में जाकर, उन सब को, जो मन्दिर में लेन देन कर रहे थे, निकाल दिया; और सर्पियों के पीढ़े और कबूतरों के बेचनेवालों की चौकियां उलट दीं। १३ और उन से कहा, लिखा है, कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा; परन्तु तुम उसे शकुनों की खोह बनाते हो। १४ और अन्धे और लंगड़े, मन्दिर में उसके पास आए, और

उस ने उन्हें चंगा किया। १५ परन्तु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को, जो उस ने किए, और लड़कों को मन्दिर में दाऊद के सन्तान को होशाना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित होकर उस से कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? १६ यीशु ने उन से कहा, हां; क्या तुम ने यह कभी नहीं पढ़ा, कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तू ने स्तुति सिद्ध कराई? १७ तब वह उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनिय्याह को गया, और वहां रात बिताई ॥

१८ और जो जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी। १९ और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया, और पत्तों को छोड़ उस में और कुछ न पाकर उस से कहा, अब से तुम्हें मैं फिर कभी फल न लगे; और अंजीर का पेड़ तुरन्त सूख गया। २० यह देखकर चेलों ने अचम्भा किया, और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्योंकर तुरन्त सूख गया? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच कहता हूं; यदि तुम विश्वास रखो, और संदेह न करो; तो न केवल यह करोगे, जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है; परन्तु यदि इस-पहाड़ से भी कहोगे, कि उड़ जा; और समुद्र में जा पड़, तो यह हो जायगा। २२ और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम को मिलेगा ॥

२३ वह मन्दिर में जाकर उपदेश कर रहा था, कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पाम आकर पूछा, तू ये काम किस के अधिकार से करता है? और तुम्हें यह अधिकार किस ने दिया है? २४ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि

* भजन संहिता ११८ : २५ को देखो।

† यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान।

में भी तुम से एक बात पूछता हूँ; यदि वह मुझे बताओगे, तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा; कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। २५ यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे, कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह हम से कहेगा, फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों न की? २६ और यदि कहें मनुष्यों की ओर से तो हमें भीड़ का डर है; क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। २७ सो उन्होंने ने यीशु को उत्तर दिया, कि हम नहीं जानते; उस ने भी उन से कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता, कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। २८ तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे; उस ने पहिले के पास जाकर कहा; हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। २९ उस ने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परन्तु पीछे पछता कर गया। ३० फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा, उस ने उत्तर दिया, जो हाँ जाता हूँ, परन्तु नहीं गया। ३१ इन दोनों में से किस ने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने ने कहा, पहिले ने: यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि महसूल लेनेवाले और वेश्या तुम से पहिले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। ३२ क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया, और तुम ने उस की प्रतीति न की: पर महसूल लेनेवालों और वेश्याओं ने उस की प्रतीति की: और तुम यह देखकर पीछे भी न पछताए कि उस की प्रतीति कर लेते ॥

३३ एक और दृष्टान्त सुनो: एक गृहस्थ था, जिस ने दाख की बारी लगाई; और उसके चारों ओर बाड़ा बान्धा; और

उस में रस का कुंड खोदा; और गुम्मत बनाया; और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया। ३४ जब फल का समय निकट आया, तो उस ने अपने दासों को उसका फल लेने के लिये किसानों के पास भेजा। ३५ पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के, किसी को पीटा, और किसी को मार डाला; और किसी को पत्थरवाह किया। ३६ फिर उस ने और दासों को भेजा, जो पहिलों से अधिक थे; और उन्होंने ने उन से भी वैसा ही किया। ३७ अन्त में उस ने अपने पुत्र को उन के पास यह कहकर भेजा, कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। ३८ परन्तु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ, उसे मार डालें: और उस की मीरास ले लें। ३९ और उन्होंने ने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। ४० इसलिये जब दाख की बारी का स्वामी आएगा, तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? ४१ उन्होंने उस से कहा, वह उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा; और दाख की बारी का ठीका और किसानों को देगा, जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। ४२ यीशु ने उन से कहा, क्या तुम ने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजभित्तियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ४३ यह प्रभु की ओर से हुआ, और हमारे देखने में अद्भुत है, इसलिये मैं तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर का राज्य तुम से ले लिया जाएगा; और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए, दिया जाएगा। ४४ जो इस पत्थर पर गिरेगा, वह चकनाचूर हो जाएगा: और जिस पर वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा।

४५ महायाजक और फरीसी उसके दृष्टान्तों को सुनकर समझ गए, कि वह हमारे विषय में कहता है। ४६ और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परन्तु लोगों से डर गए क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे।।

२२ इस पर यीशु फिर उन से दृष्टान्तों में कहने लगा। २ स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, जिस ने अपने पुत्र का ब्याह किया। ३ और उस ने अपने दासों को भेजा, कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाएं; परन्तु उन्होंने अपना न चाहा। ४ फिर उस ने और दासों को यह कहकर भेजा, कि नेवताहारियों से कहो, देखो; मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं; और सब कुछ तैयार है; ब्याह के भोज में आओ। ५ परन्तु वे त्रेपरवाई करके चल दिए: कोई अपने खेत को, कोई अपने व्योपार को। ६ औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उन का अनादर किया और मार डाला। ७ राजा ने क्रोध किया, और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया, और उन के नगर को फूंक दिया। ८ तब उस ने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, परन्तु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे। ९ इसलिये चौराहों में जाओ, और जितने लोग तुम्हें मिलें, सब को ब्याह के भोज में बुला लाओ। १० सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे, क्या भले, जितने मिले, सब को इकट्ठे किया; और ब्याह का घर जेवनहारों से भर गया। ११ जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया; तो उस ने वहाँ एक मनुष्य को देखा, जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहिने था। १२ उस ने उस से पूछा हे

मित्र; तू ब्याह का वस्त्र पहिने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुँह बन्द हो गया। १३ तब राजा ने सेवकों से कहा, इस के हाथ पांव बान्धकर उसे बाहर प्रन्धियारे में डाल दो, वहाँ रोना, और दांत पीसना होगा। १४ क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परन्तु चुने हुए थोड़े हैं।।

१५ तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया, कि उस को किस प्रकार बातों में फंसाएं। १६ सो उन्होंने ने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, कि हे गुरु; हम जानते हैं, कि तू सच्चा है; और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है; और किसी की परवा नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुँह देखकर बातें नहीं करता। १७ इसलिये हमें बता तू क्या समझता है? कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं। १८ यीशु ने उन की दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियो; मुझे क्यों परखते हो? १९ कर का सिक्का मुझे दिखाओ: तब वे उसके पाम एक दीनार* ले आए। २० उस ने, उन से पूछा, यह भूर्ति और नाम किस का है? २१ उन्होंने ने उस से कहा, कैसर का; तब उस ने, उन से कहा; जो कैसर का है, वह कैसर को; और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो। २२ यह सुनकर उन्होंने ने अचम्भा किया, और उसे छोड़कर चले गए।।

२३ उसी दिन सद्की जो कहते हैं कि मरे हुआ का पुनरुत्थान है ही नहीं उसके पास आए, और उस से पूछा। २४ कि हे गुरु; मूसा ने कहा था, कि यदि कोई बिना सन्तान मर जाए, तो उसका भाई

* अठन्नी के लगभग।

उस की पत्नी को ब्याह करके अपने भाई के लिये वंश उत्पन्न करे। २५ अब हमारे यहां सात भाई थे; पहिला ब्याह करके मर गया; और सन्तान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिये छोड़ गया। २६ इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया, और सातों तक यही हुआ। २७ सब के बाद वह स्त्री भी मर गई। २८ सो जी उठने पर, वह उन सातों में से किस की पत्नी होगी? क्योंकि वह सब की पत्नी हो चुकी थी। २९ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते; इस कारण भूल में पड़ गए हो। ३० क्योंकि जी उठने पर ब्याह शादी न होगी; परन्तु वे स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। ३१ परन्तु मरे हुएओं के जी उठने के विषय में क्या तुम ने यह वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुम से कहा। ३२ कि मैं इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ? वह तो मरे हुएओं का नहीं, परन्तु जीवतों का परमेश्वर है। ३३ यह सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए।

३४ जब फरीसियों ने सुना, कि उस ने सद्दुकियों का मुंह बन्द कर दिया; तो वे इकट्ठे हुए। ३५ और उन में से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिये, उस से पूछा। ३६ हे गुरु; व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? ३७ उस ने उस से कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ३८ बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ३९ और उसी के समान यह दूसरी भी है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ४० ये ही दो आज्ञाएं

सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं का आधार हैं।

४१ जब फरीसी इकट्ठे थे, तो यीशु ने उन से पूछा। ४२ कि मर्साह के विषय में तुम क्या समझते हो? वह किस का सन्तान है? उन्होंने ने उस से कहा, दाऊद का। ४३ उस ने उन से पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? ४४ कि प्रभु ने, मेरे प्रभु से कहा; मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे न कर दूं। ४५ भला, जब दाऊद उसे प्रभु कहना है, तो वह उसका पुत्र क्योंकर ठहरा? ४६ उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका; परन्तु उस दिन से किमी को फिर उस से कुछ पूछने का हियाव न हुआ।

२३ तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। २ शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। ३ इसलिये वे तुम से जो कुछ कहें वह करना, और मानना; परन्तु उन के से काम मत करना; क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। ४ वे एक ऐसे भारी बोझ को जिन को उठाना कठिन है, बान्धकर उन्हें मनुष्यों के कन्धों पर रखते हैं; परन्तु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। ५ वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिये करते हैं: वे अपने तावीजों को चौंटे करते, और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। ६ जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें, और सभा में मुख्य मुख्य आसन। ७ और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। ८ परन्तु, तुम रब्बी न कहलाना; क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है: और तुम सब भाई हो। ९ और

पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है, जो स्वर्ग में है। १० और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात् मसीह। ११ जो तुम में बड़ा हो, वह तुम्हारा सेवक बने। १२ जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा : और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा ॥

१३ हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाय ! तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बन्द करते हो, न तो आप ही उस में प्रवेश करते हो और न उस में प्रवेश करनेवालों को प्रवेश करने देते हो ॥

१५ हे कपटी शास्त्रियो और फरीसियो तुम पर हाय ! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिये सारे जल और धल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है, तो उसे अपने से दूना नारकीय बना देते हो ॥

१६ हे अन्धे अगुवो, तुम पर हाय, जो कहते हो कि यदि कोई मन्दिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परन्तु यदि कोई मन्दिर के सोने की सौगन्ध खाए तो उस से बन्ध जाएगा। १७ हे मूर्खों, और अन्धो, कौन बड़ा है, सोना या वह मन्दिर जिस से सोना पवित्र होता है ? १८ फिर कहते हो कि यदि कोई बेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परन्तु जो भेंट उस पर है, यदि कोई उस की शपथ खाए तो बन्ध जाएगा।

१९ हे अन्धो, कौन बड़ा है, भेंट या बेदी : जिस से भेंट पवित्र होता है ? २० इसलिये जो बेदी की शपथ खाता है, वह उस की, और जो कुछ उस पर है, उस की भी शपथ खाता है। २१ और जो मन्दिर की शपथ खाता है, वह उस की और उस में

रहनेवाले की भी शपथ खाता है। २२ और जो स्वर्ग की शपथ खाता है, वह परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठनेवाले की भी शपथ खाता है ॥

२३ हे कपटी शास्त्रियो, और फरीसियो, तुम पर हाय ; तुम पोदीने और सीफ और जीरे का दसवां अंश देते हो, परन्तु तुम ने व्यवस्था की गम्भीर बातों को अर्थात् न्याय, और दया, और विश्वास को छोड़ दिया है ; चाहिये था कि इन्हें भी करते रहते, और उन्हें भी न छोड़ते। २४ हे अन्धे अगुवो, तुम मच्छड़ को तो छान डालते हो, परन्तु ऊंट को निगल जाते हो ॥

२५ हे कपटी शास्त्रियो, और फरीसियो, तुम पर हाय, तुम कटोरे और धाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परन्तु वे भीतर अन्धेर असंयम से भरे हुए हैं। २६ हे अन्धे फरीसी, पहिले कटोरे और धाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों ॥

२७ हे कपटी शास्त्रियो, और फरीसियो, तुम पर हाय ; तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो ऊपर से तो सुन्दर दिखाई देती हैं, परन्तु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। २८ इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परन्तु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो ॥

२९ हे कपटी शास्त्रियो, और फरीसियो, तुम पर हाय ; तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। ३० और कहते हो, कि यदि हम अपने बापदादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उन के साथी न होते। ३१ इस से तो तुम

अपने पर आप ही गवाही देते हो, कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की सन्तान हो। ३२ सो तुम अपने ब्रापदादों के पाप का घड़ा भर दो। ३३ हे सांपो, हे करंतों के बच्चो, तुम नरक के दरइ से क्योंकर बचोगे? ३४ इसलिये देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ; और तुम उन में से कितनों को मार डालोगे, और दूसरे पर चढ़ाओगे; और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे, और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। ३५ जिस ने धर्मी हावील से लेकर विरिक्वाह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुम ने मन्दिर* और बेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लोह पृथ्वी पर बहाया गया है, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। ३६ मैं तुम से सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी ॥

३७ हे यरूशलेम, हे यरूशलेम; तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए, उन्हें पत्थरवाह करता है, कितनी ही बार मैं ने चाहा कि जैसे भुर्राँ अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूँ, परन्तु तुम ने न चाहा। ३८ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छोड़ा जाता है। ३९ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि अब से जब तक तुम न कहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे ॥

२४ जब यीशु मन्दिर से निकलकर जा रहा था, तो उसके चेले उस

* अर्थात् पवित्रस्थान।

को मन्दिर की रचना बिलाने के लिये उसके पास आए। २ उस ने उन से कहा, क्या तुम यह सब नहीं देखते? मैं तुम से सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, जो ढाया न जाएगा ॥

३ और जब वह जंतून पहाड़ पर बैठा था, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हम से कह कि ये बातें कब होंगी? और तेरे आने का, और जगत के अन्त* का क्या चिन्ह होगा? ४ यीशु ने उन को उत्तर दिया, सावधान रहो! कोई तुम्हें न भरमाने पाए। ५ क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि मैं मसीह हूँ; और बहुतों को भरमाएंगे। ६ तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा मुनोगे; देखो घबरा न जाना क्योंकि इन का होना अवश्य है, परन्तु उस समय अन्त न होगा। ७ क्योंकि जाति पर जाति, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भुइँडोल होंगे। ८ ये सब बातें पीड़ाओं का आरम्भ होंगी। ९ तब वे वलेश दिलाने के लिये तुम्हें पकड़वाएंगे, और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुम से वीर रखेंगे। १० तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे, और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, और एक दूसरे से वीर रखेंगे। ११ और बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और बहुतों को भरमाएंगे। १२ और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठण्डा हो जाएगा। १३ परन्तु जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। १४ और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, कि सब

* यू० युग की समाप्ति।

जातियों पर गवाही हो, तब अन्त आ जाएगा ॥

१५ सां जब तुम उस उजाड़नेवाली घृणित वस्तु को जिस की चर्चा दानिय्येल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, (जो पड़े, वह समझे) । १६ तब जो यहूदिया में हों वे यहाड़ों पर भाग जाएं । १७ जो कोठे पर हों, वह अपने घर में से सामान लेने को न उतरे । १८ और जो खेत में हों, वह अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे । १९ उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के लिये हाय, हाय । २० और प्रार्थना किया करो; कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े । २१ क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरम्भ से न अब तक हुआ, और न कभी होगा । २२ और यदि वे दिन घटाए न जाते, तो कोई प्राणी न बचता; परन्तु चुने हुएों के कारण वे दिन घटाए जाएंगे । २३ उस समय यदि कोई तुम से कहे, कि देखो, मसीह यहां है! या वहां है तो प्रतीति न करना । २४ क्योंकि भूठे मसीह और भूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और बड़े चिन्ह, और अद्भुत काम दिखाएंगे, कि यदि हो सके तो चुने हुएों को भी भ्रमा दें । २५ देखो, मैं ने पहिले से तुम से यह सब कुछ कह दिया है । २६ इसलिये यदि वे तुम से कहें, देखो, वह जङ्गल में है, तो बाहर न निकल जाना; देखो, वह कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना । २७ क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक लमकती जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा । २८ जहां लोथ हो, वही गिद्ध इकट्ठे होंगे ॥

२९ उन दिनों के क्लेश के बाद तुरन्त

सूर्य अन्धियारा हो जाएगा, और चान्द का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी । ३० तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे; और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे । ३१ और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ, अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक, चारों दिशा से उसके चुने हुएों को इकट्ठे करेंगे ॥

३२ अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखो : जब उस की डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो, कि ग्रीष्म काल निकट है । ३३ इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो, तो जान लो, कि वह निकट है, बरन द्वार ही पर है । ३४ मैं तुम से सब कहता हूं, कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक यह पीढ़ी जाती न रहेगी । ३५ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी । ३६ उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता; न स्वर्ग के दूत, और न पुत्र, परन्तु केवल पिता । ३७ जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा । ३८ क्योंकि जैसे जल-प्रलय से पहिले के दिनों में, जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते-पीते थे, और उन में ब्याह शादी होती थी । ३९ और जब तक जल-प्रलय आकर उन सब को बहा न ले गया, तब तक उन को कुछ भी मालूम न पड़ा; वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा । ४० उस समय दो जन खेत में होंगे, एक

ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ४१ दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ४२ इसलिये जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। ४३ परन्तु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता; और अपने घर में सेंध लगने न देता। ४४ इसलिये तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। ४५ सो वह विदवासयोग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया, कि समय पर उन्हें भोजन दे? ४६ धन्य है, वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ४७ मैं तुम से सच कहता हूँ; वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। ४८ परन्तु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे, कि मेरे स्वामी के आने में देर है। ४९ और अपने साथी दासों को पीटने लगे, और पियक्कड़ों के साथ खाए पीए। ५० तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा, जब वह उस की बाट न जोहता हो। ५१ और ऐसी घड़ी कि वह न जानता हो, और उसे भारी ताड़ना देकर, उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा: वहाँ रोना और दांत पीसना होगा ॥

२५ तब स्वर्ग का राज्य उन दस कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकलीं। २ उन में पांच मूर्ख और पांच समझदार थीं। ३ मूर्खों ने अपनी मशालें

तो लीं, परन्तु अपने साथ तेल नहीं लिया। ४ परन्तु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। ५ जब दूल्हे के आने में देर हुई, तो वे सब ऊंधने लगीं, और सो गईं। ६ आधी रात को धूम मची, कि देखो, दूल्हा आ रहा है, उस से भेंट करने के लिये चलो। ७ तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। ८ और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। ९ परन्तु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिये पूरा न हो; भला तो यह है, कि तुम बेचनेवालों के पास जाकर अपने लिये मोल ले लो। १० जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो दूल्हा आ पहुँचा, और जो तैयार थीं, वे उसके साथ व्याह के घर में चली गईं और द्वार बन्द किया गया। ११ इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिये द्वार खोल दे। १२ उस ने उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। १३ इसलिये जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो, न उस घड़ी को ॥

१४ क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिस ने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर, अपनी सम्पत्ति उन को सौंप दी। १५ उस ने एक को पांच तोड़, दूसरे को दो, और तीसरे को एक; अर्थात् हर एक को उस की सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। १६ तब जिस को पांच तोड़े मिले थे, उस ने तुरन्त जाकर उन से लेन देन किया, और पांच तोड़े और कमाए। १७ इसी रीति से जिस को दो मिले थे,

उस ने भी दो और कमाए। १८ परन्तु जिस को एक मिला था, उस ने जाकर मिट्टी खोदी, और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। १९ बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उन से लेवा लेने लगा। २० जिस को पांच तोड़े मिले थे, उस ने पांच तोड़े और लाकर कहा; हे स्वामी, तू ने मुझे पांच तोड़े सौपे थे, देख, मैं ने पांच तोड़े और कमाए हैं। २१ उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा; मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनन्द में सम्भागी हो। २२ और जिस को दो तोड़े मिले थे, उस ने भी आकर कहा; हे स्वामी, तू ने मुझे दो तोड़े सौपे थे, देख, मैं ने दो तोड़े और कमाए। २३ उसके स्वामी ने उस से कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा अपने स्वामी के आनन्द में सम्भागी हो। २४ तब जिस को एक तोड़ा मिला था, उस ने आकर कहा; हे स्वामी, मैं तुझे जानता था, कि तू कठोर मनुष्य है; तू जहां कहीं नहीं जाता वहां काटता है, और जहां नहीं छीटता वहां से बटोरता है। २५ सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया; देख, जो तेरा है, वह यह है। २६ उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, कि हे दुष्ट और झालसी दास; जब यह तू जानता था, कि जहां मैं ने नहीं बोया वहां से काटता हूँ; और जहां मैं ने नहीं छीटा वहां से बटोरता हूँ। २७ तो तुझे चाहिए था, कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता।

२८ इसलिये वह तोड़ा उस से ले लो, और जिस के पास दस तोड़े हैं, उस को दे दो। २९ क्योंकि जिस किसी के पास है, उसे और दिया जाएगा; और उसके पास बहुत हो जाएगा; परन्तु जिस के पास नहीं है, उस से वह भी जो उसके पास है, ले लिया जाएगा। ३० और इस निकम्मे दास को बाहर के ग्रन्थरे में डाल दो, जह रोना और दांत पीमना होगा ॥

३१ जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। ३२ और सब जातियां उसके साम्हने इकट्ठी की जाएंगी; और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। ३३ और वह भेड़ों को अपनी दहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। ३४ तब राजा अपनी दहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगो, आओ, उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिये तैयार किया हुआ है। ३५ क्योंकि मैं भूखा था, और तुम ने मुझे खाने को दिया; मैं पियासा था, और तुम ने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुम ने मुझे अपने घर में ठहराया। ३६ मैं नंगा था, तुम ने मुझे कपड़े पहिनाए; मैं बीमार था, तुम ने मेरी सुधि ली, मैं बन्दीगृह में था, तुम मुझ से मिलने आए। ३७ तब धर्मी उस को उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हम ने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया? या पियासा देखा, और पिलाया? ३८ हम ने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा, और कपड़े पहिनाए? ३९ हम ने

कब तुम्हें बीमार या बन्दीगृह में देखा और तुम्हें से मिलने आए? ४० तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम से सच कहता हूँ, कि तुम ने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। ४१ तब वह वाई और वालों से कहेगा, हे स्नापित लोगो, मेरे साम्हने से उस अनन्त प्राग में चले जाओ, जो शतान * और उसके दूतों के लिये तैयार की गई है। ४२ क्योंकि मैं भूखा था, और तुम ने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं पियासा था, और तुम ने मुझे पानी नहीं पिलाया। ४३ मैं परदेशी था, और तुम ने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया; मैं नंगा था, और तुम ने मुझे कपड़े नहीं पहिनाए; बीमार और बन्दीगृह में था, और तुम ने मेरी सुधि न ली। ४४ तब वे उत्तर देंगे, कि हे प्रभु, हम ने तुम्हें कब भूखा, या पियासा, या परदेशी, या नंगा, या बीमार, या बन्दीगृह में देखा, और नेरी सेवा टहल न की? ४५ तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुम से सच कहता हूँ कि तुम ने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। ४६ और यह अनन्त दण्ड भोगेंगे † परन्तु धर्मी अनन्त जीवन में प्रवेश करेंगे।

२६ जब यीशु ये सब बातें कह चुका, तो अपने चेलों से कहने लगा। २ तुम जानते हो, कि दो दिन के बाद फसह का पर्व होगा; और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिये पकड़वाया जाएगा। ३ तब महायाजक और प्रजा के पुरनिए काइफा नाम महायाजक के प्रांगन में दकट्टे हुए। ४ और प्रापम में

विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। ५ परन्तु वे कहते थे, कि पर्व के समय नहीं; कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए ॥

६ जब यीशु वैतनिय्याह में शमीन कोड़ी के घर में था। ७ तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था, तो उसके सिर पर उगडेल दिया। ८ यह देखकर, उसके चले रिसियाए और कहने लगे, इस का क्यों सत्पानाश किया गया? ९ यह तो अच्छे दाम पर विककर कंगालों को बांटा जा सकता था। १० यह जानकर यीशु ने उन से कहा, स्त्री को क्यों मनाते हो? उस ने मेरे साथ भलाई की है। ११ कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परन्तु मैं तुम्हारे साथ सदैव न रहूँगा। १२ उस ने मेरी देह पर जो यह इत्र उगडेला है, वह मेरे गाड़े जाने के लिये किया है। १३ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि सारे जगत में जहाँ कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा ॥

१४ तब यहूदा इम्करियोती नाम बारह चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, १५ यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दू, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने ने उसे तीस चान्दी के सिपके तौलकर दे दिए। १६ और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर खूबने लगा ॥

१७ अखमीरी रोटी के पर्व के पहिले दिन, चले यीशु के पास आकर पृथने लगे; तू कहां चाहता है कि हम नेरे लिये फसह खाने की तैयारी करें? १८ उन ने कहा, नगर में फूलाने के पास जाकर उस से कही।

* यू० इब्नीस † यू० में जायगे।

कि गुरु कहता है, कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहां पथ्र्वं मनाऊंगा। १६ तो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी, और फसह तैयार किया। २० जब सांभु हुई, तो वह बारहों के साथ भोजन करने के लिये बैठा। २१ जब वे खा रहे थे, तो उस ने कहा, मैं तुम से सच कहता हूं, कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। २२ इस पर वे बहुत उदास हुए, और हर एक उभ से पृथ्ने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं हूं? २३ उस ने उत्तर दिया, कि जिस ने मेरे साथ वाली में हाथ डाला है, वही मुझे पकड़वाएगा। २४ मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य के लिये गोक है जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है: यदि उस मनुष्य का जन्म न होता, तो उसके लिये भला होता। २५ तब उसके पकड़वानेवाले यहूदा ने कहा कि हे रब्बी, क्या वह मैं हूं? २६ उस ने उस से कहा, तू कह चुका: जब वे खा रहे थे, तो यीशु ने रोटी ली, और आशीष मांगकर तोड़ी, और चेलों को देकर कहा, लो, खाओ; यह मेरी देह है। २७ फिर उस ने कटोरा लेकर, धन्यवाद किया, और उन्हें देकर कहा, तुम सब इस में से पीओ। २८ क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लोहू है, जो बहुतों के लिये पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। २९ मैं तुम से कहता हूं, कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी न पीऊंगा, जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं।

३० फिर वे भजन गाकर जंतून पहाड़ पर गए।

३१ तब यीशु ने उन से कहा; तुम

सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे; क्योंकि लिखा है, कि मैं चरवाहे को मारूंगा; और भुगड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ३२ परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाऊंगा। ३३ इस पर पतरस ने उस से कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएँ तो खाएँ, परन्तु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। ३४ यीशु ने उस से कहा, मैं तुम्ह से सच कहता हूं, कि आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। ३५ पतरस ने उस से कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो, तोभी मैं तुम्ह से कभी न मुकरूंगा: और ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा।

३६ तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा कि यहीं बैठे रहना, जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। ३७ और वह पतरस और जव्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया, और उदास और व्याकुल होने लगा। ३८ तब उस ने उन से कहा; मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं: तुम यहीं ठहरो, और मेरे साथ जागते रहो। ३९ फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा, और यह प्रार्थना करने लगा, कि हे मेरे पिता, यदि हो सके, तो यह कटोरा मुझ से टल जाए; तोभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परन्तु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। ४० फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया, और पतरस से कहा; क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? ४१ जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो: आत्मा तो तैयार है, परन्तु शरीर

दुबल है। ४२ फिर उस ने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की; कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पीए, विना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। ४३ तब उम ने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उन की आंखें नींद से भरी थीं। ४४ और उन्हें छोड़कर फिर चला गया, और वही रात फिर कहकर, तीसरी बार प्रार्थना की। ४५ तब उम ने चेलों के पास आकर उन से कहा; अब सोते रहो, और विश्राम करो : देखो, घड़ी आ पहुंची है, और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। ४६ उठो, चलें; देखो, मेरा पकड़वाने-वाला निकट आ पहुंचा है ॥

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो, यहूदा जो बागहों में से एक था, आया, और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़, तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। ४८ उसके पकड़वानेवाले ने उन्हें यह पता दिया था कि जिस को मैं चूम लू वही है; उसे पकड़ लेना। ४९ और तुरन्त यीशु के पास आकर कहा; हे रब्बी नमस्कार; और उस को बहुत चूमा। ५० यीशु ने उस से कहा; हे मित्र, जिम काम के लिये तू आया है, उसे कर ले। तब उन्होंने ने पाम आकर यीशु पर हाथ डाले, और उसे पकड़ लिया। ५१ और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उम का कान उड़ा दिया। ५२ तब यीशु ने उस से कहा; अपनी तलवार काठी में रख ले क्योंकि जो तलवार चलाते हैं, वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। ५३ क्या तू नहीं समझता, कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ, और वह स्वर्गदूतों

की बारह पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? ५४ परन्तु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, क्योंकि पूरी होंगी? ५५ उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा; क्या तुम तलवारों और लाठियां लेकर मुझे डाकू के ममान पकड़ने के लिये निकले हो? मैं हर दिन मन्दिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, और तुम ने मुझे नहीं पकड़ा। ५६ परन्तु यह सब इसलिये हुआ है, कि भविष्यद-वक्ताओं के वचन * पूरे हों : तब सब चले उसे छोड़कर भाग गए ॥

५७ और यीशु के पकड़नेवाले उस को काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिए इकट्ठे हुए थे। ५८ और पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के प्रांगण तक गया, और भीतर जाकर अन्त देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। ५९ महायाजक और मारी महासभा यीशु को मार डालने के लिये उसके विरोध में भूठी गवाही की खोज में थे। ६० परन्तु बहुत से भूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। ६१ अन्त में दो जनों ने आकर कहा, कि इस ने कहा है; कि मैं परमेश्वर के मन्दिर को ढा सकता हूँ और उसे तीन दिन में बना सकता हूँ। ६२ तब महायाजक ने खड़े होकर उम से कहा, क्या तू कोई उत्तर नहीं देना? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परन्तु यीशु चुप रहा; महायाजक ने उम से कहा। ६३ मैं तुझे जीवने परमेश्वर की शपथ देता हूँ, कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मनीह है, तो हम से कह दे। ६४ यीशु ने उम से कहा; तू ने आप ही कह दिया; वरन मैं

तुम से यह भी कहता हूँ, कि-श्रव से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान * की दहिनी ओर बैठे, और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। ६५ तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इस ने परमेश्वर की निन्दा की है, श्रव हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? ६६ देखो, तुम ने अभी यह निन्दा सुनी है! तुम क्या समझते हो? उन्होंने ने उत्तर दिया, यह बघ होने के योग्य है। ६७ तब उन्होंने ने उस के मुंह पर धूका, और उसे धूसे मारे, औरों ने थप्पड़ मार के कहा। ६८ हे मसीह, हम से भविष्यद्वाणी करके कह: कि किस ने तुम्हे मारा?

६९ और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था; कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। ७० उस ने सब के साम्हने यह कहकर इन्कार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। ७१ जब वह बाहर डेबढ़ी में चला गया, तो दूसरी ने उसे देखकर उन से जो वहां ये कहा; यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। ७२ उस ने शपथ खाकर फिर इन्कार किया कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। ७३ थोड़ी देर के बाद, जो वहां खड़े थे, उन्होंने ने पतरस के पास आकर उस से कहा, सचमुच तू भी उन में से एक है; क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। ७४ तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा, कि मैं उस मनुष्य को नहीं जानता; और तुरन्त मुर्ग ने बांग दी। ७५ तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहिले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा

और वह बाहर जाकर फूट-फूट कर रोने लगा ॥

२७ जब भोर हुई, तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने योगु के मार डालने की सम्मति की। २ और उन्होंने ने उसे बान्धा और ले जाकर पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया ॥

३ जब उसके पकड़वानेवाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे तीस चान्दी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया। ४ और कहा, मैं ने निर्दोषी को घात के लिये पकड़वाकर पाप किया है? उन्होंने ने कहा, हमें क्या? तू ही जान। ५ तब वह उन सिक्कों को मन्दिर * में फेंककर चला गया, और जाकर अपने आप को फांसी दी। ६ महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भण्डार में रखना उचित नहीं, क्योंकि यह लोह का दाम है। ७ सो उन्होंने ने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिये कुम्हार का खेत मोल ले लिया। ८ इस कारण वह खेत आज तक लोह का खेत कहलाता है। ९ तब जो वचन यिमंयाह भविष्यद्बक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ; कि उन्होंने ने वे तीस सिक्के अर्थात् उस ठहराए हुए मूल्य को (जिसे इस्त्राएल की सन्तान में से कितनों ने ठहराया था) ले लिए। १० और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया ॥

११ जब यीशु हाकिम के साम्हने खड़ा था, तो हाकिम ने उस से पूछा; कि क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उस से कहा, तू आप ही कह रहा है। १२ जब

महायाजक और पुरनिए उस पर दोष लगा रहे थे, तो उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया। १३ इस पर पीलातुस ने उस से कहा : क्या तू नहीं सुनता, कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? १४ परन्तु उस ने उस को एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। १५ और हाकिम की यह चीति थी, कि उस पर्व में लोगों के लिये किसी एक बन्धु को जिने वे चाहते थे, छोड़ देता था। १६ उस समय बरप्रब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बन्धु था। १७ सो जब वे इकट्ठे हुए, तो पीलातुस ने उन से कहा; तुम किस को चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिये छोड़ दूं? बरप्रब्बा को, या यीशु को जो मसीह कहलाता है? १८ क्योंकि वह जानता था कि उन्हीं ने उसे डाह से पकड़वाया है। १९ जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस की पत्नी ने उसे कहला भेजा, कि तू उस धर्मी के मामले में हाथ न डालना; क्योंकि मैं ने प्राय स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। २० महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा, कि वे बरप्रब्बा को मांग लें, और यीशु को नाश कराएं। २१ हाकिम ने उन से पूछा, कि इन दोनों में से किस को चाहते हो, कि तुम्हारे लिये छोड़ दूं? उन्हीं ने कहा; बरप्रब्बा को। २२ पीलातुस ने उन से पूछा; फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है, क्या करूँ? सब ने उस से कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। २३ हाकिम ने कहा; क्यों उस ने क्या बुराई की है? परन्तु वे और भी चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, "वह क्रूस पर चढ़ाया जाए"। २४ जब पीलातुस ने देखा, कि कुछ बन नहीं पड़ता परन्तु इस के

विपरीत हुल्लड़ होता जाता है, तो उस ने पानी लेकर भीड़ के साम्हने अपने हाथ धोए, और कहा; मैं इस धर्मी के लोह से निर्दोष हूँ; तुम ही जानो। २५ सब लोगों ने उत्तर दिया, कि इस का लोह हम पर और हमारी सन्तान पर हो। २६ इस पर उस ने बरप्रब्बा को उन के लिये छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया, कि क्रूस पर चढ़ाया जाए ॥

२७ तब हाकिम के मिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चहुं और इकट्ठी की। २८ और उसके कपड़े उतारकर उसे फिरमिजी बागा पहिनाया। २९ और कांटों का मुकुट गूँथकर उसके सिर पर रखा; और उसके दहिने हाथ में सरकण्डा दिया और उसके आगे घुटने टंककर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे, कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। ३० और उस पर धूका; और वहीं सरकण्डा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। ३१ जब वे उसका ठट्टा कर चुके, तो वह बागा उस पर से उतारकर फिर उमी के कपड़े उसे पहिनाए, और क्रूस पर चढ़ाने के लिये ले चले ॥

३२ बाहर जाते हुए उन्हें शमीन नाम एक कुरेनी मनुष्य मिला, उन्हींने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। ३३ और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात् खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर। ३४ उन्हीं ने पित्त मिलाया हुआ दाखरम उसे पीने को दिया, परन्तु उस ने चखकर पीना न चाहा। ३५ तब उन्हीं ने उसे क्रूस पर चढ़ाया; और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ३६ और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। ३७ और उसका दोषपत्र, उसके

सिर के ऊपर नगाया, कि " यह यहूदियों का राजा यीशु है "। ३८ तब उसके साथ दो डाकू एक दहिने और एक बाएँ कूनों पर चढ़ाए गए। ३९ और अपने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उस की निन्दा करते थे। ४० और यह कहते थे, कि हे मन्दिर के ढानेवाले और तीन दिन में बनानेवाले, अपने आप को तो बचा; यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो क्रूस पर से उतर आ। ४१ इन्हीं रीति से महायाजक भी शास्त्रियाँ और पुरनियों ममेत ठट्टा कर करके कहते थे, इस ने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। ४२ यह तो " इस्त्राएल का राजा है "। अब क्रूस पर से उतर आए, तो हम उस पर विश्वास करें। ४३ उस ने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वह इस को चाहता है, तो अब इसे छोड़ा ले, क्योंकि इस ने कहा था, कि " मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ "। ४४ इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उस की निन्दा करते थे।

४५ दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे दिन में अन्धेरा छाया रहा। ४६ तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा, एली, एली, लमा शबक्तनी? अर्थात् हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया? ४७ जो वहाँ खड़े थे, उन में से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। ४८ उन में से एक तुरन्त दौड़ा, और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकरे पर रखकर उसे चुसाया। ४९ औरों ने कहा, रह जाओ, देखो, एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। ५० तब यीशु ने फिर बड़े शब्द में चिल्ला-

कर प्राण * छोड़ दिए। ५१ और देखो, मन्दिर का परदा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया: और धरती झोल गई और चटाने तडक गई। ५२ और कपड़े खुल गई; और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लायें जी उठी। ५३ और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए, और बहुतों को दिखाई दिए। ५४ तब सूवेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भुईंठोल और जो कुछ हुआ था, देखकर अत्यन्त डर गए, और कहा, सचमुच " यह परमेश्वर का पुत्र था "। ५५ वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। ५६ उन में मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थीं।

५७ जब सांभ हुई तो यूमुफ नाम प्ररिमतियाह का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया: उस ने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लाय मांगी। ५८ इस पर पीलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। ५९ यूमुफ ने लाय को लेकर उसे उज्ज्वल चादर में लपेटा। ६० और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उस ने चटान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। ६१ और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहाँ कब्र के साम्हने बैठी थीं।

६२ दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा। ६३ हे महाराज, हमें स्मरण है,

कि उस भरमानेवाले ने अपने जीते जी कहा था, कि मैं तीन दिन के बाद जी उठूंगा। ६४ सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चले आकर उसे चुरा ले जाएं, और लोगों से कहने लगें, कि वह मरे हुएों में से जी उठा है : तब पिछला धोखा पहिले से भी बुरा होगा। ६५ पीलातुस ने उन से कहा, तुम्हारे पास पहलूए तो हैं जाओ, अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। ६६ सो वे पहलूओं को साथ ले कर गए, और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की।

२८ सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहिले दिन पह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आईं। २ और देखो एक बड़ा भुईंठोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा, और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया, और उस पर बैठ गया। ३ उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाईं उज्ज्वल था। ४ उसके भय से पहलूए कांप उठे, और मृतक समान हो गए। ५ स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, कि तुम मत डरो : मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढ़ती हो। ६ वह यहां नहीं है, परन्तु अपने वचन के अनुसार जी उठा है; आओ, यह स्थान देखो, जहां प्रभु पड़ा था। ७ और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो, कि वह मृतकों में से जी उठा है; और देखो वह तुम से पहिले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे, देखो, मैं ने तुम से कह दिया। ८ और वे भय और बड़े आनन्द के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिये दौड़

गईं। ९ और देखो, यीशु उन्हें मिला और कहा; 'सलाम' और उन्होंने ने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दण्डवत किया। १० तब यीशु ने उन से कहा, मत डरो; मेरे भाइयों से जाकर कहो, कि गलील को चलें जाएं वहां मुझे देखेंगे॥

११ वे जा ही रही थीं, कि देखो, पहलूओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। १२ तब उन्होंने ने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की, और सिपाहियों को बहुत चान्दी देकर कहा। १३ कि यह कहना, कि रात को जब हम सो रहे थे, तो उसके चले आकर उसे चुरा ले गए। १४ और यदि यह बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। १५ सो उन्होंने ने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे, वैसा ही किया; और यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है॥

१६ और ग्यारह चले गलील में उस पहाड़ पर गए, जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। १७ और उन्होंने ने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को सन्देह हुआ। १८ यीशु ने उन के पास आकर कहा, कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। १९ इसलिये तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। २० और उन्हें सब बातें जो मैं ने तुम्हें आज्ञा दी है, मानना सिखाओ : और देखो, मैं जगत के अन्त तक सदैव तुम्हारे संग हूँ॥

मरकुस रचित सुसमाचार

१ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरम्भ। २ जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिये मार्ग सुधारेगा। ३ जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उस की संड़कें सीधी करो। ४ यूहन्ना आया, जो जंगल में बपतिस्मा देता, और पापों की क्षमा के लिये मनफिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। ५ और सारे यहूदिया देश के, और यरूशलेम के सब रहनेवाले निकलकर उसके पास गए, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उस से बपतिस्मा लिया। ६ यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहिने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बान्धे रहता था और टिड्डियां और बन मधु खाया करता था। ७ और यह प्रचार करता था, कि मेरे बाद वह आने वाला है, जो मुझ से शक्तिमान है; मैं इस योग्य नहीं कि भुक्कर उसके जूतों का बन्ध खोलूँ। ८ मैं ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से * बपतिस्मा देगा ॥

९ उन दिनों में यीशु ने गलील के नासरत से आकर, यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। १० और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया, तो तुरन्त उस ने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर की नाई अपने ऊपर उतरते देखा।

११ और यह आकाशवाणी हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ से मैं प्रसन्न हूँ ॥

१२ तब आत्मा ने तुरन्त उस को जंगल की ओर भेजा। १३ और जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उस की परीक्षा की; और वह बन पशुओं के साथ रहा; और स्वर्गदूत उस की सेवा करते रहे ॥

१४ यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। १५ और कहा, समय पूरा हुआ है, और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है; मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो ॥

१६ गलील की भील के किनारे किनारे जाते हुए, उस ने शमौन और उसके भाई अन्द्रियास को भील में जाल डालते देखा; क्योंकि वे मछुवे थे। १७ और यीशु ने उन से कहा; मेरे पीछे चले आओ; मैं तुम को मनुष्यों के मछुवे बनाऊंगा। १८ वे तुरन्त जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। १९ और कुछ आगे बढ़कर, उस ने जब्दी के पुत्र याकूब, और उसके भाई यूहन्ना को, नाव पर जालों को सुधारते देखा। २० उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया; और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर, उसके पीछे चले गए ॥

२१ और वे कफरनहूम में आए, और वह तुरन्त सब्ब के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा। २२ और

लोग उसके उपदेश से चकित हुए; क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों की नाई नहीं, परन्तु अधिकारी की नाई उपदेश देता था।

२३ और उसी समय, उन की सभा के घर में एक मनुष्य था, जिस में एक अशुद्ध आत्मा थी। २४ उस ने चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हमें तुझ से क्या काम? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन!

२५ यीशु ने उसे डाँटकर कहा, चुप रह; और उस में से निकल जा। २६ तब अशुद्ध आत्मा उस को मरोड़कर, और बड़े शब्द से चिल्लाकर उस में से निकल गई।

२७ इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए आपस में वाद-विवाद करने लगे कि यह क्या बात है? यह तो कोई नया उपदेश है! वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है, और वे उस की आज्ञा मानती हैं। २८ सो उसका नाम तुरन्त गलील के आस पास के सारे देश में हर जगह फैल गया ॥

२९ और वह तुरन्त आराधनालय में से निकलकर, याकूब और यूहन्ना के साथ शमीन और अन्द्रियास के घर आया।

३० और शमीन की सास ज्वर से पीड़ित थी, और उन्होंने ने तुरन्त उसके विषय में उस से कहा। ३१ तब उस ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया; और उसका ज्वर उस पर से उतर गया, और वह उन की सेवा-टहल करने लगी ॥

३२ सन्ध्या के समय जब मूर्य डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिन में दुष्टात्माएं थीं उनके पास लाए।

३३ और साग नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ।

३४ और उस ने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे, चंगा किया;

और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला; और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचाननी थीं ॥

३५ और भोर को दिन निकलने से बहुत पहिले, वह उठकर निकला, और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। ३६ तब शमीन और उसके साथी उस ती खोज में गए। ३७ जब वह मिला, तो उस से कहा; कि सब लोग तुझे ढूढ़ रहे हैं। ३८ उस ने उन से कहा, आओ; हम और कहीं आस पास की वस्तियों में जाएं, कि मैं वहाँ भी प्रचार करूँ, क्योंकि मैं इसी लिये निकला हूँ। ३९ सो वह सारे गलील में उन की सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्टात्माओं को निकालता रहा ॥

४० और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर, उस से बिनती की, और उसके साम्हने घुटने टेककर, उस से कहा; यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है।

४१ उस ने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया, और उसे छूकर कहा; मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। ४२ और तुरन्त उसका कोढ़ जाता रहा, और वह शुद्ध हो गया।

४३ तब उस ने उसे चिनाकर तुरन्त विदा किया। ४४ और उस से कहा, देख, किमी से कुछ मत कहना, परन्तु जाकर अपने आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा, कि उन पर गवाही हो।

४५ परन्तु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा, कि यीशु फिर खुल्लमखुल्ला नगर में न जा सका, परन्तु बाहर जंगली स्थानों में रहा; और चहुँपौर में लोग उसके पास आते रहे ॥

२ कई दिन के बाद वह फिर कफर-
नहम में आया और सुना गया, कि
वह घर में है। २ फिर इतने लोग इकट्ठे
हुए, कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली;
और वह उन्हें वचन सुना रहा था। ३ और
लोग एक भोले के मारे हुए को चार
मनुष्यों से उठाकर उसके पास ले आए।
४ परन्तु जब वे भीड़ के कारण उसके
निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने ने उम छत
को जिस के नीचे वह था, खोल दिया,
और जब उसे उधेड़ चुके, तो उस खाट को
जिस पर भोले का मारा हुआ पड़ा था,
लटका दिया। ५ यीशु ने, उन का विश्वास
देखकर, उस भोले के मारे हुए से कहा;
हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ६ तब कई
एक शाम्नी जो वहां बैठे थे, अपने अपने
मन में विचार करने लगे। ७ कि यह
मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो
परमेश्वर की निन्दा करता है, परमेश्वर
को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता
है? ८ यीशु ने तुरन्त अपनी आत्मा में
जान लिया, कि वे अपने अपने मन में ऐसा
विचार कर रहे हैं, और उन से कहा, तुम
अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे
हो? ९ सहज क्या है? क्या भोले के
मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए,
या यह कहना, कि उठ अपनी खाट उठा
कर चल फिर? १० परन्तु जिस से तुम
जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर
पाप क्षमा करने का भी अधिकार है (उस
ने उस भोले के मारे हुए से कहा)। ११ मैं
तुम्हें से कहता हूँ; उठ, अपनी खाट उठाकर
अपने घर चला जा। १२ और वह उठा,
और तुरन्त खाट उठाकर और सब के साम्हने
से निकलकर चला गया, इस पर सब
चकित हुए, और परमेश्वर की बड़ाई के

कहने लगे, कि हम ने ऐसा कभी नहीं
देखा ॥

१३ वह फिर निकलकर भील के
किनारे गया, और सारी भीड़ उसके पास
आई, और वह उन्हें उपदेश देने लगा।
१४ जाते हुए उस ने हलफर्ड के पुत्र लेवी
को चुङ्गी की चौकी पर बैठे देखा, और उस
से कहा; मेरे पीछे हो ले। १५ और वह
उठकर, उसके पीछे हो लिया; और वह
उसके घर में भोजन करने बैठा, और बहुत
से चुङ्गी लेनेवाले और पापी यीशु और उसके
चेलों के साथ भोजन करने बैठे; क्योंकि
वे बहुत से थे, और उसके पीछे हो लिए थे।
१६ और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह
देखकर, कि वह तो पापियों और चुङ्गी
लेनेवालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके
चेलों से कहा; वह तो चुङ्गी लेनेवालों
और पापियों के साथ खाता पीता है!!
१७ यीशु ने यह सुनकर, उन से कहा, भले
चंगों को वैध की आवश्यकता नहीं, परन्तु
बीमारों को है; मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु
पापियों को बुलाने आया हूँ ॥

१८ यूहन्ना के चेले, और फरीसी
उपवास करते थे; सो उन्होंने ने आकर उस
से यह कहा; कि यूहन्ना के चेले और
फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं?
परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते।
१९ यीशु ने उन से कहा, जब तक दूल्हा
बरातियों के साथ रहता है क्या वे उपवास
कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उन के
साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते।
२० परन्तु वे दिन आएंगे, कि दूल्हा उन से
अलग किया जाएगा; उस समय वे उपवास
करेंगे। २१ कोरे कपड़े का पैवन्द पुराने
पहिरावन पर कोई नहीं लगाता; नहीं तो
वह पैवन्द उस में से कुछ खींच लेगा, अर्थात्

नया, पुराने से, और वह और फट जाएगा। २२ नये दाखरस को पुरानी मशकों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाखरस मशकों को फाड़ देगा, और दाखरस और मशकें दोनों नष्ट हो जाएंगी; परन्तु दाख का नया रस नई मशकों में भरा जाता है ॥

२३ और ऐसा हुआ कि वह सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था; और उसके चले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। २४ तब फरीसियों ने उस से कहा, देख; ये सब्त के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं? २५ उस ने उन से कहा, क्या तुम ने कभी नहीं पढ़ा, कि जब दाऊद को आवश्यकता हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब उस ने क्या किया था? २६ उस ने क्योंकर अबियातार महायाजक के समय, परमेश्वर के भवन में जाकर, भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दीं? २७ और उस ने उन से कहा; सब्त का दिन मनुष्य के लिये बनाया गया है, न कि मनुष्य सब्त के दिन के लिये। २८ इसलिये मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है ॥

और वह आराधनालय में फिर गया; और वहां एक मनुष्य था, जिस का हाथ सूख गया था। २ और वे उस पर दोष लगाने के लिये उस की घात में लगे हुए थे, कि देखें, वह सब्त के दिन में उसे चंगा करता है कि नहीं। ३ उस ने सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा; बीच में खड़ा हो। ४ और उन से कहा; क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे।

५ और उस ने उन के मन की कठोरता से उदास होकर, उन को क्रोध से चारों ओर देखा, और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा उस ने बढ़ाया, और उसका हाथ अच्छा हो गया। ६ तब फरीसी बाहर जाकर तुरन्त हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे, कि उसे किस प्रकार नाश करें ॥

७ और यीशु अपने चेलों के साथ भील की ओर चला गया: और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ८ और यहूदिया, और यरूशलेम और इद्रूमिया से, और यरदन के पार, और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड़ यह सुनकर, कि वह कैसे अच्छे के काम करता है, उसके पास आई। ९ और उस ने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिये तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सकें। १० क्योंकि उस ने बहुतों को चंगा किया था; इसलिये जितने लोग रोग से ग्रसित थे, उसे छूने के लिये उस पर गिरे पड़ते थे। ११ और अशुद्ध आत्माएं भी, जब उसे देखती थीं, तो उसके आगे गिर पड़ती थीं, और चिल्लाकर कहती थीं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। १२ और उस ने उन्हें बहुत चिताया, कि मुझे प्रगट न करना ॥

१३ फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया, और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया; और वे उसके पास चले आए। १४ तब उस ने बारह पुरुषों को नियुक्त किया, कि वे उसके साथ साथ रहें, और वह उन्हें भेजे, कि प्रचार करें। १५ और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें। १६ और वे ये हैं: शमौन जिस का नाम उस ने पतरस रखा। १७ और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यहूसा,

जिनका नाम उस ने ब्रह्मनरगिस, अर्थात् गर्जन के पुत्र रखा। १८ और अन्द्रियास, और फिलिप्पुस, और बरतुलम, और मत्ती, और योमा, और हलफई का पुत्र याकूब, और तद्दी, और शमीन कनानी। १९ और यहूदा इस्करियोती, जिस ने उसे पकड़वा भी दिया ॥

२० और वह घर में आया : और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई, कि वे रोटी भी न खा सके। २१ जब उसके कुटुम्बियों ने यह सुना, तो उसे पकड़ने के लिये निकले; क्योंकि कहते थे, कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। २२ और शास्त्री जो यहूशलेम से आए थे, यह कहते थे, कि उस में शैतान * है, और यह भी, कि वह दुष्टात्माओं के भरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। २३ और वह उन्हें पास बुलाकर, उन से दृष्टान्तों में कहने लगा; शैतान क्योंकि शैतान को निकाल सकता है? २४ और यदि किसी राज्य में फूट पड़े, तो वह राज्य क्योंकि स्थिर रह सकता है? २५ और यदि किसी घर में फूट पड़े, तो वह घर क्योंकि स्थिर रह सकेगा? २६ और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले, तो वह क्योंकि बना रह सकता है? उसका तो अन्त ही हो जाता है। २७ किन्तु कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहिले उस बलवन्त को न बान्ध लें; और तब उसके घर को लूट लेगा। २८ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मनुष्यों की सन्तान के सब पाप और निन्दा जो वे करते हैं, क्षमा की जाएगी। २९ परन्तु जो कोई

पवित्रात्मा के विरुद्ध निन्दा करे, वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा : बरन वह अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है। ३० क्योंकि वे यह कहते थे, कि उस में अशुद्ध आत्मा है ॥

३१ और उस की माता और उसके भाई आए, और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। ३२ और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने ने उस से कहा; देख, तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूँढते हैं। ३३ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? ३४ और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे, दृष्टि करके कहा, देखो, मेरी माता और मेरे भाई यहाँ हैं। ३५ क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले, वही मेरा भाई, और बहिन और माता है ॥

४ वह फिर भील के किनारे उपदेश देने लगा : और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई, कि वह भील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर भील के किनारे खड़ी रही। २ और वह उन्हें दृष्टान्तों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उन से कहा। ३ सुनो : देखो, एक बोनवाला, बीज बोने के लिये निकला ! ४ और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। ५ और कुछ पत्थरीली भूमि पर गिरा जहाँ उस को बहुत मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल्द उग आया। ६ और जब सूर्य निकला, तो जल गया, और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गया। ७ और कुछ तो झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया, और वह फल न

लाया। ८ परन्तु कुछ भ्रष्टी भूमि पर गिरा, और वह उगा, और बढ़कर फलवन्त हुआ; और कोई तीस गुणा, कोई साठ गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया। ९ और उस ने कहा; जिस के पास सुनने के लिये कान हों वह सुन ले ॥

१० जब वह भकेला रह गया, तो उसके साधियों ने उन बारह समेत उस से इन दृष्टान्तों के विषय में पूछा। ११ उस ने उन से कहा, तुम को तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ * दी गई है, परन्तु बाहरवालों के लिये सब बातें दृष्टान्तों में होती हैं। १२ इसलिये कि वे देखते हुए देखें और उन्हें मुझाई न पड़े और सुनते हुए सुनें भी और न समझें; ऐसा न हो कि वे फिरें, और क्षमा किए जाएं। १३ फिर उस ने उन से कहा; क्या तुम यह दृष्टान्त नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टान्तों को क्योंकि समझोगे? १४ बोलनेवाला वचन बोता है। १५ जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं, कि जब उन्होंने ने सुना, तो शैतान तुरन्त आकर वचन को जो उन में बोया गया था, उठा ले जाता है। १६ और वैसे ही जो पत्थरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं, कि जो वचन को सुनकर तुरन्त आनन्द से ग्रहण कर लेते हैं। १७ परन्तु अपने भीतर जड़ न रहने के कारण वे थोड़े-ही दिनों के लिये रहते हैं; इस के बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वे तुरन्त ठोकर खाते हैं। १८ और जो भाड़ियों में बोए गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना। १९ और संसार की चिन्ता, और धन का घोसा, और और

वस्तुओं का लोभ उन में समाकर वचन को दबा देता है। और वह निष्फल रह जाता है। २० और जो भ्रष्टी भूमि में बोए गए, ये वे हैं, जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई तीस गुणा कोई साठ गुणा, और कोई सौ गुणा ॥

२१ और उस ने उन से कहा; क्या दिये को इसलिये लाते हैं कि पमाने * या खाट के नीचे रखा जाए? क्या इसलिये नहीं, कि दीवट पर रखा जाए? २२ क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परन्तु इसलिये कि प्रगट हो जाए; २३ और न कुछ गुप्त है, पर इसलिये कि प्रगट हो जाए। यदि किसी के सुनने के कान हों, तो सुन ले। २४ फिर उस ने उन से कहा; चौकस रहो, कि क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिये भी नापा जाएगा, और तुम को अधिक दिया जाएगा। २५ क्योंकि जिस के पास है, उस को दिया जाएगा; परन्तु जिस के पास नहीं है उस से वह भी जो उसके पास है; ले लिया जाएगा ॥

२६ फिर उस ने कहा; परमेश्वर का राज्य ऐसा है, जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे। २७ और रात को सोए, और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह न जाने। २८ पृथ्वी आप से आप फल लाती है पहिले भंक्रुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। २९ परन्तु जब दाना पक जाता है, तब वह तुरन्त हंसिया सगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है ॥

३० फिर उस ने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें, और किस

* मूल में, का भेद दिया गया।

* एक बरतन जिस में डेढ़ मन धनाज नापा जाता है।

दृष्टान्त से उसका वर्णन करें? ३१ वह राई के दाने के समान है; कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है। ३२ परन्तु जब बोया गया, तो उगकर सब साँग पात से बड़ा हो जाता है, और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं, कि आकाश के पत्ती उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं।

३३ और वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टान्त दे देकर उन की समझ के अनुसार बचन सुनाता था। ३४ और बिना दृष्टान्त कहे उन से कुछ भी नहीं कहता था; परन्तु एकान्त में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था।

३५ उसी दिन जब सांभ हूई, तो उस ने उन से कहा; आधो, हम पार चलें। ३६ और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, वसा ही उसे नाव पर साथ ले चले; और उसके साथ, और भी नावें थीं। ३७ तब बड़ी आन्धी आई, और लहरें नाव पर यहां तक लगीं, कि वह अब पानी से भरी जाती थी। ३८ और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था; तब उन्होंने ने उसे अगाकर उस से कहा; हे गुरु, क्या तुम्हे चिन्ता नहीं, कि हम नाश हुए जाते हैं? ३९ तब उस ने उठकर आन्धी को बांटा, और पानी से कहा; "शान्त रह, यम जा": और आन्धी यम गई और बड़ा धैर्य हो गया। ४० और उन से कहा; तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? ४१ और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले; यह कौन है, कि आन्धी और पानी भी उस की आज्ञा मानते हैं?

और वे भील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। २ और जब वह

नाव पर से उतरा तो तुरन्त एक मनुष्य जिस में अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। ३ वह कब्रों में रहा करता था। और कोई उसे सांकलों से भी न बान्ध सकता था। ४ क्योंकि वह बार बार वेड़ियों और सांकलों से बान्धा गया था, पर उस ने सांकलों को तोड़ दिया, और वेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए-थे, और कोई उसे बश में नहीं कर सकता था। ५ वह लगातार रात-दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता, और अपने को पत्थरों से घायल करता था। ६ वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा, और उसे प्रणाम किया। ७ और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा; हे यीशु, परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझ से क्या काम? मैं तुम्हे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, कि मुझे पीड़ा न दे। ८ क्योंकि उस ने उस से कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल जा। ९ उस ने उस से पूछा; तेरा क्या नाम है? उस ने उस से कहा; मेरा नाम सेना * है; क्योंकि हम बहुत हैं। १० और उस ने उस से बहुत बिनती की, हमें इस देश से बाहर न भेज। ११ वहां पहाड़ पर सूझरों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा था। १२ और उन्होंने ने उस से बिनती करके कहा, कि हमें उन सूझरों में भेज दे, कि हम उन के भीतर जाएं। १३ सो उस ने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सूझरों के भीतर पंठ गई और झुण्ड, जो कोई दो हजार का था, कड़ाड़े पर से झपटकर भील में जा पड़ा, और डूब मरा। १४ और उन के चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों में समाचार सुनाया।

* ५० लिगियोन अर्थात् ६,००० सिपाहियों की सेना।

१५ और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए। और यीशु के पास आकर, वे उस को जिस में दुष्टात्माएं थीं, अर्थात् जिस में सेना समाई थी, कपड़े पहिने और सचेत बैठे देखकर, डर गए। १६ और देखनेवालों ने उसका जिस में दुष्टात्माएं थीं, और सूत्रों का पूरा हाल, उन को कह सुनाया। १७ और वे उस से बिनती कर के कहने लगे, कि हमारे सिवानों से चला जा। १८ और जब वह नाव पर चढ़ने लगा, तो वह जिस में पहिले दुष्टात्माएं थीं, उस से बिनती करने लगा, कि मुझे अपने साथ रहने दे। १९ परन्तु उस ने उसे आज्ञा न दी, और उस से कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता, कि तुम्ह पर क्या करके प्रभु ने तेरे लिये कैसे बड़े काम किए हैं। २० वह जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा, कि यीशु ने मेरे लिये कैसे बड़े काम किए; और सब अचम्भा करते थे ॥

२१ जब यीशु फिर नाव से पार गया, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई; और वह झील के किनारे था। २२ और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया, और उसे देखकर, उसके पांवों पर गिरा। २३ और उस ने यह कहकर बहुत बिनती की, कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है; तू आकर उस पर हाथ रख, कि वह चंगी होकर जीवित रहे। २४ तब वह उसके साथ चला; और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहां तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे ॥

२५ और एक स्त्री, जिस को बारह वर्ष से लोठ्ठ बहने का रोग था। २६ और जिस ने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी

कुछ लाभ न उठाया था, परन्तु और भी रोगी हो गई थी। २७ यीशु की चर्चा सुनकर, भीड़ में उसके पीछे से आई, और उसके वस्त्र को छू लिया। २८ क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी, तो चंगी हो जाऊंगी। २९ और तुरन्त उसका लोह बहना बन्द हो गया; और उस ने अपनी देह में जान लिया, कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। ३० यीशु ने तुरन्त अपने में जान लिया, कि मुझ में से सामयं निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा; मेरा वस्त्र किस ने छूआ? ३१ उसके चेलों ने उस से कहा; तू देखता है, कि भीड़ तुम्ह पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है; कि किस ने मुझे छूआ? ३२ तब उस ने उसे देखने के लिये जिस ने यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। ३३ तब वह स्त्री यह जानकर, कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, और उसके पांवों पर गिरकर, उस से सब हाल सच सच कह दिया। ३४ उस ने उस से कहा; पुत्री तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है; कुशल से जा, और अपनी इस बीमारी से बची रह ॥

३५ वह यह कह ही रहा था, कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, कि तेरी बेटी तो मर गई; अब गुरु को क्यों दुख देता है? ३६ जो बात वे कह रहे थे, उस को यीशु ने धनमुनी करके, आराधनालय के सरदार से कहा; मत डर; केवल विश्वास रख। ३७ और उस ने पतरस और याकूब और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़, और किसी को अपने साथ आने न दिया। ३८ और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर, उस ने लोगों की बहुत रोते और चिल्लाते देखा।

३६ तब उस ने भीतर जाकर उस से कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं, परन्तु सो रही है। ४० वे उस की हंसी करने लगे, परन्तु उस ने सब को निकालकर लड़की के माता-पिता और अपने साथियों को लेकर, भीतर जहां लड़की पड़ी थी, गया। ४१ और लड़की का हाथ पकड़कर उस से कहा, 'तलीता कूमी'; जिस का अर्थ यह है कि 'हे लड़की, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ'। ४२ और लड़की तुरन्त उठकर चलने फिरने लगी; क्योंकि ग्रह बारह वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए। ४३ फिर उस ने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने न पाए और कहा; कि उसे कुछ खाने को दिया जाए ॥

६ वहां से निकलकर वह अपने देश में आया, और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। २ सन्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा; और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इस को ये बातें कहां से आ गई? और यह कौन सा ज्ञान है जो उस को दिया गया है? और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रगट होते हैं? ३ क्या यह वही बढ़ई नहीं, जो मरियम का पुत्र, और याकूब और योसेस और यहूदा और शमीन का भाई है? और क्या उस की बहिनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिये उन्होंने ने उसके विषय में ठोकर खाई। ४ यीशु ने उन से कहा, कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। ५ और वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न

कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया ॥

६ और उस ने उन के अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा ॥

७ और वह बारहों को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा; और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। ८ और उस ने उन्हें आज्ञा दी, कि मांग के लिये लाठी छोड़ और कुछ न लो; न तो रोटी, न भोली, न पटुके में पैसे। ९ परन्तु जूतियां पहिनो और दो दो कुरते न पहिनो। १० और उस ने उन से कहा; जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो, तब तक उसी में ठहरे रहो। ११ जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, और तुम्हारी न सुनें, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो। १२ और उन्होंने ने जाकर प्रचार किया, कि मन फिराओ। १३ और बहुतेरे दुष्टात्माओं को निकाला, और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया ॥

१४ और हेरोदेस राजा ने उस की चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उस ने कहा, कि यहून्ना बपतिस्मा देनेवाला मरे हुएों में से जी उठा है, इसी लिये उस से ये सामर्थ्य के काम प्रगट होते हैं। १५ और औरों ने कहा, यह एलिय्याह है, परन्तु औरों ने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। १६ हेरोदेस ने यह सुन कर कहा, जिस यहून्ना का सिर मैं ने कटवाया था, वही जी उठा है। १७ क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी

हेरोदियास के कारण, जिस से उस ने व्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बन्दीगृह में डाल दिया था। १८ क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुम्हें उचित नहीं। १९ इसलिये हेरोदियाम उस से बैर रखती थी और यह चाहती थी, कि उसे मरवा डाले, परन्तु ऐसा न हो सका। २० क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को घर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उस से डरता था, और उसे बचाए रखता था, और उस की सुनकर बहुत घबराता था, पर आनन्द से सुनता था। २१ और ठीक भवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों, और गलील के बड़े लोगों के लिये जेवनार की। २२ और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई, और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठनेवालों को प्रसन्न किया; तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझ से मांग मैं तुम्हें दूंगा। २३ और उस से शपथ खाई, कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझ से मांगेगी मैं तुम्हें दूंगा। २४ उस ने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, कि मैं क्या मांगू? वह बोली; यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर। २५ वह तुरन्त राजा के पास भीतर आई, और उस से बिनती की; मैं चाहती हूँ, कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाले का सिर एक घाल में मुझे मंगवा दे। २६ तब राजा बहुत उदाम हुआ, परन्तु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठनेवालों के कारण उसे टालना न चाहा। २७ और राजा ने तुरन्त एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा, कि उसका सिर काट लाए। २८ उस ने जेवनार में जाकर उसका सिर काटा,

और एक घाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। २९ यह सुनकर उसके चेले आए, और उस की लोथ को उठाकर कब्र में रखा ॥

३० प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर, जो कुछ उन्होंने ने किया, और सिखाया था, सब उस को बता दिया। ३१ उस ने उन से कहा; तुम आप भ्रमलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो; क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे, और उन्हें खाने का भवसर भी नहीं मिलता था। ३२ इसलिये वे नाव पर चढ़कर, सुनसान जगह में भ्रमलग चले गए। ३३ और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहिचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उन से पहिले जा पहुँचे। ३४ उस ने निकलकर बड़ी भीड़ देखी, और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे, जिन का कोई रखवाला न हो; और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। ३५ जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे; यह सुनसान जगह है, और दिन बहुत ढल गया है। ३६ उन्हें विदा कर, कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर, अपने लिये कुछ खाने को मोल लें। ३७ उस ने उन्हें उत्तर दिया; कि तुम ही उन्हें खाने को दो: उन्होंने ने उस से कहा; क्या हम सो दीनार* की रोटियां मोल लें, और उन्हें खिलाएं? ३८ उस ने उन से कहा; जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने ने मालूम करके कहा; पांच और दो मछली भी। ३९ तब उस ने उन्हें

* या दीनार आठ घने के लगभग।

भाभा थी, कि सब को हरी घास पर पांति-पांति से बैठा दो। ४० वे सौ सौ घोर पचास पचास करके पांति-पांति बैठ गए। ४१ घोर उस ने उन पांच रोटियों को घोर दो मछलियों को लिया, घोर स्वर्ग की घोर देखकर धन्यवाद किया घोर रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया, कि वे लोगों को परोसें, घोर वे दो मछलियां भी उन सब में बांट दी। ४२ घोर सब खाकर तृप्त हो गए। ४३ घोर उन्होंने ने टुकड़ों से बारह टोकरियां भर कर उठाईं, घोर कुछ मछलियों से भी। ४४ जिन्हो ने रोटियां खाईं, वे पांच हजार पुरुष थे ॥

४५ तब उस ने तुरन्त अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया, कि वे उस से पहिले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे। ४६ घोर उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। ४७ घोर जब सांभ हुई, तो नाव भील के बीच में थी, घोर वह झकेला भूमि पर था। ४८ घोर जब उस ने देखा, कि वे खेते खेते घबरा गए हैं, क्योंकि हवा उन के विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह भील पर चलते हुए उन के पास आया; घोर उन से आगे निकल जाना चाहता था। ४९ परन्तु उन्होंने ने उसे भील पर चलते देखकर समझा, कि भूत है, घोर चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। ५० पर उस ने तुरन्त उन से बातें कीं घोर कहा; ढाड़स बान्धो : म हूं; डरो मत। ५१ तब वह उन के पास नाव पर आया, घोर हवा घम गई : घोर वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। ५२ क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे परन्तु उन के मन कठोर हो गए थे ॥

५३ घोर वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे, घोर नाव घाट पर लगाई। ५४ घोर जब वे नाव पर से उतरे, तो लोग तुरन्त उस को पहचान कर। ५५ आसपास के सारे देश में दौड़े, घोर बीमारों को खाटों पर डालकर, जहां जहां समाचार पाया कि वह है, वहां वहां लिए फिरे। ५६ घोर जहां कहीं वह गांवों, नगरों, या बस्तियों में जाता था, तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उस से बिनती करते थे, कि वह उन्हें अपने वस्त्र के प्रांचल ही को छू लेने दे : घोर जितने उसे छूते थे, सब चंगे हो जाते थे ॥

७ तब फरीसी घोर कई एक शास्त्री जो यहूशलेम से आए थे, उसके पास इकट्ठे हुए। २ घोर उन्होंने ने उसके कई एक चेलों को प्रशुद्ध धर्षात् बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। ३ क्योंकि फरीसी घोर सब यहूदी, पुरनियों की रीति पर चलते हैं घोर जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते। ४ घोर बाजार से आकर, जब तक स्नान नहीं कर * लेते, तब तक नहीं खाते; घोर बहुत सी घोर बातें हैं, जो उन के पास मानने के लिये पहुंचाई गई हैं, जैसे कटोरों, घोर लोटों, घोर तांबे के बरतनों को धोना-मांजना। ५ इसलिये उन फरीसियों घोर शास्त्रियों ने उस से पूछा, कि तेरे बेसे क्यों पुरनियों की रीतों पर नहीं चलते, घोर बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? ६ उस ने उन से कहा; कि यथायाह न तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की; जैसा लिखा है; कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उन का मन मुझ

* ६० अपने ऊपर पानी न छिड़क लेने।

से दूर रहता है। ७ और ये व्यय मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को घमोपदेश करके सिखाते हैं। ८ क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। ९ और उस ने उन से कहा; तुम अपनी रीतियों को मानने के लिये परमेश्वर की आज्ञा कंसी अच्छी तरह टाल देते हो ! १० क्योंकि मूसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर; और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे, वह अवश्य मार डाला जाए। ११ परन्तु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे, कि जो कुछ तुम्हें मुझ से लाभ पहुंच सकता था, वह कुरवान अर्थात् संकल्प ही चुका। १२ तो तुम उस को उसके पिता वा उस की माता की कुछ सेवा करने नहीं देते। १३ इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, जिन्हें तुम ने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो; और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। १४ और उस ने लोगों को अपने पास बुलाकर उन से कहा, तुम सब मेरी सुनो, और समझो। १५ ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर अशुद्ध करे; परन्तु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। [१६ यदि किसी के मुनने के कान हों तो मुन ले।] १७ जब वह भीड़ के पास से घर में गया, तो उसके चेलों ने इस दृष्टान्त के विषय में उम से पूछा। १८ उस ने उन से कहा; क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते, कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है, वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती? १९ क्योंकि वह उसके मन में नहीं, परन्तु पेट में जाती है, और संडास में

निकल जाती है? यह कहकर उस ने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। २० फिर उस ने कहा; जो मनुष्य में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। २१ क्योंकि भीतर से अर्थात् मनुष्य के मन से, बुरी बुरी चिन्ता व्यभिचार। २२ चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, झल, लुचपन, कुदृष्टि, निन्दा, अभिमान, और मूर्खता निकलती हैं। २३ ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं।

२४ फिर वह वहां से उठकर मूर और सैदा के देशों में आया; और एक घर में गया, और चाहता था, कि कोई न जाने; परन्तु वह छिप न सका। २५ और तुरन्त एक स्त्री जिस की छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी, उस की चर्चा सुन कर आई, और उसके पांवों पर गिरी। २६ यह यूनानी और मूर्खफिनीकी जाति की थी; और उस ने उस से विनती की, कि मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे। २७ उस ने उस से कहा, पहिले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। २८ उस ने उस को उत्तर दिया; कि सच है प्रभु; तौभी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। २९ उस ने उस से कहा; इस बात के कारण चली जा; दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। ३० और उस ने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है, और दुष्टात्मा निकल गई है।

३१ फिर वह मूर और सैदा के देशों से निकलकर दिकपुलिस देश से होता हुआ गलील की भील पर पहुंचा। ३२ और

लोगों ने एक बहिरे को जो हक्ला भी था, उसके पास लाकर उस से विनती की, कि अपना हाथ उस पर रखे। ३३ तब वह उस को भीड़ से अलग ले गया, और अपनी जंगलियां उसके कानों में डाली, और थूक कर उस की जीभ को छूया। ३४ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी, और उस से कहा; इष्फत्तह, अर्थात् खुल जा। ३५ और उसके कान खुल गए, और उस की जीभ की गांठ भी खुल गई, और वह साफ साफ बोलने लगा। ३६ तब उस ने उन्हें चिताया कि किसी से न कहना; परन्तु जितना उस ने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे। ३७ और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे, उस ने जो कुछ किया सब अच्छा किया है; वह बहिरो को सुनने की, और गुंगों को बोलने की शक्ति देता है॥

उन दिनों में, जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, और उन के पास कुछ खाने को न था, तो उस ने अपने चेलों को पास बुलाकर उन से कहा। २ मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह तीन दिन से बराबर मेरे साथ हैं, और उन के पास कुछ भी खाने को नहीं। ३ यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूँ, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे; क्योंकि इन में से कोई कोई दूर से आए हैं। ४ उनके चेलों ने उस को उत्तर दिया, कि यहां जंगल में इतनी रोटी कोई कहां से लाए कि ये तृप्त हों? ५ उस ने उन से पूछा; तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने ने कहा, सात। ६ तब उस ने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे सात रोटियां लीं, और धन्यवाद करके तोड़ीं, और अपने चेलों को देता गया

कि उन के प्रागे रखें, और उन्होंने ने लोगों के प्रागे परोस दिया ७ उन के पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थीं; और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के प्रागे रखने की आज्ञा दी। ८ सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के सात टोकरे भरकर उठाए। ९ और लोग चार हजार के लगभग थे; और उस ने उन को विदा किया। १० और वह तुरन्त अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया॥

११ फिर फरीसी निकलकर उस से वाद-विवाद करने लगे, और उसे जांचने के लिये उस से कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। १२ उस ने अपनी आत्मा में आह मार कर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह बूढ़ते हैं? मैं तुम से सच कहता हूँ, कि इस समय के लोगों* को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। १३ और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया॥

१४ और वे रोटी लेना भूल गए थे, और नाव में उन के पास एक ही रोटी थी। १५ और उस ने उन्हें चिताया, कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। १६ वे आपस में विचार करके कहने लगे, कि हमारे पास तो रोटी नहीं है। १७ यह जानकर यीशु ने उन से कहा; तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? १८ क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रखते हुए भी नहीं देखते, और कान रखते हुए भी नहीं सुनते? और

* यू० पी०।

तुम्हें स्मरण नहीं। १६ कि जब मैं ने पांच हजार के लिये पांच रोटी तोड़ी थीं तो तुम ने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाईं? उन्होंने ने उस से कहा, बारह टोकरियां। २० और जब चार हजार के लिये सात रोटी थी तो तुम ने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए थे? उन्होंने ने उस से कहा, सात टोकरे। २१ उस ने उन से कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते?

२२ और वे बंतसैदा में आए; और लोग एक अग्ने को उसके पास ले आए और उस से बिनती की, कि उस को छूए। २३ वह उस अग्ने का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया, और उस की आंखों में धूककर उस पर हाथ रखे, और उस से पूछा; क्या तू कुछ देखता है? २४ उस ने आंख उठा कर कहा; मैं मनुष्यों को देखता हूँ; क्योंकि वे मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं, जैसे पेड़। २५ तब उस ने फिर दोबारा उस की आंखों पर हाथ रखे, और उस ने ध्यान से देखा, और चंगा हो गया, और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। २६ और उस ने उस से यह कहकर घर भेजा, कि इस गांव के भीतर पांव भी न रखना ॥

२७ यीशु और उसके चेले कंसरिया फिलिप्पी के गांवों में चले गए; और मार्ग में उस ने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं? २८ उन्होंने ने उत्तर दिया, कि यूहन्ना वपतिस्मा देनेवाला; पर कोई कोई; एलियाह; और कोई कोई भविष्यद-वक्तव्यों में से एक भी कहते हैं। २९ उस ने उन से पूछा; परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उस को उत्तर दिया; तू गरीब है। ३० तब उस ने उन्हें चिताकर

कहा, कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। ३१ और वह उन्हें सिखाने लगा, कि मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह बहुत दुःख उठाए, और पुरनिए और महा-याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह तीन दिन के बाद जी उठे। ३२ उस ने यह बात उन से साफ साफ कह दी: इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा। ३३ परन्तु उस ने फिरकर, और अपने चेलों की ओर देखकर पतरस को झिड़क कर कहा; कि हे सैतान, मेरे साम्हने से दूर हो; क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं, परन्तु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ३४ उस ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उन से कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, वह अपने आपे से इन्कार करे और अपना क्रूस उठाकर, मेरे पीछे हो ले। ३५ क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिये अपना प्राण खोएगा, वह उसे बचाएगा। ३६ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? ३७ और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा? ३८ जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाति * के बीच मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा, तब उस से भी लजाएगा।

६ और उस ने उन से कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो यहां खड़े हैं, उन में से कोई कोई ऐसे हैं, कि जब तक

परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आय्य हुआ न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे ॥

२ छः दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया, और एकान्त में किसी ऊँचे पहाड़ पर ले गया; और उन के साम्हने उसका रूप बदल गया। ३ और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अति उज्ज्वल हुआ, कि पृथ्वी पर कोई धोबी भी वंसा उज्ज्वल नहीं कर सकता। ४ और उन्हें मूसा के साथ एलिय्याह दिखाई दिया; और वे यीशु के साथ बातें करते थे। ५ इस पर पतरस ने यीशु से कहा; हे रब्बी, हमारा यहां रहना अच्छा है; इसलिये हम तीन मण्डप बनाएं; एक तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक एलिय्याह के लिये। ६ क्योंकि वह न जानता था, कि क्या उत्तर दे; इसलिये कि वे बहुत डर गए थे। ७ तब एक बादल ने उन्हें छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा प्रिय पुत्र है; उस की सुनो। ८ तब उन्होंने ने एकाएक चारों ओर दृष्टि की, और यीशु को छोड़ अपने साथ और किसी को न देखा ॥

९ पहाड़ से उतरते हुए, उस ने उन्हें आज्ञा दी, कि जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुआओं में से जी न उठे, तब तक जो कुछ तुम ने देखा है वह किसी से न कहना। १० उन्होंने ने इस बात को स्मरण रखा; और आपस में बाद-विवाद करने लगे, कि मरे हुआओं में से जी उठने का क्या अर्थ है? ११ और उन्होंने ने उस से पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं, कि एलिय्याह का पहिले भ्राना अवश्य है? १२ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि एलिय्याह सचमुच पहिले आकर सब

कुछ सुधारेगा, परन्तु मनुष्य के पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है, कि वह बहुत दुख उठाएगा, और तुच्छ गिना जाएगा?

१३ परन्तु मैं तुम से कहता हूं, कि एलिय्याह तो आ चुका, और जैसा उसके विषय में लिखा है, उन्होंने ने जो कुछ चाहा उसके साथ किया ॥

१४ और जब वह चेलों के पास आया, तो देखा कि उन के चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उन के साथ विवाद कर रहे हैं। १५ और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और उस की ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। १६ उस ने उन से पूछा; तुम इन से क्या विवाद कर रहे हो? १७ भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिस में गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। १८ जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, वहीं पटक देती है; और वह मुंह में फेन भर लाता, और दांत पीसता, और मूखता जाता है; और मैं ने तेरे चेलों से कहा था कि वे उसे निकाल दें परन्तु वह निकाल न सके। १९ यह सुनकर उस ने उन से उत्तर देके कहा: कि हे अविश्वासी लोगों, * मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? और कब तक तुम्हारी सहंगा? उसे मेरे पास लाओ। २० तब वे उसे उसके पास ले आए; और जब उस ने उसे देखा, तो उस आत्मा ने तुरन्त उसे मरोड़ा; और वह भूमि पर गिरा, और मुंह से फेन बहाते हुए लोटने लगा। २१ उस ने उसके पिता से पूछा; इस की यह दशा कब से है? २२ उस ने कहा, बचपन से: उस ने इसे नाश करने के लिये कभी घाग और कभी पानी में गिराया;

परन्तु यदि तू कुछ कर सके, तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। २३ यीशु ने उस से कहा; यदि तू कर सकता है; यह क्या बात है? विश्वास करनेवाले के लिए सब कुछ हो सकता है। २४ बालक के पिता ने तुरन्त गिड़गिड़ाकर कहा; हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। २५ जब यीशु ने देखा, कि लोग दौड़कर भीड़ लंगा रहे हैं, तो उस ने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा; कि हे गूंगी और बहिरी आत्मा, मैं तुम्हें प्राज्ञा देता हूँ, उस में से निकल आ, और उस में फिर कभी प्रवेश न कर। २६ तब वह चिल्लाकर, और उसे बहुत मरोड़ कर, निकल आई; और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे, कि वह मर गया। २७ परन्तु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, और वह खड़ा हो गया। २८ जब वह घर में आया, तो उसके चेलों ने एकान्त में उस से पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? २९ उस ने उन से कहा, कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती ॥

३० फिर वे वहां से चले, और गलील में होकर जा रहे थे, और वह नहीं चाहता था, कि कोई जाने। ३१ क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उन से कहता था, कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वह मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा। ३२ पर यह बात उन की समझ में नहीं आई, और वे उस से पूछने से डरते थे ॥

३३ फिर वे कफरनहूम में आए; और घर में आकर उस ने उन से पूछा कि रास्ते

में तुम किस बात पर विवाद करते थे? ३४ वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने ने आपस में यह वाद-विवाद किया था, कि हम में से बड़ा कौन है? ३५ तब उस ने बैठकर बारहों को बुलाया, और उन से कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सब से छोटा और सब का सेवक बने। ३६ और उस ने एक बालक को लेकर उन के बीच में खड़ा किया, और उसे गोद में लेकर उन से कहा। ३७ जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो कोई मुझे ग्रहण करता, वह मुझे नहीं, बरन मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है ॥

३८ तब यूहन्ना ने उस से कहा, हे गुरु, हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वह हमारे पीछे नहीं हो लेता था। ३९ यीशु ने कहा, उस को मत मना करो; क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ्य का काम करे, और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। ४० क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं, वह हमारी ओर है। ४१ जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इस-लिये * पिलाए कि तुम मसीह के हो तो मैं तुम से सच कहता हूँ कि वह अपना प्रतिफल किसी रीति से न खोएगा। ४२ पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए तो उसके लिये भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। ४३ यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल टुण्डा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे

* यू० इस नाम से।

लिये इस से भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक के बीच उस आग में डाला जाए जो कभी बुझने की नहीं। ४५ और यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। ४६ लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो पांव रहते हुए नरक में डाला जाए। ४७ और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है, कि दो आंख रहते हुए तू नरक में डाला जाए। ४८ जहां उन का कौड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। ४९ क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। ५० नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, तो उसे किस से स्वादित करोगे? अपने में नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप से रहो ॥

१० फिर वह वहां के उठकर यहूदिया के सिवानों में और यरदन के पार आया, और भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई, और वह अपनी रीति के अनुसार उन्हें फिर उपदेश देने लगा। २ तब फरीसियों ने उसके पास आकर उस की परीक्षा करने को उस से पूछा, क्या यह उचित है, कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? ३ उस ने उन को उत्तर दिया, कि मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? ४ उन्होंने ने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है। ५ यीशु ने उन से कहा, कि तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उस ने तुम्हारे लिये यह आज्ञा लिखी। ६ पर सृष्टि के आरम्भ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उन को बनाया है। ७ इस कारण मनुष्य अपने माता-

पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ८ इसलिये वे अब दो नहीं पर एक तन हैं। ९ इसलिये जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। १० और धर में चेलों ने इस के विषय में उस से फिर पूछा। ११ उस ने उन से कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करे तो वह उस पहिली के विरोध में व्यभिचार करता है। १२ और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से ब्याह करे, तो वह व्यभिचार करती है ॥

१३ फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। १४ यीशु ने यह देख क्रुध होकर उन से कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। १५ मैं तुम से सच कहता हूं, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करे, वह उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा। १६ और उस ने उन्हें गोद में लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी ॥

१७ और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेककर उस से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिये मैं क्या करूं? १८ यीशु ने उस से कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात् परमेश्वर। १९ तू आज्ञाओं को तो जानता है; हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, भूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना।

२० उस ने उस से कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ।

२१ यीशु ने उस पर दृष्टि करके उस से प्रेम किया, और उस से कहा, तुझ में एक बात की घटी है; जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। २२ इस बात से उसके चिहरे पर उदासी छा गई, और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था ॥

२३ यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेहरे से कहा, धनवानों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है ! २४ बेलें उस की बातों से अचम्भित हुए, इस पर यीशु ने फिर उन को उत्तर दिया, हे बालक, जो धन पर भरोसा रखते हैं, उन के लिये परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है ! २५ परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है !

२६ वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे तो फिर किस का उद्धार हो सकता है ? २७ यीशु ने उन की ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परन्तु परमेश्वर से हो सकता है; क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। २८ पतरस उस से कहने लगा, कि देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। २९ यीशु ने कहा, मैं तुम से सब कहता हूँ, कि ऐसा कोई नहीं, जिस ने मेरे और सुसमाचार के लिये घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या लड़के-बालों या खेतों को छोड़ दिया हो। ३० और अब इस समय सौ गुणा न पाए, घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और लड़के-बालों और खेतों को पर उपद्रव के

साथ और परलोक में अनन्त जीवन। ३१ पर बहुतेरे जो पहिले हैं, पिछले होंगे; और जो पिछले हैं, वे पहिले होंगे ॥

३२ और वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे, और यीशु उन के आगे आगे आ रहा था; और वे अचम्भा करने लग और जो उसके पीछे पीछे चलते थे उरने लगे, तब वह फिर उन बारहों को लेकर उन से वे बातें कहने लगा, जो उस पर आनेवाली थीं। ३३ कि देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उस को घात के योग्य ठहराएंगे, और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। ३४ और वे उस को ठट्टों में उड़ाएंगे, और उस पर घूँकेंगे, और उसे कोई मारेंगे, और उसे घात करेंगे, और तीन दिन के बाद वह जी उठेगा ॥

३५ तब जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं, कि जो कुछ हम तुझ से मांगें, वही तू हमारे लिये करे। ३६ उस ने उन से कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिये करूँ ? ३७ उन्होंने ने उस से कहा, कि हमें यह दे, कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दहिने और दूसरा तेरे जाएँ बैठे। ३८ यीशु ने उन से कहा, तुम नहीं जानते, कि क्या मांगते हो ? जो कटोरा में पीने पर हूँ, क्या पी सकते हो ? और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, क्या ले सकते हो ? ३९ उन्होंने ने उस से कहा, हम से हो सकता है; यीशु ने उन से कहा; जो कटोरा में पीने पर हूँ, तुम पीओगे; और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ, उसे लोगे। ४० पर जिन के लिये तैयार किया गया है, उन्हें छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएँ

बिठाना मेरा काम नहीं * । ४१ यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिमियाने लगे । ४२ और यीशु ने उन को पाम बुला कर उन से कहा, तुम जानते हो, कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं; और उन में जो बड़े हैं, उन पर अधिकार जताते हैं । ४३ पर तुम में ऐसा नहीं है, दरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने । ४४ और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे, वह सब का दास बने । ४५ क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिये नहीं आया, कि उस की सेवा टहल की जाए, पर इसलिये आया, कि आप सेवा टहल करे, और बहुतों की छोड़ीती के लिये अपना प्राण दे ॥

४६ और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके बेटे, और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक गन्धा भिल्लारी सड़क के किनारे बैठा था । ४७ वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा; कि हे दाऊद की सन्तान, यीशु मुझ पर दया कर । ४८ बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, कि हे दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया कर । ४९ तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ; और लोगों ने उस अन्धे को बुलाकर उस से कहा, डाइस बान्ध, उठ, वह तुम्हें बुलाता है । ५० वह अपना कपड़ा फेंककर धीघ्र उठा, और यीशु के पास आया । ५१ इस पर यीशु ने उस से कहा; तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिये करूं? अन्धे ने उस से कहा, हे रब्बी, यह कि मैं

देखने लूँ । ५२ यीशु ने उन से कहा; चला जा, तेरे विश्वास ने तुम्हें बंगा कर दिया है; और वह तुरन्त देखने लगा, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया ॥

११ जब वे यहूजानेम के निकट बैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए, तो उन ने अपने बेटों में से दो को यह कहकर भेजा । २ कि अपने साम्हने के गांव में जाओ, और उस में पहुंचने ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बन्धा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ । ३ यदि तुम से कोई पूछे, वह क्यों करते हो? तो कहना, कि प्रभु को हम का प्रयोजन है; और वह शीघ्र उसे यहां भेज * देगा । ४ उन्होंने ने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बन्धा हुआ पाया, और खोलने लगे । ५ और उन में से जो बड़ा खड़े थे, कोई कोई कहने लगे कि यह क्या करते हो, गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? ६ उन्होंने ने जैसा यीशु ने कहा था, वैसा ही उन से कह दिया; तब उन्होंने ने उन्हें जाने दिया । ७ और उन्होंने ने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया । ८ और बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फेंका दी । ९ और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, कि होशाना; धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है । १० हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है; धन्य है : आकाश में † होशाना ॥

* या पर अपने दहिने बाएं कित्ती की बिठाना मेरा काम नहीं पर जिन के लिये तैयार किया गया है उन्हीं के लिये है ।

* यू० लौटा देगा ।

† यू० ऊंचे से ऊंचे स्थान में ।

११ और वह यरूशलेम पहुंचकर मन्दिर में आया, और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारहों के साथ बैतनिय्याह गया क्योंकि सांभ हो गई थी ॥

१२ दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उस को भूल लगी। १३ और वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया, कि क्या जाने उस में कुछ पाए : पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया; क्योंकि फल का समय न था। १४ इस पर उस ने उस से कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए। और उसके चेले सुन रहे थे ॥

१५ फिर वे यरूशलेम में आए, और वह मन्दिर में गया; और वहां जो लेन-देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सर्पाँकों के पीढ़े और कबूतर के बेचनेवालों की चौकियां उलट दीं। १६ और मन्दिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने न दिया। १७ और उपदेश करके उन से कहा, क्या यह नहीं लिखा है, कि मेरा घर सब जातियों के लिये प्रार्थना का घर कहा-लाएगा? पर तुम ने इसे डाकुओं की खोह बना दी है। १८ यह सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का अवसर ढूँढ़ने लगे; क्योंकि उस से डरते थे, इसलिये कि सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे ॥

१९ और प्रति दिन सांभ होते ही वह नगर से बाहर जाया करता था। २० फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने ने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। २१ पतरस को वह बात स्मरण आई, और उस ने उस से कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तू ने स्राप दिया था सूख गया है। २२ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। २३ मैं तुम से सच कहता हूँ कि

जो कोई इस पहाड़ से कहे; कि तू उखड़ जा, और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में सन्देह न करे, बरन प्रतीति करे, कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिये वही होगा। २४ इसलिये मैं तुम से कहता हूँ; कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिये हो जाएगा। २५ और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो, तो क्षमा करो: इसलिये कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे ॥ २६ [और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है, तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा।]

२७ वे फिर यरूशलेम में आए, और जब वह मन्दिर में टहल रहा था तो महायाजक और शास्त्री और पुरनिए उसके पास आकर पूछने लगे। २८ कि तू ये काम किस अधिकार से करता है? और यह अधिकार तुम्हें किस ने दिया है कि तू ये काम करे? २९ यीशु ने उस से कहा: मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ; मुझे उत्तर दो: तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। ३० यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था वा मनुष्यों की ओर से था? मुझे उत्तर दो। ३१ तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें, स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों नहीं की? ३२ और यदि हम कहें, मनुष्यों की ओर से तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता है। ३३ सो उन्होंने ने यीशु को उत्तर दिया, कि हम नहीं जानते: यीशु ने उन से कहा, मैं भी तुम को नहीं बताता, कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ ॥

१२ फिर वह दृष्टान्त में उन से बातें करने लगा : कि किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई, और उसके चारों ओर बाड़ा बान्धा, और रूम का कुंड खोदा, और गुम्मत बनाया; और किसानों को उसका ठीका देकर परदेस चला गया। २ फिर फल के मौसम में उस ने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसान से दाख की बारी के फलों का भाग ले। ३ पर उन्होंने ने उसे पकड़कर पीटा और धुँधे हाथ लौटा दिया। ४ फिर उस ने एक और दास को उन के पास भेजा और उन्होंने ने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। ५ फिर उस ने एक और को भेजा, और उन्होंने ने उसे मार डाला : तब उस ने और बहुतों को भेजा : उन में से उन्होंने ने कितनों को पीटा, और कितनों को मार डाला। ६ अब एक ही रह गया था, जो उसका प्रिय पुत्र था; अन्त में उस ने उसे भी उन के पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। ७ पर उन किसानों ने आपस में कहा; यही तो वारिस है; आओ, हम उसे मार डालें, तब मीरास हमारी हो जाएगी। ८ और उन्होंने ने उसे पकड़कर मार डाला, और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। ९ इसलिये दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों को नाश करेगा, और दाख की बारी औरों को दे देगा। १० क्या तुम ने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया? ११ यह प्रभु की ओर से हुआ, और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। १२ तब उन्होंने ने उसे पकड़ना चाहा; क्योंकि समझ गए थे, कि उस ने हमारे विरोध में यह

दृष्टान्त कहा है : पर वे लोगों से डरे; और उमे छोड़ कर चले गए।

१३ तब उन्होंने ने उसे बातों में फंसाने के लिये कई एक फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। १४ और उन्होंने ने आकर उस से कहा; हे गुरु, हम जानते हैं, कि तू सच्चा है, और किसी की परवा नहीं करता; क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देख कर बातें नहीं करता, परन्तु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। १५ तो क्या कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं? हम दें, या न दें? उस ने उन का कपट जानकर उन से कहा; मुझे क्यों परखते हो? एक दीनार * मेरे पास लाओ, कि मैं देखूं। १६ वे ले आए, और उस ने उन से कहा; यह मूर्ति और नाम किस का है? उन्होंने ने कहा, कैसर का। १७ यीशु ने उन से कहा; जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो : तब वे उम पर बहुत अचम्भा करने लगे।

१८ फिर सद्दुकियों ने भी, जो कहने हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उस से पूछा। १९ कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये लिखा है, कि यदि किसी का भाई बिना सन्तान मर जाए, और उस की पत्नी रह जाए, तो उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिये वंश उत्पन्न करे : सात भाई थे। २० पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्तान मर गया। २१ तब दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना सन्तान मर गया; और वैसे ही तीसरे ने भी। २२ और सातों से सन्तान न हुई : सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई।

* देखो मत्ती १८ : २८।

२३ सो जी उठने पर वह उन में से किस की पत्नी होगी? क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। २४ यीशु ने उन से कहा; क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो, कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो, और न परमेश्वर की सामर्थ्य को। २५ क्योंकि जब वे मरे हुएों में से जी उठेंगे, तो उन में ब्याह शादी न होगी; पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे। २६ मरे हुएों के जी उठने के विषय में क्या तुम ने मूसा की पुस्तक में भ्राष्टी की कथा में नहीं पढ़ा, कि परमेश्वर ने उस से कहा, मैं इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर हूँ? २७ परमेश्वर मरे हुएों का नहीं, बरन जीवतों का परमेश्वर है: सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो ॥

२८ और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उस ने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया; उस से पूछा, सब से मुख्य आज्ञा कौन सी है? २९ यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है; हे इस्त्राएल सुन; प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है। ३० और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। ३१ और दूसरी यह है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना: इस से बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। ३२ शास्त्री ने उस से कहा; हे गुरु, बहुत ठीक! तू ने सब कहा, कि वह एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं। ३३ और उस से सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने

समान प्रेम रखना, सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। ३४ जब यीशु ने देखा कि उस ने समझ से उत्तर दिया, तो उस से कहा; तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं: और किसी को फिर उस से कुछ पूछने का साहस न हुआ ॥

३५ फिर यीशु ने मन्दिर में उपदेश करते हुए यह कहा, कि शास्त्री क्योंकर कहते हैं, कि मसीह दाऊद का पुत्र है? ३६ दाऊद ने आपही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा; मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीड़ी न कर दूं। ३७ दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहां से ठहरा? और भीड़ के लोग उस की आनन्द से सुनते थे ॥

३८ उस ने अपने उपदेश में उन से कहा, शास्त्रियों से चीकस रहो, जो सम्ये वस्त्र पहिने हुए फिरना। ३९ और बाजारों में नमस्कार, और धाराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और जेबनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। ४० वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं, और दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं, ये अधिक दण्ड पाएंगे ॥

४१ और वह मन्दिर के भण्डार के साम्हने बैठकर देख रहा था, कि लोग मन्दिर के भण्डार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत घनवानों ने बहुत कुछ डाला। ४२ इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियां, जो एक अघेले के बराबर होती हैं, डालीं। ४३ तब उस ने अपने बेलों को पास बुगाकर उन से कहा; मैं तुम से सब कहता हूँ, कि मन्दिर के भण्डार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सब से बढ़कर डाला है।

४४ क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परन्तु इस ने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात् अपनी सारी जीविका डाल दी है ॥

२३

जब वह मन्दिर से निकल रहा था, तो उसके चेहरे में से एक ने उस से कहा; हे गुरु, देख, कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन हैं! २ यीशु ने उस से कहा; क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो : यहां पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा जो डामा न जाएगा ॥

३ जब वह जेरूजम के पहाड़ पर मन्दिर के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और युहन्ना और अग्निदास ने प्रश्न जाकर उस से पूछा। ४ कि हमें बता कि ये बातें कब होंगी? और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय का क्या चिन्ह होगा? ५ यीशु उन से कहने लगा; चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भ्रमिाए। ६ बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि मैं वही हूँ और बहुतों को भ्रमिाएंगे। ७ और जब तुम लड़ाइयाँ, और लड़ाइयों की खर्चा सुनो; तो न घबराना : क्योंकि इन का होना अवश्य है; परन्तु उस समय अन्त न होगा। ८ क्योंकि जाति पर जाति, और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और हर कहीं भुईँटोल होंगे, और अकाल पड़ेंगे; यह तो पीड़ाओं का आरम्भ ही होगा ॥

९ परन्तु तुम अपने विषय में चौकस रहो; क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे; और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के भागे खड़े किए जाओगे, ताकि उन के लिये गवाही हो। १० पर अवश्य है कि पहिले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया

जाए। ११ जब वे तुम्हें ले जाकर सौपेंगे, तो पहिले से चिन्ता न करना, कि हम क्या कहेंगे; पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए, वही कहना; क्योंकि बोलनेवाले तुम नहीं हो, परन्तु पवित्र आत्मा है। १२ और भाई को भाई, और पिता को पुत्र धात के लिये सौपेंगे, और लड़केवाले माता-पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। १३ और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे; पर जो अन्त तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा ॥

१४ सो जब तुम उस उजाड़नेवाली पृथित वस्तु को जहां उचित नहीं वहां लड़ी देखो, (पड़नेवाला समझ ले) तब जो यहूदिया में हो, वे पहाड़ों पर भाग जाएं। १५ जो कोठे पर हो, वह अपने घर से कुछ लेने को नीचे न उतरे और न भीतर जाए। १६ और जो खेत में हो, वह अपना कपड़ा लेने के लिये पीछे न लीटे। १७ उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के लिये हाय हाय! १८ और प्रार्थना किया करो कि यह जाड़े में न हो। १९ क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे, कि सृष्टि के आरम्भ से जो परमेश्वर ने सृजी है अब तक न तो हुए, और न फिर कभी होंगे। २० और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता; परन्तु उन जुने हृष्टों के कारण जिन को उस ने चुना है, उन दिनों को घटाया। २१ उस समय यदि कोई तुम से कहे; देखो, मसीह यहां है, या देखो, वहां है, तो प्रतीति न करना। २२ क्योंकि भूठे मसीह और भूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हृष्टों को भी भ्रमिा दें। २३ पर तुम

चौकस रहो : देखो, मैं ने तुम्हें सब बातें पहिले ही से कह दी हैं ॥

२४ उन दिनों में, उस क्लेश के बाद सूरज अन्धेरा हो जाएगा, और चान्द प्रकाश न देगा । २५ और आकाश से तारागण गिरने लगेंगे : और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी । २६ तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे । २७ उस समय वह अपने दूतों को भेजकर, पृथ्वी के इस छोर से आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठे करेगा ॥

२८ अंजीर के पेड़ से यह दृष्टान्त सीखो : जब उस की डाली कोमल हो जाती; और पत्ते निकलने लगते हैं; तो तुम जान लेंते हो, कि ग्रीष्मकाल निकट है । २९ इसी रीति से जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो, कि वह निकट है, बरन द्वार ही पर है । ३० मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक यह लोग * जाते न रहेंगे । ३१ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी । ३२ उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र; परन्तु केवल पिता । ३३ देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो; क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा । ३४ यह उस मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे : और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे । ३५ इसलिये जागते रहो; क्योंकि तुम नहीं जानते कि

घर का स्वामी कब आएगा, सांभ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को । ३६ ऐसा न हो कि वह अज्ञानक आकर तुम्हें सोते पाए । ३७ और जो मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ, जागते रहो ॥

२४ दो दिन के बाद फसह और अखमोरी रोटी का पर्व होनेवाला था : और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्योंकर छल से पकड़ कर मार डालें । २ परन्तु कहते थे, कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे ॥

३ जब वह वैननिय्याह में शमीन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामांसी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई; और पात्र तोड़ कर इत्र को उसके सिर पर उरडेला । ४ परन्तु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया ? ५ क्योंकि यह इत्र तो तीन सौ दीनार * से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उस को भिड़कने लगे । ६ यीशु ने कहा; उसे छोड़ दो; उसे क्यों सताने हो ? उस ने तो मेरे साथ भलाई की है । ७ कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं; और तुम जब चाही तब उन से भलाई कर सकते हो; पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा । ८ जो कुछ वह कर सकी, उस ने किया; उस ने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहिले से मेरी देह पर इत्र मला है । ९ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके

* यू० यह पीढ़ी जाती न रहेगी ।

* देखो मत्ती १८ : २८ ।

इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी ॥

१० तब यहूदा इसकरियोती जो बारह में से एक था, महायाजकों के पास गया, कि उसे उन के हाथ पकड़वा दे। ११ वे यह सुनकर आनन्दित हुए, और उस को रुपये देना स्वीकार किया, और यह अवसर बूढ़ने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे ॥

१२ अखमीरी रोटी के पर्व के पहिले दिन, जिस में वे फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उस से पूछा, तू कहां चाहता है, कि हम जाकर तेरे लिये फसह खाने की तैयारी करें? १३ उस ने अपने चेलों में से दो को यह कहकर भेजा, कि नगर में जाओ, और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना। १४ और वह जिस घर में जाए, उस घर के स्वामी से कहना; गुरु कहता है, कि मेरी पाहुनशाला जिस में मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है?

१५ वह तुम्हें एक सजी सजाई, और तैयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा, वहां हमारे लिये तैयारी करो। १६ सो चले निकलकर नगर में आये और जैसा उस ने उन से कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया ॥

१७ जब सांभ हुई, तो वह बारहों के साथ आया। १८ और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो यीशु ने कहा; मैं तुम से सच कहता हूं, कि तुम में से एक, जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा। १९ उन पर उदासी छा गई और वे एक एक करके उस से कहने लगे; क्या वह मैं हूं? २० उस ने उन से कहा, वह बारहों में से एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है। २१ क्योंकि मनुष्य का पुत्र

तो, जैसा उसके विषय में लिखा है, जाता ही है; परन्तु उस मनुष्य पर हाथ जिस के द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है! यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता, तो उसके लिये भला होता ॥

२२ और जब वे खा ही रहे थे तो उस ने रोटी ली, और आशीष मांगकर तोड़ी, और उन्हें दी, और कहा, लो, यह मेरी देह है। २३ फिर उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और उन्हें दिया; और उन सब ने उस में से पीया। २४ और उस ने उन से कहा, यह वाचा का मेरा वह लोहू है, जो बहुतों के लिये बहाया जाता है। २५ मैं तुम से सच कहता हूं, कि दाख का रस उस दिन तक फिर कभी न पीऊंगा, जब तक परमेश्वर के राज्य में नया न पीऊं ॥

२६ फिर वे भजन गाकर बाहर जंतून के पहाड़ पर गए ॥

२७ तब यीशु ने उन से कहा; तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, कि मैं रखवाले को माऊंगा, और भेड़ तित्तर-वित्तर हो जाएंगी। २८ परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहिले गलील को जाऊंगा। २९ पतरस ने उस से कहा; यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। ३० यीशु ने उस से कहा; मैं तुम से सच कहता हूं, कि आज ही इसी रात को मुझे के दो बार बांग देने से पहिले, तू तीन बार मुझ से मुकर जाएगा। ३१ पर उस ने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी तेरा इन्कार कभी न करूंगा: इसी प्रकार और सब ने भी कहा ॥

३२ फिर वे गतसमने नाम एक जगह में आए, और उस ने अपने चेलों से कहा,

यहां बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना करूं।
 ३३ और वह पतरस और याकूब और
 यूहन्ना को अपने साथ ले गया : और बहुत
 ही अधीर, और व्याकुल होने लगा।
 ३४ और उन से कहा; मेरा मन बहुत
 उदास है, यहां तक कि मैं मरने पर हूं :
 तुम यहां ठहरो, और जागते रहो।
 ३५ और वह थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमि
 पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, कि यदि
 हो सके तो यह घड़ी मुझ पर से टल जाए।
 ३६ और कहा, हे अम्वा, हे पिता, तुझ से
 सब कुछ हो सकता है; इस कटोरे को मेरे
 पास से हटा लें : तोभी जैसा मैं चाहता हूं
 वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो।
 ३७ फिर वह आया, और उन्हें सोते पाकर
 पतरस से कहा; हे शमीन तू सो रहा है ?
 क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका ?
 ३८ जागते और प्रार्थना करते रहो कि
 तुम परीक्षा में न पड़ो : आत्मा तो तैयार
 है, पर शरीर दुर्बल है। ३९ और वह फिर
 चला गया, और वही बात कहकर प्रार्थना
 की। ४० और फिर आकर उन्हें सोते
 पाया, क्योंकि उन की आंखें नींद से भरी
 थीं; और नहीं जानते थे कि उसे क्या
 उत्तर दें। ४१ फिर तीसरी बार आकर
 उन से कहा; अब सोते रहो और विश्राम
 करो, वम, घड़ी आ पहुंची; देखो मनुष्य का
 पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है।
 ४२ उठी, चलें : देखो, मेरा पकड़वानेवाला
 निकट आ पहुंचा है ॥

४३ वह यह कह ही रहा था, कि
 यहूदा जो बारहों में से था, अपने साथ
 महायाजकों और शास्त्रियों और पुरनियों
 की ओर से एक बड़ी भीड़ तलवारों और
 लाठियां लिए हुए तुरन्त आ पहुंची।
 ४४ और उसके पकड़वानेवाले ने उन्हें

यह पता दिया था, कि जिस को मैं चूमूं
 वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना।
 ४५ और वह आया, और तुरन्त उसके
 पास जाकर कहा; हे रब्बी और उस को
 बहुत चूमा। ४६ तब उन्होंने ने उस पर
 हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। ४७ उन
 में से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींच
 कर महायाजक के दास पर चलाई, और
 उसका कान उड़ा दिया। ४८ यीशु ने
 उन से कहा; क्या तुम डाकू जानकर मेरे
 पकड़ने के लिये तलवारें और लाठियां
 लेकर निकले हो? ४९ मैं तो हर दिन
 मन्दिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया
 करता था, और तब तुम ने मुझे न पकड़ा :
 परन्तु यह इमलिये हुआ है कि पवित्र
 शास्त्र की बातें पूरी हों। ५० इस पर सब
 चले उसे छोड़कर भाग गए ॥

५१ और एक जवान अपनी नंगी देह
 पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया;
 और लोगों ने उसे पकड़ा। ५२ पर वह
 चादर छोड़कर नंगा भाग गया ॥

५३ फिर वे यीशु को महायाजक के
 पास ले गए; और सब महायाजक और
 पुरनिए और शास्त्री उसके यहां इकट्ठे हो
 गए। ५४ पतरस दूर ही दूर से उसके
 पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर
 तक गया, और प्यादों के साथ बैठ कर प्राण
 तापने लगा। ५५ महायाजक और सारी
 महासभा यीशु के मार डालने के लिये
 उसके विरोध में गवाही की खोज में थे,
 पर न मिली। ५६ क्योंकि बहुतेरे उसके
 विरोध में भूठी गवाही दे रहे थे, पर उन की
 गवाही एक सी न थी। ५७ तब कितनों
 ने उठकर उस पर यह भूठी गवाही दी।
 ५८ कि हम ने इसे यह कहते सुना है कि
 मैं इस हाथ के बनाए हुए मन्दिर को

ढा दूंगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से न बना हो। ५६ इस पर भी उन की गवाही एक सी न निकली। ६० तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा; कि तू कोई उत्तर नहीं देता? ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? ६१ परन्तु वह मौन माधे रहा, और कुछ उत्तर न दिया: महायाजक ने उस से फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? ६२ यीशु ने कहा; हां में हूं: और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्व-शक्तिमान * की दहिनी और बैठे, और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। ६३ तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा; अब हमें गवाहों का और क्या प्रयोजन है? ६४ तुम ने यह निन्दा मुनी: तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, वह वध के योग्य है। ६५ तब कोई तो उस पर धूकने, और कोई उसका मुंह ढांपने और उसे धूसे मारने, और उस से कहने लगे, कि भविष्यद्वाणी कर: और प्यादों ने उसे लेकर थप्पड़ मारे।

६६ जब पतरस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की लौडियों में से एक वहां आई। ६७ और पतरस को आग तापते देखकर उस पर टकटकी लगाकर देखा और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी यीशु के साथ था। ६८ वह मुकर गया, और कहा, कि मैं तो नहीं जानता और नहीं समझता कि तू क्या कह रही है: फिर वह बाहर डेवड़ी में गया; और मुझे ने बांग दी। ६९ वह लौडी उसे देखकर उन से जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, यह उन में से एक है। ७० परन्तु वह फिर

मुकर गया और थोड़ी देर बाद उन्होंने ने जो पास खड़े थे फिर पतरस से कहा; निश्चय तू उन में से एक है; क्योंकि तू गलीली भी है। ७१ तब वह धिक्कार देने और शपथ खाने लगा, कि मैं उस मनुष्य को, जिस की तुम चर्चा करते हो, नहीं जानता। ७२ तब तुरन्त दूसरी बार मुझे ने बांग दी: पतरस को वह बात जो यीशु ने उस से कही थी स्मरण आई, कि मूर्ख के दो बार बांग देने से पहिले तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा: वह इस बात को सोचकर रोने लगा।

१५ और भोर होते ही तुरन्त महा-याजकों, पुरनियों, और शास्त्रियों ने बरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बन्धवाया, और उसे ले जाकर पीलातुस के हाथ सौंप दिया। २ और पीलातुस ने उस से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उस ने उस को उत्तर दिया; कि तू आप ही कह रहा है। ३ और महा-याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। ४ पीलातुस ने उस से फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता, देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं? ५ यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया; यहां तक कि पीलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ।

६ और वह उस पर्व में किसी एक बन्धुए को जिसे वे चाहते थे, उन के लिये छोड़ दिया करता था। ७ और बरमबवा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बन्धुआ था, जिन्होंने ने बलवे में हत्या की थी। ८ और भीड़ ऊपर जाकर उस से विनती करने लगी, कि जैसा तू हमारे लिये करता आया है वैसा ही कर। ९ पीलातुस

* यू० सामर्थ्य।

ने उन को यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा को छोड़ दूँ ? १० क्योंकि वह जानता था, कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था । ११ परन्तु महायाजकों ने लोगों को उभारा, कि वह बरअब्बा ही को उन के लिये छोड़ दे । १२ यह सुन पीलातुस ने उन से फिर पूछा; तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो, उस को मैं क्या करूँ ? वे फिर चिल्लाए, कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे । १३ पीलातुस ने उन से कहा; क्यों, इस ने क्या बुराई की है ? १४ परन्तु वे और भी चिल्लाए, कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे । १५ तब पीलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से, बरअब्बा को उन के लिये छोड़ दिया, और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया, कि क्रूस पर चढ़ाया जाए । १६ और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रोटोरियुन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए । १७ और उन्होंने ने उसे बंजनी वस्त्र पहिनाया और कांटों का मुकुट गूँथकर उसके सिर पर रखा । १८ और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, कि हे यहूदियों के राजा, नमस्कार ! १९ और वे उसके सिर पर सरकएडे भारते, और उस पर धूकते, और घुटने टेककर उसे प्रणाम करते रहे । २० और जब वे उसका ठुंठा कर चुके, तो उस पर से बंजनी वस्त्र उतारकर उसी के कपड़े पहिनाए; और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिये बाहर ले गए ।

२१ और सिकन्दर और रूफुस का पिता, शमोन नाम एक कुरेनी मनुष्य, जो गांव से आ रहा था उधर से निकला; उन्होंने ने उसे वेगार में पकड़ा, कि उसका क्रूस उठा ले चले । २२ और वे उसे

गुलगुता नाम जगह पर जिह्वा का अर्थ खोपड़ी की जगह है लाए । २३ और उसे मुरं मिला हुआ दाखरस देने लगे, परन्तु उस ने नहीं लिया । २४ तब उन्होंने ने उस को क्रूस पर चढ़ाया, और उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालकर, कि किस को क्या मिले, उन्हें बांट लिया । २५ और पहर दिन चढ़ा था, जब उन्होंने ने उस को क्रूस पर चढ़ाया । २६ और उसका दोषपत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि **“यहूदियों का राजा”** । २७ और उन्होंने ने उसके साथ दो डाकू, एक उस की दहिनी और एक उस की बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए । २८ [तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया, पूरा हुआ ।] २९ और मार्ग में जानेवाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उस की निन्दा करते थे, कि वाह ! मन्दिर के ढानेवाले, और तीन दिन में बनानेवाले ! क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले । ३० इसी रीति से महायाजक भी, शास्त्रियों समेत, ३१ आपस में ठट्टे से कहते थे; कि इस ने औरों को बचाया, और अपने को नहीं बचा सकता । ३२ इस्त्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें: और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे, वे भी उस की निन्दा करते थे ।

३३ और दोपहर होने पर, मारे देश में अन्धियारा छा गया; और तीसरे पहर तक रहा । ३४ तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, इलोई, इलोई, लमा शबकतनी ? जिस का प्रर्थ यह है; हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तू ने मुझे क्यों छोड़ दिया ? ३५ जो पास खड़े थे, उन में से कितनों ने यह सुनकर कहा: देखो

यह एलिय्याह को पुकारता है। ३६ और एक ने दौड़कर इस्पंज को सिरके में डुबोया, और सरकण्डे पर रखकर उसे चुसाया; और कहा, ठहर जाओ, देखें, कि एलिय्याह उसे उतारने के लिये आता है कि नहीं। ३७ तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिये। ३८ और मन्दिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। ३९ जो सूबेदार उसके साम्हने खड़ा था, जब उसे यूँ चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा, तो उस ने कहा, सचमुच यह मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र था। ४० कई स्त्रियाँ भी दूर से देख रही थीं: उन में मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मरियम और शलोमी थीं। ४१ जब वह गलील में था, तो ये उसके पीछे हो लेती थीं और उस की सेवाटहल किया करती थीं; और और भी बहुत सी स्त्रियाँ थीं, जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं ॥

४२ जब संध्या हो गई, तो इसलिये कि तैयारी का दिन था, जो सब्त * के एक दिन पहिले होता है। ४३ अरिमतिया का रहनेवाला यूसुफ आया, जो प्रतिष्ठित मंत्री और आप भी परमेश्वर के राज्य की बाट जोहता था; वह हियाव करके पीलातुस के पास गया और यीशु की लोथ मांगी। ४४ पीलातुस ने आश्चर्य किया, कि वह इतना शीघ्र मर गया; और सूबेदार को बुलाकर पूछा, कि क्या उस को मरे हुए देर हुई? ४५ सो जब सूबेदार के द्वारा हाल जान लिया, तो लोथ यूसुफ को दिला दी। ४६ तब उस ने एक पतली चादर मोल ली, और लोथ को उतारकर उस

चादर में लपेटा, और एक कब्र में जो चट्टान में खोदी गई थी रखा, और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। ४७ और मरियम मगदलीनी और योसेस की माता मरियम देख रही थीं, कि वह कहाँ रखा गया है ॥

१६

जब सब्ब का दिन बीत गया, तो मरियम मगदलीनी और याकूब की माता मरियम और शलोमी ने सुगन्धित वस्तुएँ मोल ली, कि आकर उस पर मलें। २ और सप्ताह के पहिले दिन बड़ी भोर, जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं। ३ और आपस में कहती थीं, कि हमारे लिये कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? ४ जब उन्होंने ने आँख उठाई, तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है! क्योंकि वह बहुत ही बड़ा था। ५ और कब्र के भीतर जाकर, उन्होंने ने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहिने हुए दहिनी ओर बैठे देखा, और बहुत चकित हुईं। ६ उस ने उन से कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को, जो क्रूस पर चढ़ाया गया था, ढूँढती हो: वह जी उठा है; यहाँ नहीं है; देखो, यही वह स्थान है, जहाँ उन्होंने ने उसे रखा था। ७ परन्तु तुम जाओ, और उसके चेलों और पतरस से कहो, कि वह तुम से पहिले गलील को जाएगा; जैसा उस ने तुम से कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। ८ और वे निकलकर कब्र से भाग गईं; क्योंकि कपकपी और घबराहट उन पर छा गई थी और उन्होंने ने किसी से कुछ न कहा, क्योंकि डरती थीं ॥

९ सप्ताह के पहिले दिन भोर होते ही वह जी उठ कर पहिले पहिल मरियम मगदलीनी को जिस में से उस ने सात

* सब्त—यहूदियों का विश्रामदिन कहा जाता है।

दुष्टात्माएं निकाली थीं, दिखाई दिया। १० उस ने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। ११ और उन्होंने ने यह सुनकर कि वह जीवित है, और उस ने उसे देखा है, प्रतीति न की ॥

१२ इस के बाद वह दूसरे रूप में उन में से दो को जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। १३ उन्होंने ने भी जाकर औरों को समाचार दिया, परन्तु उन्होंने ने उन की भी प्रतीति न की ॥

१४ पीछे वह उन ग्यारहों को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया, और उन के अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने ने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने ने उन की प्रतीति न की थी। १५ और उस ने उन से कहा, तुम सारे जगत में

जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। १६ जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उदार होगा, परन्तु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। १७ और विश्वास करनेवालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। १८ नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तोभी उन की कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो जाएंगे ॥

१९ निदान प्रभु यीशु उन से बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया, और परमेश्वर की दहिनी ओर बैठ गया। २० और उन्होंने ने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उन के साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को, दृढ़ करता रहा। अमीन ॥

लूका रचित सुसमाचार

१ इसलिये कि बहुतों ने उन बातों का जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है। २ जैसा कि उन्होंने ने जो पहिले ही से इन बातों के देखनेवाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। ३ इसलिये हे श्रीमान् थियु-फिलुस मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का सम्पूर्ण हाल आरम्भ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिये क्रमानुसार लिखू। ४ कि तू यह जान ले,

कि वे बातें जिनकी तू ने शिक्षा पाई है, कैसी अटल हैं ॥

५ यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल * में जकरयाह नाम का एक याजक था, और उस की पत्नी हारून के वंश की थी, जिस का नाम इत्तीशिया था। ६ और वे दोनों परमेश्वर के साम्हने धर्मी थे: और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलनेवाले थे।

* इतिहास २३: ६-२३ को देखो।

उन के कोई भी सन्तान न थी, ७ क्योंकि इलीशिबा वांछ थी, और वे दोनों बूढ़े थे ॥

८ जब वह अपने दलकी पारी पर परमेश्वर के साम्हने याजक का काम करता था। ९ तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली, कि प्रभु के मन्दिर में जाकर धूप जलाए। १० और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मण्डली बाहर प्रार्थना कर रही थी। ११ कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की बेदी की दहिनी ओर खड़ा हुआ उस को दिखाई दिया। १२ और जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। १३ परन्तु स्वर्गदूत ने उस से कहा, हे जकरयाह, भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिये एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। १४ और तुझे आनन्द और हर्ष होगा : और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनन्दित होंगे। १५ क्योंकि वह प्रभु के साम्हने महान होगा ; और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा ; और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। १६ और इस्त्राएलियों में से बहुतेरों को उन के प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेंगे। १७ वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में हो कर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन लड़केबालों की ओर फेर दे ; और आज्ञा न माननेवालों को धर्मियों की समझ पर लाए ; और प्रभु के लिये एक योग्य प्रजा तैयार करे। १८ जकरयाह ने स्वर्गदूत से पूछा ; यह मैं कैसे जानू ? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ ; और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। १९ स्वर्गदूत ने उम को

उत्तर दिया, कि मैं जिब्राईल हूँ, जो परमेश्वर के साम्हने खड़ा रहता हूँ ; और मैं तुम्ह से बातें करने और तुम्हें यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। २० और देख जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा, और बोल न सकेगा, इसलिये कि तू ने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी, प्रतीति न की। २१ और लोग जकरयाह की बात देखते रहे और अचम्भा करने लगे कि उसे मन्दिर में ऐसी देर क्यों लगी ? २२ जब वह बाहर आया, तो उन से बोल न सका : सो वे जान गए, कि उस ने मन्दिर में कोई दर्शन पाया है ; और वह उन से संकेत करता रहा, और गुंगा रह गया। २३ जब उस की सेवा के दिन पूरे हुए, तो वह अपने घर चला गया ॥

२४ इन दिनों के बाद उस की पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई ; और पांच महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा। २५ कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिये प्रभु ने इन दिनों में कृपादृष्टि करके मेरे लिये ऐसा किया है ॥

२६ छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राईल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। २७ जिस की मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी : उस कुंवारी का नाम मरियम था। २८ और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा ; आनन्द और जय * तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। २९ वह उस वचन से बहुत घबरा गई, और सोचने लगी, कि यह किस प्रकार का अभिवादन

* अर्थात् मलाम तुम्ह को।

है? ३० स्वर्गदूत ने उस से कहा, हे मरियम; भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ३१ और देख, तू गर्भवती होगी, और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा; तू उसका नाम यीशु रखना। ३२ वह महान होगा; और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा; और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उस को देगा। ३३ और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा; और उसके राज्य का अन्त न होगा। ३४ मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्योंकर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। ३५ स्वर्गदूत ने उस को उत्तर दिया; कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परमप्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी इसलिये वह पवित्र जो उत्पन्न होनेवाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। ३६ और देख, और तेरी कुटुम्बिनी इलीशिवा के भी बुढ़ापे में पुत्र होनेवाला है, यह उसका, जो बांभ कहलाती थी छठवां महीना है। ३७ क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभावरहित नहीं होता। ३८ मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो: तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया ॥

३९ उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पहाड़ी देश में यहूदा के एक नगर को गई। ४० और जकरयाह के घर में जाकर इलीशिवा को नमस्कार किया। ४१ ज्योंही इलीशिवा ने मरियम का नमस्कार मुना, त्योंही बच्चा उसके पेट में उछला, और इलीशिवा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ४२ और उस ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, और तेरे पेट का फल धन्य है। ४३ और

यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ, कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? ४४ और देख, ज्योंही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्योंही बच्चा मेरे पेट में आनन्द से उछल पड़ा। ४५ और धन्य है, वह जिस ने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उस से कही गईं, वे पूरी होंगी। ४६ तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। ४७ और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करनेवाले परमेश्वर से आनन्दित हुई। ४८ क्योंकि उस ने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है, इसलिये देखी, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। ४९ क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिये बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पवित्र है। ५० और उस की दया उन पर, जो उस से डरते हैं, पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। ५१ उस ने अपने भुजबल दिखाया, और जो अपने आप को बड़ा समझते थे, उन्हें तित्तर-वित्तर किया। ५२ उस ने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया; और दीनों को ऊंचा किया। ५३ उस ने भूतों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया, और धनवानों को छुछे हाथ निकाल दिया। ५४ उस ने अपने सेवक इस्त्राएल को सम्भाल लिया। ५५ कि अपनी उस दया को स्मरण करे, जो इब्राहीम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उस ने हमारे बाप-दादों से कहा था। ५६ मरियम लगभग तीन महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई ॥

५७ तब इलीशिवा के जनने का समय पूरा हुआ, और वह पुत्र जनी। ५८ उसके पड़ोसियों और कुटुम्बियों ने यह सुन कर, कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनन्दित हुए। ५९ और ऐसा हुआ

कि आठवें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जेकरयाह रखने लगे। ६० और उस की माता ने उत्तर दिया कि नहीं; बरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। ६१ और उन्होंने ने उस से कहा, तेरे कुटुम्ब में किसी का यह नाम नहीं! ६२ तब उन्होंने ने उसके पिता से संकेत करके पूछा। ६३ कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है? और उस ने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, कि उसका नाम यूहन्ना है: और सभी ने अचम्भा किया। ६४ तब उसका मुंह और जीभ तुरन्त खुल गई; और वह बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। ६५ और उसके आस पास के सब रहनेवालों पर भय छा गया; और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। ६६ और सब सुननेवालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था।

६७ और उसका पिता जेकरयाह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और भविष्यद्वाणी करने लगा। ६८ कि प्रभु इस्राएल का परमेश्वर धन्य हो, कि उस ने अपने लोगों पर दृष्टि की और उन का छुटकारा किया है। ६९ और अपने नेवक दाऊद के घराने में हमारे लिये एक उद्धार का सींग निकाला। ७० [जैसे उस ने अपने पवित्र भविष्यद्वाक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं, कहा था]। ७१ अर्थात् हमारे शत्रुओं से, और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। ७२ कि हमारे बाप-दादों पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करे। ७३ और वह शपथ जो उस ने हमारे पिता

इब्राहीम से खाई थी। ७४ कि वह हमें यह देगा, कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकर। ७५ उसके साम्हने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर निडर रहकर उस की सेवा करते रहें। ७६ और तू हे बालक, परमप्रधान का भविष्यद्वाक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु के मार्ग तैयार करने के लिये उसके आगे आगे चलेगा, ७७ कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे, जो उन के पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ७८ यह हमारे परमेश्वर की उसी बड़ी करुणा से होगा; जिस के कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा। ७९ कि अन्धकार और मृत्यु की छाया में बैठनेवालों को ज्योति दे, और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए।

८० और वह बालक बढ़ता और आत्मा में बलवन्त होता गया, और इस्राएल पर प्रगट होने के दिन तक जंगलों में रहा।

२ उन दिनों में प्रोगूस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली, कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। २ यह पहिली नाम लिखाई उस समय हुई, जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। ३ और सब लोग नाम लिखवाने के लिये अपने अपने नगर को गए। ४ सो यूमुफ भी इसलिये कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नामरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेंतलहम को गया। ५ कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। ६ उन के वहां रहने हुए उनके जनने के दिन पूरे हुए। ७ और वह अपना पहिलीठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी

में रखा; क्योंकि उन के लिये सराय में जगह न थी ।।

८ और उस देश में कितने गड़ेरिये थे, जो रात को मैदान में रहकर अपने झुण्ड का पहरा देते थे । ९ और प्रभु का एक दूत उन के पास था खड़ा हुआ; और प्रभु का तेज उन के चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए । १० तब स्वर्गदूत ने उन से कहा, मत डरो; क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनन्द का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिये होगा । ११ कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिये एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है । १२ और इस का तुम्हारे लिये यह पता है, कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे । १३ तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया । १४ कि आकाश * में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शान्ति हो ।।

१५ जब स्वर्गदूत उन के पास से स्वर्ग को चले गए, तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ, हम बैठलहम जाकर यह बात जो हुई है, और जिसे प्रभु ने हमें बताया है, देखें । १६ और उन्होंने ने तुरन्त जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा । १७ इन्हें देखकर उन्होंने ने वह बात जो इस बालक के विषय में उन से कही गई थी, प्रगट की । १८ और सब सुननेवालों ने उन बातों में जो गड़ेरियों ने उन से कहीं आश्चर्य किया । १९ परन्तु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही । २० और गड़ेरिये

जैसे, उन से कहा गया था, वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए ।।

२१ अब आठ दिन पूरे हुए, और उसके खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहिले कहा था ।।

२२ और जब यूसा को व्यवस्था के अनुसार उन के सुद्ध होने के दिन पूरे हुए, तो वे उभे यरूशलेम में ले गए, कि प्रभु के साम्हने जाएं । २३ [जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलीठा प्रभु के लिये पवित्र ठहरेगा] । २४ और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पहुंचों का एक जोड़ा, या ककूतर के दो बच्चे ला कर बलिदान करें । २५ और देखो, यरूशलेम में शमीन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मों और भक्त था; और इस्राएल की शान्ति की बात जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था । २६ और पवित्र आत्मा ने उस को चितावनी हुई थी, कि जब तक तू प्रभु के मसीह को देख न लेगा, तब तक मृत्यु को न देखेगा । २७ और वह आत्मा के मिलाने में * मन्दिर में आया; और जब माना-पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, कि उसके लिये व्यवस्था की रीति के अनुसार करें । २८ तो उस ने उभे अपनी गोद में लिया, और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, २९ हे स्वामी, अब तू अपने दाम को अपने वचन के अनुसार शान्ति से विदा करता है; ३० क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है । ३१ जिसे तू ने सब देशों के लोगों के साम्हने तैयार किया है । ३२ कि

* दू० ऊंचे से ऊंचे स्थान में ।

* ५० में ।

वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिये ज्योति, और तेरे निज लोग इस्त्राएल की महिमा हो। ३३ और उसका पिता और उस की माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थीं, आश्चर्य करते थे। ३४ तब शमीन ने उन को आशीष देकर, उस की माता मरियम से कहा; देख, वह ती इस्त्राएल में बहुतों के गिरने, और उठने के लिये, और एक ऐसा चिन्ह होने के लिये ठहराया गया है, जिस के विरोध में बातों की जाएंगी—३५ बरन तेरा प्राण भी नसवार से चार पार छिद जाएगी—इस से बहुत हृद्यों के विचार प्रगट होंगे। ३६ और अगोर के गोत्र में से हभाह नाम फनूएल की बेटा एक भविष्यद्वक्त्रिण थी: वह बहुत बूढ़ी थी, और व्याह होने के बाद सात वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। ३७ वह चौरासी वर्ष से विधवा थी: और मन्दिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात-दिन उपासना किया करती थी! ३८ और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी, और उन सभी से, जो यरूशलेम के झुटकारे की बात जोहते थे, उसके विषय में बातें करने लगी। ३९ और जब वे प्रभु की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ निपटा चुके तो गलील में अपने नगर नासरत को फिर चले गए ॥

४० और बालक बढ़ता, और बलवन्त होता, और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया; और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था ॥

४१ उसके माता-पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। ४२ जब वह बारह वर्ष का हुआ, तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। ४३ और जब वे उन दिनों को पूरा

करके लौटने लगे, तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया; और यह उसके माता-पिता नहीं जानते थे। ४४ वे यह समझकर, कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए: और उसे अपने कुटुम्बियों और जान-पहचानों में ढूँढने लगे। ४५ पर जब नहीं मिला, तो ढूँढते-ढूँढते यरूशलेम को फिर लौट गए। ४६ और तीन दिन के बाद उन्होंने उसे मन्दिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उन की मुनते और उन से प्रश्न करते हुए पाया। ४७ और जितने उस की मुन रहे थे, वे सब उस की समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। ४८ तब वे उसे देखकर चकित हुए और उस की माता ने उस से कहा; हे पुत्र, तू ने हम से क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं ढूँढते हुए तुझे ढूँढते थे। ४९ उस ने उन से कहा; तुम मुझे क्यों ढूँढते थे? क्या नहीं जानते थे, कि मुझे अपने पिता के भवन में होना * अवश्य है? ५० परन्तु जो बात उस ने उन से कही, उन्होंने ने उसे नहीं समझा। ५१ तब वह उन के साथ गया, और नासरत में आया, और उन के वश में रहा; और उस की माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी ॥

५२ और यीशु बुद्धि और शील-शील में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया ॥

३ तिबिरियुस कैसर के राज्य के पंद्रहवें वर्ष में जब पुन्तियुस पीलागुस यहूदिया का हाकिम था, और गलील में हेरोदेस नाम चौथाई का इतूरिया, और त्रखोनीतिस में, उसका भाई फिलिप्पुस,

* या कामों में लगे रहना।

और अबिलेने में लिसानियास चौथाई के राजा थे। २ और जब हन्ना और कैफा महामाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। ३ और वह यरदन के आस पास के सारे देश में आकर, पापों की क्षमा के लिये मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। ४ जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, कि जंगल में एक पुकारनेवाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उस की सड़कें सीधी बनाओ। ५ हर एक घाटी भर दी जाएगी, और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा; और जो टेढ़ा है सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। ६ और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा ॥

७ जो भीड़ की भीड़ उस से बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उन से वह कहता था; हे सांप के बच्चो, तुम्हें किस ने जता दिया, कि आनेवाले क्रोध से भागो। ८ सो मन फिराव के योग्य फल लाओ: और अपने अपने मन में यह न सोचो, कि हमारा पिता इब्राहीम है; क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता है। ९ और अब ही कुल्हाड़ा पेटों की जड़ पर धरा है, इसलिये जो जो पेट अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में भोंका जाता है। १० और लोगों ने उस से पूछा, तो हम क्या करें? ११ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि जिस के पास दो कुरते हों, वह उसके साथ जिस के पास नहीं है बांट दे और जिस के पास भोजन हो, वह भी ऐसा ही करे। १२ और महसूल लेनेवाले भी बपतिस्मा लेने आए, और उस से

पूछा, कि हे गुरु, हम क्या करें? १३ उस ने उन से कहा, जो तुम्हारे लिये ठहराया गया है, उस से अधिक न लेना। १४ और सिपाहियों ने भी उस से यह पूछा, हम क्या करें? उस ने उन से कहा, किसी पर उपद्रव न करना, और न भूठा दोष लगाना, और अपनी मजदूरी पर सन्तोष करना ॥

१५ जब लोग आस लगाए हुए थे, और सब अपने अपने मन में यूहन्ना के विषय में विचार कर रहे थे, कि क्या यही मसीह तो नहीं है। १६ तो यूहन्ना ने उन सब से उत्तर में कहा: कि मैं तो तुम्हें पानी से * बपतिस्मा देता हूँ, परन्तु वह आनेवाला है, जो मुझ से शक्तिमान है; मैं तो इस योग्य भी नहीं, कि उसके जूतों का बन्ध त्थोल सकूँ, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। १७ उसका सूप, उसके हाथ में है; और वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा; और गेहूं को अपने खत्ते में इकट्ठा करेगा, परन्तु भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं जला देगा ॥

१८ सो वह बहुत सी शिक्षा दे देकर लोगों को मुसमाचार सुनाता रहा। १९ परन्तु उस ने चौथाई देश के राजा हेरोदेस को उसके भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के विषय, और सब कुकर्मों के विषय में जां उम ने किए थे, उलाहना दिया। २० इसलिये हेरोदेस ने उन सब से बढ़कर यह कुकर्म भी किया, कि यूहन्ना को बन्दीगृह में डाल दिया ॥

२१ जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया। २२ और

पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर की नाईं उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझे से प्रसन्न हूँ ॥

२३ जब यीशु आप उपदेश करने लगा, तो लगभग तीस वर्ष की आयु का था और (जैसा समझा जाता था) यूसुफ का पुत्र था; और वह एली का। २४ और वह मत्तात का, और वह लेवी का, और वह मलकी का, और वह यन्ना का, और वह यूसुफ का। २५ और वह मत्तित्याह का, और वह अमोस का, और वह नहूम का, और वह असल्याह का, और वह नोगह का। २६ और वह मात का, और वह मत्तित्याह का, और वह शिमी का, और वह योमेख का, और वह योदाह का। २७ और वह यूहन्ना का, और वह रेसा का, और वह जरुब्बाबिल का, और वह शालतियेल का, और वह नेरी का। २८ और वह मलकी का, और वह अद्दी का, और वह कोसाम का, और वह इलमोदास का, और वह एर का। २९ और वह येशू का, और वह इलाजार का, और वह योरीम का, और वह मत्तात का, और वह लेवी का। ३० और वह शमोन का, और वह यहूदाह का, और वह यूसुफ का, और वह योनान का, और वह इलयाकीम का। ३१ और वह मलेग्नाह का, और वह मिन्नाह का, और वह मत्ताता का, और वह नातान का, और वह दाऊद का। ३२ और वह यिशै का, और वह ओवेद का, और वह बोअज का, और वह सलमोन का, और वह नहशोन का। ३३ और वह अम्मिनादाब का, और वह अरनी का, और वह हिलोन का, और वह फिरिस का, और वह यहूदाह का। ३४ और वह याकूब का, और वह इसहाक

का, और वह इब्राहीम का, और वह तिरह का, और वह नाहोर का। ३५ और वह मर्या का, और वह रुज का, और वह फिलिग का, और वह एबिर का, और वह शिलह का। ३६ और वह केनान का, वह अरफजद का, और वह शेम का, वह नूह का, वह लिमिक का। ३७ और वह मथूशिलह का, और वह हनोक का, और वह यिरिद का, और वह महललेल का, और वह केनान का। ३८ और वह इनोश का, और वह शेत का, और वह आदम का, और वह परमेश्वर का था ॥

४ फिर यीशु पवित्रात्मा से भरा हुआ, यरदन से लौटा; और चालीस दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा; और शैतान * उस की परीक्षा करता रहा। २ उन दिनों में उस ने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए, तो उसे भूख लगी। ३ और शैतान ने उस से कहा; यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो इस पत्थर से कह, कि रोटी बन जाए ४ यीशु ने उसे उत्तर दिया; कि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। ५ तब शैतान उसे ले गया और उस को पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। ६ और उस से कहा; मैं यह सब अधिकार, और इन का विभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है; और जिसे चाहता हूँ, उसी को दे देता हूँ। ७ इसलिये, यदि तू मुझे प्रणाम करे, तो यह सब तेरा हो जाएगा। ८ यीशु ने उसे उत्तर दिया; लिखा है; कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर; और केवल उसी की उपासना कर। ९ तब उस ने उसे यहूशलेम में ले

जाकर मन्दिर के कंगूरे पर खड़ा किया, और उस से कहा; यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे। १० क्योंकि लिखा है, कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, कि वे तेरी रक्षा करें। ११ और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। १२ यीशु ने उस को उत्तर दिया; यह भी कहा गया है, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। १३ जब शैतान * सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिये उसके पास से चला गया ॥

१४ फिर यीशु धारमा की सामर्थ्य से भरा हुआ गलील को लौटा, और उस की चर्चा पास पास के सारे देश में फैल गई। १५ और वह उन की धाराधनालयों में उपदेश करता रहा, और सब उस की बड़ाई करते थे ॥

१६ और वह नासरत में आया; जहाँ पाला पोसा गया था; और अपनी रीति के अनुसार सब † के दिन धाराधनालय में जा कर पढ़ने के लिये खड़ा हुआ। १७ यथावाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उस ने पुस्तक खोलकर, वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था। १८ कि प्रभु का धारमा मुझ पर है, इस-लिये कि उस ने कंगारों को सुसमाचार सुनाने के लिये मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिये भेजा है, कि बन्धुओं को झूटकारे का और अन्धों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुआओं को छुड़ाऊँ। १९ और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। २० तब उस ने

पुस्तक बन्द करके सेवक का हाथ में दे दी, और बैठ गया: और धाराधनालय के सब लोगों की आंख उस पर लगी थी। २१ तब वह उन से कहने लगा, कि आज ही यह लेख तुम्हारे साम्हने * पूरा हुआ है। २२ और सब ने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुँह से निकलती थीं, उन से अश्चम्भा किया; और कहने लगे; क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? २३ उस ने उस से कहा; तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे, कि हे बैध, अपने आप को अश्चम्भा कर! जो कुछ हम ने सुना है कि कफरनहूम में किया गया है उसे यहाँ अपने देश में भी कर। २४ और उस ने कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ, कोई भविष्यद्वक्ता अपने देश में मान-सम्मान नहीं पाता। २५ और मैं तुम से सच कहता हूँ, कि एलिय्याह के दिनों में जब साढ़े तीन वर्ष तक आकाश बन्द रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा, तो इस्राएल में बहुत सी विधवाएँ थीं। २६ पर एलिय्याह उन में से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सेदा के सारफत में एक विधवा के पास। २७ और इसीसा भविष्यद्वक्ता के समय इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, पर नामान सूर्यानी को छोड़ उन में से कोई शुरु नहीं किया गया। २८ ये बातें सुनने ही जितने धाराधनालय में थे, सब क्रोध से भर गए। २९ और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला, और जिस पहाड़ पर उन का नगर बसा हुआ था, उस की चोटी पर ले चले, कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें। ३० पर वह उन के बीच में से निकलकर चला गया ॥

* यू० इब्रहीलिस ।

† यू० शिबाम के दिन ।

* यू० शानी में ।

३१ फिर वह गलील के कफरनहूम नगर में गया, और सब * के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। ३२ वे उस के उपदेश से चकित हो गए क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था।

३३ शाराधनालय में एक मनुष्य था, जिस में अशुद्ध आत्मा थी। ३४ वह ऊंचे मन्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझे से क्या काम? क्या तू हमें नास करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है।

३५ यीशु ने उसे डांटकर कहा, चुप रह : और उस में से निकल जा : तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटककर बिना हानि पहुंचाए उस में से निकल गई। ३६ इस पर सब को अचम्भा हुआ, और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है? कि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है, और वे निकल जाती हैं। ३७ सो चारों ओर हर जगह उस की धूम मच गई।

३८ वह शाराधनालय में से उठकर शमीन के घर में गया और शमीन की सास को ज्वर चढ़ा हुआ था, और उन्होंने ने उसके लिये उस में बिनती की। ३९ उस ने उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और वह उस पर से उतर गया और वह तुरन्त उठकर उन की सेवा-दहल करने लगी।

४० सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए, और उन ने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। ४१ और दुष्टात्मा भी

चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई पर वह उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था, क्योंकि वे जानते थे, कि यह मसीह है।

४२ जब दिन हुआ तो वह निकलकर एक जंगली जगह में गया, और भीड़ की भीड़ उसे बूझती हुई उसके पास आई, और उसे रोकने लगी, कि हमारे पास से न जा। ४३ परन्तु उस ने उन से कहा; मुझे और और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुभाषार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसी लिये भेजा गया हूँ।

४४ और वह गलील के शाराधनालयों में प्रचार करता रहा।

५ जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, और परमेश्वर का वचन सुनती थी, और वह गल्लेसरत की भील के किनारे पर लड़ा था, तो ऐसा हुआ। २ कि उन ने भील के किनारे दो नावें लगी हुई देखीं, और मछुवे उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। ३ उन नावों में से एक पर जो शमीन की थी, चढ़कर, उस ने उस से बिनती की, कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले, तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। ४ जब वह बातें कर चुका, तो शमीन से कहा, गहिरें में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिये अपने जाल डालो। ५ शमीन ने उसको उत्तर दिया, कि हे स्वामी, हम ने सारी रात मिहनत की और कुछ न पकड़ा; तौभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। ६ जब उन्होंने ने ऐसा किया, तो बहुत मछलियां घेर लाए, और उन के जाल पटने लगे। ७ इस पर उन्होंने ने अपने साथियों को जो दूसरी नाव

* तू० विश्राम के दिन।

पर थे, संकेत किया, कि आकर हमारी सहायता करो : और उन्होंने ने आकर, दोनों नाव यहाँ तक भर लीं कि वे डूबने लगीं ।
 ८ यह देखकर शमोन पतरस यीशु के पाँवों पर गिरा, और कहा; हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ ।
 ९ क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचम्भा हुआ । १० और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमोन के सहभागी थे, अचम्भा हुआ : तब यीशु ने शमोन से कहा, मत डर : अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा । ११ और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए ॥

१२ जब वह किसी नगर में था, तो देखो, वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुँह के बल गिरा, और बिनती की; कि हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है ।
 १३ उस ने हाथ बढ़ाकर उसे छूआ और कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा : और उसका कोढ़ तुरन्त जाता रहा । १४ तब उस ने उसे चिताया, कि किसी से न कह, परन्तु जाके अपने आप को याजक को दिखा, और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा; कि उन पर गवाही हो । १५ परन्तु उस की चर्चा और भी फैलती गई, और भीड़ की भीड़ उस की सुनने के लिये और अपनी बीमारियों से चंगे होने के लिये इकट्ठी हुई । १६ परन्तु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था ॥

१७ और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील

और यहूदिया के हर एक गांव से, और यरूशलेम से आए थे; और चंगा करने के लिये प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी ।
 १८ और देखो कई लोग एक मनुष्य को जो भोले का मारा हुआ था, खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के साम्हने रखने का उपाय बूढ़ रहे थे । १९ और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने ने कोठे पर चढ़ कर और खप्रेल हटाकर, उसे खाट समेत बीच में यीशु के साम्हने उतार दिया ।
 २० उस ने उन का विश्वास देखकर उस से कहा; हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए ।
 २१ तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, कि यह कौन है, जो परमेश्वर की निन्दा करता है ? परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है ? २२ यीशु ने उन के मन की बातें जानकर, उन से कहा कि तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो ? २३ सहज क्या है ? क्या यह कहना, कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ, और चल फिर ? २४ परन्तु इसलिये कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है (उस ने उस भोले के मारे हुए से कहा), मैं तुम से कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा । २५ वह तुरन्त उन के साम्हने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर, परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया । २६ तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, और बहुत डरकर कहने लगे, कि आज हम ने अनोखी बातें देखी हैं ॥

२७ और इसके बाद वह बाहर गया, और लेवी नाम एक चुङ्गी लेनेवाले को

चुङ्गी की चौकी पर बैठे देखा, और उस से कहा, मेरे पीछे हो ले। २८ तब वह सब कुछ छोड़कर उठा, और उसके पीछे हो लिया। २९ और लेवी ने अपने घर में उसके लिये बड़ी जेवनार की; और चुङ्गी लेने-वालों की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। ३० और फरीसी और उन के शास्त्री उस के चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, कि तुम चुङ्गी लेनेवालों और पापियों के साथ क्यों खाने-पीते हो? ३१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि वैद्य भले चंगों के लिये नहीं, परन्तु बीमारों के लिये अवश्य हैं। ३२ मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को मन फिराने के लिये बुलाने आया हूँ। ३३ और उन्होंने ने उस से कहा, यूहन्ना के चले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के भी, परन्तु तेरे चले तो खाते-पीते हैं! ३४ यीशु ने उन से कहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उन के साथ रहे, उपवास करवा सकते हो? ३५ परन्तु वे दिन आएंगे, जिन में दूल्हा उन से अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे। ३६ उस ने एक और दृष्टान्त भी उन से कहा, कि कोई मनुष्य नये पहिरावन में से फाड़कर पुराने पहिरावन में पैवन्द नहीं लगाता, नहीं तो नया फट जाएगा और वह पैवन्द पुराने में मेल भी नहीं खाएगा। ३७ और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाएगा, और मशकें भी नाश हो जाएंगी। ३८ परन्तु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिये। ३९ कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं

चाहता क्योंकि वह कहता है, कि पुराना ही अच्छा है ॥

६ फिर सब * के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चले बालें तोड़ तोड़कर, और हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। २ तब फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब के दिन करना उचित नहीं? ३ यीशु ने उन को उत्तर दिया; क्या तुम ने यह नहीं पढ़ा, कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? ४ वह क्योंकर परमेश्वर के घर में गया, और भेंट की रोटियां लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दीं? ५ और उस ने उन से कहा; मनुष्य का पुत्र सब के दिन का भी प्रभु है ॥

६ और ऐसा हुआ कि किसी और सब के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा; और वहां एक मनुष्य था, जिस का दहिना हाथ सूखा था। ७ शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिये उस की ताक में थे, कि देखें कि वह सब के दिन चंगा करता है कि नहीं। ८ परन्तु वह उन के विचार जानता था; इसलिये उसने सूखे हाथवाले मनुष्य से कहा; उठ, बीच में खड़ा हो; वह उठ खड़ा हुआ। ९ यीशु ने उन से कहा; मैं तुम से यह पूछता हूँ कि सब के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना; प्राण को बचाना या नाश करना? १० और उस ने चारों ओर उन सभी को देखकर उस मनुष्य

* ५० विश्राम के दिन।

से कहा; अपना हाथ बढ़ा: उस ने ऐसा ही किया, और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। ११ परन्तु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें?

१२ और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई।

१३ जब दिन हुआ, तो उस ने अपने चेलों को बुलाकर उन में से बारह चुन लिए, और उन को प्रेरित कहा। १४ और वे ये हैं शमीन जिस का नाम उस ने पतरस भी रखा; और उसका भाई अन्द्रियास और याकूब और यहूना और फिलिप्पुस और बरतुलमै। १५ और मत्ती और थोमा और हलफई का पुत्र याकूब और शमीन जो जेलोतेस कहलाता है। १६ और याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस-करियोती, जो उसका पकड़वानेवाला बना। १७ तब वह उन के साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों की बड़ी भीड़, और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुतेरे लोग, जो उस की सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिये उसके पास आए थे, वहां थे। १८ और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी अच्छे किए जाते थे। १९ और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उस में से सामर्थ निकलकर सब को चंगा करती थी ॥

२० तब उस ने अपने चेलों की ओर देखकर कहा; धन्य हो तुम, जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। २१ धन्य हो तुम, जो अब भूखे हो; क्योंकि तृप्त किए जाओगे; धन्य हो तुम,

जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। २२ धन्य हो तुम, जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुम से बैर करेंगे, और तुम्हें निकाल देंगे, और तुम्हारी निन्दा करेंगे, और तुम्हारा नाम बुरा जातकर काट देंगे। २३ उस दिन आनन्दित होकर उछलना, क्योंकि देखो, तुम्हारे लिये स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है: उन के बाप-दादे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। २४ परन्तु हाथ तुम पर; जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शान्ति पा चुके। २५ हाथ, तुम पर; जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे: हाथ, तुम पर; जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। २६ हाथ, तुम पर; जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उन के बाप-दादे भूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे ॥

२७ परन्तु मैं तुम सुननेवालों से कहता हूँ, कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो; जो तुम से बैर करें, उन का भला करो। २८ जो तुम्हें स्राप दें, उन को आशीष दो: जो तुम्हारा अपमान करें, उन के लिये प्रार्थना करो। २९ जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उस की ओर दूसरा भी फेर दे; और जो तेरी दोहर छीन ले, उस को कुरता लेने से भी न रोक। ३० जो कोई तुझ से मांगे, उसे दे; और जो तेरी वस्तु छीन ले, उस से न मांग। ३१ और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उन के साथ वैसा ही करो। ३२ यदि तुम अपने प्रेम रखनेवालों के साथ प्रेम रखो, तो तुम्हारी क्या बढ़ाई? क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखनेवालों के साथ प्रेम रखते हैं। ३३ और यदि तुम अपने भलाई करनेवालों ही के साथ भलाई

करते हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। ३४ और यदि तुम उन्हें उधार दो, जिन से फिर पाने की आशा रखने हो, तो तुम्हारी क्या बड़ाई? क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं, कि उनना ही फिर पाएं। ३५ वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, और भलाई करो: और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो; और तुम्हारे लिये बड़ा फल होगा: और तुम परमप्रधान के सन्तान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करने और बुरों पर भी कृपालु हैं। ३६ जैसा तुम्हारा पिता दयावन्त है, वैसे ही तुम भी दयावन्त बनो। ३७ दोष मत लगाओ; तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा: दोषी न ठहराओ, तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे: क्षमा करो, तो तुम्हारी भी क्षमा की जाएगी। ३८ दिया करो, तो तुम्हें भी दिया जाएगा: लोग पूरा नाप दवा दवाकर और हिला हिलाकर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापने हो, उसी से तुम्हारे लिये भी नापा जाएगा ॥

३९ फिर उस ने उन से एक दृष्टान्त कहा; क्या अन्धा, अन्धे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड़हे में नहीं गिरेंगे? ४० चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परन्तु जो कोई सिद्ध होगा, वह अपने गुरु के समान होगा। ४१ तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, और अपनी ही आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता? ४२ और जब तू अपनी ही आंख का लट्टा नहीं देखता, तो अपने भाई से क्योंकर कह सकता है, हे भाई, ठहर जा तेरी आंख से तिनके को निकाल दू? हे कपटी, पहिले

अपनी आंख से लट्टा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है, भली भांति देखकर निकाल सकेगा। ४३ कोई अच्छा पेड़ नहीं, जो निकम्मा फल लाए, और न तो कोई निकम्मा पेड़ है, जो अच्छा फल लाए। ४४ हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है; क्योंकि लोग भाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, और न भड़वेरी से अंगूर। ४५ भला मनुष्य अपने मन के भले भएडार से भली बातें निकालता है; और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भएडार से बुरी बातें निकालता है; क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है ॥

४६ जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तो क्यों मुझे हे प्रभु, हे प्रभु, कहते हो? ४७ जो कोई मेरे पास आता है, और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किस के समान है? ४८ वह उस मनुष्य के समान है, जिस ने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नंव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परन्तु उसे हिला न सकी; क्योंकि वह पक्का बना था। ४९ परन्तु जो सुनकर नहीं मानता, वह उस मनुष्य के समान है, जिस ने मिट्टी पर बिना नंव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी, तो वह तुरन्त गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया ॥

७ जब वह लोगों को अपनी सारी बातें सुना चुका, तो कफरनहूम में आया। २ और किसी सूत्रेदार का एक दास जो उसका प्रिय था, बीमारी से मरने पर था। ३ उस ने यीशु की चर्चा सुनकर यहूदियों के कई पुरनियों को उस से यह बिनती करने को उसके पास भेजा,

कि आकर मेरे दास को चंगा कर। ४ वे यीशु के पास आकर उस से बड़ी विनती करके कहने लगे, कि वह इस योग्य है, कि तू उसके लिये यह करे। ५ क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम रखता है, और उसी ने हमारे आराधनालय को बनाया है। ६ यीशु उन के साथ साथ चला, पर जब वह घर से दूर न था, तो सूत्रेदार ने उसके पास कई मित्रों के द्वारा कहला भेजा, कि हे प्रभु दुख न उठा, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं, कि तू मेरी छत के तले आए। ७ इसी कारण मैं ने अपने आप को इस योग्य भी न समझा, कि तेरे पास आऊं, पर वचन ही कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ८ मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ; और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूँ, जा, तो वह जाता है; और दूसरे से कहता हूँ कि आ, तो आता है; और अपने किसी दास को कि यह कर, तो वह उसे करता है। ९ यह सुनकर यीशु ने अचम्भा किया, और उस ने मुह फेरकर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुम से कहता हूँ, कि मैं ने इस्त्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। १० और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर, उस दास को चंगा पाया ॥

११ थोड़े दिन के बाद वह नाईन नाम के एक नगर को गया, और उसके चेले, और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। १२ जब वह नगर के फाटक के पास पहुँचा, तो देखो, लोग एक मुरदे को बाहर लिए जा रहे थे; जो अपनी मां का एकलौता पुत्र था, और वह विधवा थी; और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। १३ उसे देख कर प्रभु को तरस आया, और उस से कहा; मत रो। १४ तब उस ने पास

आकर अर्थी को छूआ; और उठानेवाले ठहर गए तब उस ने कहा; हे जवान, मैं तुझ से कहता हूँ, उठ। १५ तब वह मुरदा उठा वंठा, और बोलने लगा; और उस ने उसे उस की मां को सौंप दिया। १६ इस से सब पर भय छा गया; और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यद्वक्ता उठा है, और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। १७ और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आस पास के सारे देश में फैल गई ॥

१८ और यहून्ना को उसके चेलों ने इन सब बातों का समाचार दिया। १९ तब यहून्ना ने अपने चेलों में से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिये भेजा; कि क्या आनेवाला तू ही है, या हम किसी और दूसरे की बात देखे? २० उन्होंने ने उसके पास आकर कहा, यहून्ना अपतिस्मा देनेवाले ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है, कि क्या आनेवाला तू ही है, या हम दूसरे की बात जोहें? २१ उसी घड़ी उम ने बहुतों को बीमारियों, और पीड़ाओं, और दुष्टात्माओं से छुड़ाया; और बहुत से अन्धों को आंखें दीं। २२ और उस ने उन से कहा; जो कुछ तुम ने देखा और सुना है, जाकर यहून्ना से कह दो; कि अन्धे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहिरे सुनते हैं, मुरदे जिलाए जाते हैं; और कंगालों को सुममाचार सुनाया जाता है। २३ और धन्य है वह, जो मेरे कारण ठोकर न खाए ॥

२४ जब यहून्ना के भेजे हुए लोग चल दिए, तो यीशु यहून्ना के विषय में लोगों से कहने लगा; तुम जंगल में क्या देखने गए

ये? क्या हवा से हिलते हुए सरकण्डे को? २५ तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहिने हुए मनुष्य को? देखो, जो भड़कीला वस्त्र पहिने, और मुख विलास से रहते हैं, वे राजभवनों में रहते हैं। २६ तो फिर क्या देखने गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को? हां, मैं तुम से कहता हूँ, बरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। २७ यह वही है, जिस के विषय में लिखा है, कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो तेरे आगे मार्ग सीधा करेगा। २८ मैं तुम से कहता हूँ, कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, उन में से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं: पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है, वह उस से भी बड़ा है। २९ और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुङ्गी लेनेवालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। ३० पर फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उस से बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। ३१ सो मैं इस युग के लोगों की उपमा किस से दू कि वे किस के समान हैं? ३२ वे उन बालकों के समान हैं जो बाजार में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं, हम ने तुम्हारे लिये बांसली बजाई, और तुम न नाचे, हम ने विलाप किया, और तुम न रोए! ३३ क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला न रोटी खाता आया, न दाखरस पीता आया, और तुम कहते हो, उस में दुष्टात्मा है। ३४ मनुष्य का पुत्र खाता-पीता आया है; और तुम कहते हो, देखो, पेटू और पियकड़ मनुष्य, चुङ्गी लेनेवालों का और पापियों का मित्र। ३५ पर ज्ञान अपनी सब सन्तानों से सच्चा ठहराया गया है ॥

३६ फिर किसी फरीसी ने उस से बिनती की, कि मेरे साथ भोजन कर; सो वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। ३७ और देखो, उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। ३८ और उसके पांवों के पास, पीछे खड़ी होकर, रती हुई, उसके पांवों को आंसुओं से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ३९ यह देखकर, वह फरीसी जिस ने उसे बुलाया था, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता, कि यह जो उसे छू रही है, वह कौन और कौसी स्त्री है? क्योंकि वह तो पापिनी है। ४० यह सुन यीशु ने उसके उत्तर में कहा; कि हे शमीन मुझे तुझ से कुछ कहना है वह बोला, हे गुरु कह। ४१ किसी महाजन के दो देनदार थे, एक पांच सौ, और दूसरा पचास दीनार* धारता था। ४२ जब कि उन के पास पटाने को कुछ न रहा, तो उस ने दोनों को क्षमा कर दिया: सो उन में से कौन उम से अधिक प्रेम रखेगा। ४३ शमीन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह, जिस का उस ने अधिक छोड़ दिया †: उस ने उस से कहा, तू ने ठीक विचार किया है। ४४ और उस स्त्री की ओर फिरकर उस ने शमीन से कहा; क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परन्तु तू ने मेरे पांव धोने के लिये पानी न दिया, पर इस ने मेरे पांव आंसुओं से भिगाए, और अपने

* देखो मत्ती १८: २८।

† यू० क्षमा किया।

वालों से पोंछा ! ४५ तू ने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इस ने मेरे पांवों का चूमना न छोड़ा। ४६ तू ने मेरे सिर पर तेल नहीं मला; पर इस ने मेरे पांवों पर इत्र मला है। ४७ इसलिये मैं तुझ से कहता हूँ; कि इस के पाप जो बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इस ने बहुत प्रेम किया; पर जिस का थोड़ा क्षमा हुआ है, वह थोड़ा प्रेम करता है। ४८ और उस ने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। ४९ तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? ५० पर उस ने स्त्री से कहा; तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा ॥

इस के बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ, और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ, फिरने लगा। २ और वे बारह उसके साथ थे: और कितनी स्त्रियां भी जो दुष्टात्माओं से और बीमारियों में छुड़ाई गई थीं, और वे यह हैं, मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिस में से सात दुष्टात्माएँ निकली थीं। ३ और हेरोदेस के भण्डारी खोजा की पत्नी योगन्ना और सूसानाह और बहुत सी और स्त्रियां: ये तो अपनी सम्पत्ति से उस की सेवा करती थीं ॥

४ जब वड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उस ने दृष्टान्त में कहा। ५ कि एक बोगे वाला बीज बोने निकला: बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और रोदा गया, और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। ६ और कुछ चट्टान पर गिरा, और उपजा,

परन्तु तरी न मिलने से सूख गया। ७ कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा, और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया। ८ और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और उगकर सी गुणा फल लाया: यह कहकर, उस ने ऊंचे शब्द से कहा; जिस के सुनने के कान हों वह सुन ले ॥

९ उसके चेलों ने उस से पूछा, कि यह दृष्टान्त क्या है? उस ने कहा; १० तुम को परमेश्वर के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर औरों को दृष्टान्तों में सुनाया जाता है, इसलिये कि वे देखते हुए भी न देखें, और सुनते हुए भी न समझें। ११ दृष्टान्त यह है; बीज तो परमेश्वर का वचन है। १२ मार्ग के किनारे के वे हैं, जिन्होंने सुना; तब शैतान * आकर उन के मन में से वचन उठा ले जाता है, कि कहीं ऐसा न हो कि वे विश्वास करके उठार पाएँ। १३ चट्टान पर के वे हैं, कि जब सुनते हैं, तो आनन्द से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परन्तु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं, और परीक्षा के समय वहक जाते हैं। १४ जो झाड़ियों में गिरा, सो वे हैं, जो सुनते हैं, पर होते होते चिन्ता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं, और उन का फल नहीं पकता। १५ पर अच्छी भूमि में के वे हैं, जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में सम्भाले रहते हैं, और धीरे से फल लाते हैं ॥

१६ कोई दीया द्वार के दरजन से नहीं छिपाता, और न खाट के नीचे रखता है, परन्तु दीबट पर रखता है, कि भीतर आने-वाले प्रकाश पाएँ। १७ कुछ छिपा नहीं,

जो प्रगट न हो; और न कुछ गुप्त है, जो जाना न जाए, और प्रगट न हो। १८ इसलिये चौकस रहो, कि तुम किस रीति से सुनते हो? क्योंकि जिस के पास है, उसे दिया जाएगा; और जिस के पास नहीं है, उस से वह भी ले लिया जाएगा, जिसे वह अपना समझता है ॥

१९ उस की माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उस से भेंट न कर सके। २० और उस से कहा गया, कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझ से मिलना चाहते हैं। २१ उस ने उसके उत्तर में उन से कहा; कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं ॥

२२ फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े, और उस ने उन से कहा; कि आओ, झील के पार चलें: सो उन्होंने ने नाव खोल दी। २३ पर जब नाव चल रही थी, तो वह सो गया: और झील पर आन्धी आई, और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। २४ तब उन्होंने ने पास आकर उसे जनाया, और कहा; स्वामी! स्वामी! हम नाश हुए जाते हैं: तब उस ने उठकर आन्धी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए, और चैन हो गया। २५ और उम ने उन से कहा; तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए, और अचम्भित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है? जो आन्धी और पानी को भी आज्ञा देता है, और वे उस की मानते हैं ॥

२६ फिर वे गिरासेनियों के देश में पहुँचे, जो उम पार गलील के साम्हने है। २७ जब वह किनारे पर उतरा, तो उस

नगर का एक मनुष्य उसे मिला, जिस में दुष्टात्माएं थीं और बहुत दिनों से न कपड़े पहिन्ता था और न घर में रहता था वरन कब्रों में रहा करता था। २८ वह धीसु को देखकर चिल्लाया, और उसके साम्हने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा; हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीसु, मुझे तुझ से क्या काम! मैं तेरी बिनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। २९ क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था, इसलिये कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी; और यद्यपि लोग उसे सांकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तीभी वह बन्धनों को तोड़ डालता था, और दुष्टात्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। ३० यीसु ने उस से पूछा; तेरा क्या नाम है? उस ने कहा, सेना; क्योंकि बहुत दुष्टात्माएं उस में पैठ गई थीं। ३१ और उन्होंने ने उस से बिनती की, कि हमें भयाह गड़हे में जाने की आज्ञा न दे। ३२ वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुण्ड चर रहा था. सो उन्होंने ने उस से बिनती की, कि हमें उन में पैठने दे, सो उस ने उन्हें जाने दिया। ३३ तब दुष्टात्माएं उस मनुष्य से निकलकर सूअरों में गईं और वह झुण्ड कड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब भरा। ३४ चरवाहे यह जो हुआ था देखकर भागे, और नगर में, और गांवों में जाकर उसका समाचार कहा। ३५ और लोग यह जो हुआ था उसके देखने को निकले, और यीसु के पास आकर जिस मनुष्य ने दुष्टात्माएं निकली थीं, उसे यीसु के पांवों के पास कपड़े पहिने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। ३६ और देखनेवालों ने उन को बताया, कि वह दुष्टात्मा का सताया हुआ मनुष्य किस

प्रकार अर्च्छा हुआ। ३७ तब गिरासेनियों के आस पास के सब लोगों ने यीशु से बिनती की; कि हमारे यहां से चला जा; क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था: सो वह नाव पर चढ़कर लौट गया। ३८ जिस मनुष्य से दुष्टात्माएं निकली थीं वह उस से बिनती करने लगा, कि मुझे अपने साथ रहने दे, परन्तु यीशु ने उसे विदा करके कहा। ३९ अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे, कि परमेश्वर ने तेरे लिये कैसे बड़े बड़े काम किए हैं: वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा, कि यीशु ने मेरे लिये कैसे बड़े बड़े काम किए। ४० जब यीशु लौट रहा था, तो लोग उस से आनन्द के साथ मिले; क्योंकि वे सब उस की बात जोह रहे थे। ४१ और देखो, याईर नाम एक मनुष्य जो आराधनालय का सरदार था, आया, और यीशु के पांवों पर गिर के उस से बिनती करने लगा, कि मेरे घर चल। ४२ क्योंकि उसके बारह वर्ष की एकलौती बेटी थी, और वह मरने पर थी: जब वह जा रहा था, तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे।

४३ और एक स्त्री ने जिस को बारह वर्ष से लोहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका बच्चों के पीछे व्यय कर चुकी थी और तौभी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। ४४ पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छूया, और तुरन्त उसका लोहू बहना थम गया। ४५ इस पर यीशु ने कहा, मुझे किस ने छूया? जब सब मुकरने लगे, तो पतरस और उसके साथियों ने कहा; हे स्वामी, तुम्हें तो भीड़ दबा रही है और तुम्ह पर गिरी पड़ती है। ४६ परन्तु यीशु ने कहा; किसी ने मुझे छूया है क्योंकि मैं ने जान लिया है कि

मुझ में से सामर्थ्य निकली है। ४७ जब स्त्री ने देखा, कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई, और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के साम्हने बताया, कि मैं ने किस कारण से तुम्हें छूया, और क्योंकिर तुरन्त चंगी हो गई। ४८ उस ने उस से कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है, कुशल से चली जा।

४९ वह यह कह ही रहा था, कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा, तेरी बेटी मर गई: गुरु को दुख न दे। ५० यीशु ने सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर; केवल विश्वास रख; तो वह बच जाएगी। ५१ घर में आकर उस ने पतरस और यूहन्ना और याकूब और लड़की के माता-पिता को छोड़ और किसी को अपने साथ भीतर आने न दिया। ५२ और सब उसके लिये रो पीट रहे थे, परन्तु उस ने कहा; रोओ मत; वह मरी नहीं परन्तु सो रही है। ५३ वे यह जानकर, कि मर गई है, उस की हंसी करने लगे। ५४ परन्तु उस ने उसका हाथ पकड़ा, और पुकारकर कहा, हे लड़की उठ! ५५ तब उसके प्राण फिर आए और वह तुरन्त उठी, फिर उस ने आज्ञा दी, कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। ५६ उसके माता-पिता चकित हुए, परन्तु उस ने उन्हें चिताया, कि यह जो हुआ है, किसी से न कहना।

६ फिर उस ने बारहों को बुलाकर उन्हें सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। २ और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने, और बीमारों को अर्च्छा करने के लिये भेजा। ३ और उस ने उन से कहा, मार्ग के लिये कुछ न लेना: न तो

लाठी, न भोली, न रोटी, न रुपये और न दो दो करते। ४ और जिस किसी घर में तुम उत्तरो, वहीं रहो; और वहीं से विदा हो। ५ जो कोई तुम्हें ग्रहण न करेगा उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल भाड़ डालो, कि उन पर गवाही हो। ६ सो वे निकलकर गांव गांव सुममाचार सुनाते, और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे ॥

७ और देश को चौथाई का राजा हेरोदेस यह सब सुनकर घबरा गया, क्योंकि कितनों ने कहा, कि यूहन्ना मरे हुओं में से जी उठा है। ८ और कितनों ने यह, कि एलिय्याह दिखाई दिया है: और औरों ने यह, कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। ९ परन्तु हेरोदेस ने कहा, यूहन्ना का तो मैं ने सिर कटवाया अब यह कौन है, जिस के विषय में ऐसी बातें सुनता हूं? और उस ने उसे देखने की इच्छा की ॥

१० फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने ने किया था, उस को बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसंदा नाम एक नगर को ले गया। ११ यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली: और वह आनन्द के साथ उन से मिला, और उन से परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा: और जो चंगे होना चाहते थे, उन्हें चंगा किया। १२ जब दिन ढलने लगा, तो बारहों ने आकर उस से कहा, भीड़ को विदा कर, कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर टिकें, और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहां सुनसान जगह में हैं। १३ उस ने उन से कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो: उन्होंने ने कहा, हमारे पास पांच रोटियां और दो मछली को छोड़ और कुछ

नहीं: परन्तु हां, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिये भोजन मोल लें, तो हो सकता है: वे लोग तो पांच हजार पुरुषों के लगभग थे। १४ तब उस ने अपने चेलों से कहा, उन्हें पचास पचास करके पांति पांति बँटा दो। १५ उन्होंने ने ऐसा ही किया, और सब को बँटा दिया। १६ तब उस ने वे पांच रोटियां और दो मछली लीं, और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया, और तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया, कि लोगों को परोसें। १७ सो सब खाकर तृप्त हुए, और बचे हुए टुकड़ों से बारह टोकरी भरकर उठाई ॥

१८ जब वह एकान्त में प्रार्थना कर रहा था, और चेले उसके साथ थे, तो उस ने उन से पूछा, कि लोग मुझे क्या कहते हैं? १९ उन्होंने ने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देनेवाला, और कोई कोई एलिय्याह, और कोई यह कि पुराने भविष्यद्वक्ताओं में से कोई जी उठा है। २० उस ने उन से पूछा, परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। २१ तब उस ने उन्हें चिताकर कहा, कि यह किसी से न कहना। २२ और उस ने कहा, मनुष्य के पुत्र के लिये अवश्य है, कि वह बहुत दुख उठाए, और पुरनिए और महा-याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें, और वह तीसरे दिन जी उठे। २३ उस ने सब से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, तो अपने आपे से इन्कार करे और प्रति दिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। २४ क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परन्तु जो कोई मेरे लिये अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। २५ यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, और अपना प्राण खो दे, या

उस की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? २६ जो कोई मुझ से और मेरी बातों से लजाएगा; मनुष्य का पुत्र भी जब अपने पिता की, और पवित्र स्वर्ग दूतों की, महिमा सहित आएगा, तो उस से लजाएगा। २७ मैं तुम से सब कहता हूँ, कि जो यहां खड़े हैं, उन में से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद न चखेंगे ॥

२८ इन बातों के कोई आठ दिन बाद वह पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिये पहाड़ पर गया। २९ जब वह प्रार्थना कर ही रहा था, तो उसके बेहरे का रूप बदल गया: और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। ३० और देखो, मूसा और एलियाह, ये दो पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। ३१ ये महिमा सहित दिखाई दिए; और उसके मरने * की चर्चा कर रहे थे, जो यरूशलेम में होनेवाला था। ३२ पतरस और उसके साथी नींद से भरे थे, और जब अच्छी तरह सचेत हुए, तो उस की महिमा; और उन दो पुरुषों को, जो उसके साथ खड़े थे, देखा। ३३ जब वे उसके पास से जाने लगे, तो पतरस ने यीशु से कहा; 'स्वामी, हमारा यहां रहना भला है: सो हम तीन मण्डप बनाएं, एक तेरे लिये, एक मूसा के लिये, और एक एलियाह के लिये। वह जानता न था, कि क्या कह रहा है। ३४ वह यह कह ही रहा था, कि एक बादल ने आकर उन्हें छा लिया, और जब वे उस बादल से घिरने लगे, तो डर गए। ३५ और उस बादल

में से यह शब्द निकला, कि यह मेरा पुत्र और मेरा चुना हुआ है, इस की सुनो। ३६ यह शब्द होते ही यीशु झकेला पाया गया: और वे चुप रहे, और जो कुछ देखा था, उस की कोई बात उन दिनों में किसी से न कही ॥

३७ और दूसरे दिन जब वे पहाड़ से उतरे, तो एक बड़ी भीड़ उस से आ मिली। ३८ और देखो, भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्ला कर कहा, हे गुरु, मैं तुझ से बिनती करता हूँ, कि मेरे पुत्र पर कृपादृष्टि कर; क्योंकि वह मेरा एकलौता है। ३९ और देख, एक दुष्टात्मा उसे पकड़ता है, और वह एकाएक चिल्ला उठता है; और वह उसे ऐसा मरोड़ता है, कि वह मुंह में फेन भर लाता है; और उसे कुचलकर कठिनाई से छोड़ता है। ४० और मैं ने तेरे चेलों से बिनती की, कि उसे निकालें; परन्तु वे न निकाल सके। ४१ यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठिले लोगो *, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और तुम्हारी सहंगा? अपने पुत्र को यहां ले आ। ४२ वह आ ही रहा था कि दुष्टात्मा ने उसे पटककर मरोड़ा, परन्तु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और लड़के को अच्छा करके उसके पिता को सौंप दिया। ४३ तब सब लोग परमेश्वर के महासामर्थ से चकित हुए ॥

४४ परन्तु जब सब लोग उन सब कामों से जो वह करता था, अचम्भा कर रहे थे, तो उस ने अपने चेलों से कहा; ये बातें तुम्हारे कानों में पड़ी रहें, क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाने को है। ४५ परन्तु वे इस बात को न

* यू विदा होने।

* यू पीदी।

समझते थे, और यह उन से छिपी रही; कि वे उसे जानने न पाएँ, और वे इस बात के विषय में उस से पूछने से डरते थे ॥

४६ फिर उन में यह विवाद होने लगा, कि हम में से बड़ा कौन है? ४७ पर यीशु ने उन के मन का विचार जान लिया: और एक बालक को लेकर अपने पास खड़ा किया। ४८ और उन से कहा; जो कोई मेरे नाम से इस शानक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो कोई मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजनेवाले को ग्रहण करता है क्योंकि जो तुम में सब से छोटे से छोटा है, वही बड़ा है ॥

४९ तब यूहन्ना ने कहा, हे स्वामी, हम ने एक मनुष्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हम ने उसे मना किया, क्योंकि वह हमारे साथ होकर तेरे पीछे नहीं हो लेता। ५० यीशु ने उस से कहा, उसे मना मत करो; क्योंकि जो तुम्हारे विरोध में नहीं, वह तुम्हारी और है ॥

५१ जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे, तो उस ने यरूशलेम को जाने का विचार* दृढ़ किया। ५२ और उस ने अपने भ्राजे दूत भेजे: वे सामग्रियों के एक गांव में गए, कि उसके लिए जगह तैयार करें। ५३ परन्तु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया, क्योंकि वह यरूशलेम को जा रहा था। ५४ यह देखकर उसके बेलें याकूब और यूहन्ना ने कहा; हे प्रभु, क्या तू चाहता है, कि हम आज्ञा दें, कि आकाश से भ्राज गिरकर उन्हें भस्म कर दें। ५५ परन्तु उस ने फिरकर उन्हें डाटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी

आत्मा के हो। ५६ क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं बरन बचाने के लिए आया है: और वे किसी और गांव में चले गए ॥

५७ जब वे मार्ग में चले जाते थे, तो किमी ने उस से कहा, जहां जहां तू जाएगा, मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ५८ यीशु ने उस से कहा, तोमड़ियों के भट और आकाश के पक्षियों के वैसे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। ५९ उस ने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले; उस ने कहा; हे प्रभु, मुझे पहिले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दू। ६० उस ने उस से कहा, मेरे हुआं को अपने मुरदे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। ६१ एक और ने भी कहा; हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा; पर पहिले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा हो जाऊं। ६२ यीशु ने उस से कहा; जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं ॥

१० और इन बातों के बाद प्रभु ने मत्त और मनुष्य नियुक्त किए और जिम जिम नगर और जगह को वह भ्राज जाने पर था, वहां उन्हें दो दो करके अपने भ्राजे भेजा। २ और उस ने उन से कहा; पक्के खेत बहुत हैं; परन्तु मजदूर थोड़े हैं: इसलिये खेत के स्वामी से विनतः करो, कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दें। ३ जाओ: देखो मैं तुम्हें भेड़ों की नई भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ४ इसलिये न बटुआ, न भोली, न जूते लो, और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। ५ जिम किसी घर में जाओ, पहिल कहो, कि इस घर पर कल्याण हो। ६ यदि वहां

कोई कल्याण के योग्य होगा; तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। ७ उसी घर में रहो, और जो कुछ उन से मिले, वही खाओ पीओ, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए: घर घर न फिरना। ८ और जिस नगर में जाओ, और वहां के लोग तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए वही खाओ। ९ वहां के बीमारों को चंगा करो: और उन से कहो, कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। १० परन्तु जिस नगर में जाओ, और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण न करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो। ११ कि तुम्हारे नगर की धूल भी, जो हमारे पांवों में लगी है, हम तुम्हारे साम्हने भाड़ देते हैं, तोभी यह जान लो, कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। १२ में तुम से कहता हूं, कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा सहने योग्य होगी। १३ हाय खुराजोन! हाय बैतसैदा! जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते, तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। १४ परन्तु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा सहने योग्य होगी। १५ और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। १६ जो तुम्हारी सुनता है, वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है, वह मुझे तुच्छ जानता है; और जो मुझे तुच्छ जानता है, वह मेरे भेजनेवाले को तुच्छ जानता है।

१७ वे शस्त्र आनन्द से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में हैं। १८ उस ने उन से कहा;

में शैतान को बिजली की नाईं स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। १९ देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है; और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। २० तोभी इस से आनन्दित मत हो, कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परन्तु इस से आनन्दित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं।

२१ उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनन्द से भर गया, और कहा; हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, कि तू ने इन बातों को जानियों और समझदारों से छिपा रखा, और बालकों पर प्रगट किया: हां, हे पिता, क्योंकि तुम्हें यही अच्छा लगा। २२ मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है केवल पिता और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रगट करना चाहे। २३ और चेलों की ओर फिरकर निराले में कहा, धन्य हैं वे आंखें, जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती हैं। २४ क्योंकि मैं तुम से कहता हूं, कि बहुत से भविष्यद्वक्ताओं और राजाओं ने चाहा, कि जो बातें तुम देखते हो, देखें; पर न देखीं और जो बातें तुम सुनते हो सुनें, पर न सुनीं।

२५ और देखो, एक व्यवस्थापक उठा; और यह कहकर, उस की परीक्षा करने लगा; कि हे गुरु, अनन्त जीवन का वारिस होने के लिये मैं क्या करूं? २६ उस ने उस से कहा; कि व्यवस्था में क्या लिखा है? तू कैसे पढ़ता है? २७ उस ने उत्तर दिया, कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी

शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख; और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। २८ उस ने उस से कहा, तू ने ठीक उत्तर दिया, यही कर : तो तू जीवित रहेगा। २९ परन्तु उस ने अपनी तई धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है ? ३० यीशु ने उत्तर दिया; कि एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, कि डाकुओं ने घेरकर उसके कपड़े उतार लिए, और मारपीटकर उसे अधमूआ छोड़कर चले गए। ३१ और ऐमा हुआ, कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था : परन्तु उसे देख के कतराकर चला गया। ३२ इसी रीति से एक लेवी उम जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतराकर चला गया। ३३ परन्तु एक सामरी यात्री वहां आ निकला, और उसे देखकर तरस खाया। ३४ और उसके पास आकर और उसके घावों पर तेल और दाखरस ढालकर पट्टियां बान्धी, और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया, और उस की सेवा टहल की। ३५ दूसरे दिन उस ने दो दीनार * निकालकर भटियारे को दिए, और कहा; इस की सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। ३६ अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा ? ३७ उस ने कहा, वही जिस ने उस पर तरस खाया : यीशु ने उस से कहा, जा, तू भी ऐसा ही कर ॥

३८ फिर जब वे जा रहे थे, तो वह एक गांव में गया, और मार्या नाम एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। ३९ और मरियम नाम उस की एक बहिन थी; वह

प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। ४० पर मार्या सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी; हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहिन ने मुझे सेवा करने के लिये भकेली ही छोड़ दिया है ? सो उस से कह, कि मेरी सहायता करे। ४१ प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्या, हे मार्या; तू बहुत बातों के लिये चिन्ता करती और घबराती है। ४२ परन्तु एक बात * अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है : जो उस से छीना न जाएगा ॥

११ फिर वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था : और जब वह प्रार्थना कर चुका, तो उसके चेहों में से एक ने उस से कहा; हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेहों को प्रार्थना करना सिखलाया वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। २ उस ने उन से कहा; जब तुम प्रार्थना करो, तो कहो; हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ३ हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। ४ और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला ॥

५ और उस ने उन से कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उस से कहे, कि हे मित्र; मुझे तीन रोटियां दे †। ६ क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है, और उसके आगे रखने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है। ७ और वह भीतर से

* या पर थोड़ी या एक ही वस्तु अवश्य है।

† यूं उधार दे।

उत्तर दे, कि मुझे दुःख न दे; अब तो द्वार बन्द है, और मेरे बालक मेरे पास बिछीने पर हैं, इसलिये मैं उठकर तुम्हें दे नहीं सकता? ८ मैं तुम से कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तौभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। ९ और मैं तुम से कहता हूँ; कि मांगो, तो तुम्हें दिया जाएगा; दूढ़ो, तो तुम पाओगे; खटखटाओ, तो तुम्हारे लिये खोला जाएगा। १० क्योंकि जो कोई मांगता है, उसे मिलता है; और जो दूढ़ता है, वह पाता है; और जो खटखटाता है, उसके लिये खोला जाएगा। ११ तुम में से ऐसा कौन पिता होगा, कि जब उमका पुत्र रोटी मांगे, तो उसे पत्थर दे: या मछली मांगे, तो मछली के बदले उसे सांप दे? १२ या अण्डा मांगे तो उसे बिच्छू दे? १३ सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़कें-बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगनेवालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा ॥

१४ फिर उस ने एक गूंगी दुष्टात्मा को निकाला: जब दुष्टात्मा निकल गई, तो गूंगा बोलने लगा; और लोगों ने अचम्भा किया। १५ परन्तु उन में से कितनों ने कहा, यह तो शंतान * नाम दुष्टात्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। १६ औरों ने उस की परीक्षा करने के लिये उस से आकाश का एक चिन्ह मांगा। १७ परन्तु उस ने, उन के मन की बातें जानकर, उन से कहा; जिस जिस राज्य में फूट होती है, वह राज्य उजड़ जाता है: और जिस घर में फूट

होती है, वह नाश हो जाता है। १८ और यदि शंतान अपना ही विरोधी हो जाए, तो उसका राज्य क्योंकर बना रहेगा? क्योंकि तुम मेरे विषय में तो कहते हो, कि यह शंतान की सहायता से दुष्टात्मा निकालता है। १९ भला यदि मैं शंतान की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारी सन्तान किस की सहायता से निकालते हैं? इसलिये वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। २० परन्तु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य * से दुष्टात्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा। २१ जब बलवन्त मनुष्य हथियार बान्धे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तो उस की संपत्ति बची रहती है। २२ पर जब उस से बढ़कर कोई और बलवन्त चढ़ाई करके उसे जीत लेता है, तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था, छीन लेता है और उस की संपत्ति लूटकर बांट देता है। २३ जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है और जो मेरे साथ नहीं वदोस्त वह विचराना है। २४ जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम दूढ़ती फिरती है; और जब नहीं पाती तो कहती है; कि मैं अपने उम्मी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। २५ और आकर उसे झाड़ा-बुझारा और मजा-सजाया पाती है। २६ तब वह जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उस में पैठकर बास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहिले से भी बुरी हो जाती है ॥

२७ जब वह मे बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य वह गर्भ जिस में तू रहा; और वे स्तन, जो तू ने चूसे। २८ उस ने कहा, हां; परन्तु धन्य वे हैं, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं ॥

२९ जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा; कि इस युग के लोग * बुरे हैं; वे चिन्ह बढ़ते हैं; पर यूनस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। ३० जैसा यूनस नीनवे के लोगों के लिये चिन्ह ठहरा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिये ठहरेगा। ३१ दक्खिन की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर, उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो, यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। ३२ नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ लड़े होकर, उन्हें दोषी ठहराएं; क्योंकि उन्होंने ने यूनस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो, यहां वह है, जो यूनस से भी बड़ा है ॥

३३ कोई मनुष्य वीया बार के तलघरे में, या पीमाने † के नीचे नहीं रखता, परन्तु वीषट पर रखता है कि भीतर घानेवाले उजियाला पाएं। ३४ तेरे शरीर का वीया तेरी भ्रांति है, इसलिये जब तेरी भ्रांति निर्मल है; तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है; परन्तु जब वह बुरी है, तो तेरा शरीर भी अन्धेरा है। ३५ इसलिये चौकस रहना, कि जो उजियाला तुझ में है वह अन्धेरा न हो जाए। ३६ इसलिये यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो, और उसका कोई

भाग अन्धेरा न रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा, जैसा उस समय होता है, जब दीया अंधी चमक से तुझे उजाला देता है ॥

३७ जब वह बातें कर रहा था, तो किसी फरीसी ने उस से बिनती की, कि मेरे यहां भोजन कर; और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। ३८ फरीसी ने यह देखकर अचम्भा किया कि उस ने भोजन करने से पहिले स्नान नहीं किया। ३९ प्रनु ने उस से कहा, हे फरीसियो, तुम कटोरे और पाली को ऊपर ऊपर तो मांजते हो, परन्तु तुम्हारे भीतर अन्धेरे और दुष्टता भरी है। ४० हे निर्बुद्धियो, जिस ने बाहर का भाग बनाया, क्या उस ने भीतर का भाग नहीं बनाया? ४१ परन्तु हां, भीतरवाली वस्तुओं को दान कर दो, तो देखो, सब कुछ तुम्हारे लिये शुद्ध हो जाएगा ॥

४२ पर हे फरीसियो, तुम पर हाय ! तुम पोदीने और सुदाब का, और सब भांति के साग-मात का दसवां प्रंस देते हो, परन्तु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो : चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। ४३ हे फरीसियो, तुम पर हाय ! तुम घारा-धनालयों में मुख्य मुख्य घ्रासन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। ४४ हाय तुम पर ! क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो, जिन पर लोग चलते हैं, परन्तु नहीं जानते ॥

४५ तब एक व्यवस्थापक ने उस को उत्तर दिया, कि हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निन्दा करता है। ४६ उस ने कहा; हे व्यवस्थापको, तुम पर भी हाय ! तुम ऐसे बोझ जिन को उठाना कठिन है, मनुष्यों पर लादते हो परन्तु तुम घाप उन

* यू० पीदी।

† देखो मत्ती ५ : १५।

बोझों को अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। ४७ हाय तुम पर ! तुम उन भविष्यद्व्यक्तताओं की कब्रें बनाते हो, जिन्हें तुम्हारे ही बाप-दादों ने मार डाला था। ४८ सो तुम गवाह हो, और अपने बाप-दादों के कामों में सम्मत हो; क्योंकि उन्होंने ने तो उन्हें मार डाला और तुम उन की कब्रें बनाते हो। ४९ इसलिये परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है, कि मैं उन के पास भविष्यद्व्यक्तताओं और प्रेरितों को भेजूंगी : और वे उन में से कितनों को मार डालेंगे, और कितनों को सताएंगे। ५० ताकि जितने भविष्यद्व्यक्तताओं का लोहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया है, सब क. गोला, इस युग के लोगों * से लिया जाए। ५१ हावील की हत्या से लेकर अकरयाह की हत्या तक जो वेदी और मन्दिर † के बीच में घात किया गया : मैं तुम से संच कहता हूँ; उसका लेला इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। ५२ हाय तुम व्यवस्थापकों पर ! कि तुम ने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परन्तु तुम ने धापही प्रवेश नहीं किया, और प्रवेश करनेवालों को भी रोक दिया ॥

५३ जब वह त्रहा से निकला, तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे, कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे। ५४ और उस की घात में लगे रहे, कि उसके मुंह की कोई बात पकड़ें ॥

१२ इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, तो वह सब से पहिले अपने चेलों से कहने लगा, कि फरीसियों के

कपटरूपी खमीर से चौकस रहना। २ कुछ डपा नहीं, जो लोला न जाएगा; और न कुछ छिपा है, जो जाना न जाएगा। ३ इसलिये जो कुछ तुम ने धन्बेरे में कहा है, वह उजाले में सुवा जाएगा : और जो तुम ने कोठरियों में कानों कान कहा है, वह कोठों पर प्रचार किया जाएगा। ४ परन्तु मैं तुम से जो मेरे मित्र हो कहता हूँ, कि जो शरीर को घात करते हैं परन्तु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उन से मत डरो। ५ मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किस से डरना चाहिए, घात करने के बाद जिस को नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो : बरन मैं तुम से कहता हूँ, उसी से डरो। ६ क्या दो पैसे की पांच गौरियां नहीं बिकती ? तीभी परमेश्वर उन में से एक को भी नहीं भूलता। ७ बरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, सो डरो नहीं, तुम बहुत गौरियों से बढ़कर हो। ८ मैं तुम से कहता हूँ जो कोई मनुष्यों के साम्हने मुझे मान लेगा उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साम्हने मान लेगा। ९ परन्तु जो मनुष्यों के साम्हने मुझे इन्कार करे उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साम्हने इन्कार किया जाएगा। १० जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परन्तु जो पवित्र आत्मा की निन्दा करे, उसका अपराध क्षमा न किया जाएगा। ११ जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के साम्हने ले जाएं, तो चिन्ता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें, या क्या कहें। १२ क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा, कि क्या कहना चाहिए ॥

* सू० पीढ़ी।

† सू० पवित्रस्नान।

१३ फिर भीड़ में से एक ने उस से कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह, कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। १४ उस ने उस से कहा; हे मनुष्य, किस ने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटनेवाला नियुक्त किया है? १५ और उस ने उन से कहा, चौकस रहो, और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो: क्योंकि किसी का जीवन उस की संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। १६ उस ने उन से एक दुष्टान्त कहा, कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। १७ तब वह अपने मन में विचार करने लगा, कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं, जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। १८ और उस ने कहा; मैं यह करूंगा: मैं अपनी बसारियां तोड़ कर उन से बड़ी बनाऊंगा; १९ और वहां अपना सब भ्रम और संपत्ति रखूंगा: और अपने प्राण से कहूंगा, कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिये बहुत संपत्ति रखी है; चैन कर, खा, पी, सुख से रह। २० परन्तु परमेश्वर ने उस से कहा; हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा: तब जो कुछ तू ने इकट्ठा किया है, वह किस का होगा? २१ ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिये धन बटोरता है, परन्तु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं ॥

२२ फिर उस ने अपने चेलों से कहा; इसलिये मैं तुम से कहता हूं, अपने प्राण की चिन्ता न करो, कि हम क्या खाएंगे; न अपने शरीर की कि क्या पहिनेंगे। २३ क्योंकि भोजन से प्राण, और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। २४ कौबों पर ध्यान दो; वे न बोते हैं, न काटते; न उन के भण्डार और न खत्ता होता है; तौभी परमेश्वर उन्हें पालता है; तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक

है। २५ तुम में से ऐसा कौन है, जो चिन्ता करने से अपनी श्रवस्था में एक घड़ी * भी बढ़ा सकता है? २६ इसलिये यदि तुम सब से छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिये क्यों चिन्ता करते हो? २७ सोसनों के पेड़ों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं; वे न परिश्रम करते, न कातते हैं; तौभी मैं तुम से कहता हूं, कि मुलमान भी, अपने सारे विभव में, उन में से किसी एक के समान वस्त्र पहिने हुए न था। २८ इसलिये यदि परमेश्वर मैदान की घास को जो भ्राज है, और कल भाड़ में भोंकी जाएगी, ऐसा पहिनाता है; तो हे भ्रष्ट विश्वासियो, वह तुम्हें क्यों न पहिनाएगा? २९ और तुम इस बात की खोज में न रहो, कि क्या खाएंगे और क्या पीएंगे, और न सन्देह करो। ३० क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं: और तुम्हारा पिता जानता है, कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है। ३१ परन्तु उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ३२ हे छोटे भ्रूण्ड, मत डर; क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है, कि तुम्हें राज्य दे। ३३ अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो; और अपने लिये ऐसे बटुए बनाओ, जो पुराने नहीं होते, अर्थात् स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिस के निकट चोर नहीं जाता, और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। ३४ क्योंकि जहां तुम्हारा धन है, वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा ॥

३५ तुम्हारी कमरें बन्धी रहें, और तुम्हारे दीये जलते रहें। ३६ और तुम

उन मनुष्यों के समान बनो, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों, कि वह ब्याह से कब लौटेगा; कि जब वह आकर द्वार खटखटाए, तो तुरन्त उसके लिये खोल दें। ३७ धन्य है वे दास, जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बंटाएगा, और पास आकर उन की सेवा करेगा। ३८ यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य हैं। ३९ परन्तु तुम यह जान रखो, कि यदि घर का स्वामी जानता, कि चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता, और अपने घर में सँभ लगने न देता। ४० तुम भी तैयार रहो; क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जावेगा ॥

४१ तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टान्त तू हम ही से या सब से कहता है। ४२ प्रभु ने कहा; वह विश्वास-योग्य और बुद्धिमान भएडारी कौन है, जिस का स्वामी उसे नौकर चाकरोँ पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर सीधा दे। ४३ धन्य है वह दास, जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। ४४ मैं तुम से सच कहता हूँ; वह उसे अपनी सब संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। ४५ परन्तु यदि वह दास सोचने लगे, कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने-पीटने और खाने-पीने और पियकड़ होने लगे। ४६ तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन कि वह उस की बाट जोहता न रहे, और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा, और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग अविश्वामियों के साथ ठहराएगा। ४७ और वह दास जो अपने

स्वामी की इच्छा जानता था, और तैयार न रहा और उस की इच्छा के अनुसार चला बहुत मार खाएगा। ४८ परन्तु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे वह थोड़ी मार खाएगा, इसलिये जिसे बहुत दिया गया है, उस से बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है, उस से बहुत मांगेंगे ॥

४९ मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ; और क्या चाहता हूँ केवल यह कि अभी मुलगी जाती! ५० मुझे तो एक बपतिस्मा जेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं कैसी सकेती में रहूँगा? ५१ क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ? मैं तुम से कहता हूँ; नहीं, बरन भ्रमल कराने आया हूँ। ५२ क्योंकि धब से एक घर में पांच जन आपस में विरोध रखेंगे, तीन दो से और दो तीन से। ५३ पिता पुत्र से, और पुत्र पिता से विरोध रखेगा; मां बेटों से, और बेटों मां से, सास बहू से, और बहू सास से विरोध रखेगी ॥

५४ और उस ने भीड़ से भी कहा, जब बादल को पच्छिम से उठते देखते हो, तो तुरन्त कहते हो, कि वर्षा होगी; और ऐसा ही होता है। ५५ और जब दक्खिना चलती देखते हो तो कहते हो, कि बूह चलेगी, और ऐसा ही होता है। ५६ हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकने हो, परन्तु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? ५७ और तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते, कि उचित क्या है? ५८ जब तू अपने मुई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, तो मार्ग ही में उस से छुटने का यत्न कर ले ऐसा न हो, कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए, और न्यायी तुझे प्यादे की सौंपे

घोर प्यादा तुझे बन्दीगृह में डाल दे। ५६ में तुम से कहता हूँ, कि जब तक तू दमड़ी दमड़ी भर न देगा तब तक वहाँ से छूटने न पाएगा ॥

१३ उस समय कुछ लोग प्रा पहुँचे, और उस से उन गलीतियों की चर्चा करने लगे, जिन का लोहू पीलातुस ने उन ही के बलिदानों के साथ गिलाया था। २ यह मुन उस ने उन से उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो, कि ये गलीली, और सब गलीतियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? ३ में तुम से कहता हूँ, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होगे। ४ या क्या तुम समझते हो, कि वे भठारह जन जिन पर शीलोह का गुम्मत गिरा, और वे दब कर मर गए: यरूशलेम के और सब रहनेवालों से अधिक अपराधी थे? ५ में तुम से कहता हूँ, कि नहीं; परन्तु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी सब इसी रीति से नाश होगे ॥

६ फिर उस ने यह दृष्टान्त भी कहा, कि किसी की भ्रंगूर की बारी में एक भ्रंजीर का पेड़ लगा हुआ था: वह उस में फल बढ़ने आया, परन्तु न पाया। ७ तब उस ने बारी के रखवाले से कहा, देख तीन वर्ष से मैं इस भ्रंजीर के पेड़ में फल बढ़ने आता हूँ, परन्तु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। ८ उस ने उस को उत्तर दिया, कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे; कि मैं इस के चारों ओर खोदकर खाद डालूँ। ९ सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना ॥

१० सन्त * के दिन वह एक आराधना-लय में उपदेश कर रहा था। ११ और देखो, एक स्त्री थी, जिसे भठारह वर्ष से एक दुर्वस करनेवाली दुष्टात्मा लगी थी, और वह कुबड़ी हो गई थी, और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। १२ यीशु ने उसे देखकर बुलाया, और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्वसता से छूट गई। १३ तब उस ने उस पर हाथ रखे, और वह तुरन्त सीधी हो गई, और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। १४ इसलिये कि यीशु ने सन्त के दिन उसे प्रच्छा किया था, आराधनालय का सरदार रित्तियाकर लोगों से कहने लगा, छः दिन हैं, जिन में काम करना चाहिए, सो उन ही दिनों में आकर चंगे होमो; परन्तु सन्त के दिन में नहीं। १५ यह मुन कर प्रभु ने उत्तर देकर कहा; हे कपटियो, क्या सन्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गदहे को धान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? १६ और क्या उचित न था, कि यह स्त्री जो इब्राहीम की बेटा है जिसे शतान ने भठारह वर्ष से बान्ध रखा था, सन्त के दिन इस बन्धन से छुड़ाई जाती? १७ जब उस ने ये बातें कहीं, तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उन महिमा के कामों से जो वह करता था, मानन्दित हुई ॥

१८ फिर उस ने कहा, परमेश्वर का राज्य किस के समान है? और मैं उस की उपमा किस से दूँ? १९ वह राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया: और वह बढ़कर पेड़ हो गया; और आकाश के

* यू० विश्राम के दिन।

पक्षियों ने उस की डालियों पर बसेरा किया। २० उस ने फिर कहा; मैं परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दूँ? २१ वह खमीर के समान है, जिस को किसी स्त्री ने लेकर तीन पसेरी घाटे में मिलाया, और होते होते सब घाटा खमीर हो गया ॥

२२ वह नगर नगर, और गांव गांव होकर उपदेश करता हुआ यरूशलेम की ओर जा रहा था। २३ और किसी ने उस से पूछा; हे प्रभु, क्या उद्धार पानेवाले थोड़े हैं? २४ उस ने उन से कहा; संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे, और न कर सकेंगे। २५ जब घर का स्वामी उठकर द्वार बन्द कर चुका हो, और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर कहने लगे, हे प्रभु, हमारे लिये खोल दे, और वह उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? २६ तब तुम कहने लगोगे, कि हम ने तेरे साम्हने खायी-पीया और तू ने हमारे बाजारों में उपदेश किया। २७ परन्तु वह कहेगा, मैं तुम से कहता हूँ, मैं नहीं जानता तुम कहाँ से हो, हे कुकर्म करनेवालो, तुम सब मुझ से दूर हो। २८ वहाँ रोना और दांत पीसना होगा: जब तुम इब्राहीम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे, और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। २९ और पूर्व और पच्छिम; उत्तर और दक्खिन से लोग आकर परमेश्वर के राज्य के भोज में भागी होंगे। ३० और देखो, कितने पिछले हैं वे प्रथम होंगे, और कितने जो प्रथम हैं, वे पिछले होंगे ॥

३१ उसी घड़ी कितने फरीसियों ने आकर उस से कहा, यहां से निकलकर

चला जा; क्योंकि हेरोदेस तुम्हें मार डालना चाहता है। ३२ उस ने उन से कहा; जाकर उस लोमड़ी से कह दो, कि देख, मैं आज और कल दुष्टात्माओं को निकालता और बीमारों को चंगा करता हूँ और तीसरे दिन पूरा करूंगा। ३३ तोभी मुझे आज और कल और परसों चलना अवश्य है, क्योंकि हो नहीं सकता कि कोई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम के बाहर मारा जाए। ३४ हे यरूशलेम! हे यरूशलेम! तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालती है, और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थरवाह करती है; कितनी ही बार मैं ने यह चाहा, कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे करूँ, पर तुम ने यह न चाहा। ३५ देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुम से कहता हूँ; जब तक तुम न कहोगे, कि धन्य है वह, जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे ॥

१४ फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के मरदारों में से किसी के घर में रोटी खाने गया: और वे उस की घात में थे। २ और देखो, एक मनुष्य उसके साम्हने था, जिसे जलन्धर का रोग था। ३ इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा; क्या सब्त के दिन अर्च्छा करना उचित है, कि नहीं? परन्तु वे चुपचाप रहे। ४ तब उस ने उसे हाथ लगा कर चंगा किया, और जाने दिया। ५ और उन से कहा; कि तुम में से ऐसा कौन है, जिस का गदहा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरन्त बाहर

न निकास ले ? ६ वे इन बातों का कुछ उत्तर न दे सके ॥

७ जब उस ने देखा, कि नेवताहारी सोग बयोंकर मुख्य मुख्य जगहें चुन लेते हैं तो एक दृष्टान्त देकर उन से कहा।

८ जब कोई तुम्हें ब्याह में बुलाए, तो मुख्य जगह में न बैठना, कहीं ऐसा न हो, कि उसने तुम्हें भी किसी बड़े को नेवता दिया हो। ९ और जिस ने तुम्हें और उसे दोनों को नेवता दिया है : आकर तुम्हें से कहे, कि इस को जगह दे, और तब तुम्हें लज्जित होकर सब से नीची जगह में बैठना पड़े।

१० पर जब तू बुलाया जाए, तो सब से नीची जगह जा बैठ, कि जब वह, जिस ने तुम्हें नेवता दिया है आए, तो तुम्हें से कहे कि हे मित्र, आगे बढ़कर बैठ; तब तेरे साथ बैठनेवालों के साम्हने तेरी बड़ाई होगी। ११ क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा ॥

१२ तब उस ने अपने नेवता देनेवाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे, तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुम्बियों या धनवान पड़ोसियों को न बुला, कहीं ऐसा न हो, कि वे भी तुम्हें नेवता दें, और तेरा बदला हो जाए। १३ परन्तु जब तू भोज करे, तो कंगालों, टुण्डों, लंगड़ों और अन्धों को बुला। १४ तब तू धन्य होगा, क्योंकि उन के पास तुम्हें बदला देने को कुछ नहीं, परन्तु तुम्हें धर्मियों के जी उठने पर इस का प्रतिफल मिलेगा ॥

१५ उसके साथ भोजन करनेवालों में से एक ने ये बातें सुनकर उस से कहा, धन्य है वह, जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। १६ उस ने उस से कहा; किसी

मनुष्य ने बड़ी जेबनार की घोर बहुतों को बुलाया। १७ जब भोजन तैयार हो गया, तो उस ने अपने दास के हाथ नेवताहारियों को कहला भेजा, कि आओ; अब भोजन तैयार है। १८ पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे, पहिले ने उस से कहा, मैं ने खेत मोल लिया है; और अवश्य है कि उसे देखू : मैं तुम्हें से बिनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। १९ दूसरे ने कहा, मैं ने पांच जोड़े बैल मोल लिए हैं; और उन्हें परखने जाता हूँ : मैं तुम्हें से बिनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। २० एक और ने कहा; मैं ने ब्याह किया है, इसलिये मैं नहीं आ सकता। २१ उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरन्त जाकर कंगालों, टुण्डों, लंगड़ों और अन्धों को यहां ले आओ। २२ दास ने फिर कहा; हे स्वामी, जैसे तू ने कहा था, वैसे ही किया गया है; और फिर भी जगह है। २३ स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की घोर जाकर लोगों को बरबस ले ही आ* ताकि मेरा घर भर जाए। २४ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि उन नेवते हुएों में से कोई भेरी जेबनार को न चलेगा ॥

२५ और जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी, तो उस ने पीछे फिरकर उन से कहा। २६ यदि कोई मेरे पास आए, और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़केवालों और भाइयों और बहिनों बरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता।

* या बिन लाए मत छोड़।

२७ और जो कोई अपना क्रूस न उठाए; और मेरे पीछे न आए; वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। २८ तुम में से कौन है कि गढ़ बनाना चाहता हो, और पहिले बैठकर खर्च न जोड़े, कि पूरा करने की विसात मेरे पास है, कि नहीं? २९ कहीं ऐसा न हो, कि जब नेव डालकर तैयार न कर सके, तो सब देखनेवाले यह कहकर उसे ठठों में उड़ाने लगें। ३० कि यह मनुष्य बनाने तो लगा, पर तैयार न कर सका? ३१ या कौन ऐसा राजा है, कि दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो, और पहिले बैठकर विचार न कर ले कि जो बीस हजार लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं दस हजार लेकर उसका साम्हना कर सकता हूँ, कि नहीं? ३२ नहीं तो उसके दूर रहते ही, वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। ३३ इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ३४ नमक तो अच्छा है, परन्तु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह किम बस्तु से स्वादिष्ट किया जाएगा। ३५ वह न तो भूमि के और न खाद के लिये काम में आता है: उसे तो लोग बाहर फेंक देने हैं: जिस के मुनने के कान हों वह मुन ले ॥

१५ मव चुन्नी लेनेवाले और पापी उसके पाम आया करने थे ताकि उस की मुनं। २ और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, कि यह तो पापियों से मिलता है और उन के साथ खाता भी है ॥

३ तय उम ने उन से यह दृष्टान्त कहा। ४ तुम में से कौन है जिस की मो भेड़ें हों, और उन में से एक खो जाए तो निभानवे

को जंगल में छोड़कर, उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? ५ और जब मिल जाती है, तब वह बड़े आनन्द से उसे कांधे पर उठा लेता है। ६ और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठे करके कहता है, मेरे साथ आनन्द करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। ७ मैं तुम से कहता हूँ; कि इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनन्द होगा, जितना कि निभानवे ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता, जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं ॥

८ या कौन ऐसी स्त्री होगी, जिस के पास दस सिक्के * हों, और उन में से एक खो जाए; तो वह दीया बारकर और घर भाड़ बुहारकर जब तक मिल न जाए, जो लगाकर खोजती न रहे? ९ और जब मिल जाता है, तो वह अपने सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठी करके कहती है, कि मेरे साथ आनन्द करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। १० मैं तुम से कहता हूँ; कि इसी रीति से एक मन फिरानेवाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साम्हने आनन्द होता है ॥

११ फिर उस ने कहा, किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। १२ उन में से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, वह मुझे दे दीजिए। उस ने उन को अपनी संपत्ति बांट दी। १३ और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। १४ जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो

* ५० द्राखमा। उसका मोल लगभग आठ आने के था।

उम देश में बढ़ा अकाल पड़ा, और वह कंगाल हो गया। १५ और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा: उस ने उसे अपने खेतों में मूअर चराने के लिये भेजा। १६ और वह चाहता था, कि उन फलियों से जिन्हें मूअर खाते थे अपना पेट भरे; और उसे कोई कुछ नहीं देता था। १७ जब वह अपने प्रापे में आया, तब कहने लगा, कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। १८ मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उस से कहूंगा कि पिता जी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। १९ अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर की नाई रख ले। २० तब वह उठकर, अपने पिता के पास चला: वह अभी दूर ही था, कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया, और दौड़कर उसे गले लगाया, और बहुत चूमा। २१ पुत्र ने उम से कहा; पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है; और अब इस योग्य नहीं रहा, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। २२ परन्तु पिता ने अपने दानों से कहा; भ्रष्ट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहिनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, और पांवों में जूतियां पहिनाओ। २३ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनन्द मनावें। २४ क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है; खो गया था, अब मिल गया है; और वे आनन्द करने लगे। २५ परन्तु उसका जेठा पुत्र खेत में था: और जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उस ने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। २६ और उम ने

एक दास को बुलाकर पूछा; यह क्या हो रहा है? २७ उम ने उस से कहा, तेरा भाई आया है; और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिये कि उसे भला खाना पाया है। २८ यह सुनकर वह क्रोध से भर गया, और भीतर जाना न चाहा: परन्तु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। २९ उस ने पिता को उत्तर दिया, कि देख; मैं इतने वर्ष मे तेरी सेवा कर रहा हूं, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तौभी तू ने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया, कि मैं अपने मित्रों के साथ आनन्द करता। ३० परन्तु जब तेरा यह पुत्र, जिस ने तेरी संपत्ति बेव्याखों में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिये तू ने पला हुआ बछड़ा कटवाया। ३१ उस ने उम से कहा; पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है; और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। ३२ परन्तु अब आनन्द करना और मगन होना चाहिए क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है; खो गया था, अब मिल गया है।

१६ फिर उम ने चेलों में भी कहा; किमी धनवान का एक भण्डारी था, और लोगों ने उसके साम्हने उस पर यह दोष लगाया कि यह तेरी सब संपत्ति उड़ाए देता है। २ सो उम ने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भण्डारीपन का लेखा दे; क्योंकि तू आगे को भण्डारी नहीं रह सकता। ३ तब भण्डारी सोचने लगा, कि अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा स्वामी अब भण्डारी का काम मुझ से छीन ले रहा है: मिट्टी तो मुझ से खोदी नहीं जानी: और भीव मांगने से मुझे लज्जा आती है।

४ में समझ गया, कि क्या कल्याण : ताकि जब मैं भण्डारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। ५ और उस ने अपने स्वामी के देनदारों में से एक एक को बुलाकर पहिले से पूछा, कि तुम्ह पर मेरे स्वामी का क्या आता है? ६ उस ने कहा, सौ मन तेल; तब उस ने उस से कहा, कि अपनी खाता-बही ले और बैठकर तुरन्त पचास लिख दे। ७ फिर दूसरे से पूछा, तुम्ह पर क्या आता है? उस ने कहा, सौ मन गेहूँ; तब उस ने उस से कहा; अपनी खाता-बही लेकर प्रस्ती लिख दे। ८ स्वामी ने उस भ्रष्टाचार को सराहा, कि उस ने चतुराई से काम किया है; क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। ९ और मैं तुम से कहता हूँ, कि भ्रष्टाचार के घन से अपने लिये मित्र बना लो; ताकि जब वह जाता रहे, तो वे तुम्हें अनन्त निवासों में ले लें। १० जो घोड़े से घोड़े में सच्चा * है, वह बहुत में भी सच्चा है; और जो घोड़े से घोड़े में भ्रष्टाचार है, वह बहुत में भी भ्रष्टाचार है। ११ इसलिये जब तुम भ्रष्टाचार के घन में सच्चे न ठहरे, तो सच्चा तुम्हें कौन सौपेगा! १२ और यदि तुम पराये घन में सच्चे न ठहरे, तो जो तुम्हारा है, उसे तुम्हें कौन देगा? १३ कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता: क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा; या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा: तुम परमेश्वर और घन दोनों की सेवा नहीं कर सकते ॥

१४ फरीसी जो लोगी थे, ये सब बातें सुनकर उसे ठट्ठी में उड़ाने लगे। १५ उस ने उन से कहा; तुम तो मनुष्यों के साहने अपने आप को धर्मी ठहराते हो: परन्तु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्यों की दृष्टि में महान है, वह परमेश्वर के निकट घृणित है। १६ व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यहूदा तक रहे, उस समय से परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया जा रहा है; और हर कोई उस में प्रबलता से प्रवेश करता है। १७ आकाश और पृथ्वी का टल जाना व्यवस्था के एक बिन्दु के मिट जाने से सहज है। १८ जो कोई अपनी पत्नी को त्यागकर दूसरी से ब्याह करता है, वह व्यभिचार करता है, और जो कोई ऐसी त्यागी हुई स्त्री से ब्याह करता है, वह भी व्यभिचार करता है ॥

१९ एक घनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहिन्ता और प्रति दिन सुख-विलास और धूम-धाम के साथ रहता था। २० और लाजर नाम का एक कंगाल धावों से भरा हुमा उस की डेवड़ी पर जोड़ दिया जाता था। २१ और वह चाहता था, कि घनवान की भेज पर की जूठन से अपना पेट भरे; बरन कुत्ते भी आकर उसके धावों को चाटते थे। २२ और ऐसा हुमा कि वह कंगाल मर गया, और स्वर्ग-दूतों ने उसे लेकर इब्राहीम की गोद में पहुँचाया; और वह घनवान भी मरा; और गाड़ा गया। २३ और अघोलोक में उस ने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आँखें उठाई, और दूर से इब्राहीम की गोद में लाजर को देखा। २४ और उस ने पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहीम, मुझ पर क्या करके लाजर को भेज दे, ताकि वह अपनी उंगली का

* दू० विश्वासयोग्य।

सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। २५ परन्तु इब्राहीम ने कहा; हे पुत्र स्मरण कर, कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं : परन्तु अब वह यहां शान्ति पा रहा है, और तू तड़प रहा है। २६ और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड़हा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहें, वे न जा सकें, और न कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। २७ उस ने कहा; तो हे पिता मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। २८ क्योंकि मेरे पांच भाई हैं, वह उन के साम्हने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएँ। २९ इब्राहीम ने उस से कहा, उन के पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उन की सुनें। ३० उस ने कहा; नहीं, हे पिता इब्राहीम; पर यदि कोई मरे हुआओं में से उन के पास जाए, तो वे मन फिराएंगे। ३१ उस ने उस से कहा, कि जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुआओं में से कोई जी भी उठे तोभी उस की नहीं मानेंगे।

१७ फिर उस ने अपने चेलों से कहा; हो नहीं सकता कि ठोकरें न लगे, परन्तु हाय, उस मनुष्य पर जिस के कारण वे आती हैं! २ जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिये यह भला होता, कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, और वह समुद्र में डाल दिया जाता। ३ सचेत रहो; यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे

समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। ४ यदि दिन भर में वह सात बार तेरा अपराध करे और सातों बार तेरे पास फिर आकर कहे, कि मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर।

५ तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। ६ प्रभु ने कहा; कि यदि तुम को राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस तूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। ७ पर तुम में से ऐसा कौन है, जिस का दास हल जोतता, या भेड़ें चराता हो, और जब वह खेत से आए, तो उस से कहे तुम्हें आकर भोजन करने बैठ? ८ और यह न कहे, कि मेरा खाना तैयार कर; और जब तक मैं खाऊँ-पीऊँ तब तक कमर बान्धकर मेरी सेवा कर; इस के बाद तू भी खा पी लेना। ९ क्या वह उस दास का निहोरा मानेगा, कि उस ने वे ही काम किए जिस की आज्ञा दी गई थी? १० इसी रीति से तुम भी, जब उन सब कामों को कर चुको जिस की आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं; कि जो हमें करना चाहिए था वही किया है।

११ और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। १२ और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे दस कोढ़ी मिले। १३ और उन्होंने ने दूर खड़े होकर, ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। १४ उस ने उन्हें देखकर कहा, जाओ; और अपने तईं याजकों को दिखाओ; और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। १५ तब उन में से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से

परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। १६ और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर, उसका धन्यवाद करने लगा; और वह सामरी था। १७ इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शब्द न हुए तो फिर वे नौ कहाँ हैं? १८ क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला, जो परमेश्वर की बड़ाई करता? १९ तब उस ने उस से कहा; उठकर चला जा; तेरे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया है ॥

२० जब फरीसियों ने उस से पूछा, कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो उस ने उन को उत्तर दिया, कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। २१ और लोग यह न कहेंगे, कि देखो, यहाँ है, या वहाँ है, क्योंकि देखो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है ॥

२२ और उस ने चेतनों से कहा; वे दिन आएंगे, जिन में तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, और नहीं देखने पाओगे। २३ लोग तुम से कहेंगे, देखो, वहाँ है, या देखो यहाँ है; परन्तु तुम चले न जाना और न उन के पीछे हो लेना। २४ क्योंकि जैसे विजली आकाश को एक ओर से कौन्धकर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। २५ परन्तु पहिले अवश्य है, कि वह बहुत दुःख उठाए, और इम युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। २६ जैसा नृह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। २७ जिस दिन तक नृह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते-पीते थे, और उन में व्याह-शादी होती थी; तब जल-प्रलय ने आकर उन सब को नाश किया। २८ और जैसा लूत के दिनों में

हुआ था, कि लोग खाते-पीते खेत-देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। २९ परन्तु जिस दिन लूत सदोम में निकला, उस दिन आग और गन्धक आकाश में बरसी और सब को नाश कर दिया। ३० मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। ३१ उस दिन जो कोठे पर हो; और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे न लौटे। ३२ लूत की पत्नी को स्मरण रखो। ३३ जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। ३४ मैं तुम से कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। ३५ दो स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ३६ [दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा *] ३७ यह मुन उन्होंने ने उस से पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उस ने उन से कहा, जहाँ लोथ है, वहाँ गिड़ इकट्ठे होंगे ॥

१८ फिर उस ने इस के विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाब न छोड़ना चाहिए उन से यह दृष्टान्त कहा। २ कि किसी नगर में एक न्यायी रहता था; जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। ३ और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी; जो उसके पास आ आकर कहा करती थी, कि मेरा न्याय चुकाकर

* यह पद सब से पुराने हस्तलेखों में नहीं मिलता।

मुझे मुहई से बचा। ४ उस ने कितने समय तक तो न माना परन्तु धन में मन में विचारकर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता, और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ। ५ तीभी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिये मैं उसका न्याय चुकाऊंगा कही ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर धन को मेरा नाक में दम करे।

६ प्रभु ने कहा, मुनो, कि यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है? ७ सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुएों का न्याय न चुकाएगा, जो रात-दिन उम की दुहाई देते रहते; और क्या वह उन के विषय में देर करेगा? ८ मैं तुम से कहता हूँ; वह तुरन्त उन का न्याय चुकाएगा; तीभी मनुष्य का पुत्र जब घाएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा?

९ और उस ने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, कि हम धर्मी हैं, और औरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टान्त कहा। १० कि दो मनुष्य मन्दिर में प्रार्थना करने के लिये गए; एक फरीसी या और दूसरा चुञ्जी लेनेवाला।

११ फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यों प्रार्थना करने लगा, कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, कि मैं और मनुष्यों की नाईं अन्धे करनेवाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुञ्जी लेनेवाले के समान हूँ। १२ मैं सप्ताह में दो बार उपवास करता हूँ; मैं अपनी सब कमाई का दसवां अंश भी देता हूँ। १३ परन्तु चुञ्जी लेनेवाले ने दूर खड़े होकर, स्वर्ग की ओर आँखें उठाना भी न चाहा, बरन अपनी जाती पीट-पीटकर कहा; हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर*। १४ मैं तुम से

* या प्रायश्चित्त के कारण मुझ पापी पर दया करे।

कहता हूँ, कि वह दूसरा नहीं; परन्तु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने धन गया; क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा; और जो अपने आप को छोटा बनाएगा, वह बड़ा किया जाएगा ॥

१५ फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे, कि वह उन पर हाथ रखे; और जेसूस ने देखकर उन्हें डांटा। १६ यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, और उन्हें मना न करो; क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। १७ मैं तुम से सच कहता हूँ, कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाईं ग्रहण न करेगा वह उस में कभी प्रवेश करने न पाएगा ॥

१८ किसी सरदार ने उस से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनन्तजीवन का अधिकारी होने के लिये मैं क्या करूँ? १९ यीशु ने उस से कहा; तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात् परमेश्वर। २० तू आमाओ को तो जानता है, कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। २१ उम ने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन ही में मानना आया हूँ। २२ यह मुन, यीशु ने उस से कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे; और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। २३ वह यह मुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। २४ यीशु ने उम देखकर कहा; धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है? २५ परमेश्वर के राज्य में

घनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूई के नाके में से निकल जाना सहज है। २६ और सुननेवालों ने कहा, तो फिर किस का उद्धार हो सकता है? २७ उस ने कहा; जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। २८ पतरस ने कहा; देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिये हैं। २९ उस ने उन से कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ, कि ऐसा कोई नहीं जिस ने परमेश्वर के राज्य के लिये घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या लड़के-बालों को छोड़ दिया हो। ३० और इस समय कई गुणा अधिक न पाए; और परलोक में अनन्त जीवन ॥

३१ फिर उस ने बारहों को साथ लेकर उन से कहा; देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिये भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी। ३२ क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा, और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे; और उसका अपमान करेंगे, और उस पर धूकेंगे। ३३ और उसे कोड़े मारेंगे, और घात करेंगे, और वह तीसरे दिन जी उठेगा। ३४ और उन्होंने ने इन बातों में से कोई बात न समझी: और यह बात उन से छिपी रही, और जो कहा गया था वह उन की समझ में न आया ॥

३५ जब वह यरीहो के निकट पहुंचा, तो एक भ्रन्धा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। ३६ और वह भीड़ के चलने की ग्राहट सुनकर पूछने लगा, यह क्या हो रहा है? ३७ उन्होंने ने उस को बताया, कि यीशु नासरी जा रहा है। ३८ तब उस ने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया कर। ३९ जो आगे जाते थे, वे उसे डांटने लगे,

कि चुप रहे: परन्तु वह और भी चिल्लाने लगा, कि हे दाऊद की सन्तान, मुझ पर दया कर। ४० तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ, और जब वह निकट आया, तो उस ने उस से यह पूछा। ४१ तू क्या चाहता है, कि मैं तेरे लिये कलं? उस ने कहा; हे प्रभु यह कि मैं देखने लगूँ। ४२ यीशु ने उस से कहा; देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। ४३ और वह तुरन्त देखने लगा; और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की ॥

१६ वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। २ और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुड़ी लेनेवालों का सरदार और घनी था। ३ वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है? परन्तु भीड़ के कारण देख न सकता था! क्योंकि वह नाटा था। ४ तब उस को देखने के लिये वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। ५ जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि कर के उस से कहा; हे जक्कई भट उतर आ; क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ६ वह तुरन्त उतरकर आनन्द से उसे अपने घर को ले गया। ७ यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहां जा उतरा है। ८ जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा; हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी सम्पत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेंक देता हूँ।

६ तब यीशु ने उस से कहा; आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिये कि यह भी इब्राहीम का एक पुत्र है। १० क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुआओं को ढूँढ़ने और उन का उद्धार करने आया है ॥

११ जब वे ये बातें सुन गये थे, तो उस ने एक दृष्टान्त कहा, इसलिये कि वह यरूशलेम के निकट था, और वे मगभते थे, कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रगट हुआ चाहता है। १२ सो उस ने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर फिर आए। १३ और उस ने अपने दामों में से दस को बुलाकर उन्हें दस मुहरें दीं, और उन से कहा, मेरे लौट आने तक लेन-देन करना। १४ परन्तु उसके नगर के रहनेवाले उस से बँर खने थे, और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, कि हम नहीं चाहते, कि यह हम पर राज्य करे। १५ जब वह राजपद पाकर लौट आया, तो ऐसा हुआ कि उस ने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी, अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने ने लेन-देन से क्या क्या कमाया। १६ तब पहिले ने आकर कहा, हे स्वामी तेरे मोहर से दस और मोहरें कमाई हैं। १७ उस ने उस से कहा; धन्य हे उत्तम दास, तुझे धन्य है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वासी निकला अब दस नगरों पर अधिकार रख। १८ दूसरे ने आकर कहा; हे स्वामी तेरी मोहर से पांच और मोहरें कमाई हैं। १९ उस ने उस से भी कहा, कि तू भी पांच नगरों पर हाकिम हो जा। २० तीसरे ने आकर कहा; हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह है, जिसे मैं ने भ्रगोछे में बान्ध रखी। २१ क्योंकि मैं तुझ से डरता था, इसलिये कि तू कठोर मनुष्य है; जो तू ने नहीं रखा

उसे उठा लेता है, और जो तू ने नहीं बोया, उसे काटता है। २२ उस ने उस से कहा; हे दुष्ट दास, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ; तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य हूँ, जो मैं ने नहीं रखा उसे उठा लेता, और जो मैं ने नहीं बोया, उसे काटता हूँ। २३ तो तू ने मेरे रुपये कोठी में क्यों नहीं रख दिए, कि मैं आकर व्याज समेत ले लेता? २४ और जो लोग निकट खड़े थे, उस ने उन से कहा, वह मोहर उस से ले लो, और जिस के पास दस मोहरें हैं उसे दे दो। २५ (उन्होंने ने उस से कहा; हे स्वामी, उसके पास दस मोहरें तो हैं)। २६. मैं तुम से कहता हूँ, कि जिम के पास है, उसे दिया जाएगा; और जिम के पास नहीं, उस से वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। २७ परन्तु मेरे उन बँरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूँ, उन को यहाँ लाकर मेरे सामने घात करो ॥

२८ ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उन के आगे आगे चला ॥

२९ और जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बँतफगे और बँतनियाह के पास पहुंचा, तो उस ने अपने चेलों में से दो को यह कहके भेजा। ३० कि साम्हने के गांव में जाओ, और उस में पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बन्धा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। ३१ और यदि कोई तुम से पूछे, कि क्यों खोलते हो, तो यह कह देना, कि प्रभु को इस का प्रयोजन है। ३२ जो भेजे गए थे, उन्होंने ने जाकर जैसा उस ने उन से कहा था, वँसा ही पाया। ३३ जब वे गदहे के बच्चे को खोल रहे थे, तो उसके मालिकों ने उन से पूछा; इस बच्चे को क्यों खोलते हो?

३४ उन्होंने ने कहा, प्रभु को इस का प्रयोजन है। ३५ वे उस को यीशु के पास ले आए, और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। ३६ जब वह जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। ३७ और निकट आते हुए जब वह जंतून पहाड़ की उलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मण्डली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने ने देखे थे, ध्यानन्दित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। ३८ कि घन्य है वह राजा, जो प्रभु के नाम से आता है; स्वर्ग में शान्ति और प्राकाश * मण्डल में महिमा हो। ३९ तब भीड़ में से कितने फरीसी उस से कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। ४० उस ने उत्तर दिया, कि तुम में से कहता हूँ, यदि ये चुप रहें, तो पत्थर बिल्ला उठेंगे ॥

४१ जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया। ४२ और कहा, क्या ही भला होता, कि तू; हाँ, तू ही, इसी दिन में कुशन की बातें जानता, परन्तु भव वे तेरी आंखों से छिप गई है। ४३ क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे, कि तेरे बरी मोर्चा बाधकर तुझे घेर लेंगे, और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। ४४ और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है, मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे; क्योंकि तू ने वह भ्रवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहिचाना ॥

४५ तब वह मन्दिर में जाकर बेचने-वालियों को बाहर निकालने लगा। ४६ और उन से कहा, लिखा है; कि मेरा घर प्रार्थना

का घर होगा : परन्तु तुम ने उसे डाकुओं की खोह बना दिया है ॥

४७ और वह प्रति दिन मन्दिर में उपदेश करता था : और महायाजक और शास्त्री और लोगों के रईस उसे नाश करने का भ्रवसर दूँतें थे। ४८ परन्तु कोई उपाय न निकाल सके; कि यह किस प्रकार करें क्योंकि सब लोग बड़ी चाह से उस की सुनते थे ॥

२० एक दिन ऐसा हुआ कि जब वह मन्दिर में लोगों को उपदेश देता और सुसमाचार सुना रहा था, तो महायाजक और शास्त्री, पुरनियों के साथ पास आकर खड़े हुए। २ और कहने लगे, कि हमें बता, तू इन कामों को किस अधिकार से करता है, और वह कौन है, जिस ने तुम्हें यह अधिकार दिया है? ३ उम ने उन को उत्तर दिया, कि मैं भी तुम से एक बात पूछता हूँ; मुझे बताओ। ४ यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग की ओर से था या मनुष्यों की ओर से था? ५ तब वे आपस में कहने लगे, कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से, तो वह कहेगा; फिर तुम ने उस की प्रतीति क्यों न की? ६ और यदि हम कहें, मनुष्यों की ओर से, तो सब लोग हमें पत्थरबाह करेंगे, क्योंकि वे सचमुच जानते हैं, कि यूहन्ना भविष्यद्वक्ता था। ७ सो उन्होंने ने उत्तर दिया, हम नहीं जानते, कि वह किस की ओर से था। ८ यीशु ने उन से कहा, तो मैं भी तुम को नहीं बताता, कि मैं ये काम किस अधिकार से करता हूँ ॥

९ तब वह लोगों से यह दृष्टान्त कहने लगा, कि किसी मनुष्य ने दाब की बारी लगाई, और किसानों को उसका ठेका दे दिया और बहुत दिनों के लिये परदेश चला

गया। १० समय पर उस ने किसानों के पास एक दास को भेजा, कि वे दास की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दें, पर किसानों ने उसे पीटकर छुड़े हाथ लौटा दिया। ११ फिर उस ने एक और दास को भेजा, और उन्होंने ने उसे भी पीटकर और उसका अपमान करके छुड़े हाथ लौटा दिया। १२ फिर उस ने तीसरा भेजा, और उन्होंने ने उसे भी घायल करके निकाल दिया। १३ तब दास की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूँ? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा क्या जाने वे उसका आदर करें। १४ जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, कि यह तो वारिस है; आओ, हम उसे मार डालें, कि मीरास हमारी हो जाए। १५ और उन्होंने ने उसे दास की बारी से बाहर निकालकर मार डाला : इसलिये दास की बारी का स्वामी उन के साथ क्या करेगा? १६ वह आकर उन किसानों को नाश करेगा, और दास की बारी औरों को सौपेगा : यह सुनकर उन्होंने ने कहा, परमेश्वर ऐसा न करे। १७ उस ने उन की ओर देखकर कहा; फिर यह क्या, निखा है, कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। १८ जो कोई उस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा, उस को पीस डालेगा ॥

१९ उसी घड़ी शास्त्रियों और महा-याजकों ने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए, कि उस ने हम पर यह दुष्टान्त कहा, परन्तु वे लोगों से डरे। २० और वे उस की ताक में लगे और भेदिए भेजे, कि धर्म का भेष धरकर उस की कोई न कोई बात पकड़ें, कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार में सौप दें। २१ उन्होंने ने उस से यह पूछा,

कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता, और सिखाता भी है, और किसी का पक्षपात नहीं करता; बरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। २२ क्या हमें कैसर को कर देना उचित है, कि नहीं। २३ उस ने उन की चतुराई को ताड़कर उन से कहा; एक दीनार* मुझे दिलाओ। २४ इस पर किस की मूर्ति और नाम है? उन्होंने ने कहा, कैसर का। २५ उस ने उन से कहा; तो जो कैसर का है, वह कैसर को दो और जो परमेश्वर का है, वह परमेश्वर को दो। २६ वे लोगों के साम्हने उस बात को पकड़ न सके, बरन उसके उत्तर से अचम्भित होकर चुप रह गए ॥

२७ फिर सद्दुकी जो कहते हैं, कि मरे हुएों का जी उठना है ही नहीं, उन में से कितनों ने उसके पास आकर पूछा। २८ कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिये यह लिखा है, कि यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना सन्तान मर जाए, तो उसका भाई उस की पत्नी को ब्याह ले, और अपने भाई के लिये वंश उत्पन्न करे। २९ सो सात भाई थे, पहिला भाई ब्याह करके बिना सन्तान मर गया। ३० फिर दूसरे और तीसरे ने भी उस स्त्री को ब्याह लिया। ३१ इसी रीति से सातों बिना सन्तान मर गए। ३२ सब के पीछे वह स्त्री भी मर गई। ३३ सो जी उठने पर वह उन में से किस की पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। ३४ यीशु ने उन से कहा; कि इस युग के सन्तानों में तो ब्याह शादी होती है। ३५ पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे, कि उस युग को और मरे हुएों में से जी उठना † प्राप्त करें, उन

* देखो मत्ती १८ : २८।

† वा. मृतकोत्थान।

में व्याह शायी न होगी। ३६ वे फिर मरने के भी नहीं; क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान होंगे, और जो उठने के सन्तान होने से परमेश्वर के भी सन्तान होंगे। ३७ परन्तु इस बात की कि मरे हुए जी उठते हैं, मूसा ने भी भाड़ी की कथा में प्रगट की है, कि वह प्रभु को इब्राहीम का परमेश्वर, और इसहाक का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर कहता है। ३८ परमेश्वर तो मुरदों का नहीं परन्तु जीवतों का परमेश्वर है: क्योंकि उसके निकट सब जीवित हैं। ३९ तब यह सुनकर शास्त्रियों में से कितनों ने यह कहा, कि हे गुरु, तू ने अच्छा कहा। ४० और उन्हें फिर उस से कुछ और पूछने का हियाव न हुआ ॥

४१ फिर उस ने उन से पूछा, मसीह को दाऊद का सन्तान क्योंकर कहते हैं?

४२ दाऊद आप भजनसंहिता की पुस्तक में कहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा।

४३ मेरे दहिने बँठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के तले न कर दूँ।

४४ दाऊद तो उसे प्रभु कहता है; तो फिर वह उस की सन्तान क्योंकर ठहरा?

४५ जब सब लोग सुन रहे थे, तो उस ने अपने बेलों से कहा। ४६ शास्त्रियों से चौकस रहो, जिन को लम्बे लम्बे वस्त्र पहिने हुए फिरना भाता है, और जिन्हें बाजारों में नमस्कार, और सभाओं में मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य स्थान प्रिय लगते हैं। ४७ वे विधवाओं के घर खा जाते हैं, और दिखाने के लिये बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं: ये बहुत ही दण्ड पाएंगे ॥

२१ फिर उस ने आख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भण्डार में डालते देखा। २ और उस ने

एक कंनल विधवा-को भी उस में दो दमड़ियां डालने देखा। ३ तब उस ने कहा; मैं तुम से सच कहता हूँ कि इस कंनल विधवा ने सब से बढ़कर डाला है। ४ क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परन्तु इस ने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है ॥

५ जब कितने लोग मन्दिर के विषय में कह रहे थे, कि वह कैसे सुन्दर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है तो उस ने कहा। ६ वे दिन आएंगे, जिन में यह सब जो तुम देखते हो, उन में से यहां किसी पत्थर पर पत्थर भी न छुटेगा, जो ढाया न जाएगा। ७ उन्होंने ने उस से पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा? और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी, तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? ८ उस ने कहा; चौकस रहो, कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, कि मैं वही हूँ; और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है: तुम उन के पीछे न चले जाना। ९ और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो, तो घबरा न जाना; क्योंकि इन का पहिले होना अवश्य है; परन्तु उस समय तुरन्त अन्त न होगा ॥

१० तब उस ने उन से कहा, कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। ११ और बड़े बड़े भूईडोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रगट होंगे। १२ परन्तु इन सब बातों से पहिले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे, और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बन्दीगृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के साम्हने ले जाएंगे।

१३ पर यह तुम्हारे लिये गवाही देने का अवसर हो जाएगा। १४ इसलिये अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहिले से उत्तर देने की चिन्ता न करेंगे। १५ क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, कि तुम्हारे सब विरोधी साम्हना या खण्डन न कर सकेंगे। १६ और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुम्ब, और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे; यहां तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे। १७ और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे। १८ परन्तु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका न होगा। १९ अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे।

२० जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। २१ तब जो यहूदिया में हों वह पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हों वे बाहर निकल जाएं; और जो गांवों में हों वे उस में न जाएं। २२ क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे, जिन में लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। २३ उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी, उन के लिये हाय, हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। २४ वे तलवार के कौर हो जाएंगे, और सब देशों के लोगों में बन्धुए होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो, तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। २५ और सूरज और चान्द और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर, देश देश के लोगों को संकट होगा; क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। २६ और भय के कारण और संसार पर

आनेवाली घटनाओं की बात देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। २७ तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। २८ जब ये बातें होने लें, तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना; क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा।

२९ उस ने उन से एक दृष्टान्त भी कहा, कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। ३० ज्योंहि उन की कोंपलें निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो, कि ग्रीष्मकाल निकट है। ३१ इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। ३२ मैं तुम से सच कहता हूं, कि जब तक ये सब बातें न हो लें, तब तक इस पीढ़ी * का कदापि अन्त न होगा। ३३ आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न टलेंगी।

३४ इसलिये सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन, और इस जीवन की चिन्ताओं से मुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फन्दे की नाई अचानक आ पड़े। ३५ क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहनेवालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। ३६ इसलिये जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आनेवाली घटनाओं से बचने, और मनुष्य के पुत्र के साम्हने खड़े होने के योग्य बनो।

३७ और वह दिन को मन्दिर में उपदेश करता था; और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था। ३८ और भोर को तड़के सब लोग उस की

* या यह पीढ़ी जाती न रहेगी।

मुनने के लिये मन्दिर में उसके पास प्राया करते थे ॥

२२ अलमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, निकट था। २ और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उस को क्योंकर मार डालें, पर वे लोगों से डरते थे ॥

३ और शतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और बागह चेलों में गिना जाता था। ४ उस ने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की, कि उस को किम प्रकार उन के हाथ पकड़वाए। ५ वे आनन्दित हुए, और उसे रुपये देने का वचन दिया। ६ उस ने मान लिया, और अचरम डूँडने लगा, कि दिना उपद्रव के उसे उन के हाथ पकड़वा दे ॥

७ तब अलमीरी रोटी के पर्व का दिन प्राया, जिस में फसह का मेम्ना बली करना अवश्य था। ८ और यीशु ने पतरम और यहूदा को यह कहकर भेजा, कि जाकर हमारे खाने के लिये फसह तैयार करो। ९ उन्होने उन से पूछा, तू कहाँ चाहता है, कि हम तैयार करें? १० उन ने उन से कहा; देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए; तुम उसके पीछे चले जाना। ११ और उन घर के स्वामी से कहो, कि गुरु तुम से कहना है; कि वह पाहनशाला कहाँ है जिस में मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊँ? १२ वह तुम्हें एक सजी मजार्ई बड़ी प्रतारी दिखा देगा, वहाँ तैयारी करना। १३ उन्होंने जाकर, जेगा उस ने उन से कहा था, वैसा ही पाया, और फसह तैयार किया ॥

१४ जब घड़ी पहुँची, तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। १५ और उस ने उन से कहा; मुझे बड़ी लालसा थी, कि दुस-भोगने से पहिले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊँ। १६ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊँगा।

१७ तब उस ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, और कहा, इस को लो और आपस में बांट लो। १८ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख रस भ्रब से कभी न पीऊँगा।

१९ फिर उस ने रोटी ली, और धन्यवाद करके तोड़ी, और उन को यह कहने हुए दी, कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिये दी जाती है; मेरे स्मरण के लिये यही किया करो। २० इसी रीति से उस ने बियारी के वाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, कि यह कटोरा मेरे उम लोहू में जो तुम्हारे लिये बहाया जाता है नई वाचा है। २१ पर देखो, मेरे पकड़वानेवाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। २२ क्योंकि मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके लिये ठहराया गया जाता ही है, पर हाथ उस मनुष्य पर, जिस के द्वारा वह पकड़वाया जाता है! २३ तब वे आपस में पूछ पाछ करने लगे, कि हम में से कौन है, जो यह काम करेगा?

२४ उन में यह वाद-विवाद भी हुआ; कि हम में से कौन बड़ा समझा जाता है? २५ उस ने उन से कहा, ग्रन्थजातियों के राजा उन पर प्रभुता करते हैं; और जो उन पर अधिकार रखते हैं, वे उपकारक कहलाते हैं। २६ परन्तु तुम ऐसे न होना; वरन जो तुम में बड़ा है, वह छोटे की नाई और जो प्रधान है, वह सेवक के नाई बने। २७ क्योंकि बड़ा कौन है; वह जो भोजन

पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक के नाई हूँ। २८ परन्तु तुम वह हो, जो मेरी परीक्षाओं में लगातार मेरे साथ रहे। २९ और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिये एक राज्य ठहराया है, ३० वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिये ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मेरी भेज पर खामो-पिओ; वरन सिंहासनों पर बैठकर इस्त्राएल के बारह गोत्रों का न्याय करो। ३१ शमीन, हे शमीन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूँ की नाई फटके। ३२ परन्तु मैं ने तेरे लिये बिनती की, कि तेरा विश्वास जाता न रहे: और जब तू फिर, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। ३३ उस ने उस से कहा; हे प्रभु, मैं तेरे साथ बन्दीगृह जाने, वरन मरने को भी तैयार हूँ। ३४ उस ने कहा; हे पतरस मैं तुझ से कहता हूँ, कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्कार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता ॥

३५ और उस ने उन से कहा, कि जब मैं ने तुम्हें बटुए, और भोली, और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुम को किसी वस्तु की घटी हुई थी? उन्होंने ने कहा; किसी वस्तु की नहीं। ३६ उस ने उन से कहा, परन्तु अब जिस के पास बटुआ हो वह उसे ले, और दंडे ही भोली भी, और जिस के पास तलवार न हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। ३७ क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ, कि यह जो लिखा है, कि वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है; क्योंकि मेरे विषय की बातें पूरी होने पर हैं। ३८ उन्होंने ने कहा; हे प्रभु, देख, यहां दो तलवारें हैं: उस ने उन से कहा; बहुत है ॥

३९ तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया, और चले उसके पीछे हो लिए। ४० उम जगह पहुंचकर उस ने उन से कहा; प्रार्थना करो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो। ४१ और वह आप उन से अलग एक डेला फेंकने के टप्पे भर गया, और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा। ४२ कि हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तभी मेरी नहीं परन्तु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ४३ तब स्वर्ग से एक दूत उस को दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। ४४ और वह अत्यन्त संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा; और उसका पसीना मानो लोह की बड़ी बड़ी बून्दों की नाई भूमि पर गिर रहा था। ४५ तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया; और उन से कहा, क्यों सोते हो? ४६ उठो, प्रार्थना करो, कि परीक्षा में न पड़ो ॥

४७ वह यह कह ही रहा था, कि देखो एक भीड़ आई, और उन बारहों में से एक जिस का नाम यहूदा था उनके आगे आगे आ रहा था, वह यीशु के पास आया, कि उसका चूमा ले। ४८ यीशु ने उस से कहा, हे यहूदा, क्या तू चूमा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाना है? ४९ उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होनेवाला है, तो कहा; हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? ५० और उन में से एक ने महायाजक के दास पर चलाकर उसका दहिना कान उड़ा दिया। ५१ इस पर यीशु ने कहा; अब बस करो * : और उसका कान छूकर उसे

* या यहां तक रहने दो।

अच्छा किया। ५२ तब यीशु ने महा-याजकों; और मन्दिर के पहरेदारों के सरदारों और पुरनियों से, जो उस पर चढ़ आए थे, कहा; क्या तुम मुझे डाकू जानकर तलवारों और लाठियां लिए हुए निकले हो? ५३ जब मैं मन्दिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, तो तुम ने मुझे पर हाथ न डाला; पर यह तुम्हारी घड़ी है, और अन्धकार का अधिकार है ॥

५४ फिर वे उसे पकड़कर ले चले, और महायाजक के घर में लाए और पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे चलता था। ५५ और जब वे आंगन में आग सुलगाकर इकट्ठे बैठे, तो पतरस भी उन के बीच में बैठ गया। ५६ और एक लौड़ी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर और उस की ओर ताककर कहने लगी, यह भी तो उसके साथ था। ५७ परन्तु उस ने यह कहकर इन्कार किया, कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता। ५८ थोड़ी देर बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उन्हीं में से है; पतरस ने कहा; हे मनुष्य मैं नहीं हूँ। ५९ कोई घंटे भर के बाद एक और मनुष्य दृढ़ता से कहने लगा; निश्चय यह भी तो उसके साथ था; क्योंकि यह गलीली है। ६० पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहता है? वह कह ही रहा था कि तुरन्त मुर्ग ने बांग दी। ६१ तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, और पतरस को प्रभु की वह बात याद आई जो उस ने कही थी, कि आज मुर्ग के बांग देने से पहिले, तू तीन बार मेरा इन्कार करेगा। ६२ और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा ॥

६३ जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे, वे उसे ठट्ठीं में उड़ाकर पीटने लगे।

६४ और उस की आंखें ढांपकर उस से पूछा, कि भविष्यद्वाणी करके बता कि तुम्हें किसने मारा। ६५ और उन्होंने ने बहुत सी और भी निन्दा की बातें उसके विरोध में कहीं ॥

६६ जब दिन हुआ तो लोगों के पुरनिए और महायाजक और शास्त्री इकट्ठे हुए, और उसे अपनी महासभा में लाकर पूछा, ६७ यदि तू मसीह है, तो हम से कह दे! उस ने उन से कहा, यदि मैं तुम से कहूँ, तो प्रतीति न करोगे। ६८ और यदि पूछूँ, तो उत्तर न दोगे। ६९ परन्तु अब से मनुष्य का पुत्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर की दहिनी ओर बैठा रहेगा। ७० इस पर सब ने कहा, तो क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उस ने उन से कहा; तुम आप ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ। ७१ तब उन्होंने ने कहा; अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है; क्योंकि हम ने आप ही उसके मुँह से सुन लिया है ॥

२३ तब सारी सभा उठकर उसे पीलातुस के पास ले गई। २ और वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, कि हम ने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते, और अपने आप को मसीह राजा कहते हुए सुना है। ३ पीलातुस ने उस से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उस ने उसे उत्तर दिया, कि तू आप ही कह रहा है। ४ तब पीलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कुछ दोष नहीं पाता। ५ पर वे और भी दृढ़ता से कहने लगे, यह गलील से लेकर यहां तक सारे यहूदिया में उपदेश दे-कर लोगों को उसकाता है। ६ यह सुनकर पीलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली

है? ७ और यह जानकर कि वह हेरोदेस की ग्यामत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था ॥

८ हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रमत्त हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों में उस को देखना चाहता था : इसलिये कि उसके विषय में सुना था, और उसका कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था । ९ वह उस से बहुतेरी बातें पूछता रहा, पर उस ने उस को कुछ भी उत्तर न दिया । १० और महायाजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाने लगे । ११ तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके ठट्टों में उड़ाया, और भड़कीला वस्त्र पहिनाकर उसे पीलातुस के पास लौटा दिया । १२ उसी दिन पीलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए । इसके पहिले वे एक दूसरे के वैरी थे ॥

१३ पीलातुस ने महायाजकों और सरदारों और लोगों को बुलाकर उन से कहा । १४ तुम इस मनुष्य को लोगों का बहकानेवाला ठहराकर मेरे पाम लाए हो, और देखो, मैं ने तुम्हारे साम्हने उस की जांच की, पर जिन बातों का तुम उस पर दोष लगाते हो, उन बातों के विषय में मैं ने उस में कुछ भी दोष नहीं पाया है । १५ न हेरोदेस ने, क्योंकि उस ने उसे हमारे पास लौटा दिया है : और देखो, उस से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वह मृत्यु के दण्ड के योग्य ठहराया जाए । १६ इसलिये मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ । १७ तब सब मिलकर चिल्ला उठे, कि इस का काम तमाम कर, और हमारे लिये बरअब्बा को छोड़ दे । १९ यही किसी बलवे के कारण जो नगर में हुआ था, और हत्या के कारण बन्दीगृह

में डाला गया था । २० पर पीलातुस ने यीशु को छोड़ने की इच्छा में लोगों को फिर समझाया । २१ परन्तु उन्होंने ने चिल्लाकर कहा ; कि उसे क्रूम पर चढ़ा, क्रूम पर । २२ उस ने तीमरी ब्रा उन से कहा ; क्यों उस ने कौन सी बुराई की है ? मैं ने उस में मृत्यु के दण्ड के योग्य कोई बात नहीं पाई ! इसलिये मैं उसे पिटवाकर छोड़ देता हूँ । २३ परन्तु वे चिल्ला-चिल्लाकर पीछे पड़ गए, कि वह क्रूम पर चढ़ाया जाए, और उन का चिल्लाना प्रबल हुआ । २४ सो पीलातुस ने आज्ञा दी, कि उन की बिनती के अनुसार किया जाए । २५ और उस ने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण बन्दीगृह में डाला गया था, और जिसे वे मांगते थे, छोड़ दिया ; और यीशु को उन की इच्छा के अनुसार सोप दिया ॥

२६ जब वे उसे लिए जाते थे, तो उन्होंने ने शमीन नाम एक कुरेनी को जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उस पर क्रूम को लाद दिया कि उसे यीशु के पीछे पीछे ले चले ॥

२७ और लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली : और बहुत सी स्त्रियां भी, जो उसके लिये छाती-पीटती और विलाप करती थीं । २८ यीशु ने उन की ओर फिरकर कहा ; हे यरूशलेम की पुत्रियो, मेरे लिये मत रोओ ; परन्तु अपने और अपने बालकों के लिये रोओ । २९ क्योंकि देखो, वे दिन आते हैं, जिन में कहेंगे, धन्य है वे जो बाँझ हैं, और वे गर्भ जो न जने और वे स्तन जिन्होंने न दूध न पिलाया । ३० उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढाँप लो । ३१ क्योंकि जब वे हरे पेड़ के

साथ ऐसा करते हैं, तो मूल्य के साथ क्या कुछ न किया जाएगा ?

३२ वे और दो मनुष्यों को भी जो कुकर्मी थे उसके साथ घात करने को ले चले ॥

३३ जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे, तो उन्होंने ने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी एक को दहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया ।

३४ तब यीशु ने कहा; हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं? और उन्होंने ने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। ३५ लोग खड़े खड़े देख रहे थे, और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, कि इस ने औरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है, और उसका चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। ३६ सिपाही भी पास आकर और सिरका देकर उसका ठट्ठा करके कहते थे ।

३७ यदि तू यहूदियों का राजा है, तो अपने आप को बचा। ३८ और उसके ऊपर एक पत्र भी लगा था, कि यह यहूदियों का राजा है ॥

३९ जो कुकर्मी लटकाए गए थे, उन में से एक ने उस की निन्दा करके कहा; क्या तू मसीह नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। ४० इस पर दूसरे ने उसे डांटकर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो वही दण्ड पा रहा है। ४१ और हम तो न्यायानुसार दण्ड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं; पर इस ने कोई अनुचित काम नहीं किया। ४२ तब उस ने कहा; हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, तो मेरी मुधि लेना। ४३ उस ने उस से कहा,

में तुझ से सच कहता हूँ; कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा ॥

४४ और लगभग दो पहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अग्धियारा छाया रहा। ४५ और सूर्य का उजियाला जाता रहा, और मन्दिर का परदा बीच से फट गया। ४६ और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा; हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ; और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। ४७ सूबेदार ने, जो कुछ हुआ था देखकर, परमेश्वर की बड़ाई की, और कहा; निश्चय यह मनुष्य धर्मी था। ४८ और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को, देखकर छाती-पीटती हुई लौट गई। ४९ और उसके सब जान पहचान, और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थीं, दूर खड़ी हुई यह सब देख रही थीं ॥

५० और देखो पूमुफ नाम एक मन्त्री जो सज्जन और धर्मी पुरुष था। ५१ और उन के विचार और उन के इस काम से प्रसन्न न था; और वह यहूदियों के नगर अरिमतीया का रहनेवाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोहनेवाला था। ५२ उस ने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लोथ मांग ली। ५३ और उसे उतारकर चादर में लपेटा, और एक कन्न में रखा, जो चट्टान में खोदी हुई थी; और उस में कोई कमी न रखा गया था। ५४ वह तैयारी का दिन था, और सब्त का दिन आरम्भ होने पर था। ५५ और उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थीं, पीछे पीछे जाकर उस कन्न को देखा, और यह भी कि उस की लोथ किम रीति से रखी गई है। ५६ और लौटकर सुगन्धित वस्तुएं और इत्र तैयार किया :

और सब्त के दिन तो उन्होंने ने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया ॥

२४ परन्तु सप्ताह के पहिले दिन बड़े भोर को वे उन मुगन्धित वस्तुओं को जो उन्हो ने तैयार की थीं, ले कर कब्र पर भाई। २ और उन्होंने ने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। ३ और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ न पाई। ४ जब वे इस बात से भीचक्की हो रही थीं तो देखो, दो पुरुष भलकते वस्त्र पहिने हुए उन के पास घ्रा खड़े हुए। ५ जब वे डर गईं, और, धरती की और मुंह भुकाए रहीं; तो उन्हो ने उन से कहा; तुम जीवते को मरे हुआं में क्यों दूँवती हो? ६ वह यहां नहीं, परन्तु जी उठा है; स्मरण करो; कि उस ते गनील में रहते हुए तुम से कहा था। ७ कि अवश्य है, कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, और क्रूस पर चढ़ाया जाए; और तीसरे दिन जी उठे। ८ तब उस की बातें उन को स्मरण भाईं। ९ और कब्र से लौटकर उन्हो ने उन ग्यारहों को, और, और सब को, ये सब बातें कह सुनाईं। १० जिन्हों ने प्रेरितों से ये बातें कहीं, वे मरियम मगदलीनी और योसभा और याकूब की माता मरियम और उन के साथ की और स्त्रियां भी थीं। ११ परन्तु उन की बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ीं, और उन्हो ने उन की प्रतीति न की। १२ तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ गया, और भुककर केवल कपड़े पड़े देखे, और जो हुआ था, उस से अचम्भा करता हुआ, अपने घर चला गया ॥

१३ देखो, उसी दिन उन में से दो जन इम्माऊस नाम एक गांव को जा रहे थे,

जो यहशलेम से कोई सात मील की दूरी पर था। १४ और वे इन सब बातों पर जो हुई थीं, आपस में बातचीत करते जा रहे थे। १५ और जब वे आपस में बातचीत और पूछपाछ कर रहे थे, तो यीशु आपस आकर उन के साथ हो लिया। १६ परन्तु उन की आंखें ऐसी बन्द कर दी गई थीं, कि उसे पहिचान न सके। १७ उस ने उन से पूछा; ये क्या बातें हैं, जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास से खड़े रह गए। १८ यह सुनकर, उनमें से क्लियुपास नाम एक व्यक्ति ने कहा; क्या तू यहशलेम में अकेला परदेशी है; जो नहीं जानता, कि इन दिनों में उस में क्या क्या हुआ है? १९ उस ने उन से पूछा; कौन सी बातें? उन्हो ने उस से कहा; यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था। २० और महायाजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया, कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए; और उसे क्रूस पर चढ़वाया। २१ परन्तु हमें आशा थी, कि यही इस्त्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए तीसरा दिन है। २२ और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थीं। २३ और जब उस की लोथ न पाई, तो यह कहती हुई भाईं, कि हम ने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया, जिन्हों ने कहा कि वह जीवित है। २४ तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए, और जैसा स्त्रियों ने कहा था, वैसा ही पाया; परन्तु उस को न देखा। २५ तब उस ने उन से कहा; हे निर्बुद्धियों, और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास

करने में मन्दमतिथो ! २६ क्या अवश्य न था, कि मसीह ये दुःख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे ? २७ तब उस ने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरम्भ करके सारे पवित्र शास्त्रों में से, अपने विषय में की बातों का अर्थ, उन्हें समझा दिया। २८ इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे, जहां वे जा रहे थे, और उनके ढंग से ऐसा जान पड़ा, कि वह आगे बढ़ा चाहता है। २९ परन्तु उन्होंने ने यह कहकर उसे रोका, कि हमारे साथ रह; क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। तब वह उन के साथ रहने के लिये भीतर गया। ३० जब वह उन के साथ भोजन करने बैठा, तो उस ने रोटी लेकर धन्यवाद किया, और उसे तोड़कर उन को देने लगा। ३१ तब उन की आंखें खुल गईं; और उन्होंने उसे पहचान लिया, और वह उन की आंखों से छिप गया। ३२ उन्होंने ने आपस में कहा; जब वह मार्ग में हम से बातें करता था, और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई ? ३३ वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए, और उन ग्यारहों और उन के साथियों को इकट्ठे पाया। ३४ वे कहते थे, प्रभु सचमुच जी उठा है, और शमोन को दिलाई दिया है। ३५ तब उन्होंने ने मार्ग की बातें उन्हें बता दीं और यह भी कि उन्होंने ने उसे रोटी तोड़ते समय क्योंकर पहचाना। ३६ वे ये बातें कह ही रहे थे, कि वह आप ही उन के बीच में आ खड़ा हुआ; और उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। ३७ परन्तु वे घबरा गए, और डर गए, और समझे, कि हम किसी भूत को देखते हैं। ३८ उस ने उन से कहा; क्यों घबराते

हो ? और तुम्हारे मन में क्यों मन्देह उठते हैं ? ३९ मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, कि मैं वही हूँ; मुझे छूकर देखो; क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। ४० यह कहकर उस ने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। ४१ जब आनन्द के मारे उन को प्रतीति न हुई, और आश्चर्य करते थे, तो उस ने उन से पूछा; क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है ? ४२ उन्होंने ने उसे भूनी मछली का टुकड़ा दिया। ४३ उस ने लेकर उन के साम्हने लाया। ४४ फिर उस ने उन से कहा, ये मेरी वे बातें हैं, जो मैं ने तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम से कही थी, कि अवश्य है, कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में, मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हों। ४५ तब उस ने पवित्र शास्त्र ब्रूझने के लिये उन की समझ खोल दी। ४६ और उन से कहा, यों लिखा है; कि मसीह दुःख उठाएगा, और तीसरे दिन मरे हुएों में से जी उठेगा। ४७ और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव* का और पापों की क्षमा का प्रचार, उसी के नाम से किया जाएगा। ४८ तुम इन सब बातों के गवाह हो। ४९ और देखो, जिस की प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उस को तुम पर उतारूंगा और जब तक स्वर्ग से सामर्थ्य न पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो ॥

५० तब वह उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया, और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। ५१ और उन्हें आशीष देते हुए वह उन से अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। ५२ और वे

उस को दण्डवत् करके बड़े आनन्द से यरूशलेम को लौट गए। ५३ और

उस दिन वे यरूशलेम में आये और प्रार्थना की। ५४ और वे यरूशलेम को

प्रार्थना की, 'हे यरूशलेम! तूने कितने बार मुझे भोगा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

लगातार मन्दिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ५५

५६ और वे यरूशलेम को प्रार्थना की, 'हे यरूशलेम! तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने बार मुझे मार-पीटा है, तूने कितने

यूहन्ना रचित सुसमाचार

१ प्रादि में वचन * था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन पर-

मेश्वर था। २ यही प्रादि में परमेश्वर के साथ था। ३ सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, उस

में से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। ४ उस में जीवन था; और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ५ और ज्योति अन्धकार में चमकती है; और अन्धकार ने उसे ग्रहण न किया। ६ एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिस का नाम यूहन्ना था। ७ यह गवाही देने आया, कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। ८ वह आप तो वह ज्योति न था, परन्तु उस ज्योति की गवाही देने के लिये आया था। ९ सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आनेवाली थी। १० वह जगत में था, और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहिचाना। ११ वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। १२ परन्तु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उस ने उन्हें परमेश्वर के

सन्तान होने का अधिकार दिया, अर्थात् उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। १३ वे न तो लोह से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परन्तु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। १४ और वचन देहधारी हुआ; और अन्तुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेर किया, और हम ने उस की ऐसी महिमा देखी, जैसी पिता के एकलौते की महिमा। १५ यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी, और पुकारकर कहा, कि यह वही है, जिस का मैं ने वर्णन किया, कि जो मेरे बाद आ रहा है, वह मुझ से बड़कर है क्योंकि वह मुझ से पहिले था। १६ क्योंकि उस की परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया अर्थात् अन्तुग्रह पर अन्तुग्रह। १७ इसलिये कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई; परन्तु अन्तुग्रह, और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। १८ परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र * जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रगट किया। १९ यूहन्ना की गवाही यह है, कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेबीयों को उस से यह पूछने के लिये

* या शब्द।

† या अन्धकार उस पर जयवन्त न हुआ।

* और पढ़ते हैं। परमेश्वर एकलौता।

भेजा, कि तू कौन है? २० तो उस ने यह मान लिया, और इन्कार नहीं किया परन्तु मान लिया कि मैं मसीह नहीं हूँ। २१ तब उन्होंने ने उस से पूछा, तो फिर कौन है? क्या तू एलिय्याह है? उस ने कहा, मैं नहीं हूँ; तो क्या तू वह भविष्यद्वक्ता है? उस ने उत्तर दिया, कि नहीं।

२२ तब उन्होंने ने उस से पूछा, फिर तू है कौन? ताकि हम अपने भेजनेवालों को उत्तर दें; तू अपने विषय में क्या कहता है? २३ उस ने कहा, मैं जैसा यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा है, ज जल में एक पुकारनेवाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। २४ ये फरीसियों की ओर से भेजे गए थे। २५ उन्होंने ने उस से यह प्रश्न पूछा, कि यदि तू न मसीह है, और न एलिय्याह, और न वह भविष्यद्वक्ता है, तो फिर अपतिस्मा क्यों देता है? २६ यूहन्ना ने उन को उत्तर दिया, कि मैं तो जल से * अपतिस्मा देता हूँ; परन्तु तुम्हारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है, जिसे तुम नहीं जानते। २७ अर्थात् मेरे बाद आनेवाला है, जिस की जूती का बन्ध मैं खोलने के योग्य नहीं। २८ ये बातें यरदन के पार बैननिय्याह में हुई, जहाँ यूहन्ना अपतिस्मा देता था ॥

२९ दूसरे दिन उस ने यीशु को अपनी ओर आने देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। ३० यह वही है, जिस के विषय में मैं ने कहा था, कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, जो मुझ से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझ से पहिले था। ३१ और मैं तो उसे पहिचानता न था।

परन्तु इसलिये मैं जल से अपतिस्मा देता हुआ आया, कि वह इलाएल पर प्रगट हो जाए। ३२ और यूहन्ना ने यह गवाही दी, कि मैं ने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा है, और वह उस पर ठहर गया। ३३ और मैं तो उसे पहिचानता नहीं था, परन्तु जिस ने मुझे जल से अपतिस्मा देने को भेजा, उसी ने मुझ से कहा, कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे; वही पवित्र आत्मा से अपतिस्मा देनेवाला है। ३४ और मैं ने देखा, और गवाही दी है, कि यही परमेश्वर का पुत्र है ॥

३५ दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके बेलों में से दो जन खड़े हुए थे।

३६ और उस ने यीशु पर जो आ रहा था दृष्टि करके कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेम्ना है। ३७ तब वे दोनों बेले उस की यह सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। ३८ यीशु ने फिरकर और उन को पीछे आने देखकर उन से कहा, तुम किस की खोज में हो? उन्होंने ने उस से कहा, हे रब्बी, अर्थात् (हे गुरु) तू कहाँ रहता है? उस ने उन से कहा, बलो, तो देख लोगे। ३९ तब उन्होंने ने आकर उसके रहने का स्थान देखा, और उस दिन उसी के साथ रहे; और यह दसवें घंटे के लगभग था। ४० उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक तो शमोन पतरस का भाई प्रन्द्रियास था। ४१ उस ने पहिले अपने सगे भाई शमोन से मिलकर उस से कहा, कि हम की खिस्तस अर्थात् मसीह मिल गया। ४२ वह उसे यीशु के पास लाया; यीशु ने उस पर दृष्टि करके

कहा, कि तू यूहन्ना का पुत्र शमीन है, तू केफ़र भ्रयात् पतरस कहलाएगा ॥

४३ दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा; और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। ४४ फिलिप्पुस तो अन्धियास और पतरस के नगर बतसैदा का निवासी था। ४५ फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उस से कहा, कि जिस का वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हम को मिल गया; वह यूसुफ का पुत्र, यीशु नासरी है। ४६ नतनएल ने उस से कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उस से कहा, चलकर देख ले। ४७ यीशु ने नतनएल को अपनी ओर भाते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है: इस में कपट नहीं। ४८ नतनएल ने उस से कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उस को उत्तर दिया; उस से पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैं ने तुझे देखा था। ४९ नतनएल ने उस को उत्तर दिया, कि हे रेब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है; तू इस्राएल का महाराजा है। ५० यीशु ने उस को उत्तर दिया; मैं ने जो तुझ से कहा, कि मैं ने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी लिये विश्वास करता है? तू इस से बड़े बड़े काम देखेगा। ५१ फिर उस से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को बुला हुआ, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे ॥

५२ फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी। २ और यीशु और उसके चले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। ३ जब दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उस से कहा, कि उन के पास दाखरस नहीं रहा। ४ यीशु ने उस से कहा, हे महिला मुझे तुझ से क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। ५ उस की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम से कहे, वही करना। ६ वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के छः मटके धरे थे, जिन में दो दो, तीन तीन मन समाता था। ७ यीशु ने उन से कहा, मटकों में पानी भर दो: सो उन्होंने ने उन्हें मुहामुह भर दिया। ८ तब उस ने उन से कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। ९ वे ले गए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चला, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था, कि वह कहां से आया है, (परन्तु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे) तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर, उस से कहा। १० हर एक मनुष्य पहिले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं, तब मध्यम देता है; परन्तु तू ने अच्छा दाखरस प्रब तक रख छोड़ा है। ११ यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहिला चिन्ह * दिखाकर अपनी महिमा प्रगट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया ॥

१२ इस के बाद वह और उस की माता और उसके भाई और उसके चले कफ़रनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे ॥

* या आश्चर्यकर्म।

१३ फिर यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, कि मैं तुम से भ्रयात् पतरस कहलाएगा ॥

१४ दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा; और फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। १५ फिलिप्पुस तो अन्धियास और पतरस के नगर बतसैदा का निवासी था। १६ फिलिप्पुस ने नतनएल से मिलकर उस से कहा, कि जिस का वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वह हम को मिल गया; वह यूसुफ का पुत्र, यीशु नासरी है। १७ नतनएल ने उस से कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उस से कहा, चलकर देख ले। १८ यीशु ने नतनएल को अपनी ओर भाते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, यह सचमुच इस्राएली है: इस में कपट नहीं। १९ नतनएल ने उस से कहा, तू मुझे कहां से जानता है? यीशु ने उस को उत्तर दिया; उस से पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैं ने तुझे देखा था। २० नतनएल ने उस को उत्तर दिया, कि हे रेब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है; तू इस्राएल का महाराजा है। २१ यीशु ने उस को उत्तर दिया; मैं ने जो तुझ से कहा, कि मैं ने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसी लिये विश्वास करता है? तू इस से बड़े बड़े काम देखेगा। २२ फिर उस से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को बुला हुआ, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते देखोगे ॥

२३ फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था, और यीशु की माता भी वहां थी। २४ और यीशु और उसके चले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। २५ जब दाखरस घट गया, तो यीशु की माता ने उस से कहा, कि उन के पास दाखरस नहीं रहा। २६ यीशु ने उस से कहा, हे महिला मुझे तुझ से क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। २७ उस की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुम से कहे, वही करना। २८ वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के छः मटके धरे थे, जिन में दो दो, तीन तीन मन समाता था। २९ यीशु ने उन से कहा, मटकों में पानी भर दो: सो उन्होंने ने उन्हें मुहामुह भर दिया। ३० तब उस ने उन से कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। ३१ वे ले गए, जब भोज के प्रधान ने वह पानी चला, जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था, कि वह कहां से आया है, (परन्तु जिन सेवकों ने पानी निकाला था, वे जानते थे) तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर, उस से कहा। ३२ हर एक मनुष्य पहिले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं, तब मध्यम देता है; परन्तु तू ने अच्छा दाखरस प्रब तक रख छोड़ा है। ३३ यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहिला चिन्ह * दिखाकर अपनी महिमा प्रगट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया ॥

* या आश्चर्यकर्म।

१३ यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और यीशु यरूशलेम को गया।

१४ और उस ने मन्दिर में बैल और भेड़ और कबूतर के बेचनेवालों और सर्पियों को बैठे हुए पाया। १५ और रस्सियों का कोड़ा बनाकर, सब भेड़ों और बैलों को मन्दिर से निकाल दिया, और सर्पियों के पैसे बिछरा दिए, और पीड़ों को उलट दिया।

१६ और कबूतर बेचनेवालों से कहा; इन्हें यहां से ले जाओ: मेरे पिता के भवन को व्योपार का घर मत बनाओ। १७ तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, 'तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी'।

१८ इस पर यहूदियों ने उस से कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? १९ यीशु ने उन को उत्तर दिया; कि इस मन्दिर को ढा दो, और मैं उसे तीन दिन में खड़ा कर दूंगा।

२० यहूदियों ने कहा; इस मन्दिर के बनाने में छियालीस वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे तीन दिन में खड़ा कर देगा? २१ परन्तु उस ने अपनी देह के मन्दिर के विषय में कहा था। २२ सो जब वह मुदों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया, कि उस ने यह कहा था; और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था, प्रतीति की।

२३ जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। २४ परन्तु यीशु ने अपने आप को उन के भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब को जानता था। २५ और उसे प्रयोजन न था, कि मनुष्य के विषय में कोई गवाही दे, क्योंकि वह आप ही जानता था, कि मनुष्य के मन में क्या है?

२ फरीसियों में से नीकुदेमुस नाम एक मनुष्य था, जो यहूदियों का सरदार था। २ उस ने रात को यीशु के पास आकर उम से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं, कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु हो कर आया है;

क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ न हो, तो नहीं दिखा सकता। ३ यीशु ने उस को उत्तर दिया; कि मैं तुझ से सच सच कहता हूँ, यदि कोई नये सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता।

४ नीकुदेमुस ने उम से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया, तो क्योंकि जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है?

५ यीशु ने उत्तर दिया, कि मैं तुझ से सच सच कहता हूँ; जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ६ क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर है; और जो आत्मा से जन्मा है, वह आत्मा है।

७ अचम्भा न कर, कि मैं ने तुझ से कहा; कि तुम्हें नये सिरे से जन्म लेना अवश्य है।

८ हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परन्तु नहीं जानता, कि वह कहां से आती और किधर को जाती है? जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। ९ नीकुदेमुस ने उस को उत्तर दिया; कि ये बातें कष्टकर हो सकती हैं?

१० यह सुनकर यीशु ने उस से कहा; तू इस्त्राएलियों का गुरु हो कर भी क्या इन बातों को नहीं समझता। ११ मैं तुझ से सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं, वह कहते हैं, और जिसे हम ने देखा है, उस की गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। १२ जब मैं ने

तुम से पृथ्वी की बातें कहीं, और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुम से स्वर्ग की बातें कहूँ, तो फिर क्योंकर प्रतीति करोगे? १३ और कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात् मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। १४ और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। १५ ताकि जो कोई विश्वास करे उस में अनन्त जीवन पाए।

१६ क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उस ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, वह नाश न हो, परन्तु अनन्त जीवन पाए। १७ परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिये नहीं भेजा, कि जगत पर दंड की आज्ञा दे परन्तु इसलिये कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। १८ जो उम पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परन्तु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वह दोषी ठहर चुका; इसलिये कि उस ने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। १९ और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अन्धकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उन के काम बुरे थे। २० क्योंकि जो कोई बुराई करता है, वह ज्योति से बंद रखता है, और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। २१ परन्तु जो सच्चाई पर चलता है, वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रगट हों, कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं।

२२ इस के बाद यीशु और उसके चेलों यहूदिया देश में आए; और वह वहाँ उन के साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। २३ और यूहन्ना भी झालेम् के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था। क्योंकि वहाँ बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। २४ क्योंकि यूहन्ना उस समय तक जेलखाने में नहीं डाला गया था। २५ वहाँ यूहन्ना के चेलों का किमी यहूदी के साथ शुद्धि के विषय में वाद-विवाद हुआ। २६ और उन्होंने ने यूहन्ना के पास आकर उस से कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति परदन के पार तेरे साथ था, और जिस की तू ने गवाही दी है देख, वह बपतिस्मा देता है, और सब उसके पास आते हैं। २७ यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाय तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। २८ तुम तो आप ही मेरे गवाह हो, कि मैं ने कहा, मैं मसीह नहीं, परन्तु उसके प्रागे भेजा गया हूँ। २९ जिस की दुलहिन है, वही दूल्हा है; परन्तु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उस की सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है; अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। ३० अवश्य है कि वह बड़े और में घटूँ।

३१ जो ऊपर से आता है, वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है; और पृथ्वी की ही बातें कहता है: जो स्वर्ग से आता है, वह सब के ऊपर है। ३२ जो कुछ उस ने देखा, और सुना है, उसी की गवाही देता है; और कोई उस की गवाही ग्रहण नहीं करता। ३३ जिस ने उम की गवाही ग्रहण कर ली उस ने इस बात पर छाप दे दी कि परमेश्वर सच्चा है। ३४ क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, वह परमेश्वर की बातें कहता है; क्योंकि

वह धात्रा नाप नापकर नहीं देता। ३५ पिता पुत्र से प्रेम रखता है, और उस ने सब वस्तुएँ उसके हाथ में दे दी हैं। ३६ जो पुत्र पर विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसका है; परन्तु जो पुत्र को नहीं मानता, वह जीवन को नहीं देलगा, परन्तु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है॥

४ फिर जब प्रभु को मालूम हुआ, कि फरीसियों ने मुना है, कि यीशु यूहन्ना से अधिक चले बताता, और उन्हें बपतिस्मा देता है। २ (यद्यपि यीशु प्राप नहीं बरन उसके चले बपतिस्मा देते थे)। ३ तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया। ४ और उस को सामरिया से होकर जाता अवश्य था। ५ सो वह मूखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है, जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। ६ और याकूब का कूषा भी वही था; सो यीशु मांग का थका हुआ उस कूप पर योंही बैठ गया, और यह बात छठे घण्टे के लगभग हुई। ७ इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई; यीशु ने उस से कहा, मुझे पानी पिला। ८ क्योंकि उसके चले तो नगर में भोजन भोल लेने को गए थे। ९ उस सामरी स्त्री ने उस से कहा, तू यहूदी होकर मुझे सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? (क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते)। १० यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के बरदान को जानती, और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझ से कहता है; मुझे पानी पिला तो तू उस से मांगती, और वह तुझे जीवन का जल देता। ११ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को

तो कुछ है भी नहीं, और कूषा गहिरा है: तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहीं से आया? १२ क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिस ने हमें यह कूषा दिया; और प्रापही अपने सन्तान, और अपने डोरों समेत उस में से पीया? १३ यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो कोई यह जल पीएगा वह फिर पियासा होगा। १४ परन्तु जो कोई उस जल में से पीएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनन्तकाल तक पियासा न होगा: बरन जो जल में उसे दूंगा, वह उम में एक सोता बन जाएगा जो अनन्त जीवन के लिये उमड़ता रहेगा। १५ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं पियासी न होऊँ और न जल भरने को इतनी दूर जाऊँ। १६ यीशु ने उस से कहा, जा, अपने पति को यहां बुला ला। १७ स्त्री ने उत्तर दिया, कि मैं बिना पति की हूँ: यीशु ने उस से कहा, तू ठीक कहती है कि मैं बिना पति की हूँ। १८ क्योंकि तू पात्र पति कर चुकी है, और जिस के पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं; यह तू ने सच कहा है। १९ स्त्री ने उस से कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। २० हमारे बापदादों ने इसी पहाड़ पर भजन किया: और तुम कहते हो कि वह जगह जहा भजन करना चाहिए यरूशलम में है। २१ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, मेरी बात को प्रतीति कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे न यरूशलम में। २२ तुम जिसे नहीं जानते, उसका भजन करते हो; और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं; क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। २३ परन्तु वह समय आता है, बरन अब भी है जिस में सच्चे भक्त पिता का भजन

आत्मा धीर सञ्चार्द से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिये ऐसे ही भजन करनेवालों को पूजता है। २४ परमेश्वर आत्मा है, धीर प्रवक्ष्य है कि उसके भजन करनेवाले आत्मा धीर सञ्चार्द से भजन करें। २५ स्त्री ने उस से कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रीस्तुस कहलाता है, आनेवाला है; जब वह आएगा, तो हमें सब बातें बता देगा। २६ यीशु ने उस से कहा, मैं जो तुम्ह से बोल रहा हूँ, वही हूँ।

२७ इतने में उसके चेले घा गए, धीर प्रवम्भा करने लगे, कि वह स्त्री से बातें कर रहा है; तौभी किसी ने न कहा, कि तू क्या चाहता है? या किस लिये उस से बातें करता है। २८ तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई, धीर लोगों से कहने लगी। २९ प्रायो, एक मनुष्य को देखो, जिस ने सब कुछ जो मैं ने किया मुझे बता दिया : कहीं यही तो मसीह नहीं है? ३० सो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। ३१ इतने में उसके चेले यीशु से यह बिनती करने लगे, कि हे रब्बी, कुछ खा ले। ३२ परन्तु उस ने उन से कहा, मेरे पास खाने के लिये ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। ३३ तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिये कुछ खाने को लाया है? ३४ यीशु ने उन से कहा, मेरा भोजन यह है, कि अपने भेजनेवाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करूँ। ३५ क्या तुम नहीं कहते, कि कटनी होने में घब भी चार महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुम से कहता हूँ, अपनी प्रांखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो, कि वे कटनी के लिये पक चुके हैं। ३६ धीर काटनेवाला मजदूरी पाता, धीर धनन्त जीवन के लिये फल बटोरता है; ताकि बानेवाला धीर

काटनेवाला दोनों मिलकर धानन्द करें। ३७ क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि बानेवाला धीर है धीर काटनेवाला धीर। ३८ मैं ने तुम्हें वह खेत काटने के लिये भेजा, जिस में तुम ने परिश्रम नहीं किया : धीरों ने परिश्रम किया धीर तुम उन के परिश्रम के फल में भागी हुए।

३९ धीर उस नगर के बहुत सामरियों ने उस स्त्री के कहने से, जिस ने यह गवाही दी थी, कि उस ने सब कुछ जो मैं ने किया है, मुझे बता दिया, विश्वास किया। ४० तब जब ये सामरी उसके पास आए, तो उस से बिनती करने लगे, कि हमारे यहां रह : सो वह वहां दो दिन तक रहा। ४१ धीर उसके वचन के कारण धीर भी बहुतेरों ने विश्वास किया। ४२ धीर उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते; क्योंकि हम ने आप ही मुन लिया, धीर जानते हैं कि यही सचमुच में अगत का उद्धारकर्ता है।

४३ फिर उन दो दिनों के बाद वह वहां से कूच करके गलील को गया। ४४ क्योंकि यीशु ने आप ही सांझी दी, कि भविष्यद्वक्ता अपने देश में धादर नहीं पाता। ४५ जब वह गलील में आया, तो गलीली धानन्द के साथ उस से मिले; क्योंकि जितने काम उस ने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे, उन्हीं ने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे।

४६ तब वह फिर गलील के काना में आया, जहां उस ने पानी को दास रस बनाया था : धीर राजा का एक कर्मचारी था जिस का पुत्र कफरनहूम में बीमार था। ४७ वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उस से

बिनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे : क्योंकि वह मरने पर था । ४८ यीशु ने उस से कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे । ४९ राजा के कर्मचारी ने उस से कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहिले चल । ५० यीशु ने उस से कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है : उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की, और चला गया । ५१ वह मार्ग में जा रहा था, कि उसके दास उस से आ मिले और कहने लगे कि तेरा सड़का जीवित है । ५२ उस ने उन से पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा ? उन्होंने ने उस से कहा, कल सातवें घण्टे में उसका ज्वर उतर गया । ५३ तब पिता जान गया, कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उस से कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उस ने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया । ५४ यह दूसरा आश्चर्यकर्म था, जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया ॥

पू इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पन्थ हुआ और यीशु यरूशलेम को गया ॥

२ यरूशलेम में भेड़-फाटक के पास एक कुएँ है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है, और उसके पांच ओसारे हैं । ३ इन में बहुत से बीमार, अन्धे, लंगड़े और सूखे भ्रंगवाले (पानी के हिलने की आशा में) पड़े रहते थे । ४ (क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुएँ में उतरकर पानी को हिलाया करते थे : पानी हिलते ही जो कोई पहिले उतरता वह चंगा हो जाता था चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो ।) ५ वहाँ एक मनुष्य

था, जो अड़तीस वर्ष से बीमारी में पड़ा था । ६ यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उस से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है ? ७ उस बीमार ने उस को उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, कि जब पानी हिलाया जाए, तो मुझे कुएँ में उतारे; परन्तु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझ से पहिले उतर पड़ता है । ८ यीशु ने उस से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर । ९ वह मनुष्य तुरन्त चंगा हो गया, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा ॥

१० वह सब्त का दिन था । इसलिये यहूदी उस से, जो चंगा हुआ था, कहने लगे, कि आज तो सब्त का दिन है, तुम्हें खाट उठानी उचित नहीं । ११ उस ने उन्हें उत्तर दिया, कि जिस ने मुझे चंगा किया, उसी ने मुझ से कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर । १२ उन्होंने ने उस से पूछा, वह कौन मनुष्य है जिस ने तुम्हें से कहा, खाट उठाकर चल फिर ? १३ परन्तु जो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था वह कौन है; क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था । १४ इन बातों के बाद वह यीशु को मन्दिर में मिला, तब उस ने उस से कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है; फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इस से कोई भारी विपत्ति तुम्हें पर आ पड़े । १५ उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, कि जिस ने मुझे चंगा किया, वह यीशु है । १६ इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सब्त के दिन करता था । १७ इस पर यीशु ने उन से कहा, कि मेरा पिता अब तक काम करता है, और मैं भी काम

करता हूँ। १८ इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, कि वह न केवल सब के दिन की विधि को तोड़ता, परन्तु परमेश्वर को अपना पिता कह कर, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था ॥

१९ इस पर यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ, पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। २० क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है, वह सब उसे दिखाता है; और वह इन से भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचम्भा करो। २१ क्योंकि जैसा पिता मेरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। २२ और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परन्तु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। २३ इसलिये कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें: जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिस ने उसे भेजा है, आदर नहीं करता। २४ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजेवाले की प्रतीति करता है, अनन्त जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती * परन्तु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। २५ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, वह समय आता है, और अब है, जिस में मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जीएंगे। २६ क्योंकि जिस रीति

से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उस ने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। २७ बरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिये कि वह मनुष्य का पुत्र है। २८ इस से अचम्भा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, कि जितने कब्रों में हैं, उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। २९ जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान * के लिये जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिये जी उठेंगे ॥

३० मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता; जैसा सुनता हूँ, वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, परन्तु अपने भेजेवाले की इच्छा चाहता हूँ। ३१ यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूँ; तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। ३२ एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी जो गवाही देता है वह सच्ची है। ३३ तुम ने यूहन्ना से पुछवाया और उस ने सच्चाई की गवाही दी है। ३४ परन्तु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता; तौभी मैं ये बातें इसलिये कहता हूँ, कि तुम्हें उदार मिले। ३५ वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था; और तुम्हें कुछ देर तक उस की ज्योति में, मगन होना अच्छा लगा। ३६ परन्तु मेरे पास जो गवाही है वह यूहन्ना की गवाही से बड़ी है: क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है अर्थात् यही काम जो मैं करता हूँ, वे मेरे गवाह हैं, कि पिता ने मुझे भेजा है। ३७ और पिता जिस ने मुझे भेजा है, उसी

* या वह न्याय में नहीं आता।

* या मृतकोत्थान।

ने मेरी गवाही दी है: तुम ने न कभी उसका शब्द सुना, और न उसका रूप देखा है। ३८ और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते क्योंकि जिसे उस ने भेजा उस की प्रतीति नहीं करते। ३९ तुम पवित्रशास्त्र में ढूँढते हो*, क्योंकि समझते हो कि उस में अनन्त जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है, जो मेरी गवाही देता है। ४० फिर भी तुम जीवन पाने के लिये मेरे पास आना नहीं चाहते। ४१ मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। ४२ परन्तु मैं तुम्हें जानता हूँ, कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। ४३ मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते; यदि कोई और अपने ही नाम से आए, तो उसे ग्रहण कर लो। ४४ तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो श्रद्धित परमेश्वर की ओर से है, नहीं चाहते, किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ४५ यह न समझो, कि मैं पिता के साम्हने तुम पर दोष लगाऊँगा: तुम पर दोष लगानेवाला तो है, अर्थात् मूसा जिस पर तुम ने भरोसा रखा है। ४६ क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते, तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिये कि उस ने मेरे विषय में लिखा है। ४७ परन्तु यदि तुम उस की लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते, तो मेरी बातों की क्योंकर प्रतीति करोगे ॥

इस बातों के बाद यीशु गलील की भील अर्थात् तिबिरियास की भील के पास गया। २ और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली क्योंकि जो आश्चर्य कर्म† वह बीमारों पर दिखाता था वे उन को

देखते थे। ३ तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठा। ४ और यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। ५ तब यीशु ने अपनी आँखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, और फिलिप्पुस से कहा, कि हम इन के भोजन के लिये कहाँ से रोटी मोल लाएँ? ६ परन्तु उस ने यह बात उसे परखने के लिये फही; क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। ७ फिलिप्पुस ने उस को उत्तर दिया, कि दो सौ दीनार* की रोटी उन के लिये पूरी भी न होंगी कि उन में से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। ८ उसके चेलों में से शमीन पतरस के भाई अन्धियास ने उस से कहा। ९ यहाँ एक लड़का है जिस के पास जब की पांच रोटी और दो मछलियाँ हैं परन्तु इतने लोगों के लिये वे क्या हैं। १० यीशु ने कहा, कि लोगों को बँठा दो। उस जगह बहुत घास थी: तब वे लोग जो गिनती में लगभग पांच हजार के थे, बैठ गए: ११ तब यीशु ने रोटियाँ लीं, और धन्यवाद करके बैठनेवालों को बाँट दी: और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बाँट दिया। १२ जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उस ने अपने चेलों से कहा, कि वचे हुए टुकड़े बटोर लो, कि कुछ फेंका † न जाए। १३ सो उन्होंने ने बटोरा, और जब की पांच रोटियों के टुकड़े जो खानेवालों से बच रहे थे उन की बारह टोकरियाँ भरीं। १४ तब जो आश्चर्य कर्म उस ने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे; कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आनेवाला था निश्चय यही है।

* देखो मत्ती १८ : २८।

† यू० खोया न जाए।

* या ढूँढो।

† यू० चिन्ह।

१५ यीशु यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिये धाकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर धकेला चला गया ॥

१६ फिर जब संध्या हुई, तो उसके चेले भील के किनारे गए। १७ और नाव पर चढ़कर भील के पार कफरनहूम को जाने लगे : उस समय घन्घेरा हो गया था, और यीशु अभी तक उन के पास नहीं आया था। १८ और घान्धी के कारण भील में लहरे उठने लगीं। १९ सो जब वे खेत खेत तीन चार मील के लगभग निकल गए, तो उन्होंने ने यीशु को भील पर चलते, और नाव के निकट आते देखा, और डर गए। २० परन्तु उस ने उन से कहा, कि मैं हूँ; डरो मत। २१ सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिये तैयार हुए और तुरन्त वह नाव उस स्थान पर जा पहुँची जहाँ वह जाते थे ॥

२२ दूसरे दिन उस भीड़ ने, जो भील के पार खड़ी थी, यह देखा, कि यहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा, परन्तु केवल उसके चेले चले गए थे। २३ (तौभी और छोटी नावें तिबिरियास से उस जगह के निकट आईं, जहाँ उन्होंने ने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी)। २४ सो जब भीड़ ने देखा, कि यहां न यीशु है, और न उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूँढते हुए कफरनहूम को पहुँचे। २५ और भील के पार उस से मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? २६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिये नहीं ढूँढते हो कि तुम ने अचम्भित काम देखे, परन्तु इसलिये कि तुम रोटियाँ खाकर

तृप्त हुए। २७ नाशमान भोजन के लिये परिश्रम न करो, परन्तु उस भोजन के लिये जो अनन्त जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता, अर्थात् परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। २८ उन्होंने ने उस से कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिये हम क्या करें? २९ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया; परमेश्वर का कार्य यह है, कि तुम उस पर, जिसे उस ने भेजा है, विश्वास करो। ३० तब उन्होंने ने उस से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें, तू कौन सा काम दिखाता है? ३१ हमारे बापवादों ने जंगल में मन्ना * खाया; जैसा लिखा है; कि उस ने उन्हें खाने के लिये स्वर्ग से रोटी दी। ३२ यीशु ने उन से कहा, मैं तुम से सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परन्तु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। ३३ क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। ३४ तब उन्होंने ने उस से कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। ३५ यीशु ने उन से कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ : जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा, वह कभी पियासा न होगा। ३६ परन्तु मैं ने तुम से कहा, कि तुम ने मुझे देख भी लिया है, तौभी विश्वास नहीं करते। ३७ जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी न निकालूंगा। ३८ क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, बरन अपने भेजनेवाले की इच्छा पूरी करने के

* देखो निर्ग० १६ : १५।

लिये स्वर्ग से उतरा हूँ। ३६ और मेरे भेजेनेवाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उस ने मुझे दिया है, उस में से मैं कुछ न खोजूँ परन्तु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँ। ४० क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, कि जो कोई पुत्र को देखे, और उस पर विश्वास करे, वह अनन्त जीवन पाए; और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँगा ॥

४१ सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, इसलिये कि उस ने कहा था; कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी, वह मैं हूँ। ४२ और उन्होंने ने कहा; क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिस के माता-पिता को हम जानते हैं? तो वह क्योंकि कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ। ४३ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि आपस में मत कुड़कुड़ाओ। ४४ कोई मेरे पास नहीं आ सकता, जब तक पिता, जिस ने मुझे भेजा है, उसे खींच न ले; और मैं उस को अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँगा। ४५ भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। ४६ यह नहीं, कि किसी ने पिता को देखा परन्तु जो परमेश्वर की ओर से है, केवल उसी ने पिता को देखा है। ४७ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो कोई विश्वास करता है, अनन्त जीवन उसी का है। ४८ जीवन की रोटी मैं हूँ। ४९ तुम्हारे बापदादों ने जंगल में मशा खाया और मर गए। ५० यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उस में से खाए और न मरे। ५१ जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए, तो सर्वदा जीवित

रहेगा और जो रोटी में जगत के जीवन के लिये दूगा, वह मेरा मांस है ॥

५२ इस पर यहूदी यह कहकर आपस में भगड़ने लगे, कि यह मनुष्य क्योंकि हमें अपना मांस खाने को दे सकता है?

५३ यीशु ने उन से कहा; मैं तुम से सच सच कहता हूँ जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ, और उसका लोह न पीओ, तुम में जीवन नहीं। ५४ जो मेरा मांस खाता, और मेरा लोह पीता है, अनन्त जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊँगा। ५५ क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लोह वास्तव में पीने की वस्तु है। ५६ जो मेरा मांस खाता और मेरा लोह पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है, और मैं उस में। ५७ जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। ५८ जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, बापदादों के समान नहीं कि खाया, और मर गए; जो कोई यह रोटी खाएगा, वह सर्वदा जीवित रहेगा। ५९ ये बातें उस ने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कहीं ॥

६० इसलिये उसके चेलों में से बहुतों ने यह मुनकर कहा, कि यह बात नागवार * है; इसे कौन मुन सकता है? ६१ यीशु ने अपने मन में यह जान कर कि मेरे चले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उन से पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? ६२ और यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहिले था, वहाँ ऊपर जाते देखोगे, तो क्या होगा? ६३ आत्मा तो जीवन-

* या कठिन।

दायक है, धरीर से कुछ लाभ नहीं : जो बातें मैं ने तुम से कही हैं वे आत्मा हैं, और जीवन भी हैं। ६४ परन्तु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते : क्योंकि यीशु तो पहिले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते, वे कौन हैं ? और कौन मुझे पकड़ जाएगा। ६५ और उस ने कहा, इसी लिये मैं ने तुम से कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह बरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता ॥

६६ इस पर उसके चेलों में से बाहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। ६७ तब यीशु ने उन बारहों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो ? ६८ शमोन पतरस ने उस को उत्तर दिया, कि हे प्रभु हम किस के पास जाएं ? अनन्त जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। ६९ और हम ने विश्वास किया, और जान गए हैं, कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। ७० यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैं ने तुम बारहों को नहीं चुन लिया ? तोभी तुम में से एक व्यक्ति सैतान * है। ७१ यह उस ने शमोन इस्करियोती के पुत्र यहूदाह के विषय में कहा, क्योंकि यही जो उन बारहों में से था, उसे पकड़वाने को था ॥

७ इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिये वह यहूदिया में फिरना न चाहता था। २ और यहूदियों का मण्डपों का पर्व निकट था। ३ इसलिये उसके भाइयों ने उस से कहा, यहां से कूच करके यहूदिया में चला जा,

कि जो काम तू करता है, उन्हें तेरे बेले भी देखें। ४ क्योंकि ऐसा कोई न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे, और छिपकर काम करे : यदि तू यह काम करता है, तो अपने तई जगत पर प्रगट कर। ५ क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ६ तब यीशु ने उन से कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया ; परन्तु तुम्हारे लिये सब समय है। ७ जगत तुम से बँर नहीं कर सकता, परन्तु वह मुझ से बँर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ, कि उसके काम बुरे हैं। ८ तुम पर्व में जाओ : मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता ; क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। ९ वह उन से ये बातें कहकर गलील ही में रह गया ॥

१० परन्तु जब उसके भाई पर्व में चले गए, तो वह घ्राप ही प्रगट में नहीं, परन्तु मानो गुप्त होकर गया। ११ सो यहूदी पर्व में उसे यह कहकर ढूँढ़ने लगे कि वह कहाँ है ? १२ और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई : कितने कहते थे : वह भला मनुष्य है : और कितने कहते थे ; नहीं, वह लोगों को भरमाता है। १३ तोभी यहूदियों के मय के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था ॥

१४ और जब पर्व के आधे दिन बीत गए ; तो यीशु मन्दिर में जाकर उपदेश करने लगा। १५ तब यहूदियों ने अचम्भा करके कहा, कि इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई ? १६ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मेरा उपदेश मेरा नहीं, परन्तु मेरे भेजनेवाले का है। १७ यदि कोई उस की इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर

* य० इब्रहीम ।

से है, या मैं अपनी धोर से कहता हूँ। १८ जो अपनी धोर से कुछ कहना है, वह अपनी ही बड़ाई चाहता है; परन्तु जो अपने भेजनेवाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है, और उस में शक नहीं। १९ क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? तीसरी तुम में से कोई व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? २० लोगों ने उत्तर दिया, कि तुम में दुष्टात्मा है; कौन तुम्हें मार डालना चाहता है? २१ यीशु ने उन को उत्तर दिया, कि मैं ने एक काम किया, और तुम सब शकम्भा करते हो। २२ इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी है (यह नहीं कि वह मूसा की धोर से है परन्तु बाप-दादों से चली आई है), और तुम सब के दिन को मनुष्य का खतना करते हो। २३ जब सब के दिन मनुष्य का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था की आज्ञा टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्यों इसलिये क्रोध करते हो, कि मैं ने सब के दिन एक मनुष्य को पूरी रीति से बंगा किया। २४ मुंह देखकर न्याय न चुकाओ, परन्तु ठीक ठीक न्याय चुकाओ ॥

२५ तब कितने यरूशलेमी कहने लगे; क्या यह वही नहीं, जिस के मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। २६ परन्तु देखो, वह तो खुल्लमखुल्ला बातें करता है और कोई उस से कुछ नहीं कहता; क्या सम्भव है कि सरदारों ने सच सच जान लिया है; कि यही मसीह है। २७ इस को तो हम जानते हैं, कि यह कहां का है; परन्तु मसीह जब आएगा, तो कोई न जानेगा कि वह कहां का है। २८ तब यीशु ने मन्दिर में उपदेश देते हुए पुकार के कहा, तुम मुझे जानते हो और यह भी जानते हो कि मैं कहां का हूँ: मैं तो बाप से नहीं आया परन्तु मेरा भेजने-

वाला सच्चा है, उस को तुम नहीं जानते। २९ मैं उन्हे जानता हूँ; क्योंकि मैं उस की धोर से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। ३० इन पर उन्होंने ने उसे पकड़ना चाहा तोभी किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। ३१ धोर भीड़ में से बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया, और कहने लगे, कि मसीह जब आएगा, तो क्या इस से अधिक आश्चर्य-कर्म दिखाएगा जो इस ने दिखाए? ३२ फरीसियों ने लोगों को उसके विषय में ये बातें चुपके चुपके करते सुना; और महायाजकों और फरीसियों ने उसके पकड़ने को सिपाही भेजे। ३३ इस पर यीशु ने कहा, मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूँ; तब अपने भेजनेवाले के पास चला जाऊंगा। ३४ तुम मुझे ढूँढोगे, परन्तु नहीं पाओगे और जहां मैं हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। ३५ यहूदियों ने आपस में कहा, यह कहां जाएगा, कि हम इसे न पाएंगे: क्या वह उन के पास जाएगा, जो यूनानियों में तित्तर बित्तर होकर रहते हैं, और यूनानियों को भी उपदेश देगा? ३६ यह क्या बात है जो उस ने कही, कि तुम मुझे ढूँढोगे, परन्तु न पाओगे: और जहां मैं हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते?

३७ फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई पियासा हो तो मेरे पास आकर पीए। ३८ जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है उसके हृदय * में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। ३९ उस ने यह वचन उम आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर

विश्वास करनेवाले पाने पर थे; क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था; क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुँचा था। ४० तब भीड़ में से किसी किसी ने ये बातें सुन कर कहा, सचमुच यही वह भविष्यद्वक्ता है। ४१ औरों ने कहा; यह मसीह है, परन्तु किसी ने कहा; क्यों? क्या मसीह गलील से आएगा? ४२ क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया, कि मसीह दाऊद के वंश से और बँतलहम गांव से आएगा जहाँ दाऊद रहता था? ४३ सो उनके कारण लोगों में फूट पड़ी। ४४ उन में से कितने उसे पकड़ना चाहते थे, परन्तु किसी ने उन पर हाथ न डाला ॥

४५ तब सिपाही महायाजकों और फरीसियों के पास आए, और उन्होंने उन से कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? ४६ सिपाहियों ने उत्तर दिया, कि किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें न कीं। ४७ फरीसियों ने उन को उत्तर दिया, क्या तुम भी भरमाए गए हो? ४८ क्या सरदारों या फरीसियों में से किसी ने भी उस पर विश्वास किया है? ४९ परन्तु ये लोग जो व्यवस्था नहीं जानते, स्थापित हैं। ५० नोकुदेमुस ने, (जो पहिले उसके पास आया था और उन में से एक था), उन से कहा। ५१ क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहिले उस को सुनकर जान न ले, कि वह क्या करता है; दोषी ठहराती है? ५२ उन्होंने ने उसे उत्तर दिया; क्या तू भी गलील का है दूढ़ और देख, कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता प्रगट नहीं होने का। ५३ [तब * सब कोई अपने अपने घर को गए ॥

* ७ : ४२ से ८ : ११ तक का वाक्य अक्सर पुराने हस्तलेखों में नहीं मिलता।

परन्तु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। २ और भोर को फिर मन्दिर में आया, और सब लोग उसके पास आए; और वह बँठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ३ तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उस को बीच में खड़ी करके यीशु से कहा। ४ हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। ५ व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें: सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? ६ उन्होंने ने उस को परखने के लिये यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिये कोई बात पाएँ, परन्तु यीशु भुक्कर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। ७ जब वे उस से पूछने ही रहे, तो उस ने सीधे होकर उन से कहा, कि तुम में जो निष्पाप हो, वही पहिले उसको पत्थर मारे। ८ और फिर भुक्कर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। ९ परन्तु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। १० यीशु ने सीधे होकर उस से कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी। ११ उस ने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं: यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता; जा, और फिर पाप न करना] ॥

१२ तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति में हूँ; जो मेरे पीछे हो लेगा, वह अन्धकार में न चलेगा, परन्तु जीवन की ज्योति पाएगा। १३ फरीसियों ने उस से कहा; तू अपनी गवाही आप देता है; तेरी गवाही ठीक नहीं। १४ यीशु ने उन को उत्तर दिया; कि यदि मैं अपनी गवाही

आप देता हूँ, तीबी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ, कि मैं कहां से आया हूँ और कहां को जाता हूँ? परन्तु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूँ या कहां को जाता हूँ। १५ तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो; मैं किसी का न्याय नहीं करता। १६ और यदि मैं न्याय करूं भी, तो मेरा न्याय सच्चा है; क्योंकि मैं झकेला नहीं, परन्तु मैं हूँ, और पिता है जिस ने मुझे भेजा। १७ और तुम्हारी व्यवस्था में भी लिसा है; कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। १८ एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूँ, और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिस ने मुझे भेजा। १९ उन्होंने ने उस से कहा, तेरा पिता कहां है? यीशु ने उत्तर दिया, कि न तुम मुझे जानने हो, न मेरे पिता को, यदि मुझे जानने, तो मेरे पिता को भी जानने। २० ये बातें उम ने मन्दिर में उपदेश देने हुए भराडार घर में कहीं, और किसी ने उम ने पकड़ा; क्योंकि उमका समय अब तक नहीं आया था।

२१ उम ने फिर उन से कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूँढोगे और अपने पाप में मरोगे: जहां मैं जाता हूँ, वहां तुम नहीं आ सकते। २२ इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा, जो कहता है; कि जहां मैं जाता हूँ वहां तुम नहीं आ सकते? २३ उस ने उन से कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ; तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। २४ इसलिये मैं ने तुम से कहा, कि तुम अपने पापों में मरोगे; क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूँ, तो अपने पापों में मरोगे। २५ उन्होंने ने उस से कहा, तू कौन है?

यीशु ने उन से कहा, वही * हूँ जो प्रारम्भ मे तुम से कहता आया हूँ। २६ तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है परन्तु मेरा भेजनेवाला सच्चा है; और जो मैं ने उस से मुना है, वही जगत से कहता हूँ। २७ वे न समझे कि हम से पिता के विषय में कहता हूँ। २८ तब यीशु ने कहा, कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे, तो जानोगे कि मैं वही हूँ, और अपने आप से कुछ नहीं करता, परन्तु जैसे मेरे पिता ने मुझे भिजाया, वैसे ही ये बातें कहता हूँ। २९ और मेरा भेजनेवाला मेरे साथ है; उस ने मुझे झकेला नहीं छोड़ा; क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, जिस से वह प्रमत्त होता है। ३० वह ये बातें कह ही रहा था, कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया।

३१ तब यीशु ने उन यहूदियों में जिन्होंने उन की प्रतीति की थी, कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चले ठहरोगे। ३२ और सत्य को जानोगे, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ३३ उन्होंने ने उस को उत्तर दिया; कि हम तो इब्राहीम के वंश में हैं और कभी किसी के दाम नहीं हुए; फिर तू क्योंकर कहता है, कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? ३४ यीशु ने उन को उत्तर दिया; मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो कोई पाप करता है, वह पाप का दाम है। ३५ और दाम सदा घर में नहीं रहता; पुत्र मदा रहता है। ३६ सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ३७ मैं जानता हूँ कि तुम इब्राहीम के वंश से हो; तीबी मेरा वचन

* या यह क्या बात है कि मैं तुम से बातें करता हूँ।

तुम्हारे हृदय * में जगह नहीं पाता, इसलिये तुम मुझे मार डालना चाहते हो। ३८ में वही कहता हूँ, जो अपने पिता के यहाँ देखा है; और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। ३९ उन्होंने ने उन को उत्तर दिया, कि हमारा पिता तो इब्राहीम है; यीशु ने उन से कहा; यदि तुम इब्राहीम की सन्तान होते, तो इब्राहीम के समान काम करते। ४० परन्तु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिस ने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना, यह तो इब्राहीम ने नहीं किया था। ४१ तुम अपने पिता के समान काम करते हो: उन्होंने ने उस से कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे; हमारा एक पिता है अर्थात् परमेश्वर। ४२ यीशु ने उन से कहा; यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, तो तुम मुझ से प्रेम रखते; क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ; मैं प्राप से नहीं आया, परन्तु उसी ने मुझे भेजा। ४३ तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिये कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। ४४ तुम अपने पिता शैतान† से हो, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरम्भ से हत्याारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उस में है ही नहीं: जब वह भूठ बोलता, तो अपने स्वभाव ही से बोलता है; क्योंकि वह भूठा है, बरन भूठ का पिता है। ४५ परन्तु मैं जो सच बोलता हूँ, इसी लिये तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। ४६ तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? और यदि मैं सच बोलता हूँ, तो तुम मेरी प्रतीति क्यों नहीं करते? ४७ जो परमेश्वर से होता

है, वह परमेश्वर को बातें सुनता है और तुम इसलिये नहीं सुनते कि परमेश्वर को और से नहीं हो। ४८ यह सुन यहूदियों ने उस से कहा; क्या हम ठीक नहीं कहते, कि तू सामरी है, और तुझ में दुष्टात्मा है? ४९ यीशु ने उत्तर दिया, कि मुझ में दुष्टात्मा नहीं; परन्तु मैं अपने पिता का आदर करता हूँ, और तुम मेरा निरादर करते हो। ५० परन्तु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक तो है जो चाहता है, और न्याय करता है। ५१ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनन्त काल तक मृत्यु को न देखेगा। ५२ यहूदियों ने उस से कहा, कि अब हम ने जान लिया कि तुझ में दुष्टात्मा है: इब्राहीम मर गया, और भविष्यद्वक्ता भी मर गए हैं और तू कहता है, कि यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनन्त काल तक मृत्यु का स्वाद न चखेगा। ५३ हमारा पिता इब्राहीम तो मर गया, क्या तू उम में बड़ा है? और भविष्यद्वक्ता भी मर गए, तू अपने प्राप को क्या ठहराता है। ५४ यीशु ने उत्तर दिया; यदि मैं प्राप अपनी महिमा कहूँ, तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परन्तु मेरी महिमा करनेवाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो, कि वह हमारा परमेश्वर है। ५५ और तुम ने तो उसे नहीं जाना: परन्तु मैं उसे जानता हूँ; और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता, तो मैं तुम्हारी नाई भूठा ठहरूँगा: परन्तु मैं उसे जानता, और उसके वचन पर चलता हूँ। ५६ तुम्हारा पिता इब्राहीम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था; और उस ने देखा, और आनन्द किया। ५७ यहूदियों ने उस से कहा, अब तक तू पचास वर्ष का नहीं; फिर भी तू ने इब्राहीम

* वा बढने पाता।

† यू० इब्लीस।

को देखा है? ५८ यीशु ने उन से कहा; मैं तुम से सब सब कहता हूँ; कि पहिले इसके कि इबाहीम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। ५९ तब उन्होंने उसे मारने के लिये पर्यर उठाए, परन्तु यीशु छिपकर मन्दिर से निकल गया ॥

६ फिर जाते हुए उस ने एक मनुष्य को देखा, जो जन्म का ग्रन्था था। २ और उसके बेटों ने उस से पूछा, हे रब्बी, किस ने पाप किया था कि यह ग्रन्था जन्मा, इस मनुष्य ने, या उसके माता-पिता ने? ३ यीशु ने उत्तर दिया, कि न तो इस ने पाप किया था; न इस के माता-पिता ने; परन्तु यह इसलिये हुआ, कि परमेश्वर के काम उस में प्रगट हों। ४ जिस ने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है: वह रात भ्रानेवाली है जिस में कोई काम नहीं कर सकता। ५ अब तक मैं जगत में हूँ, तब तक जगत की ज्योति हूँ। ६ यह कहकर उस ने भूमि पर यूका और उस यूक से मिट्टी मानी, और वह मिट्टी उस ग्रन्थे की आंखों पर लगाकर। ७ उस से कहा; जा शोलोह के कुएँ में धो ले, (जिस का धर्यं भेजा हुआ है) सो उस ने जाकर धोया, और देखता हुआ लौट आया। ८ तब पड़ोसी और जिन्होंने पहिले उसे भीख मांगते देखा था, कहने लगे; क्या यह वही नहीं, जो बैठा भीख मांगा करता था? ९ कितनों ने कहा, यह वही है; औरों ने कहा, नहीं; परन्तु उसके समान है: उस ने कहा, मैं वही हूँ। १० तब वे उस से पूछने लगे, तेरी आंखें क्योंकर खुल गई? ११ उस ने उत्तर दिया, कि यीशु नाम एक व्यक्ति ने मिट्टी मानी, और मेरी आंखों पर लगाकर मुझे से कहा, कि शोलोह में जाकर धो ले;

मो में गया, और धोकर देखने लगा। १२ उन्होंने उस से पूछा; वह कहाँ है? उस ने कहा; मैं नहीं जानता ॥ १३ लोग उसे जो पहिले ग्रन्था था फरीसियों के पास ले गए। १४ जिस दिन यीशु ने मिट्टी मानकर उस की आंखें खोली थीं वह सब्त का दिन था। १५ फिर फरीसियों ने भी उस से पूछा; तेरी आंखें किस रीति से खुल गई? उस ने उन से कहा; उस ने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैं ने धो लिया, और अब देखता हूँ। १६ इस पर कई फरीसो कहने लगे; यह मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सब्त का दिन नहीं मानता। औरों ने कहा, पापी मनुष्य क्योंकि ऐसे चिन्ह दिखा सकता है? सो उन में फूट पड़ी। १७ उन्होंने उस ग्रन्थे से फिर कहा, उस ने जो तेरी आंखें खोली, तू उसके विषय में क्या कहता है? उस ने कहा, वह भविष्यद्वक्ता है। १८ परन्तु यहूदियों को विश्वास न हुआ कि यह ग्रन्था था और अब देखता है अब तक उन्होंने उसके माता-पिता को जिस की आंखें खुल गई थी, बुलाकर। १९ उन से न पूछा, कि क्या यह तुम्हारा पुत्र है, जिसे तुम कहते हो कि ग्रन्था जन्मा था? फिर अब वह क्योंकर देखता है? २० उसके माता-पिता ने उत्तर दिया; हम तो जानते हैं कि यह हमारा पुत्र है, और ग्रन्था जन्मा था। २१ परन्तु हम यह नहीं जानते हैं कि अब क्योंकर देखता है; और न यह जानते हैं, कि किस ने उस की आंखें खोलीं; वह सयाना है; उसी से पूछ लो; वह अपने विषय में आप कह देगा। २२ ये बातें उसके माता-पिता ने इसलिये कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे; क्योंकि यहूदी एक कर चुके थे, कि यदि कोई कहे कि वह मसीह

है, तो आराधनालय से निकाला जाए।
 २३ इसी कारण उसके माता-पिता ने कहा,
 कि वह सयाना है; उसी से पूछ लो।
 २४ तब उन्होंने उस मनुष्य को जो धन्धा
 या दूसरी बार बुलाकर उस से कहा,
 परमेश्वर की स्तुति कर: हम तो जानते हैं
 कि वह मनुष्य पापी है। २५ उस ने उत्तर
 दिया: मैं नहीं जानता कि वह पापी है या
 नहीं: मैं एक बात जानता हूँ कि मैं धन्धा
 या घोर श्वब देखता हूँ। २६ उन्होंने ने उस
 से फिर कहा, कि उस ने तेरे साथ क्या
 किया? घोर किस तरह तेरी घाँवें खोलीं?
 २७ उस ने उन से कहा; मैं तो तुम से कह
 चुका, घोर तुम ने न मुना; श्वब दूसरी बार
 क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके
 बेले होना चाहते हो? २८ तब वे उसे
 बुरा-मला कहकर बोले, तू ही उसका बेल
 है, हम तो मूसा के बेले हैं। २९ हम
 जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की;
 परन्तु इस मनुष्य को नहीं जानते कि कहां
 का है। ३० उस ने उन को उत्तर दिया;
 यह तो अशम्भे की बात है कि तुम नहीं
 जानते कि कहां का है तीभी उस ने मेरी
 घाँवें खोल दीं। ३१ हम जानते हैं कि
 परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता परन्तु यदि
 कोई परमेश्वर का भक्त हो, घोर उस की
 इच्छा पर चलता है, तो वह उस की सुनता
 है। ३२ जगत के आरम्भ से यह कभी
 सुनने में नहीं आया, कि किसी ने भी जन्म के
 धन्धे की घाँवें खोली हों। ३३ यदि यह
 व्यक्ति परमेश्वर की घोर से न होता,
 तो कुछ भी नहीं कर सकता। ३४ उन्होंने ने
 उस को उत्तर दिया, कि तू तो बिलकुल
 पापी में जन्मा है, तू हमें क्या सिखाता
 है? घोर उन्होंने ने उसे बाहर निकाल
 दिया ॥

३५ यीशु ने मुना, कि उन्होंने ने उसे बाहर
 निकाल दिया है; घोर जब उस से भेट हुई
 तो कहा, कि क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर
 विश्वास करता है? ३६ उस ने उत्तर
 दिया, कि हे प्रभु, वह कौन है कि मैं उस पर
 विश्वास करूँ? ३७ यीशु ने उस से कहा,
 तू ने उसे देखा भी है; घोर जो तेरे साथ
 बातें कर रहा है वही है। ३८ उस ने कहा,
 हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ: घोर उसे
 दृष्टवत किया। ३९ तब यीशु ने कहा, मैं
 इस जगत में न्याय के लिये आया हूँ, ताकि
 जो नहीं देखते वे देखें, घोर जो देखते हैं वे
 धन्धे हो जाएँ। ४० जो फरीसी उसके
 साथ थे, उन्होंने ने ये बातें सुन कर उस से
 कहा, क्या हम भी धन्धे हैं? ४१ यीशु
 ने उन से कहा, यदि तुम धन्धे होते तो
 पापी न ठहरते परन्तु श्वब कहते हो, कि हम
 देखते हैं, इसलिये तुम्हारा पाप बना रहता
 है ॥

१० मैं तुम से सच सच कहता हूँ,
 कि जो कोई द्वार से भेड़शासा में
 प्रवेश नहीं करता, परन्तु घोर किसी घोर
 से चढ़ जाता है, वह चोर घोर डाकू है।
 २ परन्तु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है
 वह भेड़ों का चरवाहा है। ३ उसके लिये
 द्वारपाल द्वार खोल देता है, घोर भेड़ें उसका
 शब्द सुनती हैं, घोर वह अपनी भेड़ों को
 नाम से लेकर बुलाता है घोर बाहर ले जाता
 है। ४ घोर जब वह अपनी सब भेड़ों को
 बाहर निकाल चुकता है, तो उन के घागे
 घागे चलता है, घोर भेड़ें उसके पीछे पीछे
 हो लेती हैं; क्योंकि वे उसका शब्द
 पहचानती हैं। ५ परन्तु वे पराये के पीछे
 नहीं जाएंगी, परन्तु उस से भागेगी, क्योंकि
 वे परायों का शब्द नहीं पहचानती।

६. यीशु ने उन से यह दुष्टान्त कहा, परन्तु वे न समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हम से कहता है।

७. तब यीशु ने उन से फिर कहा, मैं तुम से सब सब कहता हूँ, कि भेड़ों का द्वार मैं हूँ। ८. जितने मुझ से पहिले आए; वे सब चोर और डाकू हैं परन्तु भेड़ों ने उन को न सुनी। ९. द्वार मैं हूँ: यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। १०. चोर किसी और काम के लिये नहीं परन्तु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिये आया कि वे जीवन पाएं, और बहुतायत से पाएं। ११. अच्छा चरवाहा मैं हूँ; अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिये अपना प्राण देता है। १२. मजदूर जो न चरवाहा है, और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते हुए देख, भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तित्तर-वित्तर कर देता है। १३. वह इसलिये भाग जाता है कि वह मजदूर है, और उस को भेड़ों की चिन्ता नहीं। १४. अच्छा चरवाहा मैं हूँ; जिस तरह पिता मुझे जानता है, और मैं पिता को जानता हूँ। १५. इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिये अपना प्राण देता हूँ। १६. और मेरी और भी भेड़ें हैं, जो इस भेड़शाला की नहीं: मुझे उन का भी लाना अवश्य है, वे मेरा शब्द सुनेंगी; तब एक ही भुएड और एक ही चरवाहा होगा। १७. पिता इसलिये मुझ से प्रेम रखता है, कि मैं अपना प्राण देता हूँ, कि उसे फिर ले लूँ। १८. कोई उसे मुझ से छीनता नहीं, बरन मैं उसे आप ही देता हूँ: मुझे उसके देने का भी अधिकार है, और

उसे फिर लेने का भी अधिकार है: यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है।

१९. इन बातों के कारण यहूदियों में फिर फूट पड़ी। २०. उन में से बहुतेरे कहने लगे, कि उस में दुष्टात्मा है, और वह पागल है; उस को क्यों सुनते हो? २१. औरों ने कहा, ये बातें ऐसे मनुष्य की नहीं जिस में दुष्टात्मा हो; क्या दुष्टात्मा अन्धों की आँखें खोल सकती है?

२२. यरूशलेम में स्थापन-पर्व हुआ, और जाड़े की ऋतु थी। २३. और यीशु मन्दिर में सुलैमान के प्रोसारे में टहल रहा था। २४. तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुबिधा में रखेगा? यदि तू मसीह है, तो हम से साफ कह दे। २५. यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, कि मैं ने तुम से कह दिया, और तुम प्रतीति करते ही नहीं, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वे ही मेरे गवाह हैं। २६. परन्तु तुम इसलिये प्रतीति नहीं करते, कि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। २७. मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूँ; और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। २८. और मैं उन्हें अनन्त जीवन देता हूँ, और वे कभी नाश न होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। २९. मेरा पिता, जिस ने उन्हें मुझ को दिया है, सब से बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। ३०. मैं और पिता एक हैं। ३१. यहूदियों ने उसे पत्थरवाह करने को फिर पत्थर उठाए। ३२. इस पर यीशु ने उन से कहा, कि मैं ने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उन में से किस काम के लिये तुम मुझे पत्थरवाह करते हो? ३३. यहूदियों ने उस को उत्तर दिया, कि

भले काम के लिये हम तुम्हें पत्न्यवाह नहीं करते, परन्तु परमेश्वर की निन्दा के कारण और इसलिये कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। ३४ यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि मैं ने कहा, तुम ईश्वर हो? ३५ यदि उस ने उन्हें ईश्वर कहा जिन के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा (और पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती) ३६ तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उस से कहते हो कि तू निन्दा करता है, इसलिये कि मैं ने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ३७ यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता, तो मेरी प्रतीति न करो। ३८ परन्तु यदि मैं करता हूँ, तो चाहे मेरी प्रतीति न भी करो, परन्तु उन कामों की तो प्रतीति करो, ताकि तुम जानो, और समझो, कि पिता मुझ में है, और मैं पिता में हूँ। ३९ तब उन्होंने ने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया परन्तु वह उन के हाथ से निकल गया ॥

४० फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया, जहां यूहन्ना पहिले बपतिस्मा दिया करता था, और वही रहा। ४१ और बहुतेरे उसके पास आकर कहते थे, कि यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परन्तु जो कुछ यूहन्ना ने इस के विषय में कहा था, वह सब सच था। ४२ और वहां बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया ॥

११ मरियम और उस की बहिन मर्या के गांव बैतनिय्याह का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। २ यह वही मरियम थी जिस ने प्रभु पर ड्रज डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था, इसी का भाई लाजर बीमार था। ३ सो

उस की बहिनों ने उसे कहला भेजा, कि हे प्रभु, देख, जिस से तू प्रीति रखता है, वह बीमार है। ४ यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं, परन्तु परमेश्वर की महिमा के लिये है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। ५ और यीशु मर्या और उस की बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ६ सो जब उस ने सुना, कि वह बीमार है, तो जिस स्थान पर वह था, वहां दो दिन और ठहराया। ७ फिर इस के बाद उसने चेलों से कहा, कि आओ, हम फिर यहूदिया को चलें। ८ चेलों ने उस से कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुम्हें पत्न्यवाह करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? ९ यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के बारह घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन को चले, तो ठोकर नहीं खाता क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है। १० परन्तु यदि कोई रात को चले, तो ठोकर खाता है, क्योंकि उस में प्रकाश नहीं। ११ उस ने ये बातें कही, और इस के बाद उन से कहने लगा, कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परन्तु मैं उसे जगाने जाता हूँ। १२ तब चेलों ने उर कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है, तो बच जायगा। १३ यीशु ने तो उस । मृत्यु के विषय में कहा था : परन्तु वे समझे कि उस ने नीद से सो जाने के विषय में कहा। १४ तब यीशु ने उन से साफ कह दिया, कि लाजर मर गया है। १५ और मैं तुम्हारे कारण आनन्दित हूँ कि मैं वहां न था जिस से तुम विश्वास करो, परन्तु अब आओ, हम उसके पास चलें। १६ तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथ के चेलों से कहा, आओ, हम भी उसके साथ मरने को चलें ॥

१७ मो यीशु को घाकर यह मालूम हुआ कि उसे कब में ग्वे चार दिन हो चुके हैं। १८ बैतनिय्याह यहशलेम के समीप कोई दो मील की दूरी पर था। १९ और बहुत से यहूदी मर्या और मरियम के पास उन के भाई के विषय में शान्ति देने के लिये आए थे। २० मो मर्या यीशु के घाने का मामाचार सुनकर उस से भेंट करने को गई, परन्तु मरियम घर में बैठी रही। २१ मर्या ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता, तो मेरा भाई कदापि न मरता। २२ और सब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, परमेश्वर तुझे देगा। २३ यीशु ने उस से कहा, तेरा भाई जी उठेगा। २४ मर्या ने उस से कहा, मैं जानती हूँ कि अन्तिम दिन में पुनरुत्थान * के समय वह जी उठेगा। २५ यीशु ने उस से कहा, पुनरुत्थान † और जीवन में ही है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, तभी जीएगा। २६ और जो कोई जीवता है, और मुझ पर विश्वास करता है, वह अन्तकाल तक न मरेगा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? २७ उस ने उस से कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आनेवाला था, वह तू ही है। २८ यह कहकर वह चली गई, और अपनी बहिन मरियम को चुपके से बुलाकर कहा, गुरु यही है, और तुझे बुलाता है। २९ वह सुनते ही तुरन्त उठकर उसके पास आई। ३० (यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परन्तु उसी म्यान में था जहां मर्या ने उस से भेंट की थी)। ३१ तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे, और उसे

शान्ति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरन्त उठके बाहर गई है और यह समझकर कि वह कब पर रोने को जाती है, उसके पीछे हो लिए। ३२ जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांवों पर गिर के कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई न मरता। ३३ जब यीशु ने उस को और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास हुआ, और खबर कर * कहा, तुम ने उसे कहा रखा है? ३४ उन्होंने ने उस से कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। ३५ यीशु के पास बहने लगे। ३६ तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उस से कैसी प्रीति रखता था। ३७ परन्तु उन में से कितनों ने कहा, क्या यह जिस ने अंधे को आँखें खोली, यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? ३८ यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब पर आया, वह एक गुफा थी, और एक पत्थर उस पर धरा था। ३९ यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ: उस मरे हुए की बहिन मर्या उस से कहने लगी, हे प्रभु, उस में से सब तो दुर्गंध आती है क्योंकि उसे मरे चार दिन हो गए। ४० यीशु ने उस से कहा, क्या मैं ने तुझ से न कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। ४१ तब उन्होंने ने उस पत्थर को हटाया, फिर यीशु ने आँखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू ने मेरी सुन ली है। ४२ और मैं जानता था, कि तू सदा मेरी सुनता है, परन्तु जो भीड़ आस पास खड़ी है, उन के कारण मैं ते यह कहा, जिस से कि वे विश्वास करें कि तू

* ५० जी उठने में। या मृतकोत्थान में।

† ५० जी उठना।

* ५० अपने आपकी बैचन करके।

ने मुझे भेजा है। ४३ यह कहकर उस ने बड़े शब्द से पुकारा, कि हे साजुर, निकल आ। ४४ जो मर गया था, वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका मुंह भंगोछे से लिपटा हुआ था; यीशु ने उन से कहा, उसे छोड़कर जाने दो ॥

४५ तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे, और उसका यह काम देखा था, उन में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। ४६ परन्तु उन में से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया ॥

४७ इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा * के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। ४८ यदि हम उसे धोही छोड़ दें, तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। ४९ तब उन में से काइफा नाम एक व्यक्ति ने जो उस वर्ष का महायाजक था, उन से कहा, तुम कुछ नहीं जानते। ५० और न यह सोचते हो, कि तुम्हारे लिये यह भला है, कि हमारे लोगों के लिये एक मनुष्य मरे, और न यह, कि सारी जाति नाश हो। ५१ यह बात उस ने अपनी ओर से न कही, परन्तु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यद्वाणी की, कि यीशु उस जाति के लिये मरेगा। ५२ और न केवल उस जाति के लिये, बरन इसलिये भी, कि परमेश्वर की तित्तर-बित्तर सन्तानों को एक कर दे। ५३ सो उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे ॥

५४ इसलिये यीशु उस समय से यहूदियों में प्रगट होकर न फिरा; परन्तु वहां से जंगल के निकट के देश में इफाईम नाम, एक नगर को चला गया; और अपने बेलों के साथ वहीं रहने लगा। ५५ और यहूदियों का फसह निकट था, और बहुतेरे लोग फसह से पहिले दिहात से यरूशलेम को गए, कि अपने पाप को शुद्ध करें। ५६ सो वे यीशु को बुढ़ने और मन्दिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो? ५७ क्या वह पर्व में नहीं आएगा? और महायाजकों और फरीसियों ने भी आशा दे रखी थी, कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहां है तो बताए, कि उसे पकड़ लें ॥

१२ फिर यीशु फसह से छः दिन पहिले बैतनिय्याह में आया, जहां साजुर था; जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। २ वहां उन्होंने ने उसके लिये भोजन तैय्यार किया, और मर्या सेवा कर रही थी, और लाजर उन में से एक था, जो उसके साथ भोजन करने के लिये बैठे थे। ३ तब मरियम ने जटामांसी का प्राथ सेर बहुमोल इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगन्धित हो गया। ४ परन्तु उसके बेलों में से यहूदा इस्कुरियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा। ५ यह इत्र तीन सौ दीनार * में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? ६ उस ने यह बात इसलिये न कही, कि उसे कंगालों की चिन्ता थी, परन्तु इसलिये कि वह चीर था और उसके पास उन की धैली रहती थी, और उस में जो कुछ

* अर्थात्। सदर अदालत वा नबी कचहरी।

१२:१६ देखो मत्ती १८:२८।

डाला जाता था, वह निकाल लेता था।
 ७ यीशु ने कहा, उसे मेरे गाड़े जाने के दिन
 के लिये रहने दे। ८ क्योंकि कंगाल तो
 तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परन्तु मैं तुम्हारे
 साथ सदा न रहूँगा।

९ यहूदियों में से साधारण लोग जान
 गए, कि वह वहाँ है, और वे न केवल यीशु के
 कारण आए परन्तु इसलिये भी कि लाजर
 को देखें, जिसे उस ने भरे हुओं में से जिलाया
 था। १० तब महायाजकों ने लाजर
 को भी मार डालने की सम्मति की।
 ११ क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी
 चले गए, और यीशु पर विश्वास किया।

१२ दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो
 पर्व में आए थे, यह सुनकर, कि यीशु
 यरूशलेम में आता है। १३ खजूर की,
 डालियाँ लीं, और उस से भेंट करने को
 निकले, और पुकारने लगे, कि होशाना,
 धन्य इस्त्राएल का राजा, जो प्रभु के नाम से
 आता है। १४ जब यीशु को एक गदहे का
 बच्चा मिला, तो उस पर बैठा। १५ जैसा
 लिखा है, कि हे सिय्योन की बेटी, मत डर,
 देख, तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा
 हुआ चला आता है। १६ उसके चेले, ये
 बातें पहिले न समझे थे; परन्तु जब यीशु
 की महिमा प्रगट हुई, तो उन को स्मरण
 आया, कि ये बातें उसके विषय में लिखी
 हुई थीं; और लोगों ने उस से इस प्रकार का
 व्योहार किया था। १७ तब भीड़ के
 लोगों ने जो उस समय उसके साथ थे यह
 गवाही दी कि उस ने लाजर को कब्र में से
 बुलाकर, भरे हुओं में से जिलाया था।
 १८ इसी कारण लोग उस से भेंट करने को
 आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था, कि उस ने
 यह आश्चर्यकर्म दिखाया है। १९ तब
 फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही

कि तुम से कुछ नहीं बन पड़ता : देखो,
 संसार उसके पीछे हो चला है।।

२० जो लोग उस पर्व में भजन करने
 आए थे उन में से कई यूतानी थे। २१ उन्हीं
 ने गलील के बैतसेदा के रहनेवाले फिलिप्पुस
 के पास आकर उस से बिनती की, कि
 श्रीमान् हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं।
 २२ फिलिप्पुस ने आकर अन्द्रियास से
 कहा; तब अन्द्रियास और फिलिप्पुस ने
 यीशु से कहा। २३ इस पर यीशु ने उन
 से कहा, वह समय आ गया है, कि मनुष्य के
 पुत्र की महिमा हो। २४ मैं तुम से-सब
 सब कहता हूँ, कि जब तक गेहूँ का दाना
 भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अक्केला
 रहता है परन्तु जब मर जाता है, तो बहुत
 फल लाता है। २५ जो अपने प्राण को
 प्रिय जानता है, वह उसे खो देता है; और
 जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय
 जानता है; वह अनन्त जीवन के लिये उस
 की रक्षा करेगा। २६ यदि कोई मेरी सेवा
 करे, तो मेरे पीछे हो ले; और जहाँ मैं हूँ,
 वहाँ मेरा सेवक भी होगा; यदि कोई मेरी
 सेवा करे, तो पिता उसका आदर करेगा।
 २७ अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है।
 इसलिये अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे
 इस घड़ी से बचा? परन्तु मैं इसी कारण
 इस घड़ी को पहुँचा हूँ। २८ हे पिता,
 अपने नाम की महिमा कर; तब यह
 आकाशवाणी हुई, कि मैं ने उस की महिमा
 की है, और फिर भी कहूँगा। २९ तब जो
 लोग खड़े हुए सुन रहे थे, उन्हीं ने कहा;
 कि बादल गरजा, औरों ने कहा, कोई स्वर्ग-
 दूत उस से बोला। ३० इस पर यीशु ने
 कहा, यह शब्द मेरे लिये नहीं, परन्तु
 तुम्हारे लिये आया है। ३१ अब इस जगत
 का न्याय होता है, अब इस जगत का सरदार

लिकाल दिया जाएगा। ३२ और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, तो सब को अपने पास खींचूंगा। ३३ ऐसा कहकर उस ने यह प्रगट कर दिया, कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। ३४ इस पर लोगों ने उस से कहा, कि हम ने व्यवस्था की यह बात सुनी है, कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है, कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? ३५ यह मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उन से कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो; ऐसा न हो कि अन्धकार तुम्हें आ घेरे; जो अन्धकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। ३६ जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति के सन्तान होओ।

ये बातें कहकर यीशु चला गया और उन से छिपा रहा। ३७ और उस ने उन के साम्हने इतने चिन्ह दिखाए, तोभी उन्होंने ने उस पर विश्वास न किया। ३८ ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उस ने कहा कि हे प्रभु हमारे समाचार की किस ने प्रतीति की है? और प्रभु का भुजबल किस पर प्रगट हुआ? ३९ इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर भी कहा। ४० कि उस ने उन की आंखें अन्धी, और उन का मन कठोर किया है; कहीं ऐसा न हो, कि वे आंखों से देखें, और मन से समझें, और फिरें, और मैं उन्हें चंगा करूं। ४१ यशायाह ने ये बातें इसलिये कही, कि उस ने उस की महिमा देखी; और उस ने उसके विषय में बातें की। ४२ तोभी सरदारों में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परन्तु

फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, ऐसा न हो कि आराधनालय में से निकाले जाएं। ४३ क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उन को परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी।

४४ यीशु ने पुकारकर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, वह मुझ पर नहीं, बरन मेरे भेजनेवाले पर विश्वास करता है। ४५ और जो मुझे देखता है, वह मेरे भेजनेवाले को देखता है। ४६ मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे, वह अन्धकार में न रहे। ४७ यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिये नहीं, परन्तु जगत का उद्धार करने के लिये आया हूँ। ४८ जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है उस को दोषी ठहरानेवाला तो एक है: अर्थात् जो वचन मैं ने कहा है, वही पिछले दिन मैं उसे दोषी ठहराएगा। ४९ क्योंकि मैं ने अपनी ओर से बातें नहीं की, परन्तु पिता जिस ने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है, कि क्या क्या कहूँ? और क्या क्या बोलूँ? ५० और मैं जानता हूँ, कि उस की आज्ञा अनन्त जीवन है इसलिये मैं जो बोलता हूँ, वह जैसा पिता ने मुझ से कहा है वैसा ही बोलता हूँ।

१३ फसह के पर्व से पहिले जब यीशु ने जान लिया, कि मेरी वह घड़ी आ पहुँची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊँ, तो अपने लोगों से, जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, अन्त तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। २ और जब शैतान*

शमीन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह दास चुका था, कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय। ३ यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, और परमेश्वर के पास जाता हूँ। ४ भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए, और घंगोछा लेकर अपनी कमर बान्धी। ५ तब बरतन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस घंगोछे से उस की कमर बन्धी थी उसी से पोंछने लगा। ६ जब वह शमीन पतरस के पास आया : तब उस ने उस से कहा, हे प्रभु, ७ क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि जो मैं करता हूँ, तू अब नहीं जानता, परन्तु इस के बाद समझेगा। ८ पतरस ने उस से कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने आएगा : यह सुनकर यीशु ने उस से कहा, यदि मैं तुम्हें न धोऊँ, तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साम्रा नहीं। ९ शमीन पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं, बरन हाथ और सिर भी धो दे। १० यीशु ने उस से कहा, जो नहा चुका है, उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं; परन्तु वह बिलकुल शुद्ध है : और तुम शुद्ध हो; परन्तु सब के सब नहीं। ११ वह तो अपने पकड़वानेवाले को जानता था इसी लिये उस ने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं ॥

१२ जब वह उन के पांव धो चुका, और अपने कपड़े पहिनकर फिर बैठ गया तो उन से कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैं ने तुम्हारे साथ क्या किया? १३ तुम मुझे गुरु, और प्रभु, कहते हो, और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। १४ यदि मैं ने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए;

तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। १५ क्योंकि मैं ने तुम्हें नमूना दिखा दिया है, कि जैसा मैं ने तुम्हारे साथ किया है, तुम भी वैसा ही किया करो। १६ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं; और न भेजा हुआ * अपने भेजेवाले से। १७ तुम तो ये बातें जानते हो, और यदि उन पर चलो, तो धन्य हो। १८ मैं तुम सब के विषय में नहीं कहता : जिन्हें मैं ने चुन लिया है, उन्हें मैं जानता हूँ : परन्तु यह इसलिये है, कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो, कि जो मेरी रोटी खाता है, उस ने मुझ पर लात उठाई। १९ अब मैं उसके होने से पहिले तुम्हें जताए देता हूँ कि जब हो जाए तो तुम विश्वास करो कि मैं वही हूँ। २० मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है; और जो मुझे ग्रहण करता है, वह मेरे भेजेवाले को ग्रहण करता है ॥

२१ ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, कि मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। २२ चले यह संदेह करते हुए, कि वह किस के विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। २३ उसके चेलों में से एक जिस से यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा † था। २४ तब शमीन पतरस ने उस की ओर सैन करके पूछा, कि बता तो, वह किस के विषय में कहता है? २५ तब उस ने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुक कर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी

* या प्रेरित।

† य० लेता।

का टुकड़ा डुबोकर दूंगा, वही है। २६ और उस ने टुकड़ा डुबोकर शमीन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। २७ और टुकड़ा खेले ही शीतान उस में समा गया : तब यीशु ने उस से कहा, जो तू करता है, तुरन्त कर। २८ परन्तु बैठनेवालों * में से किसी ने न जाना कि उस ने यह बात उस से किस लिये कही। २९ यहूदा के पास घेली रहती थी, इसलिये किसी किसी ने समझा, कि यीशु उस से कहना है, कि जो कुछ हमें पर्व के लिये चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। ३० तब वह टुकड़ा लेकर तुरन्त बाहर चला गया, और रात्रि का समय था ॥

३१ जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा; अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई, और परमेश्वर की महिमा उस में हुई। ३२ और परमेश्वर भी अपने में उस की महिमा करेगा, बरन तुरन्त करेगा। ३३ हे बालको, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ : फिर तुम मुझे ढूँढोगे, और जैसा मैं ने यहूदियों से कहा, कि जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ तुम नहीं आ सकते वैसा ही मैं अब तुम से भी कहता हूँ। ३४ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, कि एक दूसरे से प्रेम रखो : जैसा मैं ने तुम से प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ३५ यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे, कि तुम मेरे चले हो ॥

३६ शमीन पतरस ने उस से कहा, हे प्रभु, तू कहाँ जाता है ? यीशु ने उत्तर दिया, कि जहाँ मैं जाता हूँ, वहाँ तू अब मेरे पीछे आ नहीं सकता ! परन्तु इस के बाद मेरे पीछे आएगा। ३७ पतरस ने उस से कहा,

हे प्रभु अभी मैं तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता ? मैं तो तेरे लिये अपना प्राण दूंगा। ३८ यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिये अपना प्राण देगा ? मैं तुझ से सब सब कहता हूँ कि मुर्ग बाग न देगा जब तक तू तीन बार मेरा इन्कार न कर लेगा ॥

१४ तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो * मुझ पर भी विश्वास रखो। २ मेरे पिता के घर मैं बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते, तो मैं तुम से कह देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिये जगह तैयार करने जाता हूँ। ३ और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिये जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ४ और जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। ५ योमा ने उस से कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है ? तो मार्ग कैसे जानें ? ६ यीशु ने उस से कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ; बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। ७ यदि तुम ने मुझे जाना होता, तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो, और उसे देखा भी है। ८ फिलिप्पुस ने उस से कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे : यही हमारे लिये बहुत है। ९ यीशु ने उस से कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता ? जिस ने मुझे देखा है उस ने पिता को देखा है : तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा। १० क्या तू प्रतीति नहीं करता, कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है ? ये बातें जो मैं तुम से कहता हूँ, अपनी और

से नहीं कहता, परन्तु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। ११ मेरी ही प्रतीति करो, कि मैं पिता में हूँ; और पिता मुझ में है; नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। १२ मैं तुम से सच सच कहता हूँ, कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, बरन इन से भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। १३ और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। १४ यदि तुम मुझ से मेरे नाम से कुछ मांगोगे, तो मैं उसे करूँगा। १५ यदि तुम मुझ से प्रेम रखते हो, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। १६ और मैं पिता से बिनती करूँगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। १७ अर्थात् सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है: तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है, और वह तुम में होगा। १८ मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूँगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। १९ और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परन्तु तुम मुझे देखोगे, इसलिये कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। २० उस दिन तुम जानोगे, कि मैं अपने पिता में हूँ, और तुम मुझ में, और मैं तुम में। २१ जिस के पास मेरी आज्ञा है, और वह उन्हें मानता है, वही मुझ से प्रेम रखता है, और जो मुझ से प्रेम रखता है, उस से मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उस से प्रेम रखूँगा, और अपने आप को उस पर प्रगट करूँगा। २२ उस यहूदा ने जो इस्करियोती न था, उस से कहा, हे प्रभु, क्या हुआ कि तू अपने आप को हम पर प्रगट किया चाहता है,

और संसार पर नहीं। २३ यीशु ने उस को उत्तर दिया, यदि कोई मुझ से प्रेम रखे, तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उस से प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएँगे, और उसके साथ बास करेंगे। २४ जो मुझ से प्रेम नहीं रखता, वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो, वह मेरा नहीं बरन पिता का है, जिस ने मुझे भेजा ॥

२५ ये बातें मैं ने तुम्हारे साथ रहते हुए तुम से कहीं। २६ परन्तु सहायक अर्थात् पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैं ने तुम से कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। २७ मैं तुम्हें शान्ति दिए जाता हूँ, अपनी शान्ति तुम्हें देता हूँ; जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता: तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। २८ तुम ने सुना, कि मैं ने तुम से कहा, कि मैं जाता हूँ, और तुम्हारे पास फिर आता हूँ: यदि तुम मुझ से प्रेम रखते, तो इस बात से आनन्दित होते, कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझ से बड़ा है। २९ और मैं ने अब इस के होने से पहिले तुम से कह दिया है, कि जब वह हो जाए, तो तुम प्रतीति करो। ३० मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूँगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, और मुझ में उसका कुछ नहीं। ३१ परन्तु यह इसलिये होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ, और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी, मैं वैसे ही करता हूँ: उठो, यहाँ से चलो ॥

१५ सच्ची दाल्बलता में हूँ; और मेरा पिता किसान है। २ जो डाली मुझ में है, और नहीं फलती, उसे वह

काट डालता है, और जो फलती है, उसे वह छांटता है ताकि और फले। ३ तुम तो उस वचन के कारण जो मैं ने तुम से कहा है, शुद्ध हो। ४ तुम मुझ में बने रहो, और मैं तुम में: जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे, तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। ५ मैं दाखलता हूँ: तुम डालियां हो; जो मुझ में बना रहता है, और मैं उस में, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझ से अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ६ यदि कोई मुझ में बना न रहे, तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता, और सूख जाता है; और लोग उन्हें बटोरकर आग में भोंक देते हैं, और वे जल जाती हैं। ७ यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरी बातें तुम में बनी रहें तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिये हो जाएगा। ८ मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। ९ जैसा पिता ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही मैं ने तुम से प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। १० यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तो मेरे प्रेम में बने रहोगे: जैसा कि मैं ने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है, और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ११ मैं ने ये बातें तुम से इसलिये कही हैं, कि मेरा आनन्द तुम में बना रहे, और तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए। १२ मेरी आज्ञा यह है, कि जैसा मैं ने तुम से प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के प्रेम रखो। १३ इस से बड़ा प्रेम किसी का नहीं, कि कोई अपने मित्रों के लिये अपना प्राण दे। १४ जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो, तो तुम मेरे मित्र हो। १५ अब से मैं तुम्हें

दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता, कि उसका स्वामी क्या करता है: परन्तु मैं ने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैं ने जो बातें अपने पिता से सुनीं, वे सब तुम्हें बता दीं। १६ तुम ने मुझे नहीं चुना परन्तु मैं ने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ; और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, वह तुम्हें दे। १७ इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिये देता हूँ, कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। १८ यदि संसार तुम से बैर रखता है, तो तुम जानते हो, कि उस ने तुम से पहिले मुझ से भी बैर रखा। १९ यदि तुम संसार के होते, तो संसार अपनी से प्रीति रखता, परन्तु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, बरन मैं ने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसी लिये संसार तुम से बैर रखता है। २० जो बात मैं ने तुम से कही थी, कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो: यदि उन्होंने ने मुझे सताया, तो तुम्हें भी सताएंगे; यदि उन्होंने ने मेरी बात मानी, तो तुम्हारी भी मानेंगे। २१ परन्तु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजनेवाले को नहीं जानते। २२ यदि मैं न आता और उन से बातें न करता, तो वे पापी न ठहरते परन्तु अब उन्हें उन के पाप के लिये कोई बहाना नहीं। २३ जो मुझ से बैर रखता है, वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। २४ यदि मैं उन में वे काम न करता, जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परन्तु अब तो उन्होंने ने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा, और दोनों से बैर किया। २५ और यह इसलिये हुआ, कि वह वचन पूरा हो, जो उन की व्यवस्था में लिखा है, कि उन्होंने ने

मुझ से व्यर्थ बैर किया। २६ परन्तु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात् सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। २७ और तुम भी गवाह हो क्योंकि तुम प्रारम्भ से मेरे साथ रहे हो।

१६ ये बातें मैं ने तुम से इसलिये कहीं कि तुम ठोकर न खाओ। २ वे तुम्हें धाराधनालयों में से निकाल देंगे, बरन वह समय आता है, कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ३ और यह वे इसलिये करेंगे कि उन्होंने ने न पिता को जाना है और न मुझे जानते हैं। ४ परन्तु ये बातें मैं ने इसलिये तुम से कहीं, कि जब उन का समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए, कि मैं ने तुम से पहिले ही कह दिया था : और मैं ने प्रारम्भ में तुम से ये बातें इसलिये नहीं कहीं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। ५ अब मैं अपने भेजनेवाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझ से नहीं पूछता, कि तू कहने जाता है ? ६ परन्तु मैं ने जो ये बातें तुम से कही हैं, इसलिये तुम्हारा मन शोक से भर गया। ७ तौभी मैं तुम से सच कहता हूँ, कि मेरा जाना तुम्हारे लिये अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ, तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परन्तु यदि मैं जाऊँगा, तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। ८ और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर * करेगा। ९ पाप के विषय में इसलिये कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। १० और धार्मिकता के विषय में इसलिये कि मैं पिता

के पास जाता हूँ, ११ और तुम मुझे फिर न देखोगे : न्याय के विषय में इसलिये कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। १२ मुझे तुम से और भी बहुत सी बातें कहनी हैं, परन्तु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। १३ परन्तु जब वह अर्थात् सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परन्तु जो कुछ मुनेगा, वही कहेगा, और भानेवाली बातें तुम्हें बताएगा। १४ वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। १५ जो कुछ पिता का है, वह सब मेरा है; इसलिये मैं ने कहा, कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। १६ थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। १७ तब उसके कितने चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है, जो वह हम से कहता है, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे ? और यह इसलिये कि मैं पिता के पास जाता हूँ ? १८ तब उन्होंने ने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है, क्या बात है ? हम नहीं जानते, कि क्या कहता है। १९ यीशु ने यह जानकर, कि वे मुझ से पूछना चाहते हैं, उन से कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछ पाछ करते हो, कि थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। २० मैं तुम से सच सच कहता हूँ; कि तुम रोओगे और विलाप करोगे, परन्तु संसार आनन्द करेगा : तुम्हें शोक होगा परन्तु तुम्हारा शोक आनन्द बन जाएगा। २१ जब स्त्री जनने लगती है तो उस को शोक होता है, क्योंकि उस की दुःख की घड़ी आ पहुँची, परन्तु जब वह बालक जन्म चुकी तो इस आनन्द से कि

* या काष्ठ।

जगत में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। २२ और तुम्हें भी अब तो शोक है, परन्तु मैं तुम से फिर मिलूंगा * और तुम्हारे मन में आनन्द होगा; और तुम्हारा आनन्द कोई तुम से छीन न लेंगा। २३ उस दिन तुम मुझ से कुछ न पूछोगे: मैं तुम से सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे, तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। २४ अब तक तुम ने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा; मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनन्द पूरा हो जाए ॥

२५ मैं ने ये बातें तुम से दृष्टान्तों में कही हैं, परन्तु वह समय आता है, कि मैं तुम से दृष्टान्तों में और फिर नहीं कहूंगा, परन्तु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊंगा। २६ उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे, और मैं तुम से यह नहीं कहता, कि मैं तुम्हारे लिये पिता से बिनती करूंगा। २७ क्योंकि पिता तो आप ही तुम से प्रीति रखता है, इसलिये कि तुम ने मुझ से प्रीति रखी है, और यह भी प्रतीति की है, कि मैं पिता की ओर से निकल आया। २८ मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। २९ उसके चेहरे ने कहा, देख, अब तो तू खोलकर कहता है, और कोई दृष्टान्त नहीं कहता। ३० अब हम जान गए, कि तू सब कुछ जानता है, और तुझे प्रयोजन नहीं, कि कोई तुझ से पूछे, इस से हम प्रतीति करते हैं, कि तू परमेश्वर से निकला है। ३१ यह सुन यीशु ने उन से कहा, क्या तुम अब प्रतीति करते हो? ३२ देखो, वह घड़ी आती है बरन आ पहुँची कि तुम सब

तित्तर बित्तर होकर अपना अपना मार्ग लोगे, और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तोभी मैं अकेला नहीं क्योंकि पिता मेरे साथ है। ३३ मैं ने ये बातें तुम से इसलिये कही हैं, कि तुम्हें मुझ में शान्ति मिले; संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परन्तु ढाड़स बांधो, मैं ने संसार को जीत लिया है ॥

१७

यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आँखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुँची, अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। २ क्योंकि तू ने उस को सब प्राणियों पर अधिकार दिया, कि जिन्हें तू ने उस को दिया है, उन सब को वह अनन्त जीवन दे। ३ और अनन्त जीवन यह है, कि वे तुझ अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तू ने भेजा है, जानें। ४ जो काम तू ने मुझे करने को दिया था, उसे पूरा करके मैं ने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। ५ और अब, हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहिले, मेरी तेरे साथ थी। ६ मैं ने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रगट किया जिन्हें तू ने जगत में से मुझे दिया: वे तेरे थे और तू ने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने ने तेरे वचन को मान लिया है। ७ अब वे जान गए हैं, कि जो कुछ तू ने मुझे दिया है, सब तेरी ओर से है। ८ क्योंकि जो बातें तू ने मुझे पहुंचा दीं, मैं ने उन्हें उनको पहुंचा दिया और उन्होंने ने उन को ग्रहण किया: और सच सच जान लिया है, कि मैं तेरी ओर से निकला हूँ, और प्रतीति कर ली है कि तू ही ने मुझे भेजा। ९ मैं उन के लिये बिनती करता हूँ, संसार के लिये बिनती नहीं करता हूँ परन्तु उन्हीं के लिये जिन्हें तू ने मुझे दिया

* यू० तुम्हें फिर देखूंगा।

है, क्योंकि वे तेरे हैं। १० और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है; और जो तेरा है, वह मेरा है; और इन से मेरी महिमा प्रगट हुई है। ११ मैं प्राणों को जगत में न रहूंगा, परन्तु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ; हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तू ने मुझे दिया है, उन की रक्षा कर, कि वे हमारी नाई एक हों। १२ जब मैं उन के साथ था, तो मैं ने तेरे उस नाम से, जो तू ने मुझे दिया है, उन की रक्षा की, मैं ने उन की चौकसी की और विनाश के पुत्र को छोड़ उन में से कोई नाश न हुआ, इसलिये कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो। १३ परन्तु अब मैं तेरे पास आता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ, कि वे मेरा आनन्द अपने में पूरा पाएं। १४ मैं ने तेरा वचन उन्हें पढ़ा दिया है, और संसार ने उन से बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। १५ मैं यह बिनती नहीं करता, कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट * से बचाए रख। १६ जैसे मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। १७ सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर: तेरा वचन सत्य है। १८ जैसे तू ने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैं ने भी उन्हें जगत में भेजा। १९ और उन के लिये मैं अपने प्राण को पवित्र करता हूँ ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। २० मैं केवल इन्हीं के लिये बिनती नहीं करता, परन्तु उन के लिये भी जो इन के वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों। २१ जैसा तू हे पिता मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, इसलिये कि

जगत प्रतीति करे, कि तू ही ने मुझे भेजा। २२ और वह महिमा जो तू ने मुझे दी, मैं ने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। २३ मैं उन में और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तू ने मुझ से प्रेम रखा, वैसा ही उन से प्रेम रखा। २४ हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तू ने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ, वहां वे भी मेरे साथ हो कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तू ने मुझे दी है, क्योंकि तू ने जगत की उत्पत्ति से पहिले मुझ से प्रेम रखा। २५ हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परन्तु मैं ने तुझे जाना और इन्हीं ने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। २६ और मैं ने तेरा नाम उन को बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझ को मुझ से था, वह उन में रहे और मैं उन में रहूँ॥

१८ यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों के साथ किद्रोन के नाले के पार गया, वहां एक बारी थी, जिस में वह और उसके चले गए। २ और उसका पकड़वानेवाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। ३ तब यहूदा पलटन को और महायाजकों और फरीसियों की और से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। ४ तब यीशु उन सब बातों को जो उस पर प्रानेवाली थीं, जानकर निकला, और उन से कहने लगा, किसे ढूंढते हो? ५ उन्होंने ने उस को उत्तर दिया, यीशु नासरी को: यीशु ने उन से कहा, मैं ही हूँ: और उसका पकड़वानेवाला यहूदा भी उन के साथ लड़ा

था। ६ उसके यह कहने ही, कि मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। ७ तब उस ने फिर उन से पूछा, तुम किस को ढूँढते हो। ८ वे बोले, यीशु नासरी को। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तो तुम से कह चुका हूँ कि मैं ही हूँ, यदि मुझे ढूँढते हो तो इन्हें जाने दो। ९ यह इसलिये हुआ, कि वह वचन पूरा हो, जो उस ने कहा था कि जिन्हें तू ने मुझे दिया, उन में से मैं ने एक को भी न खोया। १० शमीन पतरस ने तलवार, जो उसके पास थी, खींची और महायाजक के दास पर चलाकर, उसका दहिना कान उड़ा दिया, उस दास का नाम मलखुस था। ११ तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार काठी में रख: जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे न पीऊँ?

१२ तब सिपाहियों और उन के सूबेदार और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बान्ध लिया। १३ और पहिले उसे हन्ना के पास ले गए क्योंकि वह उस वर्ष के महायाजक काइफा का समुर था। १४ यह वही काइफा था, जिस ने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिये एक पुष्य का मरना अच्छा है ॥

१५ शमीन पतरस और एक और चेला भी यीशु के पीछे हो लिए: यह चेला महायाजक का जाना पहचाना था और यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया। १६ परन्तु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा, तब वह दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था, बाहर निकला, और द्वारपालिन से कहकर, पतरस को भीतर ले आया। १७ उस दासी ने जो द्वारपालिन थी, पतरस से कहा, क्या तू भी इस मनुष्य के चेलों में से है? उम ने कहा, मैं नहीं हूँ।

१८ दास और प्यादे जाड़े के कारण कोएले घघकाकर खड़े ताप रहे थे और पतरस भी उन के साथ खड़ा ताप रहा था ॥

१९ तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा। २० यीशु ने उस को उत्तर दिया, कि मैं ने जगत से खोलकर बातें कीं; मैं ने सभाओं और आराधनालय में जहाँ सब यहूदी इकट्ठे हुआ करते हैं सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। २१ तू मुझे से क्यों पूछता है? सुननेवालों से पूछ: कि मैं ने उन से क्या कहा? देख, वे जानते हैं; कि मैं ने क्या क्या कहा? २२ जब उस ने यह कहा, तो प्यादों में से एक ने जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? २३ यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं ने बुरा कहा, तो उस बुराई पर गवाही दे; परन्तु यदि भला कहा, तो मुझे क्यों मारता है? २४ हन्ना ने उसे बन्धे हुए काइफा महायाजक के पास भेज दिया ॥

२५ शमीन पतरस खड़ा हुआ ताप रहा था। तब उन्होंने ने उस से कहा; क्या तू भी उसके चेलों में से है? उस ने इन्कार करके कहा, मैं नहीं हूँ। २६ महायाजक के दासों में से एक जो उसके कुटुम्ब में से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोला, क्या मैं ने तुम्हें उसके साथ बारी में न देखा था? २७ पतरस फिर इन्कार कर गया और तुरन्त मुर्ग ने बांग दी ॥

२८ और वे यीशु को काइफा के पास से किले को ले गए और भीर का समय था, परन्तु वे आप किले के भीतर न गए ताकि अशुद्ध न हों परन्तु फसह खा सकें। २९ तब पीलातुस उन के पास बाहर निकल आया

और कहा, तुम इस मनुष्य पर किस बात की नालिश करते हो? ३० उन्होंने ने उस को उत्तर दिया, कि यदि वह कुकर्मी न होता तो हम उसे तेरे हाथ न सौंपते। ३१ पीलातुस ने उन से कहा, तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो: यहूदियों ने उस से कहा, हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ३२ यह इसलिये हुआ, कि यीशु की वह बात पूरी हो जो उस ने यह पता देते हुए कही थी, कि उसका मरना कैसा होगा।

३३ तब पीलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर, उस से पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? ३४ यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या ओरों ने मेरे विषय में तुझ से कही? ३५ पीलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तू ने क्या किया है? ३६ यीशु ने उत्तर दिया, कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यदि मेरा राज्य इस जगत का होता, तो मेरे सेवक लड़ते, कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता: परन्तु अब मेरा राज्य यहां का नहीं। ३७ पीलातुस ने उस से कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ; मैं ने इसलिये जन्म लिया, और इसलिये जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ जो कोई सत्य का है, वह मेरा शब्द सुनता है। ३८ पीलातुस ने उस से कहा, सत्य क्या है?

और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उन से कहा, मैं तो उस में कुछ दोष नहीं पाता। ३९ पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे

लिये एक व्यक्ति को छोड़ दूँ सो क्या तुम चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिये यहूदियों के राजा को छोड़ दूँ? ४० तब उन्हो ने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं परन्तु हमारे लिये बरअब्बा को छोड़ दे; और बरअब्बा डाकू था।

१९ इस पर पीलातुस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। २ और सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूँथकर उसके सिर पर रखा, और उसे बैजनी वस्त्र पहिनाया। ३ और उसके पास आ आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, प्रणाम! और उसे थप्पड़ भी मारे। ४ तब पीलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ; ताकि तुम जानो कि मैं कुछ भी दोष नहीं पाता। ५ तब यीशु कांटों का मुकुट और बैजनी वस्त्र पहिने हुए बाहर निकला और पीलातुस ने उन से कहा, देखो, यह पुरुष। ६ जब महायाजकों और प्यादों ने उसे देखा, तो चिल्लाकर कहा, कि उसे क्रूस पर चढ़ा, क्रूस पर: पीलातुस ने उन से कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ; क्योंकि मैं उस में दोष नहीं पाता। ७ यहूदियों ने उस को उत्तर दिया, कि हमारी भी व्यवस्था है और उस व्यवस्था के अनुसार वह मारे जाने के योग्य है क्योंकि उस ने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। ८ जब पीलातुस ने यह बात सुनी तो और भी डर गया। ९ और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहां का है? परन्तु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। १० पीलातुस ने उस से कहा, मुझ से क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुम्हें

क़ूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है। ११ यीशु ने उत्तर दिया, कि यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता; इसलिये जिस ने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है, उसका पाप अधिक है। १२ इस से पीलातुस ने उसे छोड़ देना चाहा, परन्तु यहूदियों ने चिल्ला चिल्लाकर कहा, यदि तू इस को छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं; जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वह कैसर का साम्हना करता है। १३ ये बातें सुनकर पीलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गम्बता कहलाता है, और न्याय-आसन पर बैठा। १४ यह फसह की तैयारी का दिन था और छठे घंटे के लगभग था : तब उस ने यहूदियों से कहा, देखो, यही है, तुम्हारा राजा ! १५ परन्तु वे चिल्लाए, कि ले जा ! ले जा ! उसे क़ूस पर चढ़ा : पीलातुस ने उन से कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क़ूस पर चढ़ाऊँ ? महायाजकों ने उत्तर दिया, कि कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। १६ तब उस ने उसे उन के हाथ सौंप दिया ताकि वह क़ूस पर चढ़ाया जाए ॥

१७ तब वे यीशु को ले गए। और वह अपना क़ूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया, जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। १८ वहां उन्होंने ने उसे और उसके साथ और दो मनुष्यों को क़ूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। १९ और पीलातुस ने एक दोष-पत्र लिखकर क़ूस पर लगा दिया और उस में यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। २० यह दोष-पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा

क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क़ूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था और पत्र इब्रानी और लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। २१ तब यहूदियों के महायाजकों ने पीलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख परन्तु यह कि "उस ने कहा, मैं यहूदियों का राजा हूँ"। २२ पीलातुस ने उत्तर दिया, कि मैं ने जो लिख दिया, वह लिख दिया ॥

२३ जब सिपाही यीशु को क़ूस पर चढ़ा चुके, तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सिपाही के लिये एक भाग और कुरता भी लिया, परन्तु कुरता बिन सीमन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था : इसलिये उन्होंने ने आपस में कहा, हम इस को न फाड़ें, परन्तु इस पर चिट्ठी डालें कि वह किस का होगा। २४ यह इसलिये हुआ, कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कि उन्होंने ने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली : सो सिपाहियों ने ऐसा ही किया। २५ परन्तु यीशु के क़ूस के पास उस की माता और उस की माता को बहिन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। २६ यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिस से वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा; हे नारी *, देख, यह तेरा पुत्र है। २७ तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला, उसे अपने घर ले गया ॥

२८ इस के बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका; इसलिये कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो कहा, मैं पियास हूँ। २९ वहां एक सिरके से भरा

* या महिला।

हुआ बर्तन घरा था, सो उन्होंने ने सिरके में भिगोए हुए इस्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। ३० जब यीशु ने वह सिरका लिया, तो कहा, पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए।

३१ और इसलिये कि वह तैयारी का दिन था, यहूदियों ने पीलातुस से बिनती की कि उन की टांगें तोड़ दी जाएं और वे उतारे जाएं ताकि सन्त के दिन वे क्रूसों पर न रहें, क्योंकि वह सन्त का दिन बड़ा दिन था। ३२ सो सिपाहियों ने आकर पहिले की टांगें तोड़ीं तब दूसरे की भी, जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। ३३ परन्तु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, तो उस की टांगें न तोड़ीं। ३४ परन्तु सिपाहियों में से एक ने बरछे से उसका पंजर बेधा और उस में से तुरन्त लोहू और पानी निकला। ३५ जिस ने यह देखा, उसी ने गवाही दी है, और उस की गवाही सच्ची है; और वह जानता है, कि सच कहता है कि तुम भी विश्वास करो। ३६ ये बातें इसलिये हुई कि पवित्र शास्त्र की यह बात पूरी हो कि उस की कोई हड्डी तोड़ी न जाएगी। ३७ फिर एक और स्थान पर यह लिखा है, कि जिसे उन्होंने ने बेधा है, उस पर दृष्टि करेंगे ॥

३८ इन बातों के बाद भरमतियाह के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था, (परन्तु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था), पीलातुस से बिनती की, कि मैं यीशु की लोथ को ले जाऊं, और पीलातुस ने उस की बिनती हुनी, और वह धाकर उस की लोथ ले गया। ३९ निकुदेमुस भी जो पहिले यीशु के पास रात को गया था पचास सेर के लगभग मिला हुआ गन्धरस और एलबा ले आया। ४० तब उन्होंने

यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगन्ध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। ४१ उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बारी थी; और उस बारी में एक नई कब्र थी; जिस में कभी कोई न रखा गया था। ४२ सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण, उन्होंने ने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी ॥

२० सप्ताह के पहिले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई, और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। २ तब वह दौड़ी और शमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिस से यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं; और हम नहीं जानतीं, कि उसे कहाँ रख दिया है। ३ तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। ४ और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परन्तु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहिले पहुंचा। ५ और झुककर कपड़े पड़े देखे: तीभी वह भीतर न गया। ६ तब शमोन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। ७ और वह अंगोछा जो उसके सिर से बन्धा हुआ था, कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परन्तु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। ८ तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहिले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। ९ वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे, कि उसे मरे हुएों में से जी उठना होगा। १० तब ये चेले अपने घर लौट गए ॥

११ परन्तु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की घोर झुककर, १२ दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहिने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा, जहां यीशु की लीय पड़ी थी। १३ उन्होंने ने उस से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उस ने उन से कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहां रखा है। १४ यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और न पहचाना कि यह यीशु है। १५ यीशु ने उस से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किस को ढूंढती है? उस ने माली समझकर उस से कहा, हे महाराज, यदि तू ने उसे उठा लिया है तो मुझ से कह कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। १६ यीशु ने उस से कहा, मरियम! उस ने पीछे फिरकर उस से इब्रानी में कहा, रब्बूनी अर्थात् हे गुरु। १७ यीशु ने उस से कहा, मुझे मत छू* क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परन्तु मेरे भाइयों के पास जाकर उन से कह दे, कि मैं अपने पिता, और तुम्हारे पिता, और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। १८ मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, कि मैं ने प्रभु को देखा और उस ने मुझ से ये बातें कहीं ॥

१९ उसी दिन जो सप्ताह का पहिला दिन था, सन्ध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चले थे, यहूदियों के डर के मारे बन्द थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २० और यह कहकर उस ने अपना हाथ और अपना

पंजर उन को दिखाए: तब चले प्रभु को देखकर आनन्दित हुए। २१ यीशु ने फिर उन से कहा, तुम्हें शान्ति मिले; जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। २२ यह कहकर उस ने उन पर फूँका और उन से कहा, पवित्र आत्मा लो। २३ जिन के पाप तुम क्षमा करो वे उन के लिये क्षमा किए गए हैं जिन के तुम रखो, वे रखे गए हैं ॥

२४ परन्तु बारहों में से एक व्यक्ति अर्थात् थोमा जो दिडुमुस* कहलाता है, जब यीशु आया तो उन के साथ न था। २५ जब और चले उस से कहने लगे कि हम ने प्रभु को देखा है: तब उस ने उन से कहा, जब तक मैं उस के हाथों में कीलों के छेद न देख लूँ, और किलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूँ और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूँ, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा ॥

२६ आठ दिन के बाद उस के चले फिर घर के भीतर थे, और थोमा उन के साथ था, और द्वार बन्द थे, तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शान्ति मिले। २७ तब उस ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परन्तु विश्वासी हो। २८ यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर! २९ यीशु ने उस से कहा, तू ने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने ने बिना देखे विश्वास किया ॥

३० यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के साम्हने दिखाए, जो इस पुस्तक में लिखे

* या मत पकड़े रह।

* या त्वाम या जुड़वां।

नहीं गए। ३१ परन्तु ये इसलिये लिखे गए हैं, कि तुम विश्वास करो, कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है: और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ ॥

२१

इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रगट किया और इस रीति से प्रगट किया। २ शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। ३ शमौन पतरस ने उन से कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ: उन्हीं ने उस से कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं: सो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परन्तु उस रात कुछ न पकड़ा। ४ भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ; तोभी चेलों ने न पहचाना कि यह यीशु है। ५ तब यीशु ने उन से कहा, हे बालको, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्हीं ने उत्तर दिया कि नहीं। ६ उस ने उन से कहा, नाव की दहिनी ओर जाल डालो, तो पाओगे, तब उन्हीं ने जाल डाला, और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। ७ इसलिये उस चले ने जिस से यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है: शमौन पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है, कमर में भंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। ८ परन्तु और चले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, कोई दो सौ हाथ पर थे। ९ जब किनारे पर उतरे, तो उन्हीं ने कोएले की धाग, और उस पर मछली रखी हुई, और रोटी देखी।

१० यीशु ने उन से कहा, जो मछलियाँ तुम ने अभी पकड़ी हैं, उन में से कुछ लाओ। ११ शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर एक सौ त्रिपन बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने से भी जाल न फटा। १२ यीशु ने उन से कहा, कि आओ, भोजन करो और चेलों में से किसी को हियाव न हुआ, कि उस से पूछे, कि तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे, कि हो न हो यह प्रभु ही है। १३ यीशु आया, और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछली भी। १४ यह तीसरी बार है, कि यीशु ने भरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दर्शन दिए ॥

१५ भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन से बढ़कर मुझ से प्रेम रखता है? उस ने उस से कहा, हाँ, प्रभु, तू तो जानता है, कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ: उस ने उस से कहा, मेरे भेड़ों को चरा। १६ उस ने फिर दूसरी बार उस से कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझ से प्रेम रखता है? उस ने उन से कहा, हाँ, प्रभु तू जानता है, कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ: उस ने उस से कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। १७ उस ने तीसरी बार उस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझ से प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ, कि उस ने उसे तीसरी बार ऐसा कहा; कि क्या तू मुझ से प्रीति रखता है? और उस से कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है: तू यह जानता है कि मैं तुझ से प्रीति रखता हूँ: यीशु ने उस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। १८ मैं तुझ से सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था, तो अपनी कमर

बान्धकर जहां चाहता था, वहां फिरता था; परन्तु जब तू बूढ़ा होगा, तो अपने हाथ लम्बे करेगा, और दूसरा तेरी कमर बान्धकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। १९ उस ने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा; और यह कहकर, उस से कहा, मेरे पीछे हो ले। २० पतरस ने फिरकर उस चेले को पीछे आते देखा, जिस से यीशु प्रेम रखता था, और जिस ने भोजन के समय उस की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, तेरा पकड़वानेवाला कौन है? २१ उसे देखकर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, इस का क्या हाल होगा? २२ यीशु न उस से कहा, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे

आने तक ठहरा रहे, तो तुझे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। २३ इसलिये भाइयों में यह बात फेल गई, कि वह चेला न मरेगा; तीसरी यीशु ने उस से यह नहीं कहा, कि यह न मरेगा, परन्तु यह कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इस से क्या?

२४ यह वही चेला है, जो इन बातों की गवाही देता है और जिस ने इन बातों को लिखा है और हम जानते हैं, कि उस की गवाही सच्ची है ॥

२५ और भी बहुत से काम हैं, जो यीशु ने किए; यदि वे एक एक करके लिखे जाते, तो मैं समझता हूं, कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे जगत में भी न समातीं ॥

प्रेरितों के कामों का वर्णन

१ हे वियुफिलुस, मैं ने पहिली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी, जो यीशु ने आरम्भ में किया और करता और सिखाता रहा। २ उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उस ने चुना था, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। ३ और उस ने दुःख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और चालीस दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा: और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। ४ और उन से मिलकर उन्हें आज्ञा दी, कि यरूशलेम को न छोड़ो, परन्तु पिता की उस

प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो, जिस की चर्चा तुम मुझ से सुन चुके हो। ५ क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है परन्तु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्रात्मा से * बपतिस्मा पाओगे ॥

६ सो उन्होंने ने इकट्ठे होकर उस से पूछा, कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्त्राएल को राज्य फेर देगा? ७ उस ने उन से कहा; उन समयों या कालों को जानना, जिन को पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। ८ परन्तु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे; और

यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ९ यह कहकर वह उन के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया; और बादल ने उसे उन की आंखों से छिपा लिया। १० और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहिने हुए उन के पास आ खड़े हुए। ११ और कहने लगे; हे गलीली पुरुषो, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु, जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम ने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा ॥

१२ तब वे जंतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। १३ और जब वहां पहुंचे तो वे उस घटारी पर गए, जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अन्द्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुलमाई और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलेतेस और याकूब का पुत्र * यहूदा रहते थे। १४ ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे ॥

१५ और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो एक सौ बीस व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। १६ हे भाइयो, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो, जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय

में जो यीशु के पकड़नेवालों का अनुवाया, पहिले से कही थी। १७ क्योंकि वह तो हम में गिना गया, और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। १८ (उस ने अग्रिम की कमाई से एक खेत मोल लिया; और सिर के बल गिरा, और उसका पेट फट गया, और उस की सब अन्तड़ियां निकल पड़ीं। १९ और इस बात को यरूशलेम के सब रहनेवाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उन की भाषा में हफलदमा अर्थात् लोह का खेत पड़ गया।) २० क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, कि उसका घर उजड़ जाए, और उस में कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। २१ इसलिये जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात् यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे। २२ उचित है कि उन में से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जो उठने का गवाह हो जाए। २३ तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को, जो बर-सवा कहलाता है, जिस का उपनाम यूसतुस है, दूसरा मत्तियाह को। २४ और यह कहकर प्रार्थना की; कि हे प्रभु, तू जो सब के मन जानता है, यह प्रगट कर कि इन दोनों में से तू ने किस को चुना है। २५ कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़ कर अपने स्थान को गया। २६ तब उन्होंने ने उन के बारे में चिट्ठियां डालीं, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, सो वह उन ग्यारह प्रेरितों के साथ गिना गया ॥

२ जब पित्तुकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। २ और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उस से सारा घर जहां वे बैठे थे, गूँज गया। ३ और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दीं; और उन में से हर एक पर आ ठहरा। ४ और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे।

५ और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। ६ जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था, कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। ७ और वे सब चकित और अचम्भित होकर कहने लगे; देखो, ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? ८ तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्म भूमि की भाषा सुनता है? ९ हम जो पारथी और मेदी और एलामी लोग और मिस्रपुतामिया और यहूदिया और कप्पडूकिया और पुनुस और आसिया। १० और फ्रूगिया और पमफूलिया और मिसर और लिबूआ देश जो कुरेने के आस पास हैं, इन सब देशों के रहनेवाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी क्या यहूदी मत धारण करनेवाले, क्रेती और अरबी भी हैं। ११ परन्तु अपनी अपनी भाषा में उन से परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। १२ और वे सब चकित हुए, और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या हुआ चाहता है?

१३ परन्तु औरों ने ठट्ठा करके कहा, कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं।

१४ पतरस उन ग्यारह के साथ खड़ा हुआ और ऊँचे शब्द से कहने लगा, कि हे यहूदियो, और हे यरूशलेम के सब रहनेवालो, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। १५ जैसा तुम समझ रहे हो, ये नशे में नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। १६ परन्तु यह वह बात है, जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। १७ कि परमेश्वर कहता है, कि अन्त के दिनों में ऐसा होगा, कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा* और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यदवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिए स्वप्न देखेंगे। १८ बरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा,* और वे भविष्यदवाणी करेंगी। १९ और मैं ऊपर आकाश में प्रदुभुत काम, और नीचे धरती पर चिन्ह, अर्थात् लोहू, और आग और धूँए का बादल दिखाऊंगा। २० प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहिले सूर्य अंधेरा और चान्द लोहू हो जाएगा। २१ और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वही उद्धार पाएगा। २२ हे इस्राएलियो, ये बातें सुनो: कि यीशु नासरी एक मनुष्य था जिस का परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्हों से प्रगट है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखलाए जिसे तुम आप ही जानते

* या बहाऊंगा।

हो। २३ उसी को, जब वह परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुम ने अर्धमियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। २४ परन्तु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बन्धनों* से छुड़ाकर जिलाया: क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। २५ क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने साम्हने देखता रहा क्योंकि वह मेरी दहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। २६ इसी कारण मेरा मन आनन्द हुआ, और मेरी जीभ मगन हुई; वरन मेरा शरीर भी आशा में बसा रहेगा। २७ क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा; और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा! २८ तू ने मुझे जीवन का मार्ग बताया है; तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनन्द से भर देगा। २९ हे भाइयो, मैं उस कुलपति दाऊद के विषय में तुम से साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उस की कब्र आज तक हमारे यहां वर्तमान है। ३० सो भविष्यद्वक्ता होकर और यह जानकर कि परमेश्वर ने मुझ से शपथ खाई है, कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। ३१ उस ने होनहार को पहिले ही से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यद्वक्ता की कि न तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया, और न उस की देह सड़ने पाई। ३२ इसी यीशु को परमेश्वर ने

जिलाया, जिस के हम सब गवाह हैं। ३३ इस प्रकार परमेश्वर के दहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिस की प्रतिज्ञा की गई थी, उस ने यह उंडेल* दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। ३४ क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा; परन्तु वह आप कहता है, कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा; ३५ मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों तले की चौकी न कर दूँ। ३६ सो अब इस्त्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ॥

३७ तब गुननेवालों के हृदय छिद्र गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, कि हे भाइयो, हम क्या करें? ३८ पतरस ने उन से कहा, मन फिराओ, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिये यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले; तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ३९ क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम, और तुम्हारी सन्तानों, और उन सब दूर दूर के लोगों के लिये भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। ४० उस ने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति † से बचाओ। ४१ सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने ने बपतिस्मा लिया; और उसी दिन तीन हजार मनुष्यों के लगभग उन में मिल गए। ४२ और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और

* यू० की पीशाओ।

* या बहा।

† यू० पीदी।

संगति रखने में धीर रोटी तोड़ने * में धीर प्रार्थना करने में लीनीन रहे ॥

४३ धीर सब लोगों पर भय छा गया, धीर बहुत से अद्भुत काम धीर बिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रगट होते थे। ४४ धीर वे सब विश्वास करनेवाले इकट्ठे रहते थे, धीर उन की सब वस्तुएं साके की थीं। ४५ धीर वे अपनी अपनी सम्पत्ति धीर सामान बेच बेचकर जैसी जिस की आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। ४६ धीर वे प्रति दिन एक मन होकर मन्दिर में इकट्ठे होते थे, धीर घर घर रोटी तोड़ते * हुए आनन्द धीर मन की सीधार्ई से भोजन किया करते थे। ४७ धीर परमेश्वर की स्तुति करते थे, धीर सब लोग उन से प्रसन्न थे : धीर जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रति दिन उन में मिला देता था ॥

३ पतरस धीर यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मन्दिर में जा रहे थे। २ धीर लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिस को वे प्रति दिन मन्दिर के उस द्वार पर जो सुन्दर कहलाता है, बैठा देते थे, कि वह मन्दिर में जानेवालों से भीख मांगे। ३ जब उस ने पतरस धीर यूहन्ना को मन्दिर में जाते देखा, तो उन से भीख मांगी। ४ पतरस ने यूहन्ना के साथ उस की ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ५ सो वह उन से कुछ पाने की आशा रखते हुए उन की ओर ताकने लगा। ६ तब पतरस ने कहा, चान्दी धीर सोना तो मेरे पास है नहीं; परन्तु जो मेरे पास है, वह

तुम्हें देता हूं : यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ७ धीर उस ने उसका वहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया : धीर तुरन्त उसके पांवों धीर टखनों में बल आ गया। ८ धीर वह उछलकर खड़ा हो गया, धीर चलने फिरने लगा धीर चलता ; धीर कूदता, धीर परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उन के साथ मन्दिर में गया। ९ सब लोगों ने उसे चलते फिरते धीर परमेश्वर की स्तुति करते देखकर। १० उस को पहचान लिया कि यह वही है, जो मन्दिर के सुन्दर फाटक पर बैठ कर भीख मांगा करता था; धीर उस घटना से जो उसके साथ हुई थी; वे बहुत अचम्भित धीर चकित हुए ॥

११ जब वह पतरस धीर यूहन्ना को पकड़े हुए था, तो सब लोग बहुत अचम्भा करते हुए उस घोसारे में जो मुलैमान का कहलाता है, उन के पास दौड़े आए। १२ यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा; हे इस्राएलियो, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचम्भा करते हो, धीर हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो, कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलता-फिरता कर दिया। १३ इब्राहीम धीर इसहाक धीर याकूब के परमेश्वर, हमारे बापदादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुम ने पकड़वा दिया, धीर जब पीलावुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुम ने उसके साम्हने उसका इन्कार किया। १४ तुम ने उस पवित्र धीर धर्मों का इन्कार किया, धीर बिनती की, कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिये छोड़ दिया जाए। १५ धीर तुम ने जीवन के कर्त्ता को मा

* मत्ती २६ : २६, और इस पुस्तक के २० अ० ७ पद को देखो।

डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुएों में से जिलाया; और इस बात के हम गवाह हैं। १६ और उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है; और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इस को तुम सब के साम्हने विलकुल भला चंगा कर दिया है। १७ और अब हे भाइयो, मैं जानता हूँ कि यह काम तुम ने अज्ञानता से किया, और वंसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। १८ परन्तु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहिले ही बताया था, कि उसका मसीह दुःख उठाएगा; उन्हें उस ने इस रीति से पूरी किया। १९ इसलिये, मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिस से प्रभु के सन्मुख से विश्रान्ति के दिन आएँ। २० और वह उस मसीह यीशु को भेजे जो तुम्हारे लिये पहिले ही से ठहराया गया है। २१ अवश्य है कि वह स्वर्ग में उस समय तक रहे* जब तक कि वह सब बातों का सुधार न कर ले जिस की चर्चा परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से की है, जो जगत की उत्पत्ति से होते आए हैं। २२ जंसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिये मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा, जो कुछ वह तुम से कहे, उस की मुनना। २३ परन्तु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यद्वक्ता की न. मुने, लोगों में से नाश किया जाएगा। २४ और सामुएल से लेकर उसके बाद वालों तक

जितने भविष्यद्वक्ताओं ने बात कही उन सब ने इन दिनों का सन्देश दिया है। २५ तुम भविष्यद्वक्ताओं की सन्तान और उस वाचा के भागी हो, जो परमेश्वर ने तुम्हारे बापदादों से बान्धी, जब उस ने इब्राहीम से कहा, कि तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे धराने आशीष पाएंगे। २६ परमेश्वर ने अपने सेवक को उठाकर पहिले तुम्हारे पास भेजा, कि तुम में से हर एक को उस की बुराइयों से फेरकर आशीष दे ॥

४ जब वे लोगों से यह कह रहे थे, तो याजक और मन्दिर के सरदार और सद्की उन पर चढ़ आए। २ क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर* मरे हुएों के जो उठने † का प्रचार करते थे। ३ और उन्होंने ने उन्हें पकडकर दूसरे दिन तक हवालात में रखा क्योंकि सन्ध्या हो गई थी। ४ परन्तु वचन के मुननेवालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उन की गिनती पांच हजार पुरुषों के लगभग हो गई ॥

५ दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उन के सरदार और पुरनिये और शास्त्री। ६ और महायाजक हन्ना और कंफा और यूहन्ना और सिकन्दर और जितने महायाजक के घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। ७ और उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे, कि तुम ने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है? ८ तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उन से कहा। ९ हे लोगों के सरदारो और पुरनियो, इस दुर्बल

* य० स्वर्ग उसे उस समय तक लिए रहे।

* य० में।

† या मृतकोत्थान।

मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हम से उसके विषय में कुछ पाछ की जाती है, कि वह क्योंकर अच्छा हुआ। १० तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से जिसे तुम ने क्रूस पर चढ़ाया, और परमेश्वर ने मरे हुआओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे साम्हने भला चंगा खड़ा है। ११ यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। १२ और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं; क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, जिस के द्वारा हम उद्धार पा सकें ॥

१३ जब उन्होंने ने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा, और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचम्भा किया; फिर उन को पहचाना, कि ये यीशु के साथ रहे हैं। १४ और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था, उन के साथ खड़े देखकर, वे विरोध में कुछ न कह सके। १५ परन्तु उन्हें समा के बाहर जाने की आज्ञा देकर, वे आपस में विचार करने लगे, १६ कि हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहनेवालों पर प्रगट है, कि इन के द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है; और हम उसका इन्कार नहीं कर सकते। १७ परन्तु इसलिये कि यह बात लोगों में और अधिक फैल न जाए, हम उन्हें धमकाएँ, कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। १८ तब उन्हें बुलाया और चितीनी देकर यह कहा, कि यीशु के नाम से कुछ भी न

बोलना और न सिखलाना। १९ परन्तु पतरस और यूहन्ना ने उन को उत्तर दिया, कि तुम ही न्याय करो, कि क्या यह परमेश्वर के निकट भला है, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात मानें। २० क्योंकि यह तो हम से हो नहीं सकता, कि जो हम ने देखा और सुना है, वह न कहें। २१ तब उन्होंने ने उन को और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दण्ड देने का कोई दांव नहीं मिला, इसलिये कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। २२ क्योंकि वह मनुष्य, जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था, चालीस वर्ष से अधिक आयु का था ॥

२३ वे छूटकर अपने साथियों के पास आए, और जो कुछ महायाजकों और पुरनियों ने उन से कहा था, उनको सुना दिया। २४ यह सुनकर, उन्होंने ने एक चिन्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उन में हैं बनाया। २५ तू ने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, कि अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया? और देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोचीं? २६ प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए, और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए। २७ क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसे तू ने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुन्तियुस पोलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। २८ कि जो कुछ

पहिले से तेरी सामर्थ्य * और मति से ठहरा या वही करें। २६ अब, हे प्रभु, उन की धमकियों को देख; और अपने दासों को यह बरदान दे, कि तेरा वचन बड़े हियाव से मुनाएं। ३० और चंगा करने के लिये तू अपना हाथ बढ़ा; कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ३१ जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, और परमेश्वर का वचन हियाव से मुनाते रहे ॥

३२ और विश्वास करनेवालों की मण्डली एक चित्त और एक मन के थे यहां तक कि कोई भी अपनी सम्पत्ति अपनी नहीं कहता था, परन्तु सब कुछ साम्ने का था। ३३ और प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। ३४ और उन में कोई भी दरिद्र न था; क्योंकि जिन के पास भूमि या घर थे, वे उन को बेच बेचकर, बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते, और उसे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। ३५ और जमी जिसे आवश्यकता होती थी, उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे ॥

३६ और यूसुफ नाम, कुपुस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बर-नबा अर्थात् (शान्ति का पुत्र) रखा था। ३७ उस की कुछ भूमि थी, जिसे उस ने बेचा, और दाम के रुपये लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए ॥

५ और हनन्याह नाम एक मनुष्य, और उस की पत्नी सफीरा ने कुछ

भूमि बेची। २ और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा; और यह बात उस की पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। ३ परन्तु पतरस ने कहा; हे हनन्याह! शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से भूठ बोले, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? ४ जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तू ने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परन्तु परमेश्वर से भूठ बोला। ५ ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा, और प्राण छोड़ दिए; और सब सुननेवालों पर बड़ा भय छा गया। ६ फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थाई बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया ॥

७ लगभग तीन घंटों के बाद उस की पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर, भीतर आई। ८ तब पतरस ने उस से कहा; मुझे बता क्या तुम ने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उस ने कहा; हां, इतने ही में। ९ पतरस ने उस से कहा; यह क्या बात है, कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिये एका किया? देख, तेरे पति के गाड़नेवाले द्वार ही पर खड़े हैं, और तुम्हें भी बाहर ले जाएंगे। १० तब वह तुरन्त उसके पांवों पर गिर पड़ी, और प्राण छोड़ दिए; और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया, और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। ११ और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुननेवालों पर, बड़ा भय छा गया ॥

* यू० तेरा हाथ।

१२ और प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, (और वे सब एक चित्त होकर मुलमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। १३ परन्तु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था, कि उन में जा मिले; तोभी लोग उन की बड़ाई करते थे। १४ और विश्वास करने-वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे।) १५ यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे, कि जब पतरस आए, तो उस की छाया ही उन में से किसी पर पड़ जाए। १६ और यरूशलेम के आस पास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुआओं को ला लाकर, इकट्ठे होते थे, और सब अच्छे कर दिए जाते थे ॥

१७ तब महायाजक और उसके सब साथी जो सद्कियों के पंथ के थे, डाह से भर कर उठे। १८ और प्रेरितों को पकड़कर बन्दीगृह में बन्द कर दिया। १९ परन्तु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बन्दीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। २० कि जाओ, मन्दिर में खड़े होकर, इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। २१ वे यह सुनकर भोर होते ही मन्दिर में जाकर उपदेश देने लगे: परन्तु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठे किया, और बन्दीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। २२ परन्तु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन्हें बन्दीगृह में न पाया, और

लौटकर संदेश दिया। २३ कि हम ने बन्दीगृह को बड़ी चौकसी से बन्द किया हुआ, और पहरेवालों को बाहर द्वारों पर खड़े हुए पाया; परन्तु, जब खोला, तो भीतर कोई न मिला। २४ जब मन्दिर के सरदार और महायाजकों ने ये बातें सुनीं, तो उन के विषय में भारी चिन्ता में पड़ गए कि यह क्या हुआ चाहता है? २५ इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, कि देखो, जिन्हें तुम ने बन्दीगृह में बन्द रखा था, वे मनुष्य मन्दिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। २६ तब सरदार, प्यादों के साथ जाकर, उन्हें ले आया, परन्तु बरबस नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे, कि हमें पत्थरवाह न करें। २७ उन्होंने ने उन्हें फिर लाकर महासभा के साम्हने खड़ा कर दिया: और महायाजक ने उन से पूछा। २८ क्या हम ने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी थी, कि तुम इस नाम से उपदेश न करना? तोभी देखो, तुम ने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लोह हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। २९ तब पतरस और, और प्रेरितों ने उत्तर दिया, कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। ३० हमारे बापदादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुम ने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था। ३१ उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहराकर, अपने दहिने हाथ से सर्वोच्च कर दिया, कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। ३२ और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी, जिसे परमेश्वर

ने उन्हें दिया है, जो उस की आज्ञा मानते हैं ॥

३३ यह सुनकर वे जल गए,* और उन्हें मार डालना चाहा। ३४ परन्तु गमलीएल नाम एक फरीसी ने जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिये बाहर कर देने की आज्ञा दी। ३५ तब उस ने कहा, हे इस्राएलियो, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो, सोच समझ के करना। ३६ क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास यह कहता हुआ उठा, कि मैं भी कुछ हूँ; और कोई चार सौ मनुष्य उसके साथ हो लिए, परन्तु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे, सब तित्तर बित्तर हुए और मिट गए। ३७ उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए: वह भी नाश हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे, सब तित्तर बित्तर हो गए। ३८ इसलिये अब मैं तुम से कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और उन से कुछ काम न रखो; क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। ३९ परन्तु यदि परमेश्वर की ओर से है, तो तुम उन्हें कदापि मिटा न सकोगे; कहीं ऐसा न हो, कि तुम परमेश्वर से भी लड़नेवाले ठहरो। ४० तब उन्होंने उस की बात मान ली; और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया; और यह आज्ञा देकर छोड़ दिया, कि यीशु के नाम से फिर बातें न करना। ४१ वे इस बात से आनन्दित

होकर महासभा के साम्हने से चले गए, कि हम उसके नाम के लिये निरादर होने के योग्य तो ठहरे। ४२ और प्रति दिन मन्दिर में और घर घर में उपदेश करने, और इस बात का सुसमाचार सुनाने से, कि यीशु ही मसीह है न रुके ॥

६ उन दिनों में जब चले बहुत होते जाते थे, तो यूनानी भाषा बोलनेवाले इज्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे, कि प्रति दिन की सेवकाई में हमारी विषवाधों की सुधि नहीं ली जाती। २ तब उन बारहों ने चेलों की मण्डली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने-पिलाने की सेवा में रहें। ३ इसलिये, हे भाइयो, अपने में से सात सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हों, चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। ४ परन्तु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। ५ यह बात सारी मण्डली को अच्छी लगी, और उन्होंने ने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुलुरुस और नीकानोर और तीमोन और परमिनास और अन्ताकीवाला नीकुलाउम को जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। ६ और इन्हें प्रेरितों के साम्हने खड़ा किया और उन्होंने ने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे ॥

७ और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई; और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के प्राधीन हो गया ॥

* ५० फट गए।

८ स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। ९ तब उस आराधनालय में से जो लिबिरतीनों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकन्दरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद-विवाद करने लगे। १० परन्तु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिस से वह बातें करता था, वे साम्हना न कर सके। ११ इस पर उन्होंने ने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे, कि हम ने इस को मूसा और परमेश्वर के विरोध में निन्दा की बातें कहते सुना है। १२ और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए। १३ और भूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता। १४ क्योंकि हम ने उसे यह कहते सुना है, कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा, और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सीपी है। १५ तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे, उस की ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा ॥

७ तब महायाजक ने कहा, क्या ये बातें यों ही हैं? २ उम ने कहा; हे भाइयो, और पितरो सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहिले जब मिनुपुतामिया में था; तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। ३ और उस से कहा कि तू अपने देश और अपने कुटुम्ब से निकलकर उस देश में चला जा, जिसे

मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ४ तब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा; और उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिस में अब तुम बसते हो। ५ और उसको कुछ मीरास बरन पैर रखने भर की भी उस में जगह न दी, परन्तु प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश, तेरे और तेरे बाद तेरे वंश के हाथ कर दूंगा; यद्यपि उस समय उसके कोई पुत्र भी न था। ६ और परमेश्वर ने यों कहा; कि तेरी सन्तान के लोग पराये देश में परदेशी होंगे; और वे उन्हें दास बनाएंगे, और चार सौ वर्ष तक दुख देंगे। ७ फिर परमेश्वर ने कहा; जिस जाति के वे दास होंगे, उस को मैं दण्ड दूंगा; और इस के बाद वे निकलकर इसी जगह मेरी सेवा करेंगे। ८ और उस ने उस से खतने की वाचा बान्धी; और इसी दशा में इसहाक उस से उत्पन्न हुआ; और आठवें दिन उसका खतना किया गया; और इसहाक से याकूब और याकूब से बारह कुलपति उत्पन्न हुए। ९ और कुलपतियों ने यूसुफ से डह करके उसे मिसर देश जानेवालों के हाथ बेचा; परन्तु परमेश्वर उसके साथ था। १० और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिसर के राजा फिरोन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी, और उस ने उसे मिसर पर और अपने सारे घर पर हाकिम ठहराया। ११ तब मिसर और कनान के सारे देश में भ्रकाल पड़ा; जिस से भारी क्लेश हुआ, और हमारे बापदादों को भ्रम नहीं मिलता था। १२ परन्तु याकूब ने यह सुनकर, कि मिसर में भ्रनाज है, हमारे बापदादों को पहिली बार भेजा। १३ और दूसरी

बार यूसुफ अपने भाइयों पर प्रगट हो गया, और यूसुफ की जाति फिरौन को मालूम हो गई। १४ तब यूसुफ ने अपने पिता याकूब और अपने सारे कुटुम्ब को, जो पछत्तर व्यक्ति थे, बुला भेजा। १५ तब याकूब मिसर में गया; और वहां वह और हमारे बापदादे मर गए। १६ और वे शिकिम में पहुंचाए जाकर उस कब्र में रखे गए, जिसे इब्राहीम ने चान्दी देकर शिकिम में हमोर की सन्तान से मोल लिया था। १७ परन्तु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, जो परमेश्वर ने इब्राहीम से की थी, तो मिसर में वे लोग बड़ गए; और बहुत हो गए। १८ जब तक कि मिसर में दूसरा राजा न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। १९ उस ने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बापदादों के साथ यहां तक कुव्योहार किया, कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित न रहें। २० उस समय मूसा उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुन्दर था; और वह तीन महीने तक अपने पिता के घर में पाला गया। २१ परन्तु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया, और अपना पुत्र करके पाला। २२ और मूसा को मिसरियों की सारी विद्या पढ़ाई गई, और वह बातों और कामों में सामर्थी था। २३ जब वह चालीस वर्ष का हुआ, तो उसके मन में आया कि मैं अपने इलाएली भाइयों से भेंट कहूं। २४ और उस ने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर, उसे बचाया, और मिसरी को मारकर सताए हुए का पलटा लिया। २५ उस ने सोचा, कि मेरे भाई समझेंगे कि परमेश्वर मेरे

हाथों से उन का उद्धार करेगा, परन्तु उन्होंने ने न समझा। २६ दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे थे, तो वह वहां आ निकला*; और यह कहके उन्हें मेल करने के लिये समझाया, कि हे पुरुषो, तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? २७ परन्तु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उस ने उसे यह कहकर हटा दिया, कि तुम्हें किस ने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? २८ क्या जिस रीति से तू ने कल मिसरी को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? २९ यह बात सुनकर, मूसा भागा; और मिस्र देश में परदेशी होकर रहने लगा: और वहां उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। ३० जब पूरे चालीस वर्ष बीत गए, तो एक स्वर्ग दूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। ३१ मूसा ने उस दर्शन को देखकर अचम्भा किया, और जब देखने के लिये पास गया, तो प्रभु का यह शब्द हुआ। ३२ कि मैं तेरे बापदादों, इब्राहीम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं: तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियाव न रहा। ३३ तब प्रभु ने उस से कहा; अपने पांवों से जूती उतार ले, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है, वह पवित्र भूमि है। ३४ मैं ने सचमुच अपने लोगों की दुर्दशा को जो मिसर में है, देखी ह; और उन की आह और उन का रोना सुन लिया है; इसलिये उन्हें छुड़ाने के लिये उतरा हूं। अब आ, मैं तुम्हें मिसर में

* यू० उन्हें दिखाई दिया।

भेजूगा। ३५ जिम मूसा को उन्हों ने यह कहकर नकारा था कि तुम्हें किम ने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है; उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने-वाला ठहराकर, उस स्वर्ग दूत के द्वारा जिस ने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था, भेजा। ३६ यही व्यक्ति मिसर और लाल समुद्र और जंगल में चालीस वर्ष तक अद्भुत काम और चिन्ह दिखा दिखाकर उन्हें निकाल लाया। ३७ यह वही मूसा है, जिस ने इस्राएलियों से कहा; कि परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिये मुझ सा एक भविष्यद्वक्ता उठाएगा। ३८ यह वही है, जिस ने जंगल में कलीसिया के बीच उम स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उस से बातें कीं, और हमारे बापदादों के साथ था: उसी को जीवित वचन मिले, कि हम तक पहुंचाए। ३९ परन्तु हमारे बापदादों ने उस की मानना न चाहा; बरन उसे हटाकर अपने मन मिसर की ओर फेरे। ४० और हासन से कहा; हमारे लिये ऐसे देवता बना, जो हमारे प्रागे प्रागे चलें, क्योंकि यह मूसा जो हमें मिसर देश में निकाल लाया, हम नहीं जानते उसे क्या हुआ? ४१ उन दिनों में उन्होंने ने एक बछड़ा बनाकर, उस की मूरत के प्रागे बलि चढ़ाया; और अपने हाथों के कामों में मगन होने लगे। ४२ सो परमेश्वर ने मुंह मोड़कर उन्हें छोड़ दिया, कि आकाश-गण पूजें; जैसा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखा है; कि हे इस्राएल के घराने, क्या तुम जंगल में चालीस वर्ष तक पशुबलि और अन्नबलि मुझ ही को चढ़ाने रहे? ४३ और तुम मोलेक के नम्बू और रिफान देवता के तारे को

लिए फिरते थे; अर्थात् उन आकारों को जिन्हें तुम ने दण्डवत करने के लिये बनाया था: सो मैं तुम्हें बाबुल के परे ले जाकर बसाऊंगा। ४४ साक्षी का तम्बू जंगल में हमारे बापदादों के बीच में था; जैसा उस ने ठहराया, जिस ने मूसा से कहा; कि जो आकर तू ने देखा है, उसके अनुसार इसे बना। ४५ उसी तम्बू को हमारे बापदादे पूर्वकाल से पाकर यहोशू के साथ यहां ले आए; जिस समय कि उन्होंने ने उन अन्यजातियों का अधिकार पाया, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे बापदादों के साम्हने से निकाल दिया; और वह दाऊद के समय तक रहा। ४६ उम पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सो उम ने बिनती की, कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिये निवास स्थान ठहराऊं। ४७ परन्तु सुलेमान ने उसके लिये घर बनाया। ४८ परन्तु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यद्वक्ता ने कहा। ४९ कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है, मेरे लिये तुम किस प्रकार का घर बनाओगे? और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? ५० क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई नहीं?

हे हठीले, और मन और कान के खतनारहित लोगो, तुम सदा पवित्र आन्या का साम्हना करते हो। ५१ जैसा तुम्हारे बापदादे करने थे, वैसे ही तुम भी करते हो। ५२ भविष्यद्वक्ताओं में से किस को तुम्हारे बापदादों ने नहीं सताया, और उन्होंने ने उस धर्मी के प्रागमन का पूर्वकाल से सन्देश देनेवालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वानेवाले

और मार डालनेवाले हुए। ५३ तुम ने स्वर्णदूतों के द्वारा ठहराई हुई ब्यवस्था तो पाई, परन्तु उसका पालन नहीं किया ॥

५४ ये बातें सुनकर वे जल गए * और उस पर दांत पीसने लगे। ५५ परन्तु उस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दहिनी ओर खड़ा देखकर। ५६ कहा; देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ, और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ५७ तब उन्होंने ने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बन्द कर लिए, और एक चित्त होकर उस पर झपटे। ५८ और उसे नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे, और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जबान के पांवों के पास उतार रखे।

५९ और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे, और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा; कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ६० फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा, और यह कहकर सो गया: और शाऊल उसके बध में सहमत था ॥

उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तित्तर बित्तर हो गए। २ और भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा; और उसके लिये बड़ा विलाप किया। ३ शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था; और घर घर घुसकर पुरुषों और

स्त्रियों को बसीट बसीटकर बन्दीगृह में डालता था ॥

४ जो तित्तर बित्तर हुए थे, वे सुसमाचार सुनाते हुए फिर। ५ और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ६ और जो बातें फिलिप्पुस ने कहीं उन्हीं लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देख देखकर, एक चित्त होकर मन लगाया। ७ क्योंकि बहुतों में से प्रशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गईं, और बहुत से भोले के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। ८ और उस नगर में बड़ा आनन्द हुआ ॥

९ इस से पहिले उस नगर में शमीन नाम एक मनुष्य था, जो टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को कोई बड़ा पुरुष बनाता था। १० और सब छोटे से बड़े तक उसे मान कर कहते थे, कि यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है, जो महान कहलाती है। ११ उस ने बहुत दिनों से उन्हें अपने टोने के कामों से चकित कर रखा था, इसी लिये वे उस को बहुत मानते थे। १२ परन्तु जब उन्होंने ने फिलिप्पुस की प्रतीति की जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था तो लोग, क्या पुरुष, क्या स्त्री अपतिस्मा लेने लगे। १३ तब शमीन ने आप भी प्रतीति की और अपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा और चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था ॥

१४ जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है तो पतरस और

* यू० मन में फट गए।

यूहन्ना को उन के पास भेजा। १५ और उन्होंने ने जाकर उन के लिये प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। १६ क्योंकि वह अब तक उन में से किसी पर न उतरा था, उन्होंने ने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। १७ तब उन्होंने ने उन पर हाथ रखे और उन्होंने ने पवित्र आत्मा पाया। १८ जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उन के पास रुपये लाकर कहा। १९ कि यह अधिकार मुझे भी दो, कि जिस किसी पर हाथ रखूं, वह पवित्र आत्मा पाए। २० पतरस ने उस से कहा; तेरे रुपये तेरे साथ नाश हों, क्योंकि तू ने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। २१ इस बात में न तेरा हिस्सा है, न बांटा; क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। २२ इसलिये अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, सम्भव है तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। २३ क्योंकि मैं देखता हूँ, कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बन्धन में पड़ा है। २४ शमौन ने उत्तर दिया, कि तुम मेरे लिये प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुम ने कहीं, उन में से कोई मुझ पर न आ पड़े ॥

२५ सो वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर, यरूशलेम को लौट गए, और सामरियों के बहुत गांवों में सुसमाचार सुनाते गए ॥

२६ फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा; उठकर दक्खिन की ओर उस मार्ग पर जा, जो यरूशलेम से अज्जाह को जाता है, और जंगल में है। २७ वह उठकर चल दिया, और देखो,

कूषा देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कन्दाके का मन्त्री और खजांची था, और भजन करने को यरूशलेम आया था। २८ और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था, और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। २९ तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। ३० फिलिप्पुस ने उस और दौड़कर उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना, और पूछा, कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? ३१ उस ने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्योंकर समझूँ? और उस ने फिलिप्पुस से बिनती की, कि चढ़कर मेरे पास बैठ। ३२ पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था, वह यह था; कि वह भेड़ की नाई बध होने को पहुँचाया गया, और जैसा मेम्ना अपने ऊन कतरनेवालों के साम्हने चुपचाप रहता है, वैसे ही उस ने भी अपना मुँह न खोला। ३३ उस की दीनता में उसका न्याय होने नहीं पाया, और उसके समय के लोगों * का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठाया जाता है। ३४ इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा; मैं तुझ से बिनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किस के विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में। ३५ तब फिलिप्पुस ने अपना मुँह खोला, और डमी शास्त्र से आरम्भ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। ३६ मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुँचे, तब

* या पीढ़ी।

खोजे ने कहा, देख यहां जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। ३७ फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है: उस ने उत्तर दिया मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ३८ तब उस ने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी, और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े, और उस ने उसे बपतिस्मा दिया। ३९ जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा, और वह आनन्द करता हुआ अपने मार्ग चला गया। ४० और फिलिप्पुस अगदोद में आ निकला, और जब तक कैसरीया में न पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया ॥

६ और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। २ और उस से दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी, कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बान्धकर यरूशलेम में ले आए। ३ परन्तु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। ४ और वह भूमि पर गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? ५ उस ने पूछा; हे प्रभु, तू कौन है? उस ने कहा; मैं यीशु हूँ; जिसे तू सताता है। ६ परन्तु अब उठकर नगर में जा, और जो तुझे करना है, वह तुझ से कहा जाएगा। ७ जो मनुष्य उसके साथ थे,

वे चुपचाप रह गए; क्योंकि शब्द तो सुनते थे, परन्तु किसी को देखते न थे। ८ तब शाऊल भूमि पर से उठा, परन्तु जब प्रांखें खोलीं तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़के दमिश्क में ले गए। ९ और वह तीन दिन तक न देख सका, और न खाया और न पीया ॥

१० दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था, उस से प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह! उस ने कहा; हां, प्रभु। ११ तब प्रभु ने उस से कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले; क्योंकि देख, वह प्रार्थना कर रहा है। १२ और उस ने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते, और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है; ताकि फिर से दृष्टि पाए। १३ हनन्याह ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, मैं ने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है, कि इस ने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। १४ और यहां भी इस को महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है, कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं, उन सब को बान्ध ले। १५ परन्तु प्रभु ने उस से कहा, कि तू चला जा; क्योंकि यह, तो अन्धजातियों और राजाओं, और इस्त्राएलियों के साम्हने मेरा नाम प्रगट करने के लिये मेरा चुना हुआ पात्र है। १६ और मैं उसे बताऊंगा, कि मेरे नाम के लिये उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। १७ तब हनन्याह उठकर उस घर में गया, और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु, अर्थात् यीशु, जो उस रास्ते में, जिस से तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा

है, कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। १८ और तुरन्त उस की आंखों से छिलके से गिरे, और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया; फिर भोजन करके बल पाया ॥

१९ और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। २० और वह तुरन्त आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा, कि वह परमेश्वर का पुत्र है। २१ और सब सुननेवाले चकित होकर कहने लगे; क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था, और यहां भी इसी लिये आया था, कि उन्हें बान्धकर महायाजकों के पास ले जाए?

२२ परन्तु शाऊल और भी सामर्थी होता गया, और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहनेवाले यहूदियों का मुंह बन्द करता रहा ॥

२३ जब बहुत दिन बीत गए, तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली। २४ परन्तु उन की युक्ति शाऊल को मालूम हो गई: वे तो उसके मार डालने के लिये रात दिन फाटकों पर लगे रहे थे। २५ परन्तु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया, और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया ॥

२६ यरूशलेम में पहुंचकर उस ने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया: परन्तु सब उस से डरते थे, क्योंकि उन को प्रतीति न होता था, कि वह भी चेला है। २७ परन्तु बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उन से कहा, कि इस ने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा, और उस ने इस से बातें कीं; फिर

दमिश्क में इस ने कैसे हियाव से यीशु के नाम से प्रचार किया। २८ वह उन के साथ यरूशलेम में आता जाता रहा। २९ और निघड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था: और यूनानी भाषा बोलनेवाले यहूदियों के साथ बान्धित और वाद-विवाद करता था; परन्तु वे उसके मार डालने का यत्न करने लगे। ३० यह जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए, और तरसुस को भेज दिया ॥

३१ सो सारे यहूदिया, और गलील, और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला, और उसकी उन्नति होती गई; और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शान्ति में चलती और बढ़ती जाती थी ॥

३२ और ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ, उन पवित्र लोगों के पास भी पहुंचा, जो लुदा में रहते थे।

३३ वहां उसे ऐनियास नाम भोले का मारा हुआ एक मनुष्य मिला, जो आठ वर्ष से खाट पर पड़ा था। ३४ पतरस ने उस से कहा; हे ऐनियास! यीशु मसीह तुझे चंगा करता है; उठ, अपना, बिछौना बिछा, तब वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ।

३५ और लुदा और शारोन के सब रहनेवाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे ॥

३६ याफा में तबीता अर्थात् दोरकास* नाम एक विश्वासिनी रहती थी, वह बहुतेरे भले भले काम और दान किया करती थी। ३७ उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई; और उन्होंने ने उसे नहलाकर घट्टारी पर रख दिया। ३८ और इसलिये कि लुदा याफा के निकट था, चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है दो

* अर्थात् हिरनी।

मनुष्य भेजकर उस से बिनती की कि हमारे पास आने में देर न कर। ३६ तब पतरस उठकर उन के साथ हो लिया, और जब पहुंच गया, तो वे उसे उस घटारी पर ले गए; और सब विघवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं: और जो कुरते और कपड़े दोरकास ने उन के साथ रहते हुए बनाए थे, दिलाने लगीं। ४० तब पतरस ने सब को बाहर कर दिया, और घुटने टेककर प्रार्थना की; और लीय की ओर देखकर कहा; हे तबीता उठ: तब उस ने अपनी आंखें खोल दी; और पतरस को देखकर उठ बैठी। ४१ उस ने हाथ देकर उसे उठाया, और पवित्र लोगों और विघवाओं को बुलाकर उसे जीवित और जागृत दिखा दिया। ४२ यह बात सारे याफा में फैल गई: और बहुतों ने प्रभु पर विश्वास किया। ४३ और पतरस याफा में शमीन नाम किसी चमड़े के घन्घा करनेवाले के यहां बहुत दिन तक रहा ॥

१० कैसरिया में कुरनेलियुस नाम एक मनुष्य था, जो इतालियानी नाम पलटन का सूबेदार था। २ वह भक्त था, और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों * को बहुत दान देता, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ३ उस ने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है; कि हे कुरनेलियुस। ४ उस ने उसे ध्यान से देखा; और डरकर कहा; हे प्रभु क्या है? उस ने उस से कहा, तेरी

* यू० समाज या प्रजा।

प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिये परमेश्वर के साम्हने पहुंचे हैं। ५ और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमीन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले: ६ वह शमीन चमड़े के घन्घा करनेवाले के यहां पाहुन है, जिस का घर समुद्र के किनारे है। ७ जब वह स्वर्गदूत जिस ने उस से बातें की थीं चला गया, तो उस ने दो सेवक, और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उन में से एक भक्त सिपाही को बुलाया। ८ और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा ॥

९ दूसरे दिन, जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे, तो दो पहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। १० और उसे भूल लगी, और कुछ खाना चाहता था; परन्तु जब वे तैयार कर रहे थे, तो वह बेसुध हो गया। ११ और उस ने देखा, कि आकाश खुल गया; और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ, पृथ्वी की ओर उतर रहा है। १२ जिस में पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रंगनेवाले जन्तु और आकाश के पर्क्षा थे। १३ और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, कि हे पतरस उठ, मार और खा। १४ परन्तु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं; क्योंकि मैं ने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। १५ फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे तू अशुद्ध मत कह। १६ तीन बार ऐसा ही हुआ; तब तुरन्त वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया ॥

१७ जब पतरस अपने मन में बुद्धि कर रहा था, कि यह दर्शन जो मैं ने

देखा क्या है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर डेवड़ी पर आ खड़े हुए। १८ और पुकारकर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है, यहीं पाहुन है? १९ पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था, कि आत्मा ने उस से कहा, देख, तीन मनुष्य तेरी खोज में हैं। २० सो उठकर नीचे जा, और देखके उन के साथ हो ले; क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। २१ तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा; देखो, जिसकी खोज तुम कर रहे हो, वह मैं ही हूँ; तुम्हारे आने का क्या कारण है? २२ उन्होंने ने कहा; कुरनेलियुस सूवेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरनेवाला और सारी यहूदी जाति में सुनामी मनुष्य है, उस ने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह चिन्तावनी पाई है, कि तुम्हें अपने घर बुलाकर तुम्हें से वचन सुने। २३ तब उस ने उन्हें भीतर बुलाकर उन की पहनाई की ॥

और दूसरे दिन, वह उनके साथ गया; और याफा के भाइयों में से कई उसके साथ हो लिए। २४ दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुँचे, और कुरनेलियुस अपने कुटुम्बियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उन की बाट जोह रहा था। २५ जब पतरस भीतर आ रहा था, तो कुरनेलियुस ने उस से भेंट की, और पाँवों पड़के प्रणाम किया। २६ परन्तु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। २७ और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया, और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर। २८ उन से कहा, तुम जानते हो, कि अन्यजाति की संगति करना या उसके

यहां जाना यहूदी के लिये अशुभ है, परन्तु परमेश्वर ने मुझे बताया है, कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। २९ इसी लिये मैं जब बुलाया गया; तो बिना कुछ कहे चला आया: अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिये बुलाया गया है? ३० कुरनेलियुस ने कहा; कि इस घड़ी पूरे चार दिन हुए, कि मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था; कि देखो, एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहिने हुए, मेरे साम्हने आ खड़ा हुआ। ३१ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई, और तेरे दान परमेश्वर के साम्हने स्मरण किए गए हैं। ३२ इसलिये किसी को याफा भेजकर शमौन को जो पतरस कहलाता है, बुला; वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े के घन्घा करनेवाले के घर में पाहुन है। ३३ तब मैं ने तुरन्त तेरे पास लोग भेजे, और तू ने भला किया, जो आ गया: अब हम सब यहां परमेश्वर के साम्हने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें से कहा है उसे सुनें। ३४ तब पतरस ने मुँह खोलकर कहा;

३५ अब मुझे निश्चय हुआ, कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, बरन हर जाति में जो उस से डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। ३६ जो वचन उस ने इस्त्राएलियों के पास भेजा, जब कि उस ने यीशु मसीह के द्वारा (जो सब का प्रभु है) शान्ति का सुसमाचार सुनाया। ३७ वह बात तुम जानते हो जो यहूदा के बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरम्भ करके सारे यहूदिया में फैल गई। ३८ कि

परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया : वह भलाई करता, और सब को जो शैतान * के सताए हुए थे, भ्रच्छा करता फिरा; क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ३६ और हम उन सब कामों के गवाह हैं; जो उस ने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने ने उसे काठ पर लटकाकर मार डाला। ४० उस को परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, और प्रगट भी कर दिया है। ४१ सब लोगों को नहीं बरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से चुन लिया था, अर्थात् हमको जिन्होंने उसके मरे हुएों में से जी उठने के बाद, उसके साथ खाया पीया। ४२ और उस ने हमें आज्ञा दी, कि लोगों में प्रचार करो; और गवाही दो, कि यह वही है; जिसे परमेश्वर ने जीवतों और मरे हुएों का न्यायी ठहराया है। ४३ उस की सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस को उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी।

४४ पतरस ये बातें कह ही रहा था, कि पवित्र आत्मा वचन के सब मुननेवालों पर उतर आया। ४५ और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य-जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला † गया है। ४६ क्योंकि उन्होंने ने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। ४७ इस पर पतरस ने कहा; क्या कोई जल की रोक कर सकता है, कि ये बपतिस्मा न

पाएं, जिन्होंने ने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है? ४८ और उस ने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए : तब उन्होंने ने उस से बिनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रह।

११ और प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना, कि अन्यजातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। २ और जब पतरस यरूशलेम में आया, तो खतना किए हुए लोग उस से वाद-विवाद करने लगे। ३ कि तू ने खतनारहित लोगों के यहां जाकर उन के साथ खाया। ४ तब पतरस ने उन्हें आरम्भ से क्रमानुसार कह सुनाया; ५ कि मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था, और बेसुध होकर एक दर्शन देखा, कि एक पात्र, बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ, आकाश से उतरकर मेरे पास आया। ६ जब मैं ने उस पर ध्यान किया, तो पृथ्वी के चौपाए और बनपशु और रेंगनेवाले जन्तु और आकाश के पक्षी देखे। ७ और यह शब्द भी सुना कि हे पतरस उठ मार और खा। ८ मैं ने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। ९ इस के उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, कि जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है, उसे अशुद्ध मत कह। १० तीन बार ऐसा ही हुआ; तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। ११ और देखो, तुरन्त तीन मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर पर जिस में हम थे, आ खड़े हुए। १२ तब आत्मा ने मुझ से

* यू० इस्लीस।

† यू० बहाया।

उन के साथ बेखटके हो लेने को कहा, और ये छः भाई भी मेरे साथ हो लिए; और हम उस मनुष्य के घर में गए। १३ और उस ने बताया, कि मैं ने एक स्वगंदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिस ने मुझ से कहा, कि याफा में मनुष्य भेजकर शमीन को जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। १४ वह तुम से ऐसी बातें कहेगा, जिन के द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। १५ जब मैं वानें करने लगा, तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा, जिन रीति से प्रारम्भ में हम पर उतरा था। १६ तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया; जो उस ने कहा; कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परन्तु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। १७ सो जब कि परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया, जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था; तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता? १८ यह सुनकर, वे चुप रहे, और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्यजातियों को भी जीवन के लिये मन फिराव का दान दिया है ॥

१९ सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तित्तर बित्तर हो गए थे, वे फिरले फिरले फीनीके और कुप्रुस और अन्ताकिया में पहुंचे; परन्तु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। २० परन्तु उन में से कितने कुप्रुसी और कुरेनी थे, जो अन्ताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। २१ और प्रभु का हाथ उन पर था, और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की

और फिर। २२ तब उन की चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के मुनने में आई, और उन्होंने ने बरनबाम को अन्ताकिया भेजा। २३ वह वहां पहुंचकर, और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनन्दित हुआ; और सब को उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से निपटे रहो। २४ क्योंकि वह एक भला मनुष्य था; और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था; और और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। २५ तब वह शाऊल को बूढ़ने के लिये तरमुस को चला गया। २६ और जब उम से मिला तो उसे अन्ताकिया में लाया, और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चले सब से पहिले अन्ताकिया ही में मसीही कहलाए ॥

२७ उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अन्ताकिया में आए। २८ उन में से भगबुस नाम एक ने सड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया, कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, और वह अकाल क्लोदियुस के समय में पड़ेगा। २९ तब चेलों ने ठहराया, कि हर एक अपनी अपनी पूजी के अनुसार यहूदिया में रहनेवाले भाइयों की सेवा के लिये कुछ भेजे। ३० और उन्होंने ने ऐसा ही किया; और बरनबाम और शाऊल के हाथ प्राचीनों * के पास कुछ भेज दिया ॥

१२ उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुस देने के लिये उन पर हाथ डाले। २ उम ने यूहन्ना के भाई यकूब को

* या प्रिसबुतिरो।

तलवार से भरवा डाला। ३ और जब उस ने देखा, कि यहूदी लोग इस से आनन्दित होते हैं, तो उस ने पतरस को भी पकड़ लिया: वे दिन प्रखमीरी रोटी के दिन थे। ४ और उस ने उसे पकड़ के बन्दीगृह में डाला, और रखवाली के लिये, चार चार सिपाहियों के चार पहरो में रखा: इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के साम्हने लाए। ५ सो बन्दीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी; परन्तु कलीसिया उसके लिये लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। ६ और जब हेरोदेस उसे उन के साम्हने लाने को था, तो उसी रात पतरस दो जंजीरों से बन्धा हुआ, दो सिपाहियों के बीच में सो रहा था: और पहरेदार द्वार पर बन्दीगृह की रखवाली कर रहे थे। ७ तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ: और उस कोठरी में ज्योति: चमकी: और उस ने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया, और कहा; उठ, फुरती कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ीं। ८ तब स्वर्गदूत ने उस से कहा; कमर बान्ध, और अपने जूते पहिन ले: उस ने वैसा ही किया, फिर उस ने उस से कहा; अपना वस्त्र पहिनकर मेरे पीछे हो ले। ९ वह निकलकर उसके पीछे हो लिया; परन्तु यह न जानता था, कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है, वह सचमुच है, बरन यह समझा, कि मैं दर्शन देख रहा हूं। १० तब वे पहिले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे, जो नगर की ओर है; वह उन के लिये आप से आप खुल गया: और वे निकलकर एक ही गली

होकर गए, इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। ११ तब पतरस ने सचेत होकर कहा; अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया, और यहूदियों की सारी भाशा तोड़ दी। १२ और यह सोचकर, वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है; वहां बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। १३ जब उस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, तो रुदे नाम एक दासी सुनने को आई। १४ और पतरस का शब्द पहचानकर, उस ने आनन्द के मारे फाटक न खोला; परन्तु दौड़कर भीतर गई, और बताया, कि पतरस द्वार पर खड़ा है। १५ उन्होंने ने उस से कहा; तू पागल है, परन्तु वह दृढ़ता से बोली, कि ऐसा ही है: तब उन्होंने ने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। १६ परन्तु पतरस खटखटाता ही रहा: सो उन्होंने ने खिड़की खोली, और उसे देखकर चकित हो गए। १७ तब उस ने उन्हें हाथ से सैन किया, कि चुप रहें; और उन को बताया, कि प्रभु किस रीति से मुझे बन्दीगृह से निकाल लाया है: फिर कहा, कि याकूब और भाइयों को यह बात कह देना; तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। १८ और को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी, कि पतरस क्या हुआ। १९ जब हेरोदेस ने उस की खोज की, और न पाया; तो पहरेदारों की जांच करके आज्ञा दी कि वे मार डाले जाएं: और वह यहूदिया को छोड़कर कैसरिया में जा रहा ॥

२० और वह सूर और सैदा के लोगों से बहुत अप्रसन्न था; सो वे एक चित्त

होकर उसके पास आए और बलास्तुस को, जो राजा का एक कर्मचारी * था, मनाकर मेल करना चाहा; क्योंकि राजा के देश से उन के देश का पालन पोषण होता था। २१ और ठहराए हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहिनकर सिंहासन पर बैठा; और उन को व्याख्यान देने लगा। २२ और लोग पुकार उठे, कि यह तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। २३ उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरन्त उसे मारा, क्योंकि उस ने परमेश्वर की महिमा न की और वह कीड़े पड़के मर गया ॥

२४ परन्तु परमेश्वर का वचन बढ़ता और फलता गया ॥

२५ जब बरनबास और शाऊल अपनी सेवा पूरी कर चुके, तो यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है साथ लेकर यरूशलेम से लौटे ॥

१३ अन्ताकिया की कलीसिया में कितने भविष्यद्वक्ता और उपदेशक थे; अर्थात् बरनबास और शमीन जो नीगर कहलाता है; और लूकियुस कुरेनी, और देश की चौथाई के राजा हेरोदेस का दूषभाई मनाहेम और शाऊल। २ जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा; मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिये भ्रमल कर दो जिस के लिये मैं ने उन्हें बुलाया है। ३ तब उन्होंने ने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया ॥

४ सो वे पवित्र आत्मा के भेजे हुए सिलूकिया को गए; और वहां से जहाज

पर चढ़कर कुप्रुस को चले। ५ और सलमीस में पहुंचकर, परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनालयों में सुनाया; और यूहन्ना उन का सेवक था। ६ और उस सारे टापू में होते हुए, पाफुस तक पहुंचे; वहां उन्हें बार-यीशु नाम एक यहूदी टोन्हा और भूठा भविष्यद्वक्ता मिला। ७ वह सिरगियुस पौलुस सूबे * के साथ था, जो बुद्धिमान पुरुष था; उस ने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनना चाहा। ८ परन्तु इलीमास टोन्हे ने, क्योंकि यही उसके नाम का अर्थ है उन का साम्हना करके, सूबे को विश्वास करने से रोकना चाहा। ९ तब शाऊल ने जिस का नाम पौलुस भी है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उस की ओर टकटकी लगाकर कहा। १० हे सारे कपट और सब चतुराई से भरे हुए शंतान † की सन्तान, सकल धर्म के बैरी, क्या तू प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना न छोड़ेगा? ११ अब देख, प्रभु का हाथ तुझ पर लगा है; और तू कुछ समय तक अन्धा रहेगा और सूर्य को न देखेगा; तब तुरन्त धुन्धलाई और अन्धेरा उस पर छा गया, और वह इधर उधर टटोलने लगा, ताकि कोई उसका हाथ पकड़के ले चले। १२ तब सूबे ने जो हुम्ना था, देखकर और प्रभु के उपदेश से चकित होकर विश्वास किया ॥

१३ पौलुस और उसके साथी पाफुस से जहाज खोलकर पंफूलिया के पिरगा में आए; और यूहन्ना उन्हें छोड़कर यरूशलेम को लौट गया। १४ और पिरगा से

* या कंचुकी।

* यू० प्रतिनिधि।

† यू० इब्लीस।

घागे बढ़कर वे पिसिदिग्ना के अन्तःकिया में पहुंचे; और सब के दिन धाराधनालय में जाकर बैठ गए। १५ और व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से पढ़ने के बाद सभा के सरदारों ने उन के पास कहला भेजा, कि हे भाइयो, यदि लोगों के उपदेश के लिये तुम्हारे मन में कोई बात हो तो कहो। १६ तब पीलुस ने खड़े होकर और हाथ से संन करके कहा; हे इस्त्राएलियो, और परमेश्वर से डरनेवालो, मुनो। १७ इन इस्त्राएली लोगों के परमेश्वर ने हमारे बापदादों को चुन लिया, और जब ये लोग मिसर देश में परदेशी होकर रहते थे, तो उन की उन्नति की; और बलवन्त भुजा से निकाल लाया। १८ और वह कोई चालीस वर्ष तक जंगल में उन की सहता रहा। १९ और कनान देश में सात जातियों का नाश करके उन का देश कोई साढ़े चार सौ वर्ष में इन की मीराम में कर दिया। २० इस के बाद उस ने सामुएल भविष्यद्वक्ता तक उन में न्यायी ठहराए। २१ उसके बाद उन्होंने ने एक राजा मांगा; तब परमेश्वर ने चालीस वर्ष के लिये विनयामीन के गोत्र में से एक मनुष्य; अर्थात् कौश के पुत्र शाऊल को उन पर राजा ठहराया। २२ फिर उसे अलग करके दाऊद को उन का राजा बनाया; जिस के विषय में उस ने गवाही दी, कि मुझे एक मनुष्य यिरी का पुत्र दाऊद, मेरे मन के अनुसार मिल गया है; वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। २३ इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्त्राएल के पास एक उदारकर्ता, अर्थात् यीशु को भेजा। २४ जिस के आने से पहिले यूहन्ना ने

सब इस्त्राएलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। २५ और जब यूहन्ना अपना दौर पूरा करने पर था, तो उस ने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? मैं वह नहीं! बरन देखो, मेरे बाद एक आनेवाला है, जिस के पांवों की जूती में खोलने के योग्य नहीं। २६ हे भाइयो, तुम जो इब्राहीम की सन्तान हो; और तुम जो परमेश्वर से डरते हो, तुम्हारे पास इस उदार का वचन भेजा गया है। २७ क्योंकि यरूशलेम के रहनेवालों और उन के सरदारों ने, न उसे पहचाना, और न भविष्यद्वक्ताओं की बातें समझी; जो हर सब के दिन पढ़ी जाती हैं, इसलिये उसे दोषी ठहराकर उन को पूरा किया। २८ उन्होंने ने मार डालने के योग्य कोई दोष उस में न पाया, तोभी पीलातुस से बिनती की, कि वह मार डाला जाए। २९ और जब उन्होंने ने उसके विषय में लिखी हुई सब बातें पूरी कीं, तो उसे क्रूस पर से उतारकर कब्र में रखा। ३० परन्तु परमेश्वर ने उसे मरे हुएओं में से जिलाया। ३१ और वह उन्हें जो उसके साथ गलील से यरूशलेम आए थे, बहुत दिनों तक दिखाई देता रहा; लोगों के साम्हने अब वे ही उसके गवाह हैं। ३२ और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में, जो बापदादों से की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते हैं। ३३ कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर, वही प्रतिज्ञा हमारी सन्तान के लिये पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है, कि तू मेरा पुत्र है; आज मैं ही ने तुम्हें जन्माया है। ३४ और उसके इस रीति से मरे हुएओं में से जिलाने के विषय में भी, कि वह कभी न सड़े, उस ने यों

कहा है; कि मैं दाऊद पर की पवित्र और अचल कृपा तुम पर कहेगा। ३५ इसलिये उस ने एक और भजन में भी कहा है; कि तू अपने पवित्र जन को सड़ने न देगा। ३६ क्योंकि दाऊद ता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने समय में सेवा करके सो गया; और अपने बापदादों में जा मिला; और सड़ भी गया। ३७ परन्तु जिस को परमेश्वर ने जिलाया, वह सड़ने नहीं पाया। ३८ इसलिये, हे भाइयो; तुम जान लो कि इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है। ३९ और जिन बातों से तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब से हर एक विश्वास करनेवाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। ४० इसलिये चौकस रहो, ऐसा न हो, कि जो भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में आया है, ४१ तुम पर भी आ पड़े कि हे निन्दा करनेवालो, देखो, और चकित हो, और मिट जाओ; क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक काम करता हूँ; ऐसा काम, कि यदि कोई तुम से उसकी चर्चा करे, तो तुम कभी प्रतीति न करोगे ॥

४२ उन के बाहर निकलते समय लोग उन से विनती करने लगे, कि अगले सब्त के दिन हमें ये बातें फिर सुनाई जाएं। ४३ और जब सभा उठ गई तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए; और उन्होंने ने उन से बातें करके समझाया, कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो ॥

४४ अगले सब्त के दिन नगर के प्रायः सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को

इकट्ठे हो गए। ४५ परन्तु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए, और निन्दा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। ४६ तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, प्रवश्य था, कि परमेश्वर का वचन पहिले तुम्हें सुनाया जाता: परन्तु जब कि तुम उसे दूर करते हो, और अपने को अनन्त जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो, हम अन्यजातियों की ओर फिरते हैं। ४७ क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है; कि मैं ने तुम्हें अन्यजातियों के लिये ज्योति ठहराया है; ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। ४८ यह सुनकर अन्यजाति आनन्दित हुए, और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगे: और जितने अनन्त जीवन के लिये ठहराए गए थे, उन्हीं ने विश्वास किया। ४९ तब प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। ५० परन्तु यहूदियों ने भक्त और कुलीन स्त्रियों को और नगर के बड़े लोगों को उसकाया, और पौलुस और बरनबास पर उपद्रव करवाकर उन्हें अपने सिवानों से निकाल दिया। ५१ तब वे उन के साम्हने अपने पांवों की धूल झाड़कर इकुनियुम को गए। ५२ और चले आनन्द से और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते रहे ॥

१४ इकुनियुम में ऐसा हुआ कि वे यहूदियों की धाराधनालय में साथ साथ गए, और ऐसी बातें कीं, कि यहूदियों और यूनानियों दोनों में से बहुतों ने विश्वास किया। २ परन्तु न माननेवाले यहूदियों ने अन्यजातियों के मन भाइयों के विरोध में उसकाए, और बिगाड़ कर

दिए। ३ और वे बहुत दिन तक वहां रहे, और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें करते थे: और वह उन के हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवाकर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था। ४ परन्तु नगर के लोगों में फूट पड़ गई थी; इस से कितने तो यहूदियों की और, और कितने प्रेरितों की और हो गए। ५ परन्तु जब ग्रन्थजाति और यहूदी उन का अपमान और उन्हें पत्थरबाह करने के लिये अपने सरदारों समेत उन पर दौड़े। ६ तो वे इस बात को जान गए, और लुकाउनिया के लुस्त्रा और विरबे नगरों में, और आसपास के देश में भाग गए। ७ और वहां सुसमाचार सुनाने लगे।

८ लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था, जो पांवों का निबल था: वह जन्म ही से लंगड़ा था, और कभी न चला था। ९ वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इस ने उस की और टकटकी लगाकर देखा कि इस को चंगा हो जाने का विश्वास है। १० और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो: तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। ११ लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा; देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। १२ और उन्होंने ने बरनबास को ज्यूस, और पौलुस को हिरमैस कहा, क्योंकि यह बातें करने में मुख्य था। १३ और ज्यूस के उस मन्दिर का पुजारी जो उन के नगर के साम्हने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। १४ परन्तु बरनबास और

पौलुस प्रेरितों ने जब सुना, तो अपने कपड़े फाड़े, और भीड़ में लपक गए, और पुकारकर कहने लगे; हे लोगो तुम क्या करते हो? १५ हम भी तो तुम्हारे समान दुःख-सुख भोगी मनुष्य हैं, और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं, कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की और फिरो, जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उन में है बनाया। १६ उस ने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया। १७ तोभी उस ने अपने आप को वे-गवाह न छोड़ा; किन्तु वह भलाई करता रहा, और आकाश से वर्षा और फलवन्त ऋतु देकर, तुम्हारे मन को भोजन और आनन्द से भरता रहा। १८ यह कहकर भी उन्होंने ने लोगों को कठिनता से रोका कि उन के लिये बलिदान न करें।

१९ परन्तु कितने यहूदियों ने अन्ताकिया और इकुनियुम से आकर लोगों को अपनी और कर लिया, और पौलुस को पत्थरबाह किया, और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। २० पर जब चले उस की चारों और आ खड़े हुए, तो वह उठकर नगर में गया और दूसरे दिन बरनबास के साथ विरबे को चला गया। २१ और वे उस नगर के लोगों को सुसमाचार सुनाकर, और बहुत से चले बनाकर, लुस्त्रा और इकुनियुम और अन्ताकिया को लौट आए। २२ और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे, कि विश्वास में बने रहो; और यह कहते थे, कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। २३ और उन्होंने ने

हर एक कलीसिया में उन के लिये प्राचीन * ठहराए, और उपवास सहित प्रार्थना करके, उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा जिस पर उन्होंने ने विश्वास किया था। २४ और पिसिदिया से होते हुए वे पंफूलिया में पहुंचे; २५ और पिरगा में वचन सुनाकर अत्तलिया में आए। २६ और वहां से जहाज पर अन्ताकिया में आए, जहां से वे उस काम के लिये जो उन्होंने ने पूरा किया था परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपे गए थे। २७ वहां पहुंचकर, उन्होंने ने कलीसिया इकट्ठी की और बताया, कि परमेश्वर ने हमारे साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए! और अन्यजातियों के लिये विश्वास का द्वार खोल दिया। २८ और वे चेलों के साथ बहुत दिन तक रहे ॥

१५ फिर कितने लाग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना न हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। २ जब पौलुस और बरनबास का उन से बहुत भगड़ा और वाद-विवाद हुआ तो यह ठहराया गया, कि पौलुस और बरनबास, और हम में से कितने और व्यक्ति इस बात के विषय में यरूशलेम को प्रेरितों और प्राचीनों † के पास जाएं। ३ सो मण्डली ने उन्हें कुछ दूर तक पहुंचाया; और वे फीनीके और सामरिया से होते हुए अन्यजातियों के मन फेरने ‡ का समाचार सुनाते गए, और सब भाइयों को बहुत आनन्दित किया। ४ जब यरूशलेम में पहुंचे, तो

कलीसिया और प्रेरित और प्राचीन उन से आनन्द के साथ मिले, और उन्होंने ने बताया, कि परमेश्वर ने उन के साथ होकर कैसे कैसे काम किए थे। ५ परन्तु फरीसियों के पंथ में से जिन्होंने ने विश्वास किया था, उन में से कितनों ने उठकर कहा, कि उन्हें खतना कराना और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देना चाहिए ॥

६ तब प्रेरित और प्राचीन इस बात के विषय में विचार करने के लिये इकट्ठे हुए। ७ तब पतरस ने बहुत वाद-विवाद के बाद बड़े होकर उन से कहा ॥

हे भाइयो, तुम जानते हो, कि बहुत दिन हुए, कि परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया, कि मेरे मुंह से अन्यजाति सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। ८ और मन के जांचनेवाले परमेश्वर ने उन को भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उन की गवाही दी। ९ और विश्वास के द्वारा उन के मन शुद्ध करके हम में और उन में कुछ भेद न रखा। १० तों अब तुम क्यों परमेश्वर की परीक्षा करते हो? कि चेलों की गरदन पर ऐसा जूआ रखो, जिसे न हमारे बापदादे उठा सके थे और न हम उठा सकते। ११ हां, हमारा यह तो निश्चय है, कि जिस रीति से वे प्रभु यीशु के अनुग्रह से उद्धार पाएंगे; उसी रीति से हम भी पाएंगे ॥

१२ तब सारी सभा चुपचाप होकर बरनबास और पौलुस की सुनने लगी, कि परमेश्वर ने उन के द्वारा अन्यजातियों में कैसे कैसे बड़े चिन्ह, और अद्भुत काम दिखाए। १३ जब वे चुप हुए, तो याकूब कहने लगा, कि ॥

१४ हे भाइयो, मेरी सुनो : शमीन ने बताया, कि परमेश्वर ने पहिले पहिल

* या प्रिसबुतिर। † या प्रिसबुतिरों।

‡ अर्थात् दीक्षित होने।

अन्यजातियों पर कौसी कृपादृष्टि की, कि उन में से अपने नाम के लिये एक लोग बना ले। १५ और इस से भविष्यद्वक्ताओं की बातें मिलती हैं, जैसा लिखा है, कि। १६ इस के बाद में फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा, और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और उसे खड़ा करूंगा। १७ इसलिये कि शेष मनुष्य, अर्थात् सब अन्यजाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं, प्रभु को बूढ़ें। १८ यह वही प्रभु कहता है जो जगत की उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। १९ इसलिये मेरा विचार यह है, कि अन्यजातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुःख न दें। २० परन्तु उन्हें लिख भेजें, कि वे मूरतों की प्रशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घांटे हुए लोगों के मांस से और लोह से परे रहें। २१ क्योंकि पुराने समय से नगर नगर मूसा की व्यवस्था के प्रचार करनेवाले होते चले आए हैं, और वह हर सप्त के दिन धाराधनालय में पढ़ी जाती है ॥

२२ तब सारी कलीसिया सहित प्रेरितों और प्राचीनों* को अच्छा लगा, कि अपने में से कई मनुष्यों को चुनें, अर्थात् यहूदा, जो बरसब्बा कहलाता है, और सीलास को जो भाइयों में मुखिया थे; और उन्हें पौलुस और बरनबास के साथ अन्ताकिया को भेजें। २३ और उन के हाथ यह लिख भेजा, कि अन्ताकिया और सूरिया और किलिकिया के रहनेवाले भाइयों को जो अन्यजातियों में से हैं, प्रेरितों और प्राचीनों † भाइयों का

नमस्कार! २४ हम ने सुना है, कि हम में से कितनों ने वहां जाकर, तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया; और तुम्हारे मन उलट दिए हैं परन्तु हम ने उन को आज्ञा नहीं दी थी। २५ इसलिये हम ने एक चित्त होकर ठीक समझा, कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्यारे बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजें। २६ ये तो ऐसे मनुष्य हैं, जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिये जोखिम में डाले हैं। २७ और हम ने यहूदा और सीलास को भेजा है, जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे। २८ पवित्र आत्मा को, और हम को ठीक जान पड़ा, कि इन आवश्यक बातों को छोड़; तुम पर और बोझ न डालें; २९ कि तुम मूरतों के बलि किए हुए लोगों से, और लोह से, और गला घांटे हुए लोगों के मांस से, और व्यभिचार से, परे रहो। इन से परे रहो; तो तुम्हारा भला होगा। प्रागे शुभ ॥

३० फिर वे विदा होकर अन्ताकिया में पहुंचे, और सभा को इकट्ठी करके वह उन्हें पत्री दे दी। ३१ और वे पढ़कर उस उपदेश की बात से अति आनन्दित हुए। ३२ और यहूदा और सीलास ने जो आप भी भविष्यद्वक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। ३३ वे कुछ दिन रहकर भाइयों से शान्ति के साथ विदा हुए, कि अपने भेजनेवालों के पास जाएं। ३४ (परन्तु सीलास को वहां रहना अच्छा लगा।) ३५ और पौलुस और बरनबास अन्ताकिया में रह गए; और बहुत और लोगों के साथ प्रभु के वचन का उपदेश करते और सुसमाचार सुनाते रहे ॥

* या प्रिसब्रितरों। † या प्रिसब्रितर।

३६ कुछ दिन बाद पौलुस ने बरनबास से कहा; कि जिन जिन नगरों में हम ने प्रभु का वचन सुनाया था, आओ, फिर उन में चलकर अपने भाइयों को देखें, कि कैसे हैं। ३७ तब बरनबास ने यूहन्ना को जो मरकुस कहलाता है, साथ लेने का विचार किया। ३८ परन्तु पौलुस ने उसे जो पंफूलिया में उन से भ्रम हो गया था, और काम पर उन के साथ न गया, साथ ले जाना अच्छा न समझा। ३९ सो ऐसा टंटा हुआ, कि वे एक दूसरे से भ्रम हो गए: और बरनबास, मरकुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया। ४० परन्तु पौलुस ने सीलास को चुन लिया, और भाइयों से परमेश्वर के अनुग्रह पर सौंपा जाकर वहां से चला गया। ४१ और कलीसियाओं को स्थिर करता हुआ, सूरिया और किलिकिया से होते हुए निकला ॥

१६ फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया, और देखो, वहां तीमुथियुस नाम एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था, परन्तु उसका पिता यूनानी था। २ वह लुस्त्रा और इकुनियुम के भाइयों में सुनाम था। ३ पौलुस ने चाहा, कि यह मेरे साथ चले; और जो यहूदी लोग उन जगहों में थे उन के कारण उसे लेकर उसका खतना किया; क्योंकि वे सब जानते थे, कि उसका पिता यूनानी था। ४ और नगर नगर जाते हुए वे उन विधियों को जो यरूशलेम के प्रेरितों और प्राचीनों ने * ठहराई थीं, मानने के लिये उन्हें पहुंचाते जाते थे। ५ इस प्रकार कलीसिया विश्वास

में स्थिर होती गई और गिनती में प्रति दिन बढ़ती गई ॥

६ और वे फ्रुगिया और गलतिया देशों में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। ७ और उन्होंने ने मूसिया के निकट पहुंचकर, बितूनिया में जाना चाहा; परन्तु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। ८ सो मूसिया से होकर वे त्रोआस में आए। ९ और पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उस से बिनती करके कहता है, कि पार उतरकर मकिदुनिया में आ; और हमारी सहायता कर। १० उसके यह दर्शन देखते ही हम ने तुरन्त मकिदुनिया जाना चाहा, यह समझकर, कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिये बुलाया है ॥

११ सो त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्राके और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। १२ वहां से हम फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकिदुनिया प्रान्त का मुख्य नगर, और रोमियों की बस्ती है; और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। १३ सप्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए, कि वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा; और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं, बातें करने लगे। १४ और लुदिया नाम थुआथीरा नगर की वेंजनी कपड़े बेचनेवाली एक भक्त स्त्री सुनती थी, और प्रभु ने उसका मन खोला, ताकि पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। १५ और जब उस ने अपने घराने समेत अपतिस्मा लिया, तो उस ने बिनती की, कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी

* या प्रिसबुतिरो।

समझते हो, तो चलकर मेरे घर में रहो; और वह हमें मनाकर ले गई ॥

१६ जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक दासी मिली जिस में भावी कहनेवाली आत्मा थी; और भावी कहने से अपने स्वामियों के लिये बहुत कुछ कमा लाती थी। १७ वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी कि ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। १८ वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परन्तु पौलुस दुःखित हुआ, और मुंह फेरकर उस आत्मा से कहा, मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ, कि उस में से निकल जा और वह उसी घड़ी निकल गई ॥

१९ जब उसके स्वामियों ने देखा, कि हमारी कमाई की आशा जाती रही, तो पौलुस और सीलास को पकड़ के चौक में प्रधानों के पास खींच ले गए। २० और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के पास ले जाकर कहा; ये लोग जो यहूदी हैं, हमारे नगर में बड़ी हलचल मचा रहे हैं। २१ और ऐसे व्यवहार बता रहे हैं, जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिये ठीक नहीं। २२ तब भीड़ के लोग उन के विरोध में इकट्ठे होकर चढ़ आए, और हाकिमों ने उन के कपड़े फाड़कर उतार डाले, और उन्हें बेत मारने की आज्ञा दी। २३ और बहुत बेत लगावाकर उन्हें बन्दी-गृह में डाला; और दारोगा को आज्ञा दी, कि उन्हें चौकसी से रखे। २४ उस ने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उन के पांव काठ में ठोक दिए। २५ आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन

गा रहे थे, और बन्धुए उन की सुन रहे थे। २६ कि इतने में एकाएक बड़ा भुईंड़ोल हुआ, यहां तक कि बन्दीगृह की नेव हिल गई, और तुरन्त सब द्वार खुल गए; और सब के बन्धन खुल पड़े। २७ और दारोगा जाग उठा, और बन्दीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बन्धुए भाग गए, सो उस ने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। २८ परन्तु पौलुस ने ऊंचे शब्द में पुकारकर कहा; अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां हैं। २९ तब वह दीया मंगवाकर भीतर लपक गया, और कांपता हुआ पौलुस और सीलास के आगे गिरा। ३० और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबो, उद्धार पाने के लिये मैं क्या करूं? ३१ उन्होंने ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ३२ और उन्होंने ने उस को, और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ३३ और रात को उसी घड़ी उस ने उन्हें ले जाकर उन के घाव धोए, और उस ने अपने सब लोगों समेत तुरन्त वपतिस्मा लिया। ३४ और उस ने उन्हें अपने घर में ले जाकर, उन के आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनन्द किया ॥

३५ जब दिन हुआ तब हाकिमों ने प्यादों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्यों को छोड़ दो। ३६ दारोगा ने ये बातें पौलुस से कह सुनाई, कि हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, सो अब निकलकर कुशल से चले जाओ। ३७ परन्तु पौलुस ने उन से कहा, उन्होंने ने हमें जो रोमी मनुष्य हैं, दोषी ठहराए बिना, लोगों के साम्हने मारा, और बन्दीगृह में बधला, और अब

क्या हमें चुपके से निकाल देते हैं? ऐसा नहीं, परन्तु वे आप आकर हमें बाहर ले जाएं। ३८ व्यादों ने ये बातें हाकिमों से कह दीं, और वे यह सुनकर कि रोमी हैं, डर गए। ३९ और आकर उन्हें मनाया, और बाहर ले जाकर बिनती की कि नगर से चले जाएं। ४० वे बन्दीगृह से निकलकर लुदिया के यहां गए, और भाइयों से भेंट करके उन्हें शान्ति दी,* और चले गए ॥

१७ फिर वे अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहां यहूदियों का एक आराधनालय था। २ और पौलुस अपनी रीति के अनुसार उन के पास गया, और तीन सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उन के साथ विवाद किया। ३ और उन का अर्थ खोल खोलकर समझाता था, कि मसीह को दुख उठाना, और मरे हुएों में से जो उठना, अवश्य था; और यही यीशु जिम की मैं तुम्हें कया सुनाता हूँ, मसीह है। ४ उन में से कितनों ने, और भक्त यूनानियों में से बहुतेरों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया, और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। ५ परन्तु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया, और भीड़ लगाकर नगर में हल्लड़ मचाने लगे, और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के साम्हने लाना चाहा। ६ और उन्हें न पाकर, वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कितने और भाइयों को नगर के हाकिमों के साम्हने खींच लाए, कि ये लोम जिन्होंने जगत को उज्जटा पुन्टा कर दिया है, यहां भी आए

हैं। ७ और यासोन ने उन्हें अपने यहां उतारा है, और ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है, और कंसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। ८ उन्होंने ने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनाकर घबरा दिया। ९ और उन्होंने ने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया ॥

१० भाइयों ने तुरन्त रात ही रात पौलुस और सीलास को विरीया में भेज दिया: और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ११ ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने ने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, और प्रति दिन पवित्र शास्त्रों में ढूँढते रहे कि ये बातें योंहीं हैं, कि नहीं। १२ सो उन में से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से, और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया। १३ किन्तु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए, कि पौलुस विरीया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उसकाने और हलचल मचाने लगे। १४ तब भाइयों ने तुरन्त पौलुस को विदा किया, कि समुद्र के किनारे चला जाए; परन्तु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। १५ पौलुस के पहुंचानेवाले उसे अर्थेने तक ले गए, और सीलास और तीमुथियुस के लिये यह आज्ञा लेकर विदा हुए, कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ ॥

१६ जब पौलुस अर्थेने में उन की बाट जोह रहा था, तो नगर को मूरतों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। १७ सो वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे, उन से हर दिन वाद-विवाद किया करता था। १८ तब इपिकूरी और स्त ईकी परिडतों में से कितने उस से तर्क करने लगे,

* वा उपदेश किया।

और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है? परन्तु औरों ने कहा; वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का, और पुनरुत्थान * का सुसमाचार सुनाता था। १६ तब वे उसे अपने साथ भरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं, कि यह नया मत जो तू सुनाता है, क्या है? २० क्योंकि तू धनोन्मी बातें हमें सुनाता है, इसलिये हम जानना चाहते हैं कि इन का धर्म क्या है? २१ (इसलिये कि सब धर्येनवी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे)। २२ तब पौलुस ने भरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा;

हे धर्येने के लोगो में देखता हूं, कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े माननेवाले हो। २३ क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई, जिस पर लिखा था, कि "अनजाने ईश्वर के लिये।" सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूं। २४ जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उस की सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मन्दिरों में नहीं रहता। २५ न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो प्राय ही सब को जीवन और स्वास्थ्य और सब कुछ देता है। २६ उस ने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिये बनाई हैं; और उन के ठहराए हुए समय, और निवास के

* या मृतकोत्थान; धर्मो जी उठने।

सिवानों को इसलिये बान्धा है। २७ कि वे परमेश्वर को बुद्धें, कदाचित्त उसे टटोलकर पा जाएं तोभी वह हम में से किसी से दूर नहीं! २८ क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, और चलते-फिरते, और स्थिर रहते हैं; जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, कि हम तो उसी के दंश भी हैं। २९ सो परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं, कि ईश्वरत्व, सोने या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। ३० इसलिये परमेश्वर अज्ञानता के समयों से घानाकानी करके, धब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। ३१ क्योंकि उस ने एक दिन ठहराया है, जिस में वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उस ने ठहराया है और उसे मरे हुएओं में से जिलाकर, यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है॥

३२ मरे हुएओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्टा करने लगे, और कितनों ने कहा, यह बात हम तुम्ह से फिर कभी सुनेंगे। ३३ इस पर पौलुस उन के बीच में से निकल गया। ३४ परन्तु कई एक मनुष्य उसके साथ मिल गए, और विश्वास किया, जिन में दियुनुसियुस भरियुपगी था, और दमरिस नाम एक स्त्री थी, और उन के साथ और भी कितने लोग थे॥

१८ इस के बाद पौलुस धर्येने को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। २ और वहां अक्विला नाम एक यहूदी मिला, जिस का जन्म पुन्तुस का था; और अपनी पत्नी प्रिस्किल्ला समेत इतालिया से नया आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने

सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी, सो वह उन के यहां गया। ३ और उसका और उन का एक ही उद्यम था; इसलिये वह उन के साथ रहा, और वे काम करने लगे, और उन का उद्यम तम्बू बनाने का था। ४ और वह हर एक सब्त के दिन प्राराधनालय में वाद-विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था ॥

५ जब सीलास और तीमुथियुस मकि-डुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में लगकर यहूदियों को गवाही देता था कि यीशु ही मसीह है। ६ परन्तु जब वे विरोध और निन्दा करने लगे, तो उस ने अपने कपड़े भाड़कर उन से कहा; तुम्हारा लोह तुम्हारी ही गर्दन पर रहे: मैं निर्दोष हूँ: अब से मैं अन्यजातियों के पास जाऊंगा। ७ और वहां से चलकर वह तितुस युस्तुस नाम परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिस का घर प्राराधनालय से लगा हुआ था। ८ तब प्राराधनालय के सरदार क्रिसपुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया; और बहुत से कुरिन्थी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। ९ और प्रभु ने रात को दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, बरन कहे जा, और चुप मत रह। १० क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ: और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा; क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। ११ सो वह उन में परमेश्वर का वचन सिखाते हुए डेढ़ वर्ष तक रहा ॥

१२ जब गल्लियो अश्याया देश का हाकिम * था तो यहूदी लोग एका करके

पौलुस पर चढ़ आए, और उसे न्याय प्रासन के साम्हने लाकर, कहने लगे। १३ कि यह लोगों को समझाता है, कि परमेश्वर को उपासना ऐसी रीति से करें, जो व्यवस्था के विपरीत है। १४ जब पौलुस बोलने पर था, तो गल्लियो ने यहूदियों से कहा; हे यहूदियो, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता। १५ परन्तु यदि यह वाद-विवाद शब्दों, और नामों, और तुम्हारे यहां की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो; क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी बनना नहीं चाहता। १६ और उस ने उन्हें न्याय प्रासन के साम्हने से निकलवा दिया। १७ तब सब लोगों ने प्राराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय प्रासन के साम्हने मारा: परन्तु गल्लियो ने इन बातों की कुछ भी चिन्ता न की ॥

१८ सो पौलुस बहुत दिन तक वहां रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंख्रिया में इसलिये सिर मुण्डाया क्योंकि उस न मन्नत मानी थी और जहाज पर सूरिया को चल दिया और उसके साथ प्रिसकुल्ला और प्रक्विला थे। १९ और उस ने इफिसुस में पहुंचकर उन को वहां छोड़ा, और आप ही प्राराधनालय में जाकर यहूदियों से विवाद करने लगा। २० जब उन्होंने ने उस से बिनती की, कि हमारे साथ और कुछ दिन रह, तो उस ने स्वीकार न किया। २१ परन्तु यह कहकर उन से विदा हुआ, कि यदि परमेश्वर चाहे तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊंगा। २२ तब इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया, और कंसरिया में उतरकर (यरूशलेम को) गया और कलीसिया को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। २३ फिर कुछ दिन रहकर वहां से चला

* या प्रतिनिधि।

गया, और एक और से गलतिया और फूगिया में सब चेलों को स्थिर करता फिरा ॥

२४ अपुल्लोस नाम एक यहूदी जिस का जन्म सिकन्दरिया में हुआ था, जो विद्वान पुरुष था और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था इफिमस में आया। २५ उस ने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, और मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता, और सिखाता था, परन्तु वह केवल यूहन्ना के वपतिस्मा की बात जानता था।

२६ वह आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्क्ल्ला और अक्विला उस की बातें सुनकर, उसे अपने यहां ले गए, और परमेश्वर का मार्ग उस को और भी ठीक ठीक बताया। २७ और जब उस ने निश्चय किया कि पार उतरकर ब्रह्माया को जाए तो भाइयों ने उसे ढाड़स देकर चेलों को लिखा कि वे उस से अच्छी तरह मिलें, और उस ने पहुंचकर वहां उन लोगों की बड़ी महायता की जिन्होंने अनुग्रह के कारण विश्वास किया था। २८ क्योंकि वह पवित्र शास्त्र से प्रमाण दे देकर, कि यीशु ही मसीह है, बड़ी प्रबलता से यहूदियों को सब के साम्हने निरुत्तर करता रहा ॥

१९ और जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे देश से होकर इफिमस में आया, और कई चेलों को देखकर। २ उन से कहा; क्या तुम ने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उस से कहा, हम ने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। ३ उस ने उन से कहा; तो फिर तुम ने किस का वपतिस्मा लिया? उन्होंने ने कहा; यूहन्ना का वपतिस्मा। ४ पौलुस ने कहा; यूहन्ना ने यह

कहकर मन फिराव का वपतिस्मा दिया, कि जो मेरे बाद आनेवाला है, उस पर अर्थात् यीशु पर विश्वास करना। ५ यह सुनकर उन्होंने ने प्रभु यीशु के नाम का वपतिस्मा लिया। ६ और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा, और वे भिन्न-भिन्न भाषा बोलने और भविष्यद्वारी करने लगे। ७ ये सब लगभग बारह पुरुष थे ॥

८ और वह आराधनालय में जाकर तीन महीने तक निडर होकर बोलता रहा, और परमेश्वर के राज्य के विषय में विवाद करता और समझाता रहा। ९ परन्तु जब कितनों ने कठोर होकर उस की नहीं मानी बरन लोगों के साम्हने इस मार्ग को बुरा कहने लगे, तो उस ने उन को छोड़कर चेलों को अलग कर लिया, और प्रति दिन तुरन्तुस की पाठशाला में विवाद किया करता था। १० दो वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहनेवाले क्या यहूदी, क्या यूनानी सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। ११ और परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। १२ यहां तक कि रूमाल और अंगोछे उस की देह से छुलवाकर बीमारों पर डालते थे, और उन की बीमारियां जाती रहती थी; और दुष्टात्माएं उन में से निकल जाया करती थीं। १३ परन्तु कितने यहूदी जो भाड़ा फूको करते फिरते थे, यह करने लगे, कि जिन में दुष्टात्मा हों उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। १४ और स्क्क्वा नाम के एक यहूदी महायाजक के सान पुत्र थे, जो ऐसा ही करते थे। १५ पर दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, कि यीशु को मैं जानती हूं,

और पौलुस को भी पहचानती हूँ; परन्तु तुम कौन हो? १६ और उस मनुष्य ने जिस में दुष्ट आत्मा थी; उन पर लपककर, और उन्हें बश में लाकर, उन पर ऐसा उपद्रव किया, कि वे नंगे और घायल होकर उस घर में निकल भागे। १७ और यह बात इफिमुस के रहनेवाले यहूदी और यूनानी भी मंत्र जान गए, और उन सब पर भय द्वा गया; और प्रभु यीशु के नाम की बड़ाई हुई। १८ और जिन्होंने विश्वास किया था, उन में से बहुतों ने आकर अपने अपने कामों को मान लिया और प्रगट किया। १९ और जादू करनेवालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियाँ इकट्ठी करके सब के साम्हने जला दी, और जब उन का दाम जोड़ा गया, तो पचास हजार रुपये की निकलीं। २० यों प्रभु का वचन बल पूर्वक फलता गया और प्रबल होता गया ॥

२१ जब ये बातें हो चुकीं, तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊँ, और कहा, कि वहाँ जाने के बाद मुझे रोमा को भी देखना अवश्य है। २२ सो अपनी सेवा करनेवालों में से तीमुथियुस और इरास्तुस को मकिदुनिया में भेजकर आप कुछ दिन आसिया में रह गया ॥

२३ उस समय उस पन्थ के विषय में बड़ा हुल्लड़ हुआ। २४ क्योंकि देमेत्रियुस नाम का एक मुतार अरतिमिस के चान्दी के मन्दिर बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाया करता था। २५ उस ने उन को, और, और ऐसी वस्तुओं के कारीगरों को इकट्ठा करके कहा; हे मनुष्यो, तुम जानते हो, कि इस काम से हमें कितना धन मिलता है। २६ और तुम देखने और मुनने हो, कि केवल इफिमुस ही में नहीं, बरन प्रायः

सारे आसिया में यह कह कहकर इस पौलुस ने बहुत लोगों को ममभाया और भरमाया भी है, कि जो हाथ की कारीगरी हैं, वे ईश्वर नहीं। २७ और अब केवल इसी एक बात का ही डर नहीं, कि हमारे इस धन्धे की प्रतिष्ठा जाती रहेगी; बरन यह कि महान देवी अरतिमिस का मन्दिर तुच्छ समझा जाएगा और जिसे सारा आसिया और जगत पूजता है उसका महत्व भी जाता रहेगा। २८ वे यह सुनकर क्रोध से भर गए, और चिल्ला चिल्लाकर कहने लगे, "इफिसियों की अरतिमिस महान है!" २९ और सारे नगर में बड़ा कोलाहल मच गया और लोगों ने गयुस और अरिस्तरखुस मकिदुनियों को जो पौलुस के संगी यात्री थे, पकड़ लिया, और एकचित्त होकर रंगशाला में दौड़ गए। ३० जब पौलुस ने लोगों के पास भीतर जाना चाहा तो चेलों ने उसे जाने न दिया। ३१ आसिया के हाकिमों में से भी उसके कई मित्रों ने उसके पास कहला भेजा, और बिनती की, कि रंगशाला में जाकर जोखिम न उठाना। ३२ सो कोई कुछ चिल्लाया, और कोई कुछ; क्योंकि सभा में बड़ी गड़बड़ी हो रही थी, और बहुत से लोग तो यह जानते भी नहीं थे कि हम किस लिये इकट्ठे हुए हैं। ३३ तब उन्होंने ने सिकन्दर को, जिसे यहूदियों ने खड़ा किया था, भीड़ में से आगे बढ़ाया, और सिकन्दर हाथ से सैन करके लोगों के साम्हने उत्तर दिया चाहता था। ३४ परन्तु जब उन्होंने ने जान लिया कि वह यहूदी है, तो सब के सब एक शब्द से कोई दो घंटे तक चिल्लाते रहे, कि इफिसियों की अरतिमिस महान है। ३५ तब नगर के मन्त्री ने लोगों को शान्त करके कहा; हे इफिसियो, कौन नहीं जानता, कि इफिसियों का नगर

बड़ी देवी भरतिमिस के मन्दिर, और ज्यूस की और से गिरी हुई मूरत का टहलुआ है। ३६ सो जब कि इन बातों का खण्डन ही नहीं हो सकता, तो उचित है, कि तुम चुपके रहो; और बिना सोचे विचारे कुछ न करो। ३७ क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो, जो न मन्दिर के लूटनेवाले हैं, और न हमारी देवी के निन्दक हैं। ३८ यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है, और हाकिम * भी हैं; वे एक दूसरे पर नालिश करें। ३९ परन्तु यदि तुम किसी और बात के विषय में कुछ पूछना चाहते हो, तो नियत सभा में फँसला किया जाएगा। ४० क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिये कि इस का कोई कारण नहीं, सो हम इम भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर न दे सकेंगे। ४१ और यह कह के उस ने मभा को विदा किया ॥

२० जब हुल्लड़ थम गया, तो पौलुस ने चेलों को बुलवाकर समझाया, और उन से विदा होकर मकिदुनिया की ओर चल दिया। २ और उस सारे देश में से होकर और उन्हें बहुत समझाकर, वह यूनान में आया। ३ जब तीन महीने रहकर जहाज पर सूरिया की ओर जाने पर था, तो यहूदी उस की घात में लगे, इसलिये उस ने यह सलाह की कि मकिदुनिया होकर लौट जाए। ४ विरीया के पुरूस का पुत्र सोपत्रुस और थिस्सलूनोकियों में से अरिस्तर्खुस और सिकुन्दुस और दिरखे का गयुस, और तीमुथियुस और आसिया का तुलिकुस और त्रुफिमस आसिया तक उसके

साथ हो लिए। ५ वे आगे जाकर त्रोआस में हमारी बाट जोहते रहे। ६ और हम प्रखमीरी रोटी के दिनों के बाद फिलिप्पी से जहाज पर चढ़कर पांच दिन में त्रोआस में उन के पास पहुंचे, और सात दिन तक वहीं रहे ॥

७ सप्ताह के पहिले दिन जब हम रोटी तोड़ने * के लिये इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था, उन से बातें की, और आधी रात तक बातें करता रहा। ८ जिस घटारी पर हम इकट्ठे थे, उस में बहुत दीये जल रहे थे। ९ और यूतुखुम नाम का एक जवान खिड़की पर बैठा हुआ गहरी नींद में झुक रहा था, और जब पौलुस देर तक बातें करता रहा तो वह नींद के भोके में तीमरी घटारी पर से गिर पड़ा, और मरा हुआ उठाया गया। १० परन्तु पौलुस उतरकर उस से लिपट गया, और गले लगाकर कहा; घबराओ नहीं; क्योंकि उसका प्राण उसी में है। ११ और ऊपर जाकर रोटी तोड़ी और खाकर इतनी देर तक उन से बातें करता रहा, कि पौ फट गई; फिर वह चला गया। १२ और वे उस लड़के को जीवित ले आए, और बहुत शान्ति पाई ॥

१३ हम पहले से जहाज पर चढ़कर अरस्मुस को इस विचार से आगे गए, कि वहां से हम पौलुस को चढ़ा लें क्योंकि उस ने यह इसलिये ठहराया था, कि आप ही पैदल जानेवाला था। १४ जब वह अरस्मुस में हमें मिला तो हम उसे चढ़ाकर मितुलेने में आए। १५ और वहां से जहाज खोलकर हम दूसरे दिन सियुस के साम्हने पहुंचे, और अगले दिन सामुस में लगान किया;

* या प्रतिनिधि।

* देखो २ अध्याय ४२ पद।

फिर दूसरे दिन मीलेतुस में घ्राए। १६ क्योंकि पीलुस ने इफिमस के पास से होकर जाने की ठानी थी, कि कहीं ऐसा न हो, कि उसे घ्रासिया में देर लगे; क्योंकि वह जल्दी करता था, कि यदि हो सके, तो उसे पित्तुकुस्त का दिन यरूशलेम में कटे।।

१७ और उस ने मीलेतुस से इफिमस में कहला भेजा, और कलीसिया के प्राचीनों * को बुलवाया। १८ जब वे उस के पास घ्राए, तो उन से कहा;

तुम जानते हो, कि पहिले ही दिन से जब मैं घ्रासिया में पहुंचा, मैं हर समय तुम्हारे साथ किस प्रकार रहा। १९ अर्थात् बड़ी दीनता से, और घ्रासू बहा बहाकर, और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षडयन्त्र के कारण मुझ पर घ्रा पड़ी; मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा। २० और जो जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उन को बताने और लोगों के साम्हने और घर घर सिखाने से कभी न भिक्का। २१ बरन यहूदियों और यूनानियों के साम्हने गवाही देता रहा, कि परमेश्वर की और मन फिराना, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। २२ और अब देखो, मैं घ्रात्मा में बन्धा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता, कि वहा मुझ पर क्या क्या बीतेगां? २३ केवल यह कि पवित्र घ्रात्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझ से कहता है, कि बन्धन और क्लेश तेरे लिये तैयार हैं। २४ परन्तु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता: कि उसे प्रिय जानूँ, बरन यह कि मैं अपनी दौड़ को, और उस सेवकाई को पूरी करूँ, जो मैं ने परमेश्वर के अनुग्रह के मुसमाचार पर

गवाही देने के लिये प्रभु यीशु से पाई है। २५ और अब देखो, मैं जानता हूँ, कि तुम सब जिन में मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता फिरा, मेरा मुँह फिर न देखोगे। २६ इसलिये मैं आज के दिन तुम से गवाही देकर कहता हूँ, कि मैं सब के लोहू से निर्दोष हूँ। २७ क्योंकि मैं परमेश्वर की सारी मनसा को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न भिक्का। २८ इसलिये अपनी और पूरे भुंड की चौकसी करो; जिस में पवित्र घ्रात्मा ने तुम्हें प्रथम * ठहराया है; कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उस ने अपने लोहू से मोन लिया है। २९ मैं जानता हूँ, कि मेरे जाने के बाद फाड़नेवाले भेड़िए तुम में घ्राएंगे, जो भुंड को न छोड़ेंगे। ३० तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेंडी मेड़ी बातें कहेंगे। ३१ इसलिये जागते रहो; और स्मरण करो; कि मैं ने तीन वर्ष तक रात दिन घ्रासू बहा बहाकर, हर एक को चितोनी देना न छोड़ा। ३२ और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को, और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ; जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, और सब पवित्रों में साझी करके मीरास दे सकता है। ३३ मैं ने किसी की चान्दी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। ३४ तुम प्राप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की प्रावश्यकताएं पूरी कीं। ३५ मैं ने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया, कि इस रीति से परिश्रम करने हुए निर्बलों को सम्भालना, और प्रभु यीशु की बातें स्मरण रखना अवश्य है, कि उस ने प्राप ही कहा है; कि लेने से देना धन्य है।।

* या प्रिसबुतियों।

* या विशप।

३६ यह कहकर उस ने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। ३७ तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपट कर उसे चूमने लगे। ३८ वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे, जो उस ने कही थी, कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे; और उन्होंने ने उसे जहाज तक पहुंचाया।

२१ जब हम ने उन से अलग होकर जहाज खोला, तो सीधे भाग से कोस में भाए, और दूसरे दिन रुदुस में, और वहां से पतरा में। २ और एक जहाज फीनीके को जाता हुआ मिला, और उस पर चढ़कर, उसे खोल दिया। ३ जब कुप्रुस दिखाई दिया, तो हम ने उसे बाएं हाथ छोड़ा, और सूरिया को चलकर सूर में उतरे; क्योंकि वहां जहाज का बोझ उतारना था। ४ और चेलों को पाकर हम वहां सात दिन तक रहे: उन्होंने ने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा, कि यरूशलेम में पांव न रखना। ५ जब वे दिन पूरे हो गए, तो हम वहां से चल दिए; और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया और हम ने किनारे पर घुटने टेककर प्रार्थना की। ६ तब एक दूसरे से विदा होकर, हम तो जहाज पर चढ़े, और वे अपने अपने घर लौट गए।

७ तब हम सूर से जलयात्रा पूरी करके पतुलिमयिस में पहुंचे, और भाइयों को नमस्कार करके उन के साथ एक दिन रहे। ८ दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में भाए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहां रहे। ९ उस की चार कुंवारी पुत्रियां थी; जो भविष्यदाणी करती थीं।

१० जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो भगवुस नाम एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। ११ उस ने हमारे पास आकर पौलुस का पटका लिया, और अपने हाथ पांव बान्धकर कहा; पवित्र आत्मा यह कहता है, कि जिस मनुष्य का यह पटका है, उस को यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बान्धेंगे, और अन्यजातियों के हाथ में सौंपेंगे। १२ जब ये बातें सुनीं, तो हम और वहां के लोगों ने उस से बिनती की, कि यरूशलेम को न जाए। १३ परन्तु पौलुस ने उत्तर दिया, कि तुम क्या करते हो, कि रो रोकर मेरा मन तोड़ते हो, मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिये यरूशलेम में न केवल बान्धे जाने ही के लिये बरन मरने के लिये भी तैयार हूं। १४ जब उस ने न माना तो हम यह कहकर चुप हो गए; कि प्रभु की इच्छा पूरी हो।

१५ उन दिनों के बाद हम बान्ध छान्धकर यरूशलेम को चल दिए। १६ कैसरिया के भी कितने चले हमारे साथ हो लिए, और मनासोन नाम कुप्रुस के एक पुराने चले को साथ ले भाए, कि हम उसके यहां टिकें।

१७ जब हम यरूशलेम में पहुंचे, तो भाई बड़े आनन्द के साथ हम से मिले। १८ दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन * इकट्ठे थे। १९ तब उस ने उन्हें नमस्कार करके, जो जो काम परमेश्वर ने उस की सेवकाई के द्वारा अन्यजातियों में किए थे, एक एक करके सब बताया। २० उन्होंने ने यह मुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उस से कहा; हे भाई, तू देखता है, कि यहाँदियों में

से कई हजार ने विश्वास किया है; और सब व्यवस्था के लिये धुन लगाए हैं। २१ और उन को तेरे विषय में सिखाया गया है, कि तू ग्रन्थजातियों में रहनेवाले यहूदियों को मूसा में फिर जाने को सिखाता है, और कहता है, कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न रीतियों पर चलो: सो क्या किया जाए? २२ लोग अवश्य मुनेंगे, कि तू भ्राया है। २३ इसलिये जो हम तुझ से कहते हैं, वह कर: हमारे यहां चार मनुष्य हैं, जिन्होंने ने मन्नत मानी है। २४ उन्हें लेकर उन के साथ अपने प्राप को शुद्ध कर; और उन के लिये खर्चा दे, कि वे मिर मुड़ाए: तब सब जान लेंगे, कि जो बातें उन्हें तेरे विषय में सिखाई गई, उन की कुछ जड़ नहीं है परन्तु तू प्राप भी व्यवस्था को मानकर उनके अनुसार चलता है। २५ परन्तु उन ग्रन्थजातियों के विषय में जिन्होंने विश्वास किया है, हम ने यह निराणय करके लिख भेजा है कि वे मूर्तों के माहने बलि किए हुए माम में, और लांह में, और गला घांटे हुआ के माम में, और व्यभिचार में, बचे रहे। २६ तब पौलुस उन मनुष्यों को लेकर, और दूसरे दिन उन के साथ शुद्ध होकर मन्दिर में गया, और बना दिया, कि शुद्ध होने के दिन, अर्थात् उन में से हर एक के लिये चढ़ावा चढ़ाए जाने तक के दिन सब पूरे होंगे ॥

२७ जब वे सात दिन पूरे होने पर थे, तो आशिया के यहूदियों ने पौलुस को मन्दिर में देखकर सब लोगों का उमकाया, और यां चिल्लाकर उस को पकड़ लिया। २८ कि हे इस्त्राएलियों, महायत्ना करो; यह बड़ी मनुष्य है, जो लोगों के, और व्यवस्था के, और इस स्थान के विरोध में हर जगह सब लोगों को सिखाता है, यहां

तक कि यूनानियों को भी मन्दिर में लाकर उस ने इस पवित्र स्थान को अपवित्र किया है। २९ उन्होंने ने तो इस से पहिले युफिमस इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था, और समझते थे, कि पौलुस उसे मन्दिर में ले आया है। ३० तब सारे नगर में कोलाहल मच गया, और लोग दौड़कर इकट्ठे हुए, और पौलुस को पकड़कर मन्दिर के बाहर घसीट लाए, और तुरन्त द्वार बन्द किए गए। ३१ जब वे उसे मार डालना चाहते थे, तो पलटन के सरदार को सन्देश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। ३२ तब वह तुरन्त सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उन के पास नीचे दौड़ आया; और उन्होंने ने पलटन के सरदार का और सिपाहियों को देख कर पौलुस को मारने पीटने में हाथ उठाया। ३३ तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया। और दो जजोरों से बाग्धने की आज्ञा देकर पृथक् लगा, यह कौन है, और इस ने क्या किया है? ३४ परन्तु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाने रहे और जड़ हुल्लड के मारे ठीक मच्चाई न जान सका, तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। ३५ जब वह सीढ़ी पर पहुंचा, तो ऐसा हुआ, कि भीड़ के दबाव के मारे सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। ३६ क्योंकि लोगों की भीड़ यह चिल्लानी हुई उसके पीछे पड़ी, कि उसका अन्न कर दो ॥

३७ जब वे पौलुस को गढ़ में ले जाने पर थे, तो उस ने पलटन के सरदार से कहा; क्या मुझे आज्ञा है कि मैं तुझ से कुछ कहूँ? उस ने कहा; क्या तू यूनानी जानता है? ३८ क्या तू वह मिसरी नहीं, जो इन दिनों में पहिले बलवाई बनाकर चार हजार कटारबन्द लोगों को जङ्गल में ले गया?

३६ पौलुस ने कहा, मैं तो तरमुस का यहूदी मनुष्य हूँ! किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ; और मैं तुम्ह से विनयी करता हूँ, कि मुझे लोगों से बातें करने दे। ४० जब उस ने आज्ञा दी, तो पौलुस ने सीढ़ी पर खड़े होकर लोगों को हाथ से संत किया: जब वे चुप हो गए, तो वह इब्रानी भाषा में बोलने लगा, कि,

२२ हे भाइयो, और पितरो, मेरा प्रत्युत्तर सुनो, जो मैं अब तुम्हारे साम्हने कहता हूँ ॥

२ वे यह सुनकर कि वह हम से इब्रानी भाषा में बोलता है, और भी चुप रहे। तब उस ने कहा;

३ मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो किलिकिया के तरमुस में जन्मा; परन्तु इस नगर में गमलीएल के पांवों के पास बैठकर पढ़ाया गया, और बापदादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया; और परमेश्वर के लिये ऐसी धुन लगाए था, जैसे तुम सब आज लगाए हो। ४ और मैं ने पुरुष और स्त्री दोनों को बान्ध बान्धकर, और बन्दीगृह में डाल डालकर, इस पंथ को यहां तक सताया, कि उन्हें मरवा भी डाला। ५ इस बात के लिये महायाजक और सब पुरनिये गवाह हूँ; कि उन में से मैं भाइयों के नाम पर चिट्ठिया लेकर दमिश्क को चला जा रहा था, कि जो वहां हों उन्हें भी दण्ड दिलाने के लिये बान्धकर यरूशलेम में लाऊं। ६ जब मैं चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि दो पहर के लगभग एकाएक एक बड़ी ज्योति प्राकाश से मेरे चारों ओर चमकी। ७ और मैं भूमि पर गिर पड़ा: और यह शब्द सुना, कि * हे

* दू० जो मुझ से कहता था।

शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैं ने उत्तर दिया, कि हे प्रभु, तू कौन है? ८ उस ने मुझ से कहा; मैं यीशु नासरी हूँ, जिसे तू सताता है? ९ और मेरे साथियों ने ज्योति तो देखी, परन्तु जो मुझ से बोलता था उसका शब्द न सुना। १० तब मैं ने कहा; हे प्रभु मैं क्या करूँ? प्रभु ने मुझ से कहा; उठकर दमिश्क में जा, और जो कुछ तेरे करने के लिये ठहराया गया है वहां तुम्ह से सब कह दिया जाएगा। ११ जब उस ज्योति के तेज के मारे मुझे कुछ दिखाई न दिया, तो मैं अपने साथियों के हाथ पकड़े हुए दमिश्क में प्राया। १२ और हनन्याह नाम का व्यवस्था के प्रनुमार एक भक्त मनुष्य, जो वहां के रहनेवाले सब यहूदियों में सुनाम था, मेरे पास प्राया। १३ और खड़ा होकर मुझ से कहा; हे भाई शाऊल फिर देखने लग: उसी घड़ी मेरे नेत्र खुल गए और मैं ने उसे देखा। १४ तब उस ने कहा, हमारे बापदादों के परमेश्वर ने तुम्हें इसलिये ठहराया है, कि तू उस की इच्छा को जाने, और उस धर्म को देखे, और उसके मुंह से बातें सुने। १५ क्योंकि तू उस की ओर से सब मनुष्यों के साम्हने उन बातों का गवाह होगा, जो तू ने देखी और सुनी हैं। १६ अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले, और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। १७ जब मैं फिर यरूशलेम में आकर मन्दिर में प्रार्थना कर रहा था, तो बेमुष हो गया। १८ और उस को देखा कि मुझ से कहता है; जल्दी करके यरूशलेम में भट निकल जा: क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी गवाही न मानेंगे। १९ मैं ने कहा; हे प्रभु वे तो आप जानते हैं, कि मैं तुम्ह पर विश्वास करनेवालों को बन्दीगृह में डालता और जगह जगह

धाराधनालय में पिटवाना था। २० और जब नेरे गवाह मिनफनुस का लोह बहाया जा रहा था तब मैं भी वहां मड़ा था, और इस वान में सहमत था, और उसके घातकों के कपड़ों को रखवानो करता था। २१ और उम ने मुझ से कहा, चला जा: क्योंकि मैं तुम्हें अन्यायियों के पास दूर दूर भेजंगा ॥

२२ वे इस बात तक उस की मुनते रहे; तब ऊंच शब्द में चिल्लाए, कि ऐसे मनुष्य का अन्त करो; उसका जीवित रहना उचित नहीं। २३ जब वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे; २४ तो पलटन के सूबेदार ने कहा; कि इसे गढ़ में ले जाओ; और कोड़े मारकर जांचो, कि मैं जानू कि लोग किस कारण उसके विरोध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। २५ जब उन्होंने ने उमे तसमों से बान्धा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था, कहा, क्या यह उचित है, कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारो? २६ सूबेदार ने यह मुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा; तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है। २७ तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा; मुझे बता, क्या तू रोमी है? उस ने कहा, हां। २८ यह मुनकर पलटन के सरदार ने कहा; कि मैं ने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है; पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूं। २९ तब जो लोग उसे जांचने पर थे, वे तुरन्त उसके पास से हट गए; और पलटन का सरदार भी यह जानकर कि यह रोमी है, और मैं ने उमे बान्धा हूं, डर गया ॥

३० दूसरे दिन वह ठीक ठीक जानने की इच्छा से कि यहूदी उम पर क्यों दोष लगाते

हैं, उसके बन्धन खोल दिए; और महायाजकों और सारी महामभा को इकट्ठे होने की आज्ञा दी, और पौलुस को नीचे ने जाकर उन के साम्हने खड़ा कर दिया ॥

२३

पौलुस ने महामभा की और टकटकी लगाकर देखा, और कहा, हे भाइयो, मैं ने आज तक परमेश्वर के लिये बिलकुल सच्चे विवेक * से जीवन बिताया है। २ हनन्याह महायाजक ने, उन को जो उसके पास खड़े थे, उसके मुंह पर पप्पड़ मारने की आज्ञा दी। ३ तब पौलुस ने उस से कहा; हे चूना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुम्हें मारेगा: तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है, और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? ४ जो पास खड़े थे, उन्होंने ने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? ५ पौलुस ने कहा; हे भाइयो, मैं नहीं जानता था, कि यह महायाजक है; क्योंकि लिखा है, कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। ६ तब पौलुस ने यह जानकर, कि कितने सद्की और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकारकर कहा, हे भाइयो, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूं, मरे हुए लोगों की आज्ञा और पुनरुत्थान † के विषय में मेरा मुकद्दमा हो रहा है। ७ जब उस ने यह बात कही तो फरीसियों और सद्कीयों में भगड़ा होने लगा; और सभा में फूट पड़ गई। ८ क्योंकि सद्की तो यह कहते हैं, कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है; परन्तु फरीसी दोनों मानते हैं। ९ तब बड़ा हल्ला मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, उठकर

* अर्थात् मन या कान्शन्स।

† या मृतकोत्थान।

यों कहकर भगडने लगे, कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाने; और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उम से बोला है तो फिर क्या? १० जब बहुत भगड़ा हुआ, तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें पलटन को आज्ञा दी, कि उतरकर उम को उन के बीच में से बरबस निहालो, और गढ़ में ले आओ ॥

११ उसी रात प्रभु ने उमके पाम आ खड़े होकर कहा; हे पौलुस, हाइम बाण्ध; क्योंकि जैसी तू ने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसी ही तुम्हें रोम में भी गवाही देनी होगी ॥

१२ जब दिन हुआ, तो यहूदियों ने एका किया, और शपथ खाई कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं या पीएं तो हम पर धिक्कार। १३ जिन्होंने ने आपस में यह शपथ खाई थी, वे चालीस जनों के ऊपर थे। १४ उन्होंने महायाजकों और पुरनियों के पास आकर कहा, हम ने यह ठाना है; कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक यदि कुछ चर्खें भी, तो हम पर धिक्कार पर धिक्कार है। १५ इसनिये अब महामभा समेत पलटन के सरदार को समझाओ, कि उसे तुम्हारे पास ले आए, मानो कि तुम उसके विषय में और भी ठीक जांच करना चाहते हो, और हम उमके पहुंचने से पहिले ही उसे मार डालने के लिये तैयार रहेंगे। १६ और पौलुस के भांजे ने मुना, कि वे उम की घात में हैं, तो गढ़ में जाकर पौलुस को सन्देश दिया। १७ पौलुस ने सूबेदारों में से एक को अपने पास बुलाकर कहा; इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उम से कुछ कहना चाहता है। १८ सो उम ने उमको पलटन के सरदार के पास ले जाकर कहा,

पौलुस बन्धुए ने मुझे बुलाकर बिनती की, कि यह जवान पलटन के सरदार से कुछ कहना चाहता है; उसे उमके पास ले जा। १९ पलटन के सरदार ने उमका हाथ पकड़कर, और अलग ले जाकर पूछा; मुझ से क्या कहना चाहता है? २० उस ने कहा; यहूदियों ने एका किया है, कि तुझ से बिनती करें, कि कल पौलुस को महामभा में लाए, मानो तू और ठीक से उम की जांच करना चाहता है। २१ परन्तु उन की मत मानना, क्योंकि उन में से चालीस के ऊपर मनुष्य उस की घात में हैं, जिन्होंने ने यह ठान लिया है, कि जब तक हम पौलुस को मार न डालें, तब तक खाएं, पीएं, तो हम पर धिक्कार; और अभी वे तैयार हैं और तेरे वचन की आस देख रहे हैं। २२ तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर बिदा किया, कि किसी से न कहना कि तू ने मुझ को ये बातें बनाई है। २३ और दो सूबेदारों को बुलाकर कहा; दो मो सिपाही, सत्तर मवार, और दो मो भालंत, पहर रात बीते कंसरिया को जान के लिये तैयार कर रखो। २४ और पौलुस की मवारी के लिये घोड़े तैयार रखो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दें। २५ उस ने इस प्रकार की चिट्ठी भी लिखी;

२६ महाप्रनापी फेलिक्स हाकिम को क्लौदियुस लूसियाम का नमस्कार। २७ इस मनुष्य को यहूदियों ने पकड़कर मार डालना चाहा, परन्तु जब मैं ने जाना, कि रोमी है, तो पलटन लेकर छुड़ा लाया। २८ और मैं जानना चाहता था, कि वे उम पर किम कारण दोष लगाते हैं, इसलिये उम उन की महामभा में ले गया। २९ तब मैं ने जान लिया, कि वे अपनी व्यवस्था के विवादों के विषय में उम पर दोष लगाते

हैं, परन्तु मार डाले जाने या बान्धे जाने के योग्य उस में कोई दोष नहीं। ३० और जब मुझे बताया गया, कि वे इस मनुष्य की घात में लगे हैं तो मैं ने नुरन् उस को तेरे पास भेज दिया; और मुद्दियों को भी आज्ञा दी, कि तेरे साम्हने उम पर नालिश करें ॥

३१ सो जैसे सिपाहियों को आज्ञा दी गई थी वैसे ही पौलुस को लेकर रातों-रात अन्तिपत्रिस में लाए। ३२ दूसरे दिन वे सवारों को उमके साथ जाने के लिये छोड़कर आप गढ़ को लौटे। ३३ उन्होंने ने कैमरिया में पहुंचकर हाकिम को चिट्ठी दी: और पौलुस को भी उसके साम्हने खड़ा किया। ३४ उम ने पढ़कर पूछा, यह किस देश का है? ३५ और जब जान लिया कि किलकिया का है; तो उम से कहा; जब तेरे मुद्ई भी आएंगे, तो मैं तेरा मुकद्दमा करूंगा: और उस ने उसे हेरोदेम के किले * में, पहरे में रखने की आज्ञा दी ॥

२४ पांच दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया; उन्होंने ने हाकिम के साम्हने पौलुस पर नालिश की। २ जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, कि,

हे महाप्रतापी फेलिक्स, तेरे द्वारा हमें जो बड़ा कुशल होता है; और तेरे प्रबन्ध से इस जाति के लिये कितनी बुराइयां मुधरती जाती हैं। ३ इस को हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं। ४ परन्तु इसलिये कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझ से बिनती करता हूं, कि कृपा करके हमारी दो एक बातें सुन ले।

५ क्योंकि हम ने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करानेवाला, और नासरियों के कुपन्थ का मुखिया पाया है। ६ उस ने मन्दिर को प्रशुद्ध करना चाहा, और हम ने उसे पकड़ा। ८ इन सब बातों को जिन के विषय में हम उम पर दोष लगाते हैं, तू आपही उस को जांच करके जान लेगा। ९ यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं ॥

१० जब हाकिम ने पौलुस को बोलने के लिये सन किया तो उस ने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय करता है, आनन्द से अपना प्रत्युत्तर देता हूं। ११ तू आप जान सकता है, कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया, मुझे बारह दिन से ऊपर नहीं हुए। १२ और उन्होंने ने मुझे न मन्दिर में न सभा के घरों में, न नगर में किमी मे विवाद करते या भीड़ लगाते पाया। १३ और न तो वे उन बातों को, जिन का वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं, तेरे साम्हने सच ठहरा सकते हैं। १४ परन्तु यह मैं तेरे साम्हने मान लेता हूं, कि जिस पन्थ को वे कुपन्थ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बापदादों के परमेश्वर की सेवा करता हूं: और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी हैं, उन सब की प्रतीति करता हूं। १५ और परमेश्वर से आशा रखता हूं जो वे आप भी रखते हैं, कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। १६ इस से मैं आप भी यतन करता हूं, कि परमेश्वर की, और मनुष्यों की और मेरा विवेक * सदा निर्दोष

* यू० प्रिनोरियुम।

* अर्थात् मन या कान्शान्स।

रहे। १७ बहुत वर्षों के बाद में अपने लोगों को दान पहुँचाने, और भेंट चढ़ाने आया था। १८ उन्होंने ने मुझे मन्दिर में, शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ, और बिना दंगा करते हुए इस काम में पाया—हा प्रासिया के कई यहूदी ये—उन को उचित था, १९ कि यदि मेरे विरोध में उन की कोई बात हो तो यहाँ तेरे साम्हने प्राकर मुझ पर दोष लगाने। २० या ये प्राप ही कहें, कि जब मैं महासभा के साम्हने खड़ा था, तो उन्होंने ने मुझ में कौन सा अपराध पाया? २१ इस एक बात को छोड़ जो मैं ने उन के बीच में खड़े होकर पुकारकर कहा था, कि मरे दुश्मनों के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे साम्हने मुकद्दमा हो रहा है॥

२२ फेलिक्स ने जो इस पन्थ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, कि जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा, तो तुम्हारी बात का निर्णय करूंगा। २३ और सूवेदार को आज्ञा दी, कि पौलुस को मुख से रखकर रखवाली करना, और उसके मित्रों में से किसी को भी उस की सेवा करने से न रोकना॥

२४ कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया; और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास * के विषय में जो मसीह यीशु पर है, उस से सुना। २५ और जब वह धर्म और संयम और प्रानेवाले न्याय की चर्चा करता था, तो फेलिक्स ने भयमान होकर उत्तर दिया, कि अभी तो जा : अबसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा।

२६ उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी प्रास थी; इसलिये और भी बुला बुलाकर उस से बातें किया करता था। २७ परन्तु जब दो वर्ष बीत गए, तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बन्धुघा छोड़ गया॥

२५ फेस्तुस उस प्रान्त में पहुँचकर तीन दिन के बाद कैसरिया से यरूशलेम को गया। २ तब महायाजकों ने, और यहूदियों के बड़े लोगों ने, उसके साम्हने पौलुस की नालिश की। ३ और उस से बिनती करके उसके विरोध में यह बर चाहा, कि वह उसे यरूशलेम में बुलवाए, क्योंकि वे उसे रास्ते ही में मार डालने की घात लगाए हुए थे। ४ फेस्तुस ने उत्तर दिया, कि पौलुस कैसरिया में पहले में है, और मैं प्राप जल्द वहाँ जाऊंगा। ५ फिर कहा, तुम में जो अधिकार रखते हैं, वे साथ चलें, और यदि इस मनुष्य ने कुछ अनुचित काम किया है, तो उस पर दोष लगाए॥

६ और उन के बीच कोई आठ दस दिन रहकर वह कैसरिया गया : और दूसरे दिन न्याय प्रासन पर बैठकर पौलुस के लाने की आज्ञा दी। ७ जब वह आया, तो जो यहूदी यरूशलेम से आए थे, उन्होंने ने प्रास पास खड़े होकर उस पर बहुतेरे भारी दोष लगाए, जिन का प्रमाण वे नहीं दे सकते थे। ८ परन्तु पौलुस ने उत्तर दिया, कि मैं ने न तो यहूदियों की व्यवस्था का और न मन्दिर का, और न कैसर का कुछ अपराध किया है। ९ तब फेस्तुस ने यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को उत्तर दिया, क्या तू चाहता है, कि यरूशलेम को

* या धर्म।

जाए; और वहां मेरे साम्हने तेरा यह मुकद्दमा तय किया जाए? १० पौलुस ने कहा; मैं कैसर के न्याय प्राप्त के साम्हने खड़ा हूँ; मेरे मुकद्दमे का यहीं फैसला होना चाहिए; जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैं ने कुछ अपराध नहीं किया। ११ यदि अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है; तो मरने से नहीं मुकरता; परन्तु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उन में से कोई बात सच न ठहरे, तो कोई मुझे उन के हाथ नहीं सौंप सकता; मैं कैसर की दोहाई देता हूँ। १२ तब फेस्तुस ने मन्त्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तू ने कैसर की दोहाई दी है, तू कैसर के पास जाएगा ॥

१३ और कुछ दिन बीतने के बाद अग्रिप्पा राजा और बिरनीके ने कैसरिया में आकर फेस्तुस से भेंट की। १४ और उन के बहुत दिन वहां रहने के बाद फेस्तुस ने पौलुस की कथा राजा को बताई; कि एक मनुष्य है, जिसे फेलिक्स बन्धुआ छोड़ गया है। १५ जब मैं यरूशलेम में था, तो महायाजक और यहूदियों के पुरनियों ने उस की नालिश की; और चाहा, कि उस पर दण्ड की आज्ञा दी जाए। १६ परन्तु मैं ने उन को उत्तर दिया, कि रोमियों की यह रीति नहीं, कि किसी मनुष्य को दण्ड के लिये सौंप दें, जब तक मुद्दाअलह को अपने मुद्दियों के आमने-सामने खड़े होकर दोष के उत्तर देने का अवसर न मिले। १७ सो जब वे यहां इकट्ठे हुए, तो मैं ने कुछ देर न की, परन्तु दूसरे ही दिन न्याय प्राप्त पर बैठकर, उस मनुष्य को लाने की आज्ञा दी। १८ जब उसके मुद्दई खड़े हुए, तो उन्होंने ने ऐसी बुरी बातों का दोष नहीं लगाया, जैसा मैं समझता था। १९ परन्तु अपने मत के,

और यीशु नाम किसी मनुष्य के विषय में जो मर गया था, और पौलुस उस को जीवित बताता था, विवाद करते थे। २० और मैं उलझन में था, कि इन बातों का पता कैसे लगाऊँ? इसलिये मैं ने उस से पूछा, क्या तू यरूशलेम जाएगा, कि वहां इन बातों का फैसला हो? २१ परन्तु जब पौलुस ने दोहाई दी, कि मेरे मुकद्दमे का फैसला महाराजाधिराज के यहां हो; तो मैं ने आज्ञा दी, कि जब तक उसे कैसर के पास न भेजूं, उस की रखवाली की जाए। २२ तब अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, मैं भी उस मनुष्य की सुनना चाहता हूँ; उस ने कहा, तू कल सुन लेगा ॥

२३ सो दूसरे दिन, जब अग्रिप्पा और बिरनीके बड़ी धूमधाम से आकर पलटन के सरदारों और नगर के बड़े लोगों के साथ दरबार में पहुंचे, तो फेस्तुस ने आज्ञा दी, कि वे पौलुस को ले आएँ। २४ फेस्तुस ने कहा; हे महाराजा अग्रिप्पा, और हे सब मनुष्यो जो यहां हमारे साथ हो, तुम इस मनुष्य को देखते हो, जिस के विषय में सारे यहूदियों ने यरूशलेम में और यहां भी चिल्ला चिल्लाकर मुझ से बिनती की, कि इस का जीवित रहना उचित नहीं। २५ परन्तु मैं ने जान लिया, कि उस ने ऐसा कुछ नहीं किया कि मार डाला जाए; और जब कि उस ने आप ही महाराजाधिराज की दोहाई दी, तो मैं ने उसे भेजने का उपाय निकाला। २६ परन्तु मैं ने उसके विषय में कोई ठीक बात नहीं पाई कि अपने स्वामी के पास लिखूँ, इसलिये मैं उसे तुम्हारे साम्हने और विशेष करके हे महाराजा अग्रिप्पा तर साम्हने लाया हूँ, कि जांचने के बाद मुझे कुछ लिखने को मिले। २७ क्योंकि बन्धुए को भेजना और जो दोष उस पर लगाए गए,

उन्हें न बनाना, मुझे व्यर्थ समझ पड़ता है ॥

२६ अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा; तुम्हें अपने विषय में बोलने की आज्ञा है: तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा, कि,

२ हे राजा अग्रिप्पा, जितनी बातों का यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं, आज तेरे साम्हने उन का उत्तर देने में मैं अपने को धन्य समझता हूँ। ३ विशेष करके इसलिये कि तू यहूदियों के सब व्यवहारों और विवादों को जानता है, सो मैं बिनती करता हूँ, धीरज से मेरी सुन ले। ४ जैसा मेरा चाल चलन आरम्भ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते हैं। ५ वे यदि गवाही देना चाहते हैं, तो आरम्भ से मुझे पहिचानते हैं, कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सब से खरे पन्थ के अनुसार चला। ६ और अब उस प्रतिज्ञा की आज्ञा के कारण जो परमेश्वर ने हमारे वापदादों से की थी, मुझ पर मुकद्दमा चल रहा है। ७ उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की आज्ञा लगाए हुए, हमारे वारहों गोत्र अपने सारे मन से रात दिन परमेश्वर की सेवा करते आए हैं: हे राजा, इसी आज्ञा के विषय में यहूदी मुझ पर दोष लगाते हैं। ८ जब कि परमेश्वर मरे हुएों को जिलाता है, तो तुम्हारे यहां यह बात क्यों विश्वास के योग्य नहीं समझी जाती? ९ मैं ने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। १० और मैं ने यरूशलेम में ऐसा ही किया; और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बन्दीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे, तो मैं भी उन के

विरोध में अपनी सम्मति देता था। ११ और हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निन्दा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया, कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। १२ इसी घुन में जब मैं महायाजकों से अधिकार और परवाना लेकर दमिश्क को जा रहा था। १३ तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैं ने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलनेवालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। १४ और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैं ने इब्रानी भाषा में, मुझ से यह कहते हुए यह शब्द सुना, कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने पर लात मारना तेरे लिये कठिन है। १५ मैं ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ: जिसे तू सताता है। १६ परन्तु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो; क्योंकि मैं ने तुम्हें इसलिये दर्शन दिया है, कि तुम्हें उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊँ, जो तू ने देखी हैं, और उन का भी जिन के लिये मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। १७ और मैं तुम्हें तेरे लोगों से और अन्यजातियों से बचाता रहूंगा, जिन के पास मैं अब तुम्हें इसलिये भेजता हूँ। १८ कि तू उन की आँखें खोले, कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, और शतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे; कि पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं, मीरास पाएं। १९ सो हे राजा अग्रिप्पा, मैं ने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। २० परन्तु पहिले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहनेवालों को, तब

यहूदिया के सारे देश में और अन्यजातियों को समझाता रहा, कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराव के योग्य काम करो। २१ इन बातों के कारण यहूदी मुझे मन्दिर में पकड़के मार डालने का यत्न करते थे। २२ सो परमेश्वर की सहायता से मैं आज तक बना हूँ और छोटे बड़े सभी के साम्हने गवाही देता हूँ और उन बातों को श्रोद्ध बुद्ध नहीं कहता, जो भविष्यद्वक्ताओं और मूसा ने भी कहा कि होनेवाली हैं। २३ कि मसीह को दुख उठाना होगा, और वही सब से पहिले मरे हुएओं में मैं जी उठकर, हमारे लोगों में और अन्यजातियों में ज्योति का प्रचार करेगा ॥

२४ जब वह इस रीति से उत्तर दे रहा था, तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा; हे पौलुस, तू पागल है; बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। २५ परन्तु उस ने कहा; हे महाप्रतापी फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परन्तु मच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। २६ राजा भी जिम के साम्हने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता हूँ, और मुझे प्रतीति है, कि इन बातों में से कोई उस से छिपी नहीं, क्योंकि यह घटना तो कोने में नहीं हुई। २७ हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यद्वक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूँ, कि तू प्रतीति करता है। २८ तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से * मुझे मसीही बनाना चाहता है? २९ पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परन्तु जितने लोग आज मेरी मुन्तने हैं,

इन बन्धनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं ॥

३० तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उन के साथ बैठनेवाले उठ खड़े हुए। ३१ और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता, जो मृत्यु या बन्धन के योग्य हो। ३२ अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा; यदि यह मनुष्य कंसर की दोहाई न देता, तो छूट सकता था ॥

२७

जब यह ठहराया गया, कि हम जहाज पर इतालिया को जाएं, तो उन्होंने ने पौलुस और कितने और बन्धुओं को भी यूलियुस नाम अगुस्तुस की पत्निके एक सूबेदार के हाथ सौंप दिया। २ और अद्रमुत्तियुम के एक जहाज पर जो आसिया के किनारे की जगहों में जाने पर था, चढ़कर हम ने उसे खोल दिया, और अग्निस्तर्खुम नाम थिस्सलुनीके का एक मकिदूनी हमारे साथ था। ३ दूसरे दिन हम ने सैदा में लंगर डाला और यूलियुस ने पौलुस पर कृपा करके उसे मित्रों के यहा जाने दिया कि उसका मत्कार किया जाए। ४ वहां से जहाज खोलकर हवा विरुद्ध होने के कारण हम कुप्रुस की आड़ में होकर चले। ५ और किलिकिया और पफूलिया के निकट के समुद्र में होकर लूसिया के मूरा में उतरे। ६ वहां सूबेदार को सिकन्दरिया का एक जहाज इतालिया जाता हुआ मिला, और उस ने हमें उस पर चढ़ा दिया। ७ और जब हम बहुत दिनों तक धीरे धीरे चलकर कठिनता से कनिदुस के साम्हने पहुंचे, तो इसलिये कि हवा हमें आगे बढ़ने न देती थी, मलमोने के साम्हने से होकर जेने की आड़ में चले। ८ और उमके

* यू० थोड़े में।

किनारे किनारे कठिनता से चलकर शुभ-लंगरबारी नाम एक जगह पहुंचे, जहां से लमया नगर निकट था ॥

६ जब बहुत दिन बीत गए, और जल-यात्रा में जोखिम इसलिये होती थी कि उपवास के दिन भ्रव बीत चुके थे, तो पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया। १० कि हे सज्जनो मुझे ऐसा जान पड़ता है, कि इस यात्रा में बिपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की बरन हमारे प्राणों की भी होनेवाली है। ११ परन्तु सूबेदार ने पौलुस की बातों से मांझी और जहाज के स्वामी की बढ़कर मानी। १२ और वह बन्दर स्थान जाड़ा काटने के लिये भ्रच्छा न था : इसलिये बहुतों का विचार हुआ, कि वहां से जहाज खोलकर यदि किसी रीति से हो सके, तो फीनिक्स में पहुंचकर जाड़ा काटें : यह तो त्रेते का एक बन्दर स्थान है जो दक्खिन-पच्छिम और उत्तर-पच्छिम की ओर खुलता है। १३ जब कुछ कुछ दक्खिनी हवा बहने लगी, तो यह समझकर कि हमारा मतलब पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए त्रेते के पास से जाने लगे। १४ परन्तु थोड़ी देर में वहां से एक बड़ी आंधी उठी, जो यूरकुलीन कहलाती है। १५ जब यह जहाज पर लगी, तब वह हवा के साम्हने ठहर न सका, सो हम ने उसे बहने दिया, और इसी तरह बहते हुए चले गए। १६ तब कौदा नाम एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनता से डोंगी को बश में कर सके। १७ मल्लाहों ने उसे उठाकर, अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बान्धा, और मुरतिस के चोर-बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर, बहते हुए चले गए। १८ और जब हम ने आंधी से बहुत हिच-

कोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। १९ और तीसरे दिन उन्होंने ने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया। २० और जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए, और बड़ी आंधी चल रही थी, तो अन्त में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही। २१ जब वे बहुत उपवास कर चुके, तो पौलुस ने उन के बीच में खड़ा होकर कहा : हे लोगो, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर, त्रेते से न जहाज खोलते और न यह बिपत्ति और हानि उठाते। २२ परन्तु भ्रव में तुम्हें समझाता हूँ, कि डाढ़स बान्धो : क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, केवल जहाज की। २३ क्योंकि परमेश्वर जिस काम में हूँ, और जिस की सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। २४ हे पौलुस, मत डर, तुम्हें कैसर के साम्हने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सब को जो तेरे साथ यात्रा करते हैं, तुम्हें दिया है। २५ इसलिये, हे सज्जनो डाढ़स बान्धो : क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ, कि जैसा मुझ से कहा गया है, वैसा ही होगा। २६ परन्तु हमें किसी टापू पर जा टिकना होगा ॥

२७ जब चौदहवीं रात हुई, और हम अद्रिया समुद्र में टकराते फिरते थे, तो आंधी रात के निकट मल्लाहों ने अटकल से जाना, कि हम किसी देश के निकट पहुंच रहे हैं। २८ और थाह लेकर उन्होंने ने बीस पुरमा गहरा पाया और थोड़ा आगे बढ़कर फिर थाह ली, तो पन्द्रह पुरमा पाया। २९ तब पत्थरीली जगहों पर पड़ने के डर से उन्होंने जहाज की पिछाड़ी चार लंगर डाले, और भोर का होना मनाने

रहे। ३० परन्तु जब मल्लाह जहाज पर से भागना चाहते थे, और गलही से लंगर डालने के बहाने डोंगी समुद्र में उतार दी। ३१ तो पौलुस ने सूबेदार और सिपाहियों से कहा; यदि ये जहाज पर न रहें, तो तुम नहीं बच सकते। ३२ तब सिपाहियों ने रस्से काटकर डोंगी गिरा दी। ३३ जब भोर होने पर था, तो पौलुस ने यह कहके, सब को भोजन करने को समझाया, कि प्राज चौदह दिन हुए कि तुम भ्रास देखते देखते भूखे रहे, और कुछ भोजन न किया। ३४ इसलिये तुम्हें समझाता हूँ, कि कुछ खा लो, जिस से तुम्हारा बचाव हो; क्योंकि तुम में से किसी के मिर का एक बाल भी न गिरेगा। ३५ और यह कहकर उस ने रोटी लेकर सब के साम्हने परमेश्वर का धन्यवाद किया; और तोड़कर खाने लगा। ३६ तब वे सब भी ढाढ़स बान्धकर भोजन करने लगे। ३७ हम सब मिलकर जहाज पर दो सौ छिहत्तर जन थे। ३८ जब वे भोजन करके तृप्त हुए, तो गेहूँ को समुद्र में फेंक कर जहाज हलका करने लगे। ३९ जब बिहान हुआ, तो उन्होंने ने उस देश को नहीं पहिचाना, परन्तु एक खाड़ी देखी जिस का चौरस किनारा था, और विचार किया, कि यदि हो सके, तो इसी पर जहाज को टिकाएं। ४० तब उन्होंने ने लगरों को खोलकर समुद्र में छोड़ दिया और उसी समय पतवारों के बन्धन खोल दिए, और हवा के साम्हने भ्रगला पाल चढ़ाकर किनारे की ओर चले। ४१ परन्तु दो समुद्र के संगम की जगह पड़कर उन्होंने ने जहाज को टिकाया, और गलही तो धक्का खाकर गड़ गई, और टल न सकी; परन्तु पिछाड़ी लहरों के बल से टूटने लगी। ४२ तब

सिपाहियों का यह विचार हुआ, कि बन्धुओं को मार डालें; ऐसा न हो, कि कोई पैरके निकल भागे। ४३ परन्तु सूबेदार ने पौलुस को बचाने की इच्छा से उन्हें इस विचार से रोका, और यह कहा, कि जो तैर सकते हैं, पहिले कूदकर किनारे पर निकल जाएं। ४४ और बाकी कोई पटरो पर, और कोई जहाज की और वस्तुओं के सहारे निकल जाए, और इस रीति से सब कोई भूमि पर बच निकले।

२८ जब हम बच निकले, तो जाना कि यह टापू मिलिने कहलाता है। २ और उन जंगली लोगों ने हम पर अनोखी कृपा की; क्योंकि मेह के कारण जो बरस रहा था और जाड़े के कारण उन्होंने ने प्राग मुलगाकर हम सब को ठहराया। ३ जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्टा बटोरकर प्राग पर रखा, तो एक साप प्रांच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। ४ जब उन जंगलियों ने साप को उसके हाथ में लटकें हुए देखा, तो प्रापस में कहा; सचमुच यह मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया, तौभी न्याय ने जीवित रहने न दिया। ५ तब उस ने साप को प्राग में भटक दिया, और उसे कुछ हानि न पहुंची। ६ परन्तु वे बाट जोहते थे, कि वह सूज जाएगा, या एकाएक गिरके मर जाएगा, परन्तु जब वे बहुत देर तक देखते रहे, और देखा, कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो और ही विचार कर कहा; यह तो कोई देवता है।

७ उस जगह के प्रासपास पुबलियुस नाम उस टापू के प्रधान की भूमि थी; उस ने हमें अपने घर ले जाकर तीन दिन मित्र-भाव से पहुंचाई की। ८ पुबलियुस का

पिता ज्वर और आंव लोहू से रोगी पड़ा था : सो पौलुस ने उसके पास घर में जाकर प्रार्थना की, और उस पर हाथ रखकर उसे चंगा किया। ६ जब ऐसा हुआ, तो उस टापू के बाकी बीमार आए, और चंगे किए गए। १० और उन्होंने ने हमारा बहुत आदर किया, और जब हम चलने लगे, तो जो कुछ हमें प्रवश्य था, जहाज पर रख दिया ॥

११ तीन महीने के बाद हम सिकन्दरिया के एक जहाज पर चल निकले, जो उस टापू में जाड़े भर रहा था; और जिस का चिन्ह दियुसकूरो था। १२ मुरकूसा में लंगर डाल करके हम तीन दिन टिके रहे। १३ वहां से हम धूमकर रेगियुम में आए: और एक दिन के बाद दक्खिनी हवा चली, तब दूसरे दिन पुतियुली में आए। १४ वहां हम को भाई मिले, और उन के कहने से हम उन के यहां सात दिन तक रहे; और इस रीति से रोम को चले। १५ वहां से भाई हमारा समाचार सुनकर अस्पियुस के चौक और तीन-सराए तक हमारी भेंट करने को निकल आए जिन्हें देखकर पौलुस ने परमेश्वर का धन्यवाद किया, और ढाढ़स बान्धा ॥

१६ जब हम रोम में पहुंचे, तो पौलुस को एक सिपाही के साथ जो उस की रखवाली करता था, अकेले रहने की आज्ञा हुई ॥

१७ तीन दिन के बाद उस ने यहूदियों के बड़े लोगों को बुलाया, और जब वे इकट्ठे हुए, तो उन से कहा: हे भाइयो, मैं ने अपने लोगों के या बापदादों के व्यवहारों के विरोध में कुछ भी नहीं किया, तो भी बन्धुआ होकर बरूखालेम से रोमियों के हाथ सोपा गया। १८ उन्होंने ने मुझे जांच कर छोड़

देना चाहा, क्योंकि मुझ में मृत्यु के योग्य कोई दोष न था। १९ परन्तु जब यहूदी इस के विरोध में बोलने लगे, तो मुझे कैसर की दोहाई देनी पड़ी: न यह कि मुझे अपने लोगों पर कोई दोष लगाना था। २० इस-लिये मैं ने तुम को बुलाया है, कि तुम से मिलूं और बातचीत करूं; क्योंकि इस्त्राएल की आशा के लिये मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। २१ उन्होंने ने उस से कहा: न हम ने तेरे विषय में यहूदियों से चिट्ठियां पाई, और न भाइयों में से किसी ने आकर तेरे विषय में कुछ बताया, और न बुरा कहा। २२ परन्तु तेरा विचार क्या है? वही हम तुझ से सुनना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, कि हर जगह इस मत के विरोध में लोग बातें कहते हैं ॥

२३ तब उन्होंने ने उसके लिये एक दिन ठहराया, और बहुत लोग उसके यहां इकट्ठे हुए, और वह परमेश्वर के राज्य की गवाही देता हुआ, और मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों से यीशु के विषय में समझा समझाकर भोर से सांभ तक बरगन करता रहा। २४ तब कितनों ने उन बातों को मान लिया, और कितनों ने प्रतीति न की। २५ जब आपस में एक मत न हुए, तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर चले गए, कि पवित्र आत्मा ने यशयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा तुम्हारे बापदादों से अच्छा कहा, कि जाकर इन लोगों से कह। २६ कि सुनते तो रहोगे, परन्तु न समझोगे, और देखते तो रहोगे, परन्तु न बुझोगे। २७ क्योंकि इन लोगों का मन मोटा, और उन के कान भारी हो गए, और उन्होंने ने अपनी आंखें बन्द की हैं, ऐसा न हो कि वे कभी आंखों से देखें, और कानों से सुनें, और मन से समझें और फिर,

और मैं उन्हें बंगा करूँ। २८ सो तुम जानो, कि परमेश्वर के इन उद्धार की कथा अन्यजातियों के पाम भेजी गई है, और वे सुनेंगे। २९ जब उस ने यह कहा तो यहूदी आपस में बहुत विवाद करने लगे और वहाँ से चले गए ॥

३० और वह पूरे दो वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा। ३१ और जो उसके पास आने थे, उन सब से मिलता रहा और बिना रोक टोक बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा ॥

रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, और प्रेरित होने के लिये बुलाया गया, और परमेश्वर के उम मुसमाचार के लिये अलग किया गया है। २ जिस की उम ने पहिले ही से अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में। ३ अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, जो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। ४ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। ५ जिस के द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली; कि उसके नाम के कारण सब जानियों के लोग विश्वास करके उस की मानें। ६ जिन में मे तुम भी यीशु मसीह के होने के लिये बुलाए गए हो। ७ उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिये बुलाए गए हैं ॥

हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

८ पहिले में तुम सब के लिये यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। ९ परमेश्वर जिस की सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के मुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है; कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ। १० और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में बिनती करता हूँ, कि किसी रीति से अब भी तुम्हारे पास आने को मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सुफल हो। ११ क्योंकि मैं तुम से मिलने की लालसा करता हूँ, कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक बरदान दूँ जिस से तुम स्थिर हो जाओ। १२ अर्थात् यह, कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में, और तुम में है, शान्ति पाऊँ। १३ और हे भाइयो, मैं नहीं चाहता, कि तुम इस से अनजान रहो, कि मैं ने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा, कि जैसा मुझे और अन्यजातियों में फल मिला, वैसा ही तुम में भी मिले, परन्तु अब तक रुका रहा। १४ मैं यूनानियों और अन्यभाषियों का और

बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। १५ सो मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो, मुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ। १६ क्योंकि मैं मुसमाचार से नही लजाता, इसलिये कि वह हर एक विश्वास करनेवाले के लिये, पहिले तो यहूदी, फिर यूनानी के लिये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। १७ क्योंकि उस में परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, और विश्वास के लिये प्रगट होती है; जैसा लिखा है, कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा ॥

१८ परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रगट होता है, जो सत्य को अधर्म में दबाए रखते हैं। १९ इसलिये कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उन के मनों में प्रगट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रगट किया है। २० क्योंकि उसके अन्तर्देखे गुण, अर्थात् उस की सनातन सामर्थ्य, और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। २१ इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने ने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परन्तु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उन का निर्बुद्धि मन अन्धेरा हो गया। २२ वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। २३ और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य, और पक्षियों, और चौपायों, और रंगनेवाले जन्तुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला ॥

२४ इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उन के मन के अभिलाषों के अनुसार अशुद्धता के लिये छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। २५ क्योंकि उन्होंने ने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर

भूठ बना डाला, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन ॥

२६ इसलिये परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया; यहां तक कि उन की स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को, उस से जो स्वभाव के विरुद्ध है, बदल डाला। २७ वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निलंज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया ॥

२८ और जब उन्होंने ने परमेश्वर को पहिचानना न चाहा, इसलिये परमेश्वर ने भी उन्हें उन के निकम्मे मन पर छोड़ दिया; कि वे अनुचित काम करें। २९ सो वे सब प्रकार के अधर्म, और दुष्टता, और लोभ, और वैरभाव, से भर गए; और डाह, और हत्या, और भगड़े, और छल, और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर। ३० बदनाम करनेवाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करनेवाले, अभिप्रायी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनानेवाले, माता पिता की आज्ञा न माननेवाले। ३१ निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मयाहित और निर्दय हो गए। ३२ वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवाले मृत्यु के दरु के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, बरन करनेवालों से प्रसन्न भी होते हैं ॥

३ सो हे दोष लगानेवाले, तू कोई बर्षा न हो; तू निरुत्तर है! क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिये कि तू जो दोष लगाता है, आप ही

वही काम करता है। २ और हम जानते हैं, कि ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दण्ड की आज्ञा होती है। ३ और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करनेवालों पर दोष लगाता है, और आप वे ही काम करता है; क्या यह समझता है, कि तू परमेश्वर की दण्ड की आज्ञा से बच जाएगा ? ४ क्या तू उस को कृपा, और सहनशीलता, और धीरजरूपी धन को तुच्छ जानता है ? और क्या यह नहीं समझता, कि परमेश्वर की कृपा तुम्हें मन फिराव को सिखाती है ? ५ पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उमके क्रोध के दिन के लिये, जिस में परमेश्वर का मच्चा न्याय प्रगट होगा, अपने निमित्त क्रोध कमा रहा है। ६ वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। ७ जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, और आदर, और अमरता को खोज में है, उन्हें वह अनन्त जीवन देगा। ८ पर जो विवादी है, और मत्य को नहीं मानते, बरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। ९ और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहिले यहूदी पर फिर यूनानी पर। १० पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा, जो भला करता है, पहिले यहूदी को फिर यूनानी को। ११ क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। १२ इसलिये कि जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नाश भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया, उन का दण्ड व्यवस्था के अनुसार होगा। १३ (क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के मुननेवाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलनेवाले धर्मी ठहराए

जाएंगे। १४ फिर जब अन्यजाति लोग जिन के पास व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उन के पास न होने पर भी वे अपने लिये आप ही व्यवस्था हैं। १५ वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उन के विवेक * भी गवाही देते हैं, और उन की चिन्ताएं परस्पर दोष लगाती, या उन्हें निर्दोष ठहराती हैं।) १६ जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा ॥

१७ यदि तू यहूदी कहलाता है, और व्यवस्था पर भरोसा रखता है, और परमेश्वर के विषय में धमएड करता है। १८ और उस की इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। १९ और अपने पर भरोसा रखता है, कि मैं अन्धों का अगुवा, और अधकार में पड़े हुएों की ज्योति। २० और बुद्धिहीनों का सिखाने-वाला, और बालकों का उपदेशक हूँ, और ज्ञान, और मत्य का नमूना, जो व्यवस्था में है, मुझे मिला है। २१ सो क्या तू जो औरों को सिखाता है, अपने आप को नहीं सिखाता ? क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है, आप ही चोरी करता है ? २२ तू जो कहता है, व्यभिचार न करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है ? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मन्दिरों को लूटता है। २३ तू जो व्यवस्था के विषय में धमएड करता है, क्या व्यवस्था न मानकर, परमेश्वर का अनादर करता है ? २४ क्योंकि तुम्हारे कारण

* अर्थात् मन या कान्शन्स ।

अन्यजातियों में परमेश्वर के नाम की निन्दा की जाती है जैसा लिखा भी है। २५ यदि तू व्यवस्था पर चने, तो खतने से लाभ तो है, परन्तु यदि तू व्यवस्था को न माने, तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। २६ सो यदि खतनारहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे, तो क्या उस की बिन खतना की दशा खतने के बराबर न गिनी जाएगी? २७ और जो मनुष्य जाति के कारण बिन खतना रहा यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा? २८ क्योंकि वह यहूदी नहीं, जो प्रगट में यहूदी है; और न वह खतना है, जो प्रगट में है, और देह में है। २९ पर यहूदी वही है, जो मन में है; और खतना वही है, जो हृदय का और आत्मा में है; न कि लेख का: ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की और से नहीं, परन्तु परमेश्वर की और से होती है ॥

सो यहूदी की क्या बड़ाई, या खतने का क्या लाभ? २ हर प्रकार से बहुत कुछ। पहिले तो यह कि परमेश्वर के वचन उन को सोये गए। ३ यदि कितने विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ। क्या उन के विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? ४ कदापि नहीं, बरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य भूठा ठहरे, जैसा लिखा है, कि जिम से तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। ५ सो यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? (यह तो में मनुष्य की रीति पर कहता हूँ)।

६ कदापि नहीं, नहीं तो परमेश्वर क्योंकर जगन का न्याय करेगा? ७ यदि मेरे भूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उस की महिमा के लिये अधिक करके प्रगट हुई। तो फिर क्यों पापी की नाई में दगड के योग्य ठहगया जाता हूँ? ८ और हम क्यों बुराई न करें, कि भलाई निकले? जब हम पर यही दोष लगाया भी जाता है, और कितने कहते हैं, कि इन का यही कहना है: परन्तु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है ॥

९ तो फिर क्या हुआ? क्या हम उन से अच्छे हैं? कभी नहीं; क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। १० जैसा लिखा है, कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ११ कोई समझदार नहीं; कोई परमेश्वर का खोजनेवाला नहीं। १२ सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करनेवाला नहीं, एक भी नहीं। १३ उन का गला खुली हुई कब्र है: उन्होंने ने अपनी जीभों से छल किया है: उन के होठों में सापों का विष है। १४ और उन का मुह श्राप और कड़वाहट से भरा है। १५ उन के पांव लोह बहाने को फुर्तिले हैं। १६ उन के मार्गों में नाश और क्लेश है। १७ उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना। १८ उन की आखों के साम्हने परमेश्वर का भय नहीं ॥

१९ हम जानते हैं, कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्ही से कहती है, जो व्यवस्था के प्राधीन है: इसलिये कि हर एक मुह बन्द किया जाए, और साग समार परमेश्वर के दगड के योग्य ठहरें। २० क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके साम्हने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिये कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहिचान होती है। २१ पर अब

बिना व्यवस्था परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रगट हुई है, जिस की गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं। २२ अर्थात् परमेश्वर की वह धार्मिकता, जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करनेवालों के लिये है; क्योंकि कुछ भेद नहीं। २३ इसलिये कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। २४ परन्तु उसके अनुग्रह से उस द्युत्कारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, मृत मृत धर्मों ठहराए जाते हैं। २५ उसे परमेश्वर ने, उसके लोहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित्त ठहराया, जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहिले किए गए, और जिन की परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की; उन के विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रगट करे। २६ वरन इसी समय उग की धार्मिकता प्रगट हो: कि जिस से वह आप ही धर्मों ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करे, उसका भी धर्मों ठहरानेवाला हो। २७ तो घमण्ड करना कहाँ रहा? उस की तो जगह ही नहीं: कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। २८ इसलिये हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं, कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मों ठहरता है। २९ क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्यजातियों का नहीं? हाँ, अन्यजातियों का भी है। ३० क्योंकि एक ही परमेश्वर है, जो खतनानानों को विश्वास से और खतनारहितों को भी विश्वास के द्वारा धर्मों ठहराएगा। ३१ तो क्या हम व्यवस्था को विश्वास के द्वारा व्यर्थ ठहराते हैं? कदापि नहीं, वरन व्यवस्था को स्थिर करते हैं।

४ सो हम क्या कहें, कि हमारे शाही-रिक पिता इब्राहीम को क्या प्राप्त हुआ? २ क्योंकि यदि इब्राहीम कामों से धर्मों ठहराया जाता, तो उसे घमण्ड करने की जगह होती, परन्तु परमेश्वर के निकट नहीं। ३ पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि इब्राहीम ने परमेश्वर पर विश्वास किया*, और यह उसके लिये धार्मिकता गिना गया। ४ काम करनेवाले की मजदूरी देना दान नहीं, परन्तु हकक ममभा जाता है। ५ परन्तु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मों ठहरानेवाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिये धार्मिकता गिना जाता है। ६ जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मों ठहराना है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। ७ कि धन्य वे हैं, जिन के अधर्म क्षमा हुए, और जिन के पाप ढाँपे गए। ८ धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। ९ तो यह धन्य कहना, क्या खतनावालों ही के लिये है, या खतनारहितों के लिये भी? हम यह कहते हैं, कि इब्राहीम के लिये उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। १० तो वह क्योंकर गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? खतने की दशा में नहीं परन्तु बिना खतने की दशा में। ११ और उस ने खतने का चिन्ह पाया, कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए, जो उस ने बिना खतने की दशा में रखा था: जिस से वह उन सब का पिता ठहरे, जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, और कि वे भी धर्मों ठहरें। १२ और उन खतना किए हुआ का पिता हो, जो न केवल खतना किए हुए हैं, परन्तु हमारे पिता

* सू० की प्रतीति की।

इब्राहीम के उस विश्वास की सीक पर भी चलते हैं, जो उस ने बिन खतने की दशा में किया था। १३ क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, न इब्राहीम को, न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परन्तु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। १४ क्योंकि यदि व्यवस्थावाले वारिस हैं, तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। १५ व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका टाड़ना भी नहीं। १६ इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है, कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिये दृढ़ हो, न कि केवल उसके लिये जो व्यवस्थावाला है, बरन उन के लिये भी जो इब्राहीम के समान विश्वासवाले हैं: वही तो हम सब का पिता है। १७ (जैसा लिखा है, कि मैं ने तुम्हें बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है), उस परमेश्वर के साम्हने जिस पर उस ने विश्वास किया और जो मरे हुए को जिलाता है, और जो बातें हैं ही नहीं, उन का नाम ऐसा लेता है, कि मानो वे हैं। १८ उस ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिये कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वह बहुत सी जातियों का पिता हो। १९ और वह जो एक सौ वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्वल न हुआ। २० और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। २१ और निश्चय जाना, कि जिस बात की उस ने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरी करने को भी सामर्थी है। २२ इस कारण, यह उसके लिये धार्मिकता गिना गया। २३ और

यह वचन, कि विपद्नास उसके लिये धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिये लिखा गया। २४ बरन हमारे लिये भी जिन के लिये विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात् हमारे लिये जो उस पर विश्वास करते हैं, जिस ने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। २५ वह हमारे अपराधों के लिये पकड़वाया गया, और हमारे धर्मों ठहरने के लिये जिलाया भी गया ॥

५ सो जब हम विश्वास से धर्मों ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। २ जिस के द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक, जिस में हम बने हैं, हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर धमएड करें। ३ केवल यही नहीं, बरन हम क्लेशों में भी धमएड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज। ४ और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने में आशा उत्पन्न होती है। ५ और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। ६ क्योंकि जब हम निर्वल ही थे, तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिये मरा। ७ किसी धर्मी जन के लिये कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परन्तु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिये कोई मरने का भी हियाव करे। ८ परन्तु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रगट करता है, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिये मरा। ९ सो जब कि हम, अब उसके लोह के कारण धर्मों ठहरे, तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों न बचेंगे? १० क्योंकि बैरी होने

की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे ? ११ और केवल यही नहीं, परन्तु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिम्मे के द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमण्ड भी करते हैं ॥

१२ इसलिये जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिये कि सब ने पाप किया । १३ क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परन्तु जहां व्यवस्था नहीं, वहां पाप गिना नहीं जाता । १४ तीसरी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया, जिन्होंने उस आदम के अपराध की नाई जो उस आनेवाले का चिन्ह है, पाप न किया । १५ पर जैसा अपराध की दशा है, वैसी अनुग्रह के बरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के, अर्थात् यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ । १६ और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दण्ड की आज्ञा का फैसला हुआ, परन्तु बहुतेरे अपराधों से ऐसा बरदान उत्पन्न हुआ, कि लोग धर्मी ठहरे । १७ क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी बरदान बहुतायत से पाते हैं वे एक मनुष्य के, अर्थात् यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनन्त जीवन में राज्य करेंगे । १८ इसलिये जैसा

एक अपराध सब मनुष्यों के लिये दण्ड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिये जीवन के निमित्त धर्मी ठहरे जाने का कारण हुआ । १९ क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसा ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे । २० और व्यवस्था बीच में आ गई, कि अपराध बहुत हो, परन्तु जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उस से भी कहीं अधिक हुआ । २१ कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनन्त जीवन के लिये धर्मी ठहरे हुए राज्य करे ॥

६ सो हम क्या कहें ? क्या हम पाप करने रहें, कि अनुग्रह बहुत हो ? २ कदापि नहीं, हम जब पाप के लिये मर गए तो फिर आगे को उस में क्योंकर जीवन बिताएं ? ३ क्या तुम नहीं जानते, कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, तो उस की मृत्यु का बपतिस्मा लिया ? ४ सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसा ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें । ५ क्योंकि यदि हम उस की मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे । ६ क्योंकि हम जानते हैं, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें । ७ क्योंकि जो मर गया, वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा । ८ सो यदि हम

मसीह के साथ मर गए, तो हमारा विश्वास यह है, कि उसके साथ जीएंगे भी। ९ क्योंकि यह जानते हैं, कि मसीह मरे हुएओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। १० क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिये एक ही बार मर गया; परन्तु जो जीवित है, तो परमेश्वर के लिये जीवित है। ११ ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिये तो मरा, परन्तु परमेश्वर के लिये मसीह येशु में जीवित सम्भो।

१२ इसलिये पाप तुम्हारे मरनहार शरीर में गज्य न करे, कि तुम उस की लाननाओं के आधीन रहो। १३ और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिये पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुएओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिये परमेश्वर को सौंपो। १४ और तुम पर पाप को प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के आधीन नहीं बरन अनुग्रह के आधीन हो।

१५ तो क्या हुआ? क्या हम इसलिये पाप करें, कि हम व्यवस्था के आधीन नहीं बरन अनुग्रह के आधीन हैं? कदापि नहीं। १६ क्या तुम नहीं जानते, कि जिस की आज्ञा मानने के लिये तुम अपने आप को दामों की नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो: और जिस की मानते हो, चाहे पाप के, जिस का अन्त मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के, जिस का अन्त धार्मिकता है? १७ परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उस उपदेश के माननेवाले हो गए, जिस के सांचे में ढाले गए थे। १८ और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। १९ मैं तुम्हारी

शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुम ने अपने अंगों को कुकर्म के लिये अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिये धर्म के दास करके सौंप दो। २० जब तुम पाप के दास थे, तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। २१ सो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उन से उस समय तुम क्या फल पाते थे? २२ क्योंकि उन का अन्त तो मृत्यु है परन्तु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुम को फल मिला जिस से पवित्रता प्राप्त होती है, और उसका अन्त अनन्त जीवन है। २३ क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परन्तु परमेश्वर का बरदान हमारे प्रभु मसीह येशु में अनन्त जीवन है।

७ हे भाइयो, क्या तुम नहीं जानते (मैं व्यवस्था के जाननेवालों से कहता हूँ), कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है? २ क्योंकि विवाहिता स्त्री व्यवस्था के अनुसार अपने पति के जीते जी उस से बन्धी है, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह पति की व्यवस्था से छूट गई। ३ सो यदि पति के जीते जी वह किसी दूसरे पुरुष की हो जाए, तो व्यभिचारिणी कहलाएगी, परन्तु यदि पति मर जाए, तो वह उस व्यवस्था से छूट गई, यहां तक कि यदि किसी दूसरे पुरुष की हो जाए तो भी व्यभिचारिणी न ठहरेगी। ४ सो हे मेरे भाइयो, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिये मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हो जाओ, जो मरे हुएओं में से जी उठा: ताकि हम परमेश्वर के लिये फल लाएं। ५ क्योंकि जब हम शारीरिक थे, तो पापों की अभिलाषायें जो व्यवस्था के

द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिये हमारे अंगों में काम करती थी। ६ परन्तु जिस के बन्धन में हम थे उसके लिये मर कर, अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, बरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं ॥

७ तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं! बरन बिना व्यवस्था के में पाप को नहीं पहिचानता: व्यवस्था यदि न कहती, कि लालच मत कर तो में लालच को न जानता। ८ परन्तु पाप ने अबसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। ९ में तो व्यवस्था बिना पहिले जीवित था, परन्तु जब आज्ञा आई, तैरे पाप जी गया, और में मर गया। १० और वही आज्ञा जो जीवन के लिये थी, मेरे लिये मृत्यु का कारण ठहरी। ११ क्योंकि पाप ने अबसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया, और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। १२ इसलिये व्यवस्था पवित्र है, और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। १३ तो क्या वह जो अच्छी थी, मेरे लिये मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं! परन्तु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिये मृत्यु का उत्पन्न करनेवाला हुआ कि उसका पाप होना प्रगट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। १४ क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परन्तु में शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। १५ और जो में करता हूँ, उस को नहीं जानता, क्योंकि जो में चाहता हूँ, वह नहीं किया करता, परन्तु जिस से मुझे घृणा आती है, वही करता हूँ। १६ और यदि, जो में नहीं चाहता वही करता हूँ, तो में मान लेता हूँ, कि

व्यवस्था भली है। १७ तो ऐसी दशा में उसका करनेवाला में नहीं, बरन पाप है, जो मुझ में बसा हुआ है। १८ क्योंकि में जानता हूँ, कि मुझ में अर्थात् मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु बास नहीं करती, इच्छा तो मुझ में है, परन्तु भले काम मुझ से बन नहीं पड़ते। १९ क्योंकि जिस अच्छे काम की में इच्छा करता हूँ, वह तो नहीं करता, परन्तु जिस बुराई को इच्छा नहीं करता, वही किया करता हूँ। २० परन्तु यदि में वही करता हूँ, जिस की इच्छा नहीं करता, तो उसका करनेवाला में न रहा, परन्तु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। २१ सो में यह व्यवस्था पाता हूँ, कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ, तो बुराई मेरे पास आती है। २२ क्योंकि में भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ। २३ परन्तु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है, और मुझे पाप की व्यवस्था की बन्धन में डालती है जो मेरे अंगों में है। २४ में कैसा अभाग्य मनुष्य हूँ! मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? २५ में अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ: निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परन्तु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ ॥

तो अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दगड की आज्ञा नहीं: क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। २ क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की, और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। ३ क्योंकि जो काम व्यवस्था

शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उस को परमेश्वर ने किया, अर्थात् अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, और पाप के बलिदान होने के लिये भेजकर, शरीर में पाप पर दण्ड की भाशा दी। ४ इसलिये कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, पूरी की जाए। ५ क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं; परन्तु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। ६ शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परन्तु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शान्ति है। ७ क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बंद रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के आधीन है, और न हो सकता है। ८ और जो शारीरिक दशा में हैं, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ९ परन्तु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परन्तु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। १० और यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है; परन्तु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ११ और यदि उसी का आत्मा जिस ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है; तो जिस ने मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वह तुम्हारी मरनहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा ॥

१२ सो हे भाइयो, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। १३ क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे, तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मरोगे, तो जीवित

रहोगे। १४ इसलिये कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के बलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। १५ क्योंकि तुम को दासत्व की आत्मा नहीं मिली, कि फिर भयभीत हो परन्तु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिस से हम हे प्रबवा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। १६ आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है, कि हम परमेश्वर की सन्तान हैं। १७ और यदि सन्तान हैं, तो बारिस भी, बरन परमेश्वर के वाग्सि और मसीह के संगी बारिस हैं, जब कि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाएं ॥

१८ क्योंकि मैं समझता हूँ, कि इस समय के दुःख और क्लेश उस महिमा के मामूले, जो हम पर प्रगट होनेवाली है, कुछ भी नहीं हैं। १९ क्योंकि सृष्टि बड़ी आशाभरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रगट होने की बात जोह रही है। २० क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर आधीन करनेवाले की और म व्यर्थता के आधीन इस आशा से की गई। २१ कि सृष्टि भी आप ही बिनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर, परमेश्वर की सन्तानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। २२ क्योंकि हम जानते हैं, कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहरती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। २३ और केवल वही नहीं पर हम भी जिन के पास आत्मा का पहिला फल है, आप ही अपने में कहते हैं; और लेपालक होने की, अर्थात् अपनी देह के छुटकारे की बात जोहते हैं। २४ आशा के द्वारा तो हमारा उद्धार हुआ है परन्तु जिस वस्तु की आशा की जाती है, जब वह देखने में आए, तो फिर आशा कहाँ रही? क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उस की आशा क्या करेगा? २५ परन्तु

जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उस की प्राप्ति रखते हैं, तो धीरे-धीरे उस की बात जोहते भी हैं ॥

२६ इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते, कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए; परन्तु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भरकर जो बयान से बाहर हैं, हमारे लिये बिनती करता है। २७ और मनो का जांचनेवाला जानता है, कि आत्मा की मनसा क्या है? क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिनती करता है। २८ और हम जानते हैं, कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उन के लिये सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं; अर्थात् उन्हीं के लिये जो उस की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। २९ क्योंकि जिन्हें उस ने पहिले से जान लिया है उन्हें पहिले से ठहराया भी है कि उनके पुत्र के स्वरूप में हों ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलोठा ठहरे। ३० फिर जिन्हें उस ने पहिले से ठहराया, उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया, उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया, उन्हें महिमा भी दी है ॥

३१ सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ३२ जिस ने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परन्तु उसे हम सब के लिये दे दिया : वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्योंकर न देगा? ३३ परमेश्वर के चुने हुएों पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहरानेवाला है। ३४ फिर कौन है जो दण्ड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया बरन मुर्दों में से जी भी उठा,

और परमेश्वर की दहिनी ओर है, और हमारे लिये निवेदन भी करता है। ३५ कौन हम को मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या भ्रकाल, या नङ्गाई, या जोखिम, या तलवार? ३६ जैसा लिखा है, कि तेरे लिये हम दिन भर घात किए जाते हैं; हम बच होनेवाली भेड़ों की नाईं गिने गए हैं। ३७ परन्तु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिस ने हम से प्रेम किया है, जयवन्त से भी बढ़कर हैं। ३८ क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ, कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, ३९ न गहिराई और न कोई और सृष्टि, हमें परमेश्वर के प्रेम से, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी ॥

६ मैं मसीह में सच कहता हूँ, भूठ नहीं बोलता और मेरा विवेक * भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। २ कि मुझे बड़ा शोक है, और मेरा मन सदा दुखता रहता है। ३ क्योंकि मैं यहां तक चाहता था, कि अपने भाइयों के लिये जो शरीर के भाव से मेरे कुटुम्बी हूँ, आप ही मसीह से शापित हो जाता। ४ वे इस्राएली हैं; और लेपालकपन का हक्क और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हीं की हैं। ५ पुरखे भी उन्हीं के हैं, और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ, जो सब के ऊपर परम परमेश्वर युगानुयुग धन्य है। आमीन। ६ परन्तु यह नहीं, कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिये कि जो इस्राएल के वंश हैं, वे सब इस्राएली नहीं। ७ और न इस्राहीम के वंश होने के कारण सब उस की मन्तान ठहरे, परन्तु

* अर्थात् मन या कानशंस ।

(लिखा है) कि इसहाक ही से तेरा वंश कहलाएगा। ८ अर्थात् शरीर की सन्तान परमेश्वर की सन्तान नहीं, परन्तु प्रतिज्ञा के सन्तान वंश गिने जाते हैं। ९ क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, कि मैं इस समय के अनुसार झाऊंगा, और सारा के पुत्र होगा। १० और केवल यही नहीं, परन्तु जब रिबका भी एक से अर्थात् हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी। ११ और अभी तक न तो बालक जन्मे थे, और न उन्होंने ने कुछ भला या बुरा किया था कि उस ने कहा, कि जेठा छुटके का दास होगा। १२ इसलिये कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, परन्तु बुलानेवाले पर बनी रहे। १३ जैसा लिखा है, कि मैं ने याकूब से प्रेम किया, परन्तु एसा को अप्रिय जाना ॥

१४ सो हम क्या कहें? क्या परमेश्वर के यहां अन्याय है? कदापि नहीं! १५ क्योंकि वह मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ, उस पर दया करूँगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूँगा। १६ सो यह न तो चाहनेवाले की, न दौड़नेवाले की परन्तु दया करनेवाले परमेश्वर की बात है। १७ क्योंकि पवित्र शास्त्र में फिरोन से कहा गया, कि मैं ने तुझे इसी लिये खड़ा किया है, कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊँ, और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। १८ सो वह जिस पर चाहता है, उस पर दया करता है; और जिसे चाहता है, उसे कठोर कर देता है ॥

१९ सो तू मुझ से कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उस की इच्छा का साम्हना करता है? २० हे मनुष्य, भला तू कौन है, जो परमेश्वर का साम्हना करता

है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गड़नेवाले से कह सकती है कि तू ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? २१ क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, कि एक ही लोदे में से, एक बरतन आदर के लिये, और दूसरे को अन्यादर के लिये बनाए? तो इस में कौन सी अचम्भे की बात है? २२ कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ्य प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के बरतनों की, जो विनाश के लिये तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। २३ और दया के बरतनों पर जिन्हें उस ने महिमा के लिये पहिले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रगट करने की इच्छा की? २४ अर्थात् हम पर जिन्हें उस ने न केवल यहूदियों में से, बरन अन्यजातियों में से भी बुलाया। २५ जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है, कि जो मेरी प्रजा न थी, उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूँगा, और जो प्रिया न थी, उसे प्रिया कहूँगा। २६ और ऐसा होगा कि जिस जगह में उन से यह कहा गया था, कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह वे जीवते परमेश्वर की सन्तान कहलाएंगे। २७ और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकारकर कहता है, कि चाहे इस्राएल की सन्तानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तोभी उन में से थोड़े ही बचेंगे। २८ क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके, धार्मिकता से शीघ्र उसे सिद्ध करेगा। २९ जैसा यशायाह ने पहिले भी कहा था, कि यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिये कुछ वंश न छोड़ता, तो हम सदोम की नाई हो जाते, और घमोरा के सरीखे ठहरते ॥

३० सो हम क्या कहें? यह कि अन्यजातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की अर्थात् उस

धार्मिकता को जो विश्वास से है। ३१ परन्तु इस्राएली; जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते हुए उस व्यवस्था तक नहीं पहुँचे। ३२ किम लिये? इसलिये कि वे विश्वास से नहीं, परन्तु मादो कर्मों से उस की खोज करते थे: उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई। ३३ जैसा लिखा है: देखो मैं सिनयोन में एक ठेस लगने का पत्थर, और ठोकर खाने की चटान रखता हूँ; और जो उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा ॥

१० हे भाइयो, मेरे मन की अभिलाषा और उन के लिये परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, कि वे उद्धार पाएं। २ क्योंकि मैं उन की गवाही देता हूँ, कि उन को परमेश्वर के लिये धुन रहती है, परन्तु बुद्धिमानी के साथ नहीं। ३ क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, और अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके, परमेश्वर की धार्मिकता के आधीन न हुए। ४ क्योंकि हर एक विश्वास करनेवाले के लिये धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अन्त है। ५ क्योंकि मूसा ने यह लिखा है, कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है, चलता है, वह इसी कारण जीवित रहेगा। ६ परन्तु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यों कहती है, कि तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा? (अर्थात् मसीह को उतार लाने के लिये!) ७ या गहिराब में कौन उतरेगा? (अर्थात् मसीह को मरे हुए लोगों में से जिलाकर ऊपर लाने के लिये!) ८ परन्तु क्या कहती है? यह, कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुँह में और तेरे मन में है; यह वही विश्वास का

वचन है, जो हम प्रचार करते हैं। ९ कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए लोगों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। १० क्योंकि धार्मिकता के लिये मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिये मुँह से अंगीकार किया जाता है। ११ क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह लज्जित न होगा। १२ यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिये कि वह सब का प्रभु है; और अपने सब नाम * लेनेवालों के लिये उद्धार है। १३ क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वह उद्धार पाएगा। १४ फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया, वे उसका नाम † क्योंकर लें? और जिस की नहीं सुनी उस पर क्योंकर विश्वास करें? १५ और प्रचारक बिना क्योंकर मुँह? और यदि भेजे न जाएं, तो क्योंकर प्रचार करें? जैसा लिखा है, कि उन के पांव क्या ही सोहावने हैं, जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं!

१६ परन्तु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया: यशायाह कहता है, कि हे प्रभु, किस ने हमारे समाचार की प्रतीति की है? १७ सो विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। १८ परन्तु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने ने नहीं सुना? सुना तो सही क्योंकि लिखा है कि उन के स्वर सारी पृथ्वी पर, और उन के वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। १९ फिर मैं कहता हूँ। क्या इस्राएली

* प्रार्थना करनेवाली।

† यो समाचार।

नहीं जानते थे? पहिले तो मूसा कहता है, कि मैं उन के द्वारा जो जानि नहीं, तुम्हारे मन में जलन उपजाऊंगा, मैं एक मूढ़ जानि के द्वारा तुम्हें हिंस दिलाऊंगा। २० फिर यशायाह वदे हियाव के माथ कहता है, कि जो मुझे नहीं दूढ़ने थे, उन्होंने ने मुझे पा लिया: और जो मुझे पूछने भी न थे, उन पर मैं प्रगट हो गया। २१ परन्तु इस्राएल के विषय में वह यह कहता है कि मैं सारे दिन अपने हाथ एक प्राजा न माननेवाली और विवाद करनेवाली प्रजा की प्रां पसार रहा ॥

११ इसलिये मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं, मैं भी तो इस्राएली हूँ: इब्राहीम के वंश और विन्यामीन के गोत्र में से हूँ। २ परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा, जिसे उस ने पहिले ही से जाना: क्या तुम नहीं जानते, कि पवित्र शास्त्र एलियाह की कथा में क्या कहता है; कि वह इस्राएल के विरोध में परमेश्वर से बिनती करता है। ३ कि हे प्रभु, उन्होंने ने तेरे भविष्यद्वक्ताओं को घात किया, और तेरी वेदियों को ढा दिया है; और मैं ही अकेला बच रहा हूँ, और वे मेरे प्राण के भी खोजी हैं। ४ परन्तु परमेश्वर ने उसे क्या उत्तर मिला कि मैं ने अपने लिये सात हजार पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने ने बाभल के प्रागे घुटने नहीं टेके हैं। ५ सो इसी रीति से इस समय भी, अनुग्रह से चुने हुए कितने लोग बाकी हैं। ६ यदि यह अनुग्रह से हुआ है, तो फिर क्यों से नहीं; नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। ७ सो परिणाम क्या हुआ? यह कि इस्राएली जिस की खोज में हैं, वह उन को

नहीं मिला; परन्तु चुने हुएों को मिला, और शेष लोग कटोरे किए गए हैं। ८ जैसा लिखा है, कि परमेश्वर ने उन्हें प्राज के दिन नवः भारी मीद में डाल रखा * है और ऐसी प्रांयें दी जा न देखें और ऐसे जान जो न मुनें। ९ और दाऊद कहता है, उन का भोजन उन के लिये जान और फन्दा, और टोकर और दगड का कारण हो जाए। १० उन की प्रांयों पर ग्रन्धेरा छा जाए, नाकि न देखें, और तू मदा उन की पीठ की भूवाए रख। ११ सो मैं कहता हूँ क्या उन्हें ने इसलिये ठोकर खाई, कि गिर पड़ें? कदापि नहीं: परन्तु उन के गिरने के कारण अन्यजातियों को उद्धार मिला, कि उन्हें जलन † हों। १२ सो यदि उन का गिरना जगत के लिये धन और उन की घटी अन्यजातियों के लिये मर्णाति का कारण हुआ, तो उन की भगपूरी से कितना न होगा ॥

१३ मैं तुम अन्यजातियों से यह बातें कहता हूँ: जब कि मैं अन्यजातियों के लिये प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की वड़ाई करता हूँ। १४ नाकि किसी रीति से मैं अपने कुटुम्बियों से जलन † करवाकर उन में से कई एक का उद्धार कराऊँ। १५ क्योंकि जब कि उन का त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उन का प्रहण किया जाना मरे हुएों में से जी उठने के बराबर न होगा? १६ जब भेंट का पहिला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुंधा हुआ घ्राटा भी पवित्र है: और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालिया भी ऐसी ही हैं। १७ और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई,

* यू० भारी नीड का आत्मा दिया।

† या उत्साह, ईर्ष्या, घैरत।

घोर तू जगली जलपाई हांकर उन में * साटा गया, घोर जलपाई की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। १८ तो डालियो पर घमण्ड न करना : घोर यदि तू घमण्ड करे, तो जान रख, कि तू जड़ को नहीं, परन्तु जड़ तुझे सम्भालती है। १९ फिर तू कहेगा डालियां इसलिये तोड़ी गई, कि मैं साटा जाऊँ। २० भला, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गईं, परन्तु तू विश्वास से बना रहता है इसलिये अभिमानो न हो, परन्तु भय कर। २१ क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी, तो तुझे भी न छोड़ेगा। २२ इसलिये परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख ! जो गिर गए, उन पर कड़ाई, परन्तु तुझ पर कृपा, यदि तू उस में बना रहे, नहीं तो, तू भी काट डाला जाएगा। २३ घोर वे भी यदि अविश्वास में न रहें, तो साटे जाएंगे क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। २४ क्योंकि यदि तू उम जलपाई से, जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध प्र-क्षी जलपाई में साटा गया तो वे जो स्वाभाविक डालियां हैं, अपने ही जलपाई में साटे क्यों न जाएंगे ॥

२५ हे भाइयो, कहीं ऐसा न हो, कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो; इसलिये मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद में अनजान रहो, कि जब तक अन्यजातियां पूरी रीति से प्रवेश न कर लें, तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा : २६ और इस रीति से माग इस्राएल उदार पाएगा; जैसा लिखा है, कि छुड़ाने-वाला मिस्रियन में आएगा, और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। २७ और उन के

साथ मेरी यही वाचा होगी, जब कि मैं उन के पापों को दूर कर दूँगा। २८ वे मुममाचार के भाव से तो तुम्हारे बंदी हैं, परन्तु बुन लिए जाने के भाव से बापदावों के प्यारे हैं। २९ क्योंकि परमेश्वर अपने बरदानों से, और बुलाहट से कभी पीछे नहीं हटता। ३० क्योंकि जैसे तुम ने पहिले परमेश्वर की आज्ञा न मानी परन्तु अभी उन के आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई। ३१ वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है इस से उन पर भी दया हो। ३२ क्योंकि परमेश्वर ने सब को आज्ञा न मानने के कारण बन्द कर रखा ताकि वह सब पर दया करे ॥

३३ आहा ! परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है ! उसके विचार कैसे अघाह, और उसके मांग कैसे अगम हैं ! ३४ प्रभु की बुद्धि को किस ने जाना ? या उसका मंत्री कौन हुआ ? ३५ या किस ने पहिले उसे कुछ दिया है जिम का बदला उसे दिया जाए। ३६ क्योंकि उस की ओर से, और उसी के द्वारा, और उसी के लिये सब कुछ है : उम की महिमा युगानुयुग होती रहे : प्रामोद ॥

१२

इसलिये हे भाइयो, मैं तुम से परमेश्वर की दया स्मरण दिला कर बिनती करता हूँ, कि अपने शरीरों को जीवित, और पवित्र, और परमेश्वर को भावना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ : यही तुम्हारी आत्मिक * सेवा है। २ और इस समार के सद्ग न बनो; परन्तु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल-चलन भी बदलना जाए, जिस से तुम परमेश्वर की

भली, और भावती, और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो ॥

३ क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझ को मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ, कि जैसा समझना चाहिए, उस से बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही मुबुद्धि के साथ अपने को समझे। ४ क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। ५ वैसे ही हम जो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। ६ और जब कि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न बरदान मिले हैं, तो जिस को भविष्यद्वाणी का दान मिला हो, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यद्वाणी करे। ७ यदि सेवा करने का दान मिला हो, तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखानेवाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। ८ जो उपदेशक हो, वह उपदेश देने में लगा रहे; दान देनेवाला उदारता * से दे, जो अगुआई करे, वह उत्साह से करे, जो दया करे, वह हर्ष से करे। ९ प्रेम निष्कपट हो; बुराई से घृणा करो; भलाई में लगे रहो। १० भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे पर मया रखो; परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। ११ प्रयत्न करने में आलसी न हो; आत्मिक उन्माद में भरे रहो; प्रभु की सेवा करते रहो। १२ आशा में आनन्दित रहो; क्लेश में स्थिर रहो; प्रार्थना में नित्य लगे रहो। १३ पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो, उस में उन की सहायता करो; पहुँचाई करने में लगे रहो।

* या सिधाई।

१४ अपने सतानेवालों को आशीष दो; आशीष दो स्राप न दो। १५ आनन्द करनेवालों के साथ आनन्द करो; और रोनेवालों के साथ रोमो। १६ आपस में एक सा मन रखो; अभिमानी न हो; परन्तु दीनों के साथ संगति रखो; अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न हो। १७ बुराई के बदले किसी से बुराई न करो; जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उन की चिन्ता क्रिया करो। १८ जहाँ तक हो सके, तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। १९ ह प्रियो अपना पलटा न लेना; परन्तु क्रोध * को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। २० परन्तु यदि तेरा बैरी भूखा हो, तो उसे खाना खिला; यदि प्यासा हो, तो उसे पानी पिला; क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। २१ बुराई से न हारो परन्तु भलाई से बुराई को जीत लो ॥

१३ हर एक व्यक्ति प्रधान अधि-कारियों के आधीन रहे; क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, जो परमेश्वर की ओर से न हो; और जो अधिकार है, वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। २ इस से जो कोई अधिकार का विरोध करता है, वह परमेश्वर की विधि का साम्हना करता है, और साम्हना करनेवाले दण्ड पाएंगे। ३ क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, परन्तु बुरे काम के लिये डर का कारण है; सो यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है, तो अच्छा काम कर और उस की ओर से तेरी सराहना होगी; ४ क्योंकि वह तेरी

* या परमेश्वर का क्रोध।

भलाई के लिये परमेश्वर का सेवक है। परन्तु यदि तू बुराई करे, तो डर; क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है; कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करनेवाले को दण्ड दे। ५ इसलिये आधीन रहना न केवल उस क्रोध से परन्तु डर से अवश्य है, बरन विवेक * भी यही गवाही देता है। ६ इसलिये कर भी दो, क्योंकि वे परमेश्वर के सेवक हैं, और सदा इसी काम में लगे रहते हैं। ७ इसलिये हर एक का हक्क चुकाया करो, जिसे कर चाहिए, उसे कर दो; जिसे महसूल चाहिए, उसे महसूल दो; जिस से डरना चाहिए, उस से डरो, जिस का आदर करना चाहिए उसका आदर करो ॥

८ आप्रम के प्रेम को छोड़ और किसी वान में किसी के कर्जदार न हो; क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है, उसी ने व्यवस्था पूरी की है। ९ क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना; चोरी न करना, लालच न करना; और उन को छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सब का मारांग इस बात में पाया जाता है, कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। १० प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिये प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है ॥

११ और समय को पहिचान कर ऐसा ही करो, इसलिये कि अब तुम्हारे लिये नोद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है, क्योंकि जिस समय हम ने विश्वास किया था, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। १२ रात बहुत बीत गई है, और दिन निकलने पर है; इसलिये हम अन्धकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बान्ध

लें। १३ जैसा दिन को सोहता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें; न कि लीजा क्रीड़ा, और पियक्कड़पन, न व्यभिचार, और लुचपन में, और न भगड़े और डाह में। १४ बरन प्रभु यीशु मसीह को पहिन लो, और शरीर के अभिलाषों को पूरा करने का उपाय न करो ॥

१४ जो विश्वास में निबल है, उसे अपनी मंगति में ले लो; परन्तु उस की शंकाओं पर विवाद करने के लिये नहीं। २ क्योंकि एक को विश्वास है, कि सब कुछ खाना उचित है, परन्तु जो विश्वास में निबल है, वह साग पात ही खाना है। ३ और खानेवाला न-खानेवाले को तुच्छ न जाने, और न-खानेवाला खानेवाले पर दोष न लगाए; क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। ४ तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उमका स्थिर रहना या गिर जाना उमके स्वामी ही से सम्बन्ध रखता है, बरन वह स्थिर हो कर दिया जाएगा; क्योंकि प्रभु उमें स्थिर रख सकता है। ५ कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर जानता है, और कोई मत्र दिन एक सा जानता है: हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। ६ जो किसी दिन को मानता है, वह प्रभु के लिये मानता है: जो खाता है, वह प्रभु के लिये खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता, वह प्रभु के लिये नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। ७ क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिये जीता है और न कोई अपने लिये मरता है। ८ क्योंकि यदि हम जीवित हैं, तो प्रभु के लिये जीवित हैं; और यदि मरते हैं, तो प्रभु के लिये मरने हैं; सो हम जीए

* अर्थात् मन या कानश्रुत् ।

या मरें, हम प्रभु ही के हैं। ६ क्योंकि मसीह इसी लिये मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुआ और जीवनों, दोनों का प्रभु हो। १० तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के साम्हने खड़े होंगे। ११ क्योंकि लिखा है, कि प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सोच यह कि हर एक घटना मेरे साम्हने टिकेगा, और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगा। १२ सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा ॥

१३ सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के साम्हने ठेस या ठांकर खाने का कारण न रखे। १४ मैं जानता हूँ, और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है, कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परन्तु जो उस को अशुद्ध समझता है, उसके लिये अशुद्ध है। १५ यदि तेरा भाई तेरे भोजन के कारण उदाम होता है, तो फिर तू प्रेम की रीति से नहीं चलता: जिस के लिये मसीह मरा उस को तू अपने भोजन के द्वारा नाश न कर। १६ अब तुम्हारी भलाई की निन्दा न होने पाए। १७ क्योंकि परमेश्वर का राज्य खानापीना नहीं; परन्तु धर्म और मिलाप और वह आनन्द है; १८ जो पवित्र आत्मा से * होता है और जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, वह परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में ग्रहणयोग्य ठहरता है। १९ इसलिये हम उन बातों का प्रयत्न करें जिनमें मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो।

२० भोजन के लिये परमेश्वर का काम न बिगाड़: सब कुछ शुद्ध तो है, परन्तु उस मनुष्य के लिये बुरा है, जिस को उसके भोजन करने में ठोकर लगती है। २१ भला तो यह है, कि तू न मांस खाए और न दाल रस पीए, न और कुछ ऐसा करे, जिस में तेरा भाई ठोकर खाए। २२ तेरा जो विश्वास हो, उसे परमेश्वर के साम्हने अपने ही मन में रख: धन्य है वह, जो उस बात में, जिसे वह ठीक समझता है, अपने आप को दोषी नहीं ठहरता। २३ परन्तु जो मन्देह कर के खाता है, वह दण्ड के योग्य ठहर चुका: क्योंकि वह निश्चय धारणा से नहीं खाता, और जो कुछ विश्वास * से नहीं, वह पाप है ॥

१५ निदान हम बलवानों को चाहिए, कि निबन्धनों की निबन्धनाओं को मर्हें; न कि अपने आप को प्रसन्न करें। २ हम में से हर एक अपने पड़ासी को उस की भलाई के लिये मुधारने के निमित्त प्रसन्न करे। ३ क्योंकि मसीह ने अपने आप को प्रसन्न नहीं किया, पर जैसा लिखा है, कि तेरे निन्दकों की निन्दा मुझ पर आ पड़ी। ४ जिनकी बातें पहिले से लिखी गईं, वे हमारी ही शिक्षा के लिये लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र की शान्ति के द्वारा आशा रखें। ५ और धीरज, और शान्ति का दाता † परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे, कि मसीह योग्य के अनुसार आपस में एक मन रहो। ६ ताकि तुम एक मन और एक मुंह होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की बड़ाई करो। ७ इसलिये, जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिये तुम्हें ग्रहण

किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्रहण करो। ८ में कहता हूँ कि जो प्रतिज्ञाएं बापदादों को दी गई थी, उन्हें दृढ़ करने के लिये मसीह, परमेश्वर की सच्चाई का प्रमाण देने के लिये खतना किए हुए लोगों का सेवक बना। ९ और अन्यजाति भी दया के कारण परमेश्वर को बड़ाई करें; जैसा लिखा है; कि इमानिये में जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा, और तेरे नाम के भजन गाऊंगा। १० फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगो, उस की प्रजा के साथ प्रानन्द करो। ११ और फिर हे जाति जाति के सब लोगो, प्रभु की स्तुति करो: और हे राज्य राज्य के सब लोगो: उम मरगो। १२ और फिर यशायाह कहता है, कि यिरी की एक जड़ प्रगट होगी, और अन्यजातियों का हाकिम होने के लिये एक उठेगा, उम पर अन्यजातियां प्राशा रखेंगी। १३ मो परमेश्वर जो प्राशा का दाता * है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के प्रानन्द और शान्ति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र प्रान्मा की मामर्थ में तुम्हारी प्राशा बढ़ती जाए।।

१४ हे मेरे भाइयो: मैं आप भी तुम्हारे विषय में निश्चय जानता हूँ, कि तुम भी आप ही भलाई से भरे और ईश्वरीय जान में भरपूर हो और एक दूसरे को चिन्ता मरने हो। १५ तोभी मैं ने कही कही याद दिलाने के लिये तुम्हें जो बहुत हियाब करके लिखा, यह उस अनुग्रह के कारण हुआ, जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। १६ कि मैं अन्यजातियों के लिये मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुममाचार की सेवा याजक की नाई करूँ; जिस सं अन्यजातियों

का मानो चढ़ाया जाना, पवित्र प्रान्मा से पवित्र बनकर प्रहण किया जाए। १७ सो उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, मैं मसीह यीशु में बड़ाई कर सकता हूँ। १८ क्योंकि उन बातों को छोड़ मुझे और किसी बात के विषय में कहने का हियाब नहीं, जो मसीह ने अन्यजातियों की प्रधीनता के लिये वचन, और कर्म। १९ और चिन्हों और प्रदभुत कामों की मामर्थ से, और पवित्र प्रान्मा की मामर्थ से मेरे ही द्वारा किए: यहां तक कि मैं ने यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुममाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। २० पर मेरे मन की उमंग यह है, कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया, वहीं सुममाचार सुनाऊँ; ऐसा न हो, कि दूसरे की नेव पर घर बनाऊँ। २१ परन्तु जैसा लिखा है, वंसा ही हो, कि जिन्हें उमका सुममाचार नहीं पहुंचा, वे ही देखेंगे और जिन्होंने नहीं सुना वे ही ममभेगे।।

२२ इसी लिये मैं तुम्हारे पास प्राने में बार बार रुका रहा। २३ परन्तु अब मुझे इन देशों में और जगह नहीं रही, और बहुत वर्षों में मुझे तुम्हारे पास प्राने की लालसा है। २४ इसलिये जब इमपानिया का जाऊंगा तो तुम्हारे पास होता हुआ जाऊंगा क्योंकि मुझे प्राशा है, कि उम यात्रा में तुम से भेंट करूँ, और जब तुम्हारी संगति में मेरा जी कुछ भर जाए, तो तुम मुझे कुछ दूर प्रागे पहुंचा दो। २५ परन्तु अभी तो पवित्र लोगों की सेवा करने के लिये यरूशलेम को जाता हूँ। २६ क्योंकि मकिदुनिया और प्रथया के लोगों को यह प्रच्छा लगा, कि यरूशलेम के पवित्र लोगों के कंगानों के लिये कुछ चन्दा करें।

२७ अच्छा तो लगा, परन्तु वे उन के कर्जदार भी हैं, क्योंकि यदि अन्यजाति उन की आत्मिक बातों में भागी हुए, तो उन्हें भी उचित है, कि शारीरिक बातों में उन की सेवा करें। २८ सो मैं यह काम पूरा करके और उन को यह चन्दा सौंपकर तुम्हारे पास होता हुआ इमपानिया को जाऊंगा। २९ और मैं जानता हूँ, कि जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तो मसीह की पूरी आशीष के साथ आऊंगा ॥

३०. और हे भाइयो; मैं यीशु मसीह का जो हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिला कर, तुम से बिनती करता हूँ, कि मेरे लिये परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ मिलकर लौलीन रहो। ३१ कि मैं यहूदिया के अब्रिसवागियों से बचा रहूँ, और मेरी वह सेवा जो यरूशलेम के लिये है, पवित्र लोगों को भाए। ३२ और मैं परमेश्वर की इच्छा में तुम्हारे पास आनन्द के साथ आकर तुम्हारे साथ विश्राम पाऊँ। ३३ ज्ञान्ति का परमेश्वर तुम सब के साथ रहे। आमीन ॥

१६ मैं तुम ने फोत्रे की, जो हमारी बहिन और किश्रिया की कलीसिया की सेविका है, बिनती करता हूँ। २ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए, उसे प्रभु में ग्रहण करो; और जिस किमी बात में उम को तुम से प्रयोजन हो, उम की सहायता करो; क्योंकि वह भी बहुतों की बरन मेरी भी उपकारिणी हुई है ॥

३ प्रिमका और अब्रिवला को जो यीशु में मेरे सहकर्मी है, नमस्कार। ४ उन्होंने ने मेरे प्राण के लिये अपना ही मिर दे रखा था और केवल मैं ही नहीं, बरन अन्य-जानियों की मारी कलीमियाएँ भी उन का

धन्यवाद करती हैं। ५ और उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उन के घर में है। मेरे प्रिय इपैनिनुस को जो मसीह के लिये आसिया का पहिला फल है, नमस्कार। ६ मरियम को जिस ने तुम्हारे लिये बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। ७ अन्दुनीकुस और यूनियास को जो मेरे कुटुम्बी हैं, और मेरे साथ कँद हुए थे, और प्रेरितों में नामी हैं, और मुझ से पहिले मसीह में हुए थे, नमस्कार। ८ अम्पलियातुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय है, नमस्कार। ९ उरवानुस को, जो मसीह में हमारा सहकर्मी है, और मेरे प्रिय इस्तखुम को नमस्कार। १० अपिल्लेस को जो मसीह में खरा निकला, नमस्कार। अरिस्तुबलुस के घराने को नमस्कार। ११ मेरे कुटुम्बी हेरो-दियोन को नमस्कार। नरकिस्तुस के घराने के जो लोग प्रभु में हैं, उन को नमस्कार। १२ त्रूफना और त्रूफोसा को जो प्रभु में परिश्रम करती हैं, नमस्कार। प्रिया पिर-सिम को जिस ने प्रभु में बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। १३ रूफुस को जो प्रभु में चुना हुआ है, और उम की माता जो मेरी भी है, दांतों को नमस्कार। १४ अमुक्तिनुम और फिनगोन और हिमम और पत्रुवाम और हिमांम और उन के साथ के भाइयों को नमस्कार। १५ फिलुलुगुस और यूनिया और नेयूस और उम की बहिन, और उलुम्पास और उन के साथ के सब पवित्र लोगों को नमस्कार। १६ आपस में पवित्र चुम्बन में नमस्कार करो: तुम को मसीह की मारी कलीमियाओं की और से नमस्कार ॥

१७ अब हे भाइयों, मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि जो लोग उम शिक्षा के विपरीत जो तुम ने पाई है, फूट पड़ने, और ठोकर

खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो; और उन से दूर रहो। १८ क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं, परन्तु अपने पेट की सेवा करते हैं; और चिकनी चुपड़ी बातों में सीधे सादे मन के लोगों को वहका देने हैं। १९ तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिये मैं तुम्हारे विषय में आनन्द करता हूँ; परन्तु मैं यह चाहता हूँ, कि तुम भलाई के लिये बुद्धिमान, परन्तु बुराई के लिये भोले बने रहो! २० शान्ति का परमेश्वर शंतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा ॥

हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होना रहे* ।

२१ तीमुथियुस मेरे सहकर्मी का, और लूकियुस और यासोन और सोसिपत्रुस मेरे

* यह वाक्य पहिले २४ पद गिना जाता था सब मे पुराने हस्तलेखों में इसी जगह लिखा हुआ है।

कुटुम्बियों का, तुम को नमस्कार। २२ मुझ पत्नी के लिखनेवाले तिरतियुस का प्रभु मैं तुम को नमस्कार। २३ गयुस का जो मेरी और कलीसिया का पहुनाई करनेवाला है उसका तुम्हें नमस्कार: इरास्तुस जो नगर का भण्डारी है, और भाई क्वारतुस का, तुम को नमस्कार* ॥

२५ अब जो तुम को मेरे सुसमाचार अर्थात् यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा। २६ परन्तु अब प्रगट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है, कि वे विश्वास से आज्ञा माननेवाले हो जाएं। २७ उसी अद्वैत बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन ॥

* देखो २० पद को।

कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री

१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिये बुलाया गया और भाई सोस्थिनेस की ओर से। २ परमेश्वर की उम कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात् उन के नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, और पवित्र होने के लिये बुलाए गए हैं; और उन सब के नाम भी जो हर

जगह हमारे ओर अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं ॥

३ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

४ मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिये कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह

यीशु में हुआ। ५ कि उस में होकर तुम हर बात में अर्थात् सारे बचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। ६ कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। ७ यहां तक कि किसी बरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने की वाट जोहते रहते हो। ८ वह तुम्हें मन्त तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। ९ परमेश्वर सच्चा * है; जिस ने तुम को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है ॥

१० हे भाइयो, मैं तुम से यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है उसके नाम के द्वारा बिनती करता हूँ, कि तुम सब एक ही बात कहो; और तुम में फूट न हो, परन्तु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। ११ क्योंकि हे मेरे भाइयो, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है, कि तुम में भगड़े हो रहे हैं। १२ मेरा कहना यह है, कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई प्रपुल्लस का, कोई कैफा का, कोई मसीह का कहता है। १३ क्या मसीह बट गया? क्या पौलुस तुम्हारे लिये क्रूस पर चढ़ाया गया? या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? १४ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि क्रिस्तुम और गयुम को छोड़, मैं ने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। १५ कहीं ऐसा न हो, कि कोई कहे, कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। १६ और मैं ने स्तिफनाम के घराने को भी बपतिस्मा दिया; इन को छोड़, मैं नहीं जानता कि मैं ने और किसी

को बपतिस्मा दिया। १७ क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, बरन मुसमानार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा न हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे ॥

१८ क्योंकि क्रूस की क्या नाश होने-वालों के निकट मूर्खता है, परन्तु हम उद्धार पानेवालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। १९ क्योंकि लिखा है, कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूँगा, और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। २० कहाँ रहा ज्ञानवान? कहाँ रहा शास्त्री? कहाँ इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? २१ क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा, कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वाम करनेवालों को उद्धार दे। २२ यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, और यूनानी ज्ञान की खोज में हैं। २३ परन्तु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण, और धन्यजातियों के निकट मूर्खता है। २४ परन्तु जो बुलाए हुए हैं क्या यहूदी, क्या यूनानी, उन के निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य, और परमेश्वर का ज्ञान है। २५ क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है; और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है ॥

२६ हे भाइयो, अपने बुलाए जाने को तो सोचो, कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, और न बहुत सामर्थी, और न बहुत कुनीन बुलाए गए। २७ परन्तु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया

है, कि ज्ञानवानों को लज्जित करे; और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, कि बलवानों को लज्जित करे। २८ और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, बरन जो हैं भी नहीं उन को भी चुन लिया, कि उन्हें जो हैं, व्यर्थ ठहराए। २९ ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के साम्हने घमण्ड न करने पाए। ३० परन्तु उसी की और से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की और से हमारे लिये ज्ञान ठहरा प्रयात् धर्म, और पवित्रता, और छुटकारा। ३१ ताकि जैसा लिखा है, वंसा ही हो, कि जो घमण्ड करे वह प्रभु में घमण्ड करे ॥

२ और हे भाइयो, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, तो बचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। २ क्योंकि मैं ने यह ठान लिया था, कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह, बरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूँ। ३ और मैं निर्बलता और भय के साथ, और बहुत धरधराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। ४ और मेरे बचन, और मेरे प्रचार में ज्ञान की सुभानेवाली बातें नहीं; परन्तु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। ५ इसलिये कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परन्तु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो ॥

६ फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं: परन्तु इस संसार का और इस संसार के नाश होनेवाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। ७ परन्तु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिये ठहराया। ८ जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि

यदि जानते, तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। ९ परन्तु जैसा लिखा है, कि जो धांस ने नहीं देखी, और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ीं, वे ही हैं, जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने-वालों के लिये तैयार की हैं। १० परन्तु परमेश्वर ने उन को अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रगट किया; क्योंकि आत्मा सब बातें, बरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। ११ मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उस में है? वैसी ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। १२ परन्तु हम ने संसार की आत्मा नहीं, परन्तु वह आत्मा पाया है, जो परमेश्वर की और से है, कि हम उन बातों को जानें, जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। १३ जिन को हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परन्तु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातें आत्मिक बातों से मिला मिलाकर सुनाते हैं। १४ परन्तु शारीरिक * मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उस की दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है क्योंकि उन की जांच आत्मिक रीति से होती है। १५ आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परन्तु वह प्राप किसी से जांचा नहीं जाता। १६ क्योंकि प्रभु का मन किस ने जाना है, कि उसे सिखलाए? परन्तु हम में मसीह का मन है ॥

३ हे भाइयो, मैं तुम से इस रीति से बातें न कर सका, जैसे आत्मिक लोगों से; परन्तु जैसे शारीरिक लोगों से, और

उन से जो मसीह में बालक हैं। २ में ने तुम्हें दूध-पिलाया, अन्न न खिलाया; क्योंकि तुम उस को न खा सकते थे; बरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। ३ क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिये कि जब तुम में डाह और भगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? और मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ४ इसलिये कि जब एक कहता है, मैं पोलुस का हूँ, और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? ५ अपुल्लोस क्या है? और पोलुस क्या? केवल सेवक, जिन के द्वारा तुम ने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया। ६ में ने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परन्तु परमेश्वर ने बढ़ाया। ७ इसलिये न तो लगानेवाला कुछ है, और न सींचनेवाला, परन्तु परमेश्वर जो बढ़ानेवाला है। ८ लगानेवाला और सींचनेवाला दोनों एक हैं; परन्तु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। ९ क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं; तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो।

१० परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, जो मुझे दिया गया, मैं ने बुद्धिमान राजमिस्त्री की नाई नेव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है; परन्तु हर एक मनुष्य चौकस रहे, कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। ११ क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, और वह यीशु मसीह है: कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। १२ और यदि कोई इस नेव पर सोना या चान्दी या बट्टमोल पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। १३ तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा; क्योंकि वह दिन उसे बताएगा; इसलिये कि भाग के साथ प्रगट

होगा: और वह भाग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है? १४ जिस का काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। १५ और यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा; पर वह भाग बच जाएगा परन्तु जलते जलते।

१६ क्या तुम नहीं जानते, कि तुम परमेश्वर का मन्दिर * हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में बास करता है? १७ यदि कोई परमेश्वर के मन्दिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा; क्योंकि परमेश्वर का मन्दिर पवित्र है, और वह तुम हो।

१८ कोई अपने भाग को धोखा न दे: यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने भाग को शानी समझे, तो मूर्ख बने; कि शानी हो जाए। १९ क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है; कि वह शानियों को उन की चतुराई में फंसा देता है। २० और फिर प्रभु शानियों की चिन्ताओं को जानता है, कि व्यर्थ हैं। २१ इसलिये मनुष्यों पर कोई घमण्ड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। २२ क्या पोलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, २३ और तुम मसीह के हो, और मसीह परमेश्वर का है।

४ मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भण्डारी समझे। २ फिर यहां भण्डारी में यह बात देखी जाती है, कि विश्वास योग्य निकले। ३ परन्तु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है, कि तुम या मनुष्यों का कोई न्यायी मुझे

* यू० पवित्रस्थान।

परखें, बरन में आप ही अपने आप को नहीं परखता। ४ क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परन्तु इस से मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने-वाला प्रभु है। ५ सो जब तक प्रभु न आए, समय से पहिले किसी बात का न्याय न करो : वही तो अन्धकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा, और मनो की मतियों को प्रगट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी ॥

६ हे भाइयो, मैं ने इन बातों में तुम्हारे लिये अपनी और अपुल्लोस की चर्चा, दृष्टान्त की रीति पर की है, इसलिये कि तूम हमारे द्वारा यह सीखो, कि लिखे हुए से भागे न बढ़ना, और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व न करना। ७ क्योंकि तुम्हें और दूसरे में कौन भेद करता है ? और तेरे पास क्या है जो तू ने (दूसरे से) नहीं पाया : और जब कि तू ने (दूसरे से) पाया है, तो ऐसा घमण्ड क्यों करता है, कि मानो नहीं पाया ? ८ तुम तो तृप्त ही चुके ; तुम धनी हो चुके, तुम ने हमारे बिना राज्य किया ; परन्तु भला होता कि तुम राज्य करते कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। ९ मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों की नाई ठहराया है, जिन की मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो ; क्योंकि हम जगत और स्वर्ग-दूतों और मनुष्यों के लिये एक तमाशा ठहरे हैं। १० हम मसीह के लिये मूर्ख हैं ; परन्तु तुम मसीह में बुद्धिमान हो : हम निर्बल हैं परन्तु तुम बलवान हो : तुम आदर पाते हो, परन्तु हम निरादर होते हैं। ११ हम इस घड़ी तक भूखे-प्यासे और नष्ट हैं, और घूसे खाते हैं और मारे मारे फिरते हैं ; और अपने ही हाथों के काम करके परिश्रम

करते हैं। १२ लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं ; वे सताते हैं, हम सहते हैं। १३ वे बदनाम करते हैं, हम बिनती करते हैं : हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खुरचन की नाई ठहरे हैं ॥

१४ मैं तुम्हें लज्जित करने के लिये ये बातें नहीं लिखता, परन्तु अपने प्रिय बालक जानकर उन्हें चिताता हूँ। १५ क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखानेवाले दस हजार भी होते, तभी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हुआ। १६ सा मैं तुम से बिनती करता हूँ, कि मेरी सी चाल चलो। १७ इसलिये मैं ने तीमुथियुस को जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वासयोग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है, और वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर एक कलीसिया में उपदेश करता हूँ। १८ कितने तो ऐसे फूल गए हैं, मानों मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं। १९ परन्तु प्रभु चाहे तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, और उन फूलें हुआँ की बातों को नहीं, परन्तु उन की सामर्थ्य को जान लूंगा। २० क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परन्तु सामर्थ्य में है। २१ तुम क्या चाहते हो ? क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊँ या प्रेम और नम्रता की आत्मा के साथ ?

५ यहाँ तक मुनने में आता है, कि तुम में व्यभिचार होता है, बरन ऐसा व्यभिचार जो अन्वजातियों में भी नहीं होता, कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। २ और तुम शोक तो नहीं करते, जिस से ऐसा काम करनेवाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परन्तु घमण्ड

करते हो। ३ मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परन्तु प्रात्मा के भाव में तुम्हारे साथ होकर, मानो उपस्थिति की दशा में ऐसे काम करनेवाले के विषय में यह आज्ञा दे चुका हूँ। ४ कि जब तुम, धीरे धीरे प्रात्मा, हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ्य के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य, हमारे प्रभु यीशु के नाम से। ५ शरीर के विनाश के लिये शतान को सौंपा जाए, ताकि उस की प्रात्मा प्रभु यीशु के दिन में उद्धार पाए। ६ तुम्हारा घमण्ड करना अच्छा नहीं; क्या तुम नहीं जानते, कि थोड़ा सा खमीर पूरे गूँधे हुए आटे को खमीर कर देता है। ७ पुराना खमीर निकाल कर, अपने आप को शुद्ध करो: कि नया गूँधा हुआ आटा बन जाओ; ताकि तुम भ्रष्टमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसोह है, बलिदान हुआ है। ८ सो आओ, हम उत्सव में ध्यानन्द मनावें, न तो पुराने खमीर से धीरे न बुराई धीरे दुष्टता के खमीर से, परन्तु सीधे धीरे सच्चाई की प्रसमीरी गेटी से ॥

९ मैं ने अपनी पत्नी में तुम्हें चिन्ता है, कि व्यभिचारियों की संगति न करना। १० यह नहीं, कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों, या लोभियों, या अन्धे करनेवालों, या मूर्तिपूजकों की संगति न करो; क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। ११ मेरा कहना यह है; कि यदि कोई भाई कहलाकर, व्यभिचारी, या लोभी, या मूर्तिपूजक, या गाली देनेवाला, या पियककड़, या अन्धे करनेवाला हो, तो उस की संगति मत करना; बरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी न खाना। १२ क्योंकि मुझे बाहरवालों का न्याय करने से क्या काम? क्या तुम

भीतरवालों का न्याय नहीं करते? १३ परन्तु बाहरवालों का न्याय परमेश्वर करता है: इसलिये उस कुकर्मों को अपने बीच में से निकास दो ॥

६ क्या तुम में से किसी को यह हियाब है, कि जब दूसरे के साथ भगड़ा हो, तो फेमले के लिये धर्मियों के पास जाए; धीरे धीरे लोगों के पास न जाए? २ क्या तुम नहीं जानते, कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? सो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है, तो क्या तुम छोटे से छोटे भगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? ३ क्या तुम नहीं जानते, कि हम स्वगंदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें? ४ सो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बँठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? ५ मैं तुम्हें लज्जित करने के लिये यह कहना हूँ: क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता, जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? ६ बरन भाई भाई में मुकदमा होता है, धीरे वह भी धर्मियों के मामूले। ७ परन्तु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है, कि आपस में मुकदमा करते हो; बरन धन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? ८ बरन धन्याय करते धीरे हानि पहुंचाते हो, धीरे वह भी भाइयों को। ९ क्या तुम नहीं जानते, कि धन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के चारित न होंगे? घोषा न लाओ, न बेध्यागामी, न मूर्तिपूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी। १० न खोर, न लोभी, न पियककड़, न गाली देनेवाले, न अन्धे करनेवाले परमेश्वर के राज्य के चारित होंगे।

११ और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परन्तु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए, और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे ॥

१२ सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तुएं लाभ की नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिये उचित हैं, परन्तु मैं किसी बात के प्राधीन न हूंगा। १३ भोजन पेट के लिये, और पेट भोजन के लिये है, परन्तु परमेश्वर इस को और उस को दोनों को नाश करेगा, परन्तु वेह व्यभिचार के लिये नहीं, बरन प्रभु के लिये; और प्रभु देह के लिये है।

१४ और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया, और हमें भी जिलाएगा।

१५ क्या तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह मसीह के धंग है? सो क्या मैं मसीह के धंग लेकर उन्हें वेदया के धंग बनाऊं? कदापि नहीं। १६ क्या तुम नहीं जानते, कि जो कोई वेदया से संगति करता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है क्योंकि वह कहता है, कि वे दोनों एक तन होंगे।

१७ और जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है।

१८ व्यभिचार से बचे रहो: जितने और पाप मनुष्य करता है, वे देह के बाहर हैं, परन्तु व्यभिचार करनेवाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। १९ क्या तुम नहीं जानते, कि तुम्हारी देह पवित्रात्मा का मन्दिर * है; जो तुम में बसा हुआ है, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? २० क्योंकि दाम देकर मोल लिये गए हो, इसलिये अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो ॥

७ उन बातों के विषय में जो तुम ने लिखीं, यह अच्छा है, कि पुरुष स्त्री को न छूए। २ परन्तु व्यभिचार के हर से हर एक पुरुष की पत्नी, और हर एक स्त्री का पति हो। ३ पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे; और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। ४ पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है; वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परन्तु पत्नी को। ५ तुम एक दूसरे से भलग न रहो; परन्तु केवल कुछ समय तक प्रापस की सम्मति से कि प्रायणा के लिये अवकाश मिले, और फिर एक साथ रहो, ऐसा न हो, कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ६ परन्तु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है न कि आज्ञा। ७ मैं यह चाहता हूँ, कि जैसा मैं हूँ, वैसा ही सब मनुष्य हों; परन्तु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं; किसी को किसी प्रकार का, और किसी को किसी और प्रकार का ॥

८ परन्तु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ, कि उन के लिये ऐसा ही रहना अच्छा है, जैसा मैं हूँ। ९ परन्तु यदि वे संयम न कर सकें, तो विवाह करें; क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। १० जिन का ब्याह हो गया है, उन को मैं नहीं, बरन प्रभु आज्ञा देता है, कि पत्नी अपने पति से भलग न हो। ११ (और यदि भलग भी हो जाए, तो बिन दूसरा ब्याह किए रहे; या अपने पति से फिर मेल कर लें) और न पति अपनी पत्नी को छोड़े। १२ दूसरों से प्रभु नहीं, परन्तु मैं ही कहता हूँ, यदि किसी भाई की पत्नी विश्राम न रखती हो, और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, तो वह उसे न

* यू० पवित्रस्नान।

छोड़े। १३ और जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो, और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो; वह पति को न छोड़े।

१४ क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती, पति के कारण पवित्र ठहरती है; नहीं तो तुम्हारे लड़केवाले अशुद्ध होते, परन्तु अब तो पवित्र हैं। १५ परन्तु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता, यदि वह भ्रमल हो, तो भ्रमल होने दो, ऐसी दशा में कोई भाई या बहिन बन्धन में नहीं; परन्तु परमेश्वर ने तो हमें मेल मिलाप के लिये बुलाया है। १६ क्योंकि हे स्त्री, तू क्या जानती है, कि तू अपने पति का उद्धार करा ले? और हे पुरुष, तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा ले? १७ पर जैसा प्रभु ने हर एक को बांटा है, और जैसा परमेश्वर ने हर एक को बुलाया है; वंसा ही वह चले: और में सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ।

१८ जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो, वह खतनारहित न बने: जो खतनारहित बुलाया गया हो, वह खतना न कराए।

१९ न खतना कुछ है, और न खतनारहित परन्तु परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। २० हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो, उसी में रहे। २१ यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिन्ता न कर; परन्तु यदि तू स्वतंत्र हो सके, तो ऐसा ही काम कर। २२ क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है, वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है: और वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है, वह मसीह का दास है। २३ तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के पास न बनो। २४ हे भाइयो, जो कोई

जिस दशा में बुलाया गया हो, वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे ॥

२५ कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परन्तु विश्वास-योग्य होने के लिये जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है, उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ।

२६ सो मेरी समझ में यह अच्छा है, कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है, वंसा ही रहे। २७ यदि तेरे पत्नी है, तो उस से भ्रमल होने का यत्न न कर: और यदि तेरे पत्नी नहीं*, तो पत्नी की खोज न कर: २८ परन्तु यदि तू व्याह भी करे, तो पाप नहीं; और यदि कुंवारी व्याही जाए तो कोई पाप नहीं; परन्तु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और में बचाना चाहता हूँ।

२९ हे भाइयो, मैं यह कहता हूँ, कि समय कम किया गया है, इसलिये चाहिए कि जिन के पत्नी हों, वे ऐसे हों मानो उन के पत्नी नहीं। ३० और रोनेवाले ऐसे हों, मानो रोते नहीं; और आनन्द करनेवाले ऐसे हों, मानो आनन्द नहीं करते; और मोल लेनेवाले ऐसे हों, कि मानो उन के पास कुछ है नहीं। ३१ और इस संसार के बरतनेवाले ऐसे हों, कि संसार ही के न हो लें †; क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। ३२ सो मैं यह चाहता हूँ, कि तुम्हें चिन्ता न हो: अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिन्ता में रहता है, कि प्रभु को क्योकर प्रसन्न रखे। ३३ परन्तु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिन्ता में रहता है, कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। ३४ विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है: अविवाहिता प्रभु की चिन्ता में रहती है,

* या यदि तू पत्नी से छूट गया है।

† यूं उसे अधिक न बतें।

कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परन्तु विवाहिता संसार की चिन्ता में रहती है, कि अपने पति को प्रसन्न रखे। ३५ यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिये, बरन इसलिये कि जैसा सोहता है, वैसा ही किया जाए; कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। ३६ और यदि कोई यह समझे, कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक्क मार रहा हूँ, जिस की जवानी ढल चली है, और प्रयोजन भी होए, तो जैसा चाहे, वैसा करे, इस में पाप नहीं, वह उसका ब्याह होने दे *। ३७ परन्तु जो मन में दृढ़ रहता है, और उस को प्रयोजन न हो, बरन अपनी इच्छा पूरी करने में अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो, कि मैं अपनी कुंवारी लड़की को बिन ब्याही रखूंगा, वह अर्च्छा करता है। ३८ सो जो अपनी कुंवारी का ब्याह कर देता है, वह अर्च्छा करता है, और जो ब्याह नहीं कर देता, वह और भी अर्च्छा करता है। ३९ जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है, तब तक वह उस से बन्धी हुई है, परन्तु जब उसका पति मर जाए, तो जिस से चाहे विवाह कर सकती है, परन्तु केवल प्रभु में। ४० परन्तु जैसी है यदि वैसी ही रहे, तो मेरे विचार में और भी घन्य है, और मैं समझता हूँ, कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है ॥

अब मूरतों के साम्हने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में—हम जानते हैं, कि हम सब को ज्ञान है : ज्ञान घमण्ड उत्पन्न करता है, परन्तु प्रेम से उन्नति होती है। २ यदि कोई समझे, कि मैं कुछ जानता

हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। ३ परन्तु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, तो उसे परमेश्वर पहिचानता है। ४ सो मूरतों के साम्हने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में—हम जानते हैं, कि मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं, और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। ५ यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, (जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं)। ६ तौभी हमारे निकट तो एक ही परमेश्वर है : अर्थात् पिता जिस की और से सब वस्तुएं हैं, और हम उसी के लिये हैं, और एक ही प्रभु है, अर्थात् यीशु मसीह जिस के द्वारा सब वस्तुएं हुई, और हम भी उसी के द्वारा हैं। ७ परन्तु सब को यह ज्ञान नहीं; परन्तु कितने तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूरतों के साम्हने बलि की हुई को कुछ वस्तु समझकर खाते हैं, और उन का विवेक * निर्बल होकर अशुद्ध होता है। ८ भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम न खाएं, तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं, तो कुछ लाभ नहीं। ९ परन्तु चौकस रहो, ऐसा न हो, कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिये ठोकर का कारण हो जाए। १० क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मन्दिर में भोजन करते देखे, और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के साम्हने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाब न हो जाएगा। ११ इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिस के लिये मसीह मरा नाश हो जाएगा। १२ सो भाइयों का अपराध

* यू० वे ब्याहे जाए।

* अर्थात् मन या कानश्नस।

करने से और उन के निर्बल विवेक * को चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। १३ इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए, तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, न हो कि मैं अपने भाई के ठोकर का कारण बनूं।

६ क्या मैं स्वतंत्र नहीं? क्या मैं प्रेरित नहीं? क्या मैं ने यीशु को जो हमारा प्रभु है, नहीं देखा? क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं? २ यदि मैं औरों के लिये प्रेरित नहीं, तोभी तुम्हारे लिये तो हूँ; क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई पर ध्याप हो। ३ जो मुझे जांचते हैं, उन के लिये यही मेरा उत्तर है। ४ क्या हमें खाने-पीने का अधिकार नहीं? ५ क्या हमें यह अधिकार नहीं, कि किसी मसीही बहिन को ब्याह कर के लिए फिरे, जैसा और प्रेरित और प्रभु के भाई और कंफा करते हैं? ६ या केवल मुझे और बरनबास को अधिकार नहीं कि कमाई करना छोड़ें। ७ कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है: कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उन का दूध नहीं पीता? ८ क्या मैं ये बातें मनुष्य ही की रीति पर बोलता हूँ? ९ क्या व्यवस्था भी यही नहीं कहती? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि दाएं में चलते हुए बैल का मुंह न बाधना: क्या परमेश्वर बैलों ही की चिन्ता करता है? या विशेष करके हमारे लिये कहता है। १० हां, हमारे लिये ही लिखा गया, क्योंकि उचित है, कि रोतनेवाला प्राशा से जोते, और दाबनेवाला भागी होने की प्राशा से दाबनी करे।

* अर्थात् मन या कानशुन्त।

११ सो जब कि हम ने तुम्हारे लिये आत्मिक वस्तुएं बोई, तो क्या यह कोई बड़ी बात है, कि तुम्हारी शारीरिक वस्तुओं की फसल काटें। १२ जब औरों का तुम पर यह अधिकार है, तो क्या हमारा इस से अधिक न होगा? परन्तु हम यह अधिकार काम में नहीं लाए; परन्तु सब कुछ सहते हैं, कि हमारे द्वारा मसीह के सुसमाचार की कुछ रोक न हो। १३ क्या तुम नहीं जानते कि जो पवित्र वस्तुओं की सेवा करते हैं, वे मन्दिर में से खाते हैं; और जो वेदी की सेवा करते हैं; वे वेदी के साथ भागी होते हैं? १४ इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया, कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, उन की जीविका सुसमाचार से हो। १५ परन्तु मैं इन में से कोई भी बात काम में न लाया, और मैं ने तो ये बातें इसलिये नहीं लिखीं, कि मेरे लिये ऐसा किया जाए, क्योंकि इस से तो मेरा मरना ही भला है; कि कोई मेरा घमण्ड व्यर्थ ठहराए। १६ और यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं, तो मेरा कुछ घमण्ड नहीं; क्योंकि यह तो मेरे लिये अवश्य है; और यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं, तो मुझे पर हाय। १७ क्योंकि यदि अपनी इच्छा से यह करता हूँ, तो मजदूरी मुझे मिलती है, और यदि अपनी इच्छा से नहीं करता, तोभी भगदारीपन मुझे सौंपा गया है। १८ सो मेरी कौन सी मजदूरी है? यह कि सुसमाचार सुनाने में मैं मसीह का सुसमाचार सेंट में कर दूं; यहां तक कि सुसमाचार में जो मेरा अधिकार है, उस को मैं पूरी रीति से काम में लाऊं। १९ क्योंकि सब से स्वतंत्र होने पर भी मैं ने अपने आप को सब का दास बना दिया है; कि अधिक लोगों को लींच लाऊं। २० मैं यहूदियों के

लिये यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं, जो लोग व्यवस्था के आधीन हैं उन के लिये मैं व्यवस्था के आधीन न होने पर भी व्यवस्था के आधीन बना, कि उन्हें जो व्यवस्था के आधीन हूँ, खींच लाऊं। २१ व्यवस्थाहीनों के लिये मैं (जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, परन्तु मसीह की व्यवस्था के आधीन हूँ) व्यवस्थाहीन सा बना, कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। २२ मैं निर्बलों के लिये निर्बल सा बना, कि निर्बलों को खींच लाऊं, मैं सब मनुष्यों के लिये सब कुछ बना हूँ, कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। २३ और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिये करता हूँ, कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। २४ क्या तुम नहीं जानते, कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परन्तु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो, कि जीतो। २५ और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझानेवाले मुकुट को पाने के लिये यह सब करते हैं, परन्तु हम तो उस मुकुट के लिये करते हैं, जो मुरझाने का नहीं। २६ इसलिये मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परन्तु बेठिकाने नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परन्तु उस की नाई नहीं जो हवा पीटता हुमा लड़ता है। २७ परन्तु मैं अपनी देह को मारता कूटता, और वश में लाता हूँ; ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके, मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहर्हूँ ॥

१० हे भाइयो, मैं नहीं चाहता, कि तुम इस बात से अज्ञात रहो, कि हमारे सब बापदादे बादल के नीचे थे, और सब के सब समुद्र के बीच से पार हों

गए। २ और सब ने बादल में, और समुद्र में, मूसा का बपतिस्मा लिया। ३ और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। ४ और सब ने एक ही आत्मिक जल पीया, क्योंकि वे उस आत्मिक चटान से पीते थे, जो उन के साथ-साथ चलती थी; और वह चटान मसीह था। ५ परन्तु परमेश्वर उन में के बहुतेरों से प्रसन्न न हुआ, इसलिये वे जङ्गल में डेर हो गए। ६ ये बातें हमारे लिये दृष्टान्त ठहरीं, कि जैसे उन्होंने ने सालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का सालच न करें। ७ और न तुम मूरत पूजनेवाले बनो; जैसे कि उन में से कितने बन गए थे, जैसा लिखा है, कि लोग खाने-पीने बैठे, और खेलने-कूदने उठे। ८ और न हम व्यभिचार करें; जैसा उन में से कितनों ने किया : और एक दिन में तेईस हजार मर गये। ९ और न हम प्रभु को परखें; जैसा उन में से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नाश किए गए। १० और न तुम कुड़कुड़ाओ, जिस रीति से उन में से कितने कुड़कुड़ाए, और नाश करनेवाले के द्वारा नाश किए गए। ११ परन्तु ये सब बातें, जो उन पर पड़ीं, दृष्टान्त की रीति पर थीं : और वे हमारी चिंताबनी के लिये जो जगत के अन्तिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। १२ इसलिये जो समझता है, कि मैं स्थिर हूँ, वह चौकस रहे; कि कहीं गिर न पड़े। १३ तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ें, जो मनुष्य के सहने से बाहर है; और परमेश्वर सच्चा * है : वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, बरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा; कि तुम सह सको ॥

१४ इस कारण, हे मेरे प्यारो मूर्ति पूजा से बचे रहो। १५ मैं बुद्धिमान जानकर, तुम से कहता हूँ : जो मैं कहता हूँ, उसे तुम परखो। १६ वह धन्यवाद का कटोरा, जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लोहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? १७ इसलिये, कि एक ही रोटी है सो हम भी जो बहुत हैं, एक देह है : क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। १८ जो शरीर के भाव से इस्त्राएली है, उन को देखो : क्या बलिदानों के खानेवाले वेदी के सहभागी नहीं? १९ फिर मैं क्या कहता हूँ? क्या यह कि मूरत का बलिदान कुछ है, या मूरत कुछ है? २० नहीं, बरन यह, कि धन्यजाति जो बलिदान करते हैं, वे परमेश्वर के लिये नहीं, परन्तु दुष्टात्माओं के लिये बलिदान करते हैं : और मैं नहीं चाहता, कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी हो। २१ तुम प्रभु के कटोरे, और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते ! तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के सामी नहीं हो सकते। २२ क्या हम प्रभु को रिम दिलाते हैं? क्या हम उस से शक्तिमान हैं?

२३ सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब लाभ की नहीं : सब वस्तुएं मेरे लिये उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। २४ कोई अपनी ही भलाई को न बूढ़े, बरन औरों की। २५ जो कुछ कस्ताइयों के यहां बिकता है, वह खाप्रो और विवेक * के कारण कुछ न पूछो। २६ क्योंकि पृथ्वी और उस की भरपूरी

प्रभु की है। २७ और यदि भविष्यवासियों में से कोई तुम्हें नेवता दे, और तुम जाना चाहो, तो जो कुछ तुम्हारे साम्हने रखा जाए, वही खाप्रो : और विवेक के कारण कुछ न पूछो। २८ परन्तु यदि कोई तुम-से कहे, यह तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, तो उसी बतानेवाले के कारण, और विवेक के कारण न खाप्रो। २९ मेरा मतलब, तेरा विवेक नहीं, परन्तु उस दूसरे का। भला, मेरी स्वतंत्रता दूसरे के विचार से क्यों परखी जाए : ३० यदि मैं धन्यवाद करके सामी होता हूँ, तो जिस पर मैं धन्यवाद करता हूँ, उसके कारण मेरी बदनामी क्यों होती है? ३१ सो तुम चाहे खाप्रो, चाहे पीप्रो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिये करो। ३२ तुम न यहूदियों, न यूनानियों, और न परमेश्वर की कलीसिया के लिये ठोकर के कारण बनो। ३३ जैसा मैं भी सब बातों में सब को प्रसन्न रखता हूँ, और अपना नहीं, परन्तु बहुतां का लाभ दूँता हूँ, कि वे उद्धार पाएं ॥

११ तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ ॥

२ हे भाइयो, मैं तुम्हें मराहता हूँ, कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो : और जो व्यवहार मैं ने तुम्हें सौंप दिए हैं, उन्हें धारण करते हो। ३ सो मैं चाहता हूँ, कि तुम यह जान लो, कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। और स्त्री का सिर पुरुष है : और मसीह का सिर परमेश्वर है। ४ जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है, वह अपने सिर का अपमान करता है। ५ परन्तु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती

है, वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुएडी होने के बराबर है। ६ यदि स्त्री ओढ़नी न ओढ़े, तो बाल भी कटा ले; यदि स्त्री के लिये बाल कटाना या मुएडाना लज्जा की बात है, तो ओढ़नी ओढ़े। ७ हां पुरुष को अपना सिर ढांकना उचित नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर का स्वरूप और महिमा है; परन्तु स्त्री पुरुष की महिमा ! ८ क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं डुभा, परन्तु स्त्री पुरुष से हुई है। ९ और पुरुष स्त्री के लिये नहीं सिरजा गया, परन्तु स्त्री पुरुष के लिये सिरजी गई है। १० इसी लिये स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को उचित है, कि अधिकार * अपने सिर पर रखे। ११ तौभी प्रभु में न तो स्त्री बिना पुरुष, और न पुरुष बिना स्त्री के है। १२ क्योंकि जैसे स्त्री पुरुष से है, वैसे ही पुरुष स्त्री के द्वारा है; परन्तु सब वस्तुएं परमेश्वर से हैं। १३ तुम आप ही विचार करो, क्या स्त्री को उधाड़े सिर परमेश्वर से प्रार्थना करना सोहना है? १४ क्या स्वाभाविक रीति से भी तुम नहीं जानते, कि यदि पुरुष लम्बे बाल रखे, तो उसके लिये अपमान है। १५ परन्तु यदि स्त्री लम्बे बाल रखे; तो उसके लिये शोभा है क्योंकि बाल उस को ओढ़नी के लिये दिए गए हैं। १६ परन्तु यदि कोई विवाद करना चाहे, तो यह जाने कि न हमारी और न परमेश्वर की कलीसियाओं की ऐसी रीति है ॥

१७ परन्तु यह आज्ञा देते हुए, मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिये कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं, परन्तु हानि होती है। १८ क्योंकि पहिले तो मैं यह मुनता हूँ, कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो, तो

तुम में फूट होती है और मैं कुछ कुछ प्रतीति भी करता हूँ। १९ क्योंकि विधर्म भी तुम में अपश्य होंगे, इसलिये कि जो लोग तुम में खरे निकले हैं, वे प्रगट हो जाएं। २० सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिये नहीं। २१ क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहिले अपना भोज खा लेता है, सो कोई तो भूखा रहता है, और कोई मतवाला हो जाता है। २२ क्या खाने पीने के लिये तुम्हारे घर नहीं? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिन के पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो? मैं तुम से क्या कहूँ? क्या इस बात में तुम्हारी प्रशंसा करूँ? मैं प्रशंसा नहीं करता। २३ क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची, और मैं ने तुम्हें भी पहुंचा दी; कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली। २४ और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, और कहा; कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिये है: मेरे स्मरण के लिये यही किया करो। २५ इसी रीति से उस ने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया, और कहा; यह कटोरा मेरे लोहू में नई वाचा है: जब कभी पीओ, तो मेरे स्मरण के लिये यही किया करो। २६ क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, प्रचार करते हो। २७ इसलिये जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पीए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। २८ इसलिये मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए, और इस कटोरे में से पीए। २९ क्योंकि जो खाते-पीते समय प्रभु की देह को न

* या आधीनता का चिन्ह।

पहिचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दण्ड लाता है। ३० इसी कारण तुम में बहुतेरे निर्बल और रोगी हैं, और बहुत से सो भी गए। ३१ यदि हम अपने प्राप को जांचने, तो दण्ड न पाते। ३२ परन्तु प्रभु हमें दण्ड देकर हमारी ताड़ना करता है इसलिये कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। ३३ इसलिये, हे भेरे भाइयो, जब तुम खाने के लिये इकट्ठे होने हो, तो एक दूसरे के लिये ठहरा करो। ३४ यदि कोई भूखा हो, तो अपने घर में खा ले जिस से तुम्हारा इकट्ठा होना दण्ड का कारण न हो; और गेप बातों को में आकर ठीक कर दूंगा ॥

१२ हे भाइयो, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक बर्दानों के विषय में प्रज्ञान रहो। २ तुम जानते हो, कि जब तुम अन्यजाति थे, तो गूंगी मूर्तों के पीछे जंमे चलाए जाने थे वैसे चलते थे। ३ इसलिये मैं तुम्हें चितौनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की प्रगुभाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु स्थापित है; और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है ॥

४ बर्दान तो कई प्रकार के हैं, परन्तु आत्मा एक ही है। ५ और सेवा भी कई प्रकार की है, परन्तु प्रभु एक ही है। ६ और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परन्तु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। ७ किन्तु सब के लाभ पहुंचाने के लिये हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। ८ क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं; और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। ९ और

किसी को उसी आत्मा से विश्वास; और किसी को उसी एक आत्मा से बंगा करने का बर्दान दिया जाता है। १० फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति; और किसी को भविष्यदाणी की; और किसी को आत्माओं की परख; और किसी को अनेक प्रकार की भाषा; और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ११ परन्तु ये सब प्रभावशाली कार्ययें वही एक आत्मा करवाता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है ॥

१२ क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, और उसके भंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब भंग, बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। १३ क्योंकि हम सब ने क्या यहदी हो, क्या यूनानी, क्या दास, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिये बपतिस्मा लिया, और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। १४ इसलिये कि देह में एक ही भंग नहीं, परन्तु बहुत से हैं। १५ यदि पांव कहे; कि मैं हाथ नहीं, इसलिये देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? १६ और यदि कान कहे; कि मैं आंख नहीं, इसलिये देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं है। १७ यदि सारी देह आंख ही होती तो मुनना कहा होता? यदि सारी देह कान ही होती, तो सूचना कहा होता? १८ परन्तु सचमुच परमेश्वर ने भ्रंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। १९ यदि वे सब एक ही भंग होते, तो देह कहा होती? २० परन्तु अब भंग तो बहुत से हैं, परन्तु देह एक ही है। २१ आंख हाथ से नहीं कह सकती, कि मुझे तेरा प्रयोजन नहीं, और न सिर पांवों से कह

सकता है, कि मुझे तुम्हारा प्रयोजन नहीं।
 २२ परन्तु देह के वे भ्रंग जो धीरों से
 निर्बल देख पड़ते हैं, बहुत ही आवश्यक हैं।
 २३ धीर देह के जिन भ्रंगों को हम आदर
 के योग्य नहीं समझते हैं उन्हीं को हम
 अधिक आदर देते हैं; धीर हमारे शोभाहीन
 भ्रंग धीर भी बहुत शोभायमान हो जाते हैं।
 २४ फिर भी हमारे शोभायमान भ्रंगों को
 इस का प्रयोजन नहीं, परन्तु परमेश्वर ने देह
 को ऐसा बना दिया है, कि जिस भ्रंग को
 घटी थी उसी को धीर भी बहुत आदर हो।
 २५ ताकि देह में फूट न पड़े, परन्तु भ्रंग
 एक दूसरे की बराबर चिन्ता करें। २६ इस-
 लिये यदि एक भ्रंग दुःख पाता है, तो सब
 भ्रंग उसके साथ दुःख पाते हैं; धीर यदि
 एक भ्रंग की बड़ाई होती है, तो उसके साथ
 सब भ्रंग ध्यानन्द मनाते हैं। २७ इसी
 प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो,
 धीर अलग अलग उसके भ्रंग हो। २८ धीर
 परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग
 व्यक्ति नियुक्त किए हैं; प्रथम प्रेरित, दूसरे
 भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक *, फिर सामर्थ्य
 के काम करनेवाले, फिर चंगा करनेवाले,
 धीर उपकार करनेवाले, धीर प्रधान, धीर
 नाना प्रकार की भाषा बोलनेवाले।
 २९ क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्व-
 वक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या
 सब सामर्थ्य के काम करनेवाले हैं? ३० क्या
 सब को चंगा करने का बरदान मिला है?
 क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं?
 ३१ क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़ी
 से बड़ी बरदानों के धुन में रहो! परन्तु मैं
 तुम्हें धीर भी सब से उत्तम मार्ग बताता
 हूँ ॥

* या उपदेशक।

१३ यदि मैं मनुष्यों धीर स्वर्गदूतों
 की बोलियां बोलूँ, धीर प्रेम न रखूँ,
 तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल, धीर भङ्गनाती
 हुई भाङ्ग हूँ। २ धीर यदि मैं भविष्यदाणी
 कर सकूँ, धीर सब भेदों धीर सब प्रकार के
 ज्ञान को समझूँ, धीर मुझे यहां तक पूरा
 विश्वास हो, कि मैं पहाड़ों को हटा दूँ, परन्तु
 प्रेम न रखूँ, तो मैं कुछ भी नहीं। ३ धीर
 यदि मैं अपनी सम्पूर्ण संपत्ति कंगालों को
 खिला दूँ, या अपनी देह जलाने के लिये दे
 दूँ, धीर प्रेम न रखूँ, तो मुझे कुछ भी लाभ
 नहीं। ४ प्रेम धीरजवन्त है, धीर कृपाल
 है; प्रेम डाह नहीं करता; प्रेम अपनी बड़ाई
 नहीं करता, धीर फूलता नहीं। ५ वह
 अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई
 नहीं चाहता, भङ्गनाता नहीं, बुरा नहीं
 मानता। ६ कुकर्म से प्रानन्दित नहीं
 होता, परन्तु सत्य से प्रानन्दित होता है।
 ७ वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की
 प्रतीति करता है, सब बातों की प्राशा रखता
 है, सब बातों में धीरज धरता है। ८ प्रेम
 कभी टलता नहीं; भविष्यदाणियां हों, तो
 समाप्त हो जाएंगी; भाषाएं हों, तो जाती
 रहेंगी; ज्ञान हो, तो मिट जाएगा।
 ९ क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है, धीर
 हमारी भविष्यदाणी अधूरी। १० परन्तु
 जब सर्वसिद्ध आएगा, तो अधूरा मिट
 जाएगा। ११ जब मैं बालक था, तो मैं
 बालकों की नाई बोलता था, बालकों का
 सा मन था बालकों की सी समझ थी;
 परन्तु जब सियाना हो गया, तो बालकों की
 बातें छोड़ दीं। १२ अब हमें दर्पण में
 धुंधला सा दिखाई देता है; परन्तु उस समय
 प्रामाणे साम्ने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान
 अधूरा है; परन्तु उस समय ऐसी पूरी रीति
 से पहिचानूंगा, जैसा मैं पहिचाना गया हूँ।

१३ पर अब विदवासा, आशा, प्रेम ये तीनों स्पाई हैं, पर इन में सब से बड़ा प्रेम है ॥

१४ प्रेम का अनुकरण करो, और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो विशेष करके यह, कि भविष्यद्वाणी करो। २ क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है; वह मनुष्यों से नहीं, परन्तु परमेश्वर से बातें करता है; इसलिये कि उस की कोई नहीं समझता; क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। ३ परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह मनुष्यों से उन्नति, और उपदेश, और शान्ति की बातें कहता है। ४ जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है; परन्तु जो भविष्यद्वाणी करता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है। ५ में चाहता हूँ, कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परन्तु अधिकतर यह चाहता हूँ कि भविष्यद्वाणी करो: क्योंकि यदि अन्यान्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया की उन्नति के लिये अनुवाद न करे तो भविष्यद्वाणी करनेवाला उस से बढ़कर है। ६ इसलिये हे भाइयो, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्यान्य भाषा में बातें करूँ, और प्रकाश, या ज्ञान, या भविष्यद्वाणी, या उपदेश की बातें तुम से न कहूँ, तो मुझ से तुम्हें क्या लाभ होगा? ७ इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी, जिन से ध्वनि निकलती है जैसे बांसुरी, या बीन, यदि उन के स्वरों में भेद न हो तो जो फूँका या बजाया जाता है, वह क्योंकर पहिचाना जाएगा? ८ और यदि तुरही का शब्द साफ न हो, तो कौन लड़ाई के लिये तैयारी करेगा? ९ ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें न कहो, तो जो कुछ कहा जाता है, वह क्योंकर समझा

जाएगा? तुम तो हवा से बातें करनेवाले ठहरोगे। १० जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों न हों, परन्तु उन में से कोई भी बिना अर्थ की न होगी। ११ इसलिये यदि मैं किसी भाषा का अर्थ न समझूँ, तो बोलनेवाले की दृष्टि में परदेशी ठहूँगा; और बोलनेवाला मेरे दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। १२ इसलिये तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, तो ऐसा प्रयत्न करो, कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। १३ इस कारण जो अन्य भाषा बोले, तो वह प्रार्थना करे, कि उसका अनुवाद भी कर सके। १४ इसलिये यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूँ, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परन्तु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। १५ सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूँगा, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूँगा; मैं आत्मा से गाऊँगा, और बुद्धि से भी गाऊँगा। १६ नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा, तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमोन क्योंकर कहेगा? इसलिये कि वह तो नहीं जानता, कि तू क्या कहता है? १७ तू तो भली भाँति से धन्यवाद करता है, परन्तु दूसरे की उन्नति नहीं होती। १८ मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, कि मैं तुम सब से अधिक अन्यान्य भाषा में बोलता हूँ। १९ परन्तु कलीसिया में अन्य भाषा में दस हजार बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है, कि औरों के सिखाने के लिये बुद्धि से पांच ही बातें कहूँ ॥

२० हे भाइयो, तुम समझ में बालक न बनो: तौभी बुराई में तो बालक रहो, परन्तु समझ में सियाने बनो। २१ व्यवस्था में लिखा है, कि प्रभु कहता है; मैं अन्य

भाषा बोलनेवालों के द्वारा, और पराए मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा तोभी वे भेरी न मुँगे। २२ इसलिये अन्यान्य भाषाएं विश्वासियों के लिये नहीं, परन्तु अविश्वासियों के लिये चिन्ह हैं, और भविष्यद्वाणी अविश्वासियों के लिये नहीं परन्तु विश्वासियों के लिये चिन्ह है।

२३ सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठी हो, और सब के सब अन्यान्य भाषा बोलें, और अनपढ़े या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल न कहेंगे?

२४ परन्तु यदि सब भविष्यद्वाणी करने लगें, और कोई अविश्वासी या अनपढ़ा मनुष्य भीतर आ जाए, तो सब उसे दोषी ठहरा देंगे और परख लेंगे। २५ और उसके मन के भेद प्रगट हो जाएंगे, और तब वह मुँह के बल गिरकर परमेश्वर को दगडवत करेगा, और मान लेगा, कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है।

२६ इसलिये हे भाइयो क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो, तो हर एक के हृदय में भजन, या उपदेश, या अन्य भाषा, या प्रकाश, या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है: सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिये होना चाहिए। २७ यदि अन्य भाषा में बातें करनी हों, तो दो दो, या बहुत हो तो तीन तीन जन बारी बारी बोलें, और एक व्यक्ति अनुवाद करे।

२८ परन्तु यदि अनुवाद करनेवाला न हो, तो अन्य भाषा बोलनेवाला कलीसिया में शान्त रहे, और अपने मन से, और परमेश्वर से बातें करे। २९ भविष्यद्वाणी में से दो या तीन बोलें, और शेष लोग उन के वचन को परखें। ३० परन्तु यदि दूसरे पर जो बँठा है, कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो, तो पहिला चुप हो जाए। ३१ क्योंकि तुम

सब एक एक करके भविष्यद्वाणी कर सकते हो ताकि सब सीखें, और सब शान्ति पाएं। ३२ और भविष्यद्वाणी की आत्मा भविष्यद्वाणी के वश में है। ३३ क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परन्तु शान्ति का कर्ता है; जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है।

३४ स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहें, क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं, परन्तु आधीन रहने की आज्ञा है: जैसा व्यवस्था में लिखा भी है। ३५ और यदि वे कुछ सीखना चाहें, तो घर में अपने अपने पति से पूछें, क्योंकि स्त्री का कलीसिया में बातें करना लज्जा की बात है। ३६ क्या परमेश्वर का वचन तुम में से निकला? या केवल तुम ही तक पहुंचा है?

३७ यदि कोई मनुष्य अपने आप को भविष्यद्वाणी या आत्मिक जन समझे, तो यह जान ले, कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ, वे प्रभु की आज्ञाएं हैं। ३८ परन्तु यदि कोई न जाने, तो न जाने।

३९ सो हे भाइयो, भविष्यद्वाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। ४० पर सारी बातें सभ्यता और क्रमानुसार की जाएं।

१५ हे भाइयो, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहिले मुना चुका हूँ, जिसे तुम ने अंगीकार भी किया था और जिस में तुम स्थिर भी हो। २ उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैं ने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो; नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। ३ इसी कारण मैं ने सब से पहिले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के

अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिये मर गया। ४ और गाड़ा गया; और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ५ और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया। ६ फिर पांच सौ से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिन में से बहुतेरे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए। ७ फिर याकूब को दिखाई दिया तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। ८ और सब के बाद मुझ को भी दिखाई दिया, जो मानो अंधूरे दिनों का जन्मा हूँ। ९ क्योंकि मैं प्रेरितों में सब से छोटा हूँ, बरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैं ने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। १० परन्तु मैं जो कुछ भी हूँ, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ; और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ, वह व्यर्थ नहीं हुआ; परन्तु मैं ने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया: तीनी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परन्तु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। ११ सो चाहे मैं हूँ, चाहे वे हों, हम यही प्रचार करते हैं, और इसी पर तुम ने विश्वास भी किया ॥

१२ सो जब कि मसीह का यह प्रचार किया जाता है, कि वह मरे हुएओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्योंकर कहेंगे; कि मरे हुएओं का पुनरुत्थान * है ही नहीं? १३ यदि मरे हुएओं का पुनरुत्थान ही नहीं, तो मसीह भी नहीं जी उठा। १४ और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है; और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। १५ बरन हम परमेश्वर के भूठे गवाह ठहरे; क्योंकि हम ने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी,

कि उस ने मसीह को जिला दिया यद्यपि नहीं जिलाया, यदि मरे हुए नहीं जी उठते। १६ और यदि मुर्दे नहीं जी उठते, तो मसीह भी नहीं जी उठा। १७ और यदि मसीह नहीं जी उठा, तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है; और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। १८ बरन जो मसीह में सो गए हैं, वे भी नाश हुए। १९ यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभाग्य हैं ॥

२० परन्तु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं, उन में पहिला फल हुआ। २१ क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई; तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुएों का पुनरुत्थान भी आया। २२ और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। २३ परन्तु हर एक अपनी अपनी बारी से; पहिला फल मसीह; फिर मसीह के आने पर उसके लोग। २४ इस के बाद अन्त होगा; उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ्य का अन्त करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। २५ क्योंकि जब तक कि वह अपने बैरियों को अपने पांवों तले न ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। २६ सब से अन्तिम बैरी जो नाश किया जाएगा वह मृत्यु है। २७ क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया है, परन्तु जब वह कहता है कि सब कुछ उसके आधीन कर दिया गया है तो प्रत्यक्ष है, कि जिस ने सब कुछ उसके आधीन कर दिया, वह आप अलग रहा। २८ और जब सब कुछ उसके आधीन हो जाएगा, तो पुत्र आप भी उसके आधीन हो जाएगा जिस ने

* या नृत्कोत्थान।

सब कुछ उसके आधीन कर दिया; ताकि सब में परमेश्वर ही सब कुछ हो ॥

२६ नहीं तो जो लोग मरे हुएों के लिये बपतिस्मा लेते हैं, वे क्या करेंगे? यदि मुद्दे जी उठते ही नहीं, तो फिर क्यों उन के लिये बपतिस्मा लेते हैं? ३० और हम भी क्यों हर घड़ी जोखिम में पड़े रहते हैं? ३१ हे भाइयो, मुझे उस घमण्ड की सोहं जो हमारे मसीह यीशु में में तुम्हारे विषय में करता हूँ, कि मैं प्रति दिन मरता हूँ। ३२ यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में बन-पशुओं से लड़ा, तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुद्दे जिलाए नहीं जाएंगे, तो आओ, खाए-पीए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। ३३ घोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ३४ धर्म के लिये जाग उठो और पाप न करो; क्योंकि कितने ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, में तुम्हें लज्जित करने के लिये यह कहता हूँ ॥

३५ अब कोई यह कहेगा, कि मुद्दे किस रीति से जी उठते हैं, और कैसी देह के साथ आते हैं? ३६ हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह न मरे जिलाया नहीं जाता। ३७ और जो तू बोता है, यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होनेवाली है, परन्तु निरा दाना है, चाहे गेहूँ का, चाहे किसी और अनाज का। ३८ परन्तु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उस को देह देता है; और हर एक बीज को उस की विशेष देह। ३९ सब शरीर एक सरीखे नहीं, परन्तु मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है; पक्षियों का शरीर और है; मछलियों का शरीर और है। ४० स्वर्गीय देह हैं, और पार्थिव देह भी हैं: परन्तु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पार्थिव का और।

४१ सूर्य का तेज और है, चान्द का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, (क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अन्तर है)। ४२ मुद्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है, और अविनाशी रूप में जी उठता है। ४३ वह अनावर के साथ बोया जाता है, और तेज के साथ जी उठता है; निबलता के साथ बोया जाता है; और सामयं के साथ जी उठता है। ४४ स्वाभाविक देह बोई जाती है, और आत्मिक देह जी उठती है: जब कि स्वाभाविक देह है, तो आत्मिक देह भी है। ४५ ऐसा ही लिखा भी है, कि प्रथम मनुष्य, अर्थात् आदम, जीवित प्राणी बना और अन्तिम आदम, जीवनदायक आत्मा बना। ४६ परन्तु पहिले आत्मिक न था, पर स्वाभाविक था, इस के बाद आत्मिक हुआ। ४७ प्रथम मनुष्य घरती से, अर्थात् मिट्टी का था; दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। ४८ जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही और मिट्टी के हैं; और जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही और भी स्वर्गीय हैं। ४९ और जैसे हम ने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे ॥

५० हे भाइयो, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लोह परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न विनाश अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। ५१ देखो, मैं तुम से भेद की बात कहता हूँ: कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परन्तु सब बदल जाएंगे। ५२ और यह क्षण भर में, पलक मारते ही पिछली तुरही फूँकते ही होगा: क्योंकि तुरही फूँकी जाएगी और मुद्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, और हम बदल जाएंगे। ५३ क्योंकि अवश्य है,

कि यह नाशमान देह ध्विनाश को पहिन ले, और यह मरनहार देह धमरता को पहिन ले। ५४ और जब यह नाशमान ध्विनाश को पहिन लेगा, और यह मरनहार धमरता को पहिन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है, पूरा हो जाएगा, कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। ५५ हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? ५६ हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है; और पाप का बल व्यवस्था है। ५७ परन्तु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवन्त करता है। ५८ सो हे मेरे प्रिय भाइयो, दृढ़ और झटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो, कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है ॥

१६ अब उस चन्दे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिये किया जाता है, जैसी आज्ञा में ने गलतिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। २ सप्ताह के पहिले दिन तुम में से हर एक अपनी धामदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे भ्राने पर चन्दा न करना पड़े। ३ और जब मैं भ्राजंगा, तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर भेज दूंगा, कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दें। ४ और यदि मेरा भी जाना उचित हुआ, तो वे मेरे साथ जाएंगे। ५ और मैं मकिडूनिया होकर तुम्हारे पास भ्राजंगा, क्योंकि मुझे मकिडूनिया होकर तो जाना ही है। ६ परन्तु सम्भव है कि तुम्हारे यहां ही ठहर जाऊँ और शरद ऋतु तुम्हारे यहां काटूँ, तब जिस और मेरा जाना हो, उस और तुम मुझे पहुंचा दो। ७ क्योंकि मैं अब मार्ग में तुम से भेंट करना नहीं चाहता;

परन्तु मुझे आशा है, कि यदि प्रभु चाहे तो कुछ समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ८ परन्तु मैं पेन्तिकुस्त तक इफिसुस में रहूंगा। ९ क्योंकि मेरे लिये एक बड़ा और उपयोगी द्वारा खुला है, और विरोधी बहुत से हैं ॥

१० यदि तीमुथियुस भा जाए, तो देखना, कि वह तुम्हारे यहां निडर रहे; क्योंकि वह मेरी नाई प्रभु का काम करता है। ११ इसलिये कोई उसे तुच्छ न जाने, परन्तु उसे कुशल से इस और पहुंचा देना, कि मेरे पास भा जाए; क्योंकि मैं उस की वाट जोह रहा हूँ, कि वह भाइयों के साथ भाए। १२ और भाई अपुल्लोस से मैं ने बहुत बिनती की है कि तुम्हारे पास भाइयो के साथ जाए; परन्तु उस ने इस समय जाने की कुछ भी इच्छा न की, परन्तु जब अवसर पाएगा, तब भा जाएगा ॥

१३ जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवन्त होओ। १४ जो कुछ करते हो प्रम से करो ॥

१५ हे भाइयो, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो, कि वे श्रम्यता के पहिले फल हैं, और पवित्र लोगों की सेवा के लिये तैयार रहते हैं। १६ सो मैं तुम से बिनती करता हूँ कि ऐसों के आधीन रहो, बरन हर एक के जो इस काम में परिश्रमी और सहकर्मी है। १७ और मैं स्तिफनास और फूरतूनातुस और प्रखइकुस के भ्राने से भ्रानन्दित हूँ, क्योंकि उन्होंने ने तुम्हारी घटी को पूरी की है। १८ और उन्होंने ने मेरी और तुम्हारी आत्मा को चैन दिया है इसलिये ऐसों को मानो ॥

१९ आसिया की कलीसियाओं की और से तुम को नमस्कार; धम्बला और प्रिसका का और उन के घर की कलीसिया का भी

तुम को प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार ।
२० सब भाइयों का तुम को नमस्कार :
पवित्र चुम्बन से आपस में नमस्कार करो ॥

२१ मुझ पौलुस का अपने हाथ का
लिखा हुमा नमस्कार : यदि कोई प्रभु से

प्रेम न रखे तो वह स्थापित हो । २२ हमारा
प्रभु आनेवाला है । २३ प्रभु यीशु मसीह
का अनुग्रह तुम पर होता रहे । २४ मेरा
प्रेम मसीह यीशु में तुम सब से रहे ।
आमीन ॥

कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री

१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर
की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित
है, ओर भाई तीमुथियुस की ओर से
परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो
कुरिन्थुस में है; ओर सारे ब्रह्मया के सब
पवित्र लोगों के नाम ॥

२ हमारे पिता परमेश्वर ओर प्रभु
यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह ओर
शान्ति मिलती रहे ॥

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर,
ओर पिता का धन्यवाद हो, जो दया का
पिता, ओर सब प्रकार की शान्ति का
परमेश्वर है । ४ वह हमारे सब क्लेशों में
शान्ति देता है; ताकि हम उस शान्ति
के कारण जो परमेश्वर हमें देता है,
उन्हें भी शान्ति दे सकें, जो किसी प्रकार
के क्लेश में हों । ५ क्योंकि जैसे मसीह
के दुख हम को अधिक होते हैं, वैसे ही
हमारी शान्ति भी मसीह के द्वारा अधिक
होती है । ६ यदि हम क्लेश पाते हैं,
तो यह तुम्हारी शान्ति ओर उद्धार के
लिये है ओर यदि शान्ति पाते हैं, तो यह

तुम्हारी शान्ति के लिये है; जिस के
प्रभाव से तुम धीरज के साथ उन क्लेशों
की सह लेते हो, जिन्हें हम भी सहते
हैं । ७ ओर हमारी आशा तुम्हारे विषय में
दृढ़ है; क्योंकि हम जानते हैं, कि तुम
जैसे दुखों के वैसे ही शान्ति के भी
सहभागी हो । ८ हे भाइयो, हम नहीं
चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान
रहो, जो आसिया में हम पर पड़ा, कि
ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, जो हमारी
सामर्थ्य से बाहर था, यहां तक कि हम
जीवन से भी हाथ धो बैठे थे । ९ बरन
हम ने अपने मन में समझ लिया था,
कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है
कि हम अपना भरोसा न रखें, बरन
परमेश्वर का जो मरे हुआ को जिलाता
है । १० उसी ने हमें ऐसी बड़ी मृत्यु से
बचाया, ओर बचाएगा; ओर उस से
हमारी यह आशा है, कि वह आगे को
भी बचाता रहेगा । ११ ओर तुम भी
मिलकर प्रार्थना के द्वारा हमारी सहायता
करोगे, कि जो बरदान बहुतों के द्वारा

हमें मिला, उसके कारण बहुत लोग हमारी धोर से धन्यवाद करें ॥

१२ क्योंकि हम अपने विवेक * की इस गवाही पर घमण्ड करते हैं, कि जगत में धोर विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता धोर सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं, परन्तु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। १३ हम तुम्हें धोर कुछ नहीं लिखते, केवल वह जो तुम पढ़ते या मानते भी हो, धोर मुझे प्राशा है, कि घन्त तक भी मानते रहोगे। १४ जैसा तुम में से कितनों ने † मान लिया है, कि हम तुम्हारे घमण्ड का कारण हैं; वैसे तुम भी प्रभु यीशु के दिन हमारे लिये घमण्ड का कारण ठहरोगे ॥

१५ धोर इस भरोसे से मैं चाहता था कि पहिले तुम्हारे पास झाऊं; कि तुम्हें एक धोर दान मिले। १६ धोर तुम्हारे पास से होकर मकिदुनिया को जाऊं, धोर फिर मकिदुनिया से तुम्हारे पास झाऊं; धोर तुम मुझे यहूदिया की धोर कुछ दूर तक पहुंचाओ। १७ इसलिये मैं ने जो यह इच्छा की थी तो क्या मैं ने खंचलता दिखाई? या जो करना चाहता हूँ क्या शरीर के अनुसार करना चाहता हूँ, कि मैं बात में हूँ, हूँ भी कलूँ; १८ धोर नहीं नहीं भी कलूँ? परमेश्वर सच्चा ‡ गवाह है, कि हमारे उस बचन में जो तुम से कहा हूँ धोर नहीं दोनों पाई नहीं जातीं। १९ क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिस का हमारे द्वारा प्रार्थना मेरे धोर सिलवानुम

धोर तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ; उस में हूँ धोर नहीं दोनों न थी; परन्तु, उस में हूँ ही हूँ हुई। २० क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, वे सब उसी में हूँ के साथ हैं: इसलिये उसके द्वारा भ्रामीन भी हुई, कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। २१ धोर जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, धोर जिस ने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। २२ जिस ने हम पर छाप भी कर दी है धोर बयाने में भ्रात्मा को हमारे मनों में दिया ॥

२३ मैं परमेश्वर को गवाह * करता हूँ, कि मैं अब तक कुरिन्थुस में इसलिये नहीं आया, कि मुझे तुम पर तरस आता था। २४ यह नहीं, कि हम विश्वास के विषय में तुम पर प्रभुता जताना चाहते हैं; परन्तु तुम्हारे भ्रानन्द में सहायक हूँ क्योंकि तुम विश्वास ही से स्थिर रहते हो।

२ मैं ने अपने मन में यही ठान लिया था कि फिर तुम्हारे पास उदास होकर न झाऊं। २ क्योंकि यदि मैं तुम्हें उदास कलूँ, तो मुझे भ्रानन्द देनेवाला कौन होगा, केवल वही जिस को मैं ने उदास किया? ३ धोर मैं ने यही बात तुम्हें इसलिये लिखी, कि कहीं ऐसा न हो, कि मेरे भ्राने पर जिन से भ्रानन्द मिलना चाहिए, मैं उन से उदास होऊँ; क्योंकि मुझे तुम सब पर इस बात का भरोसा है, कि जो मेरा भ्रानन्द है, वही तुम सब का भी है। ४ बड़े क्लेश, धोर मन के कष्ट से, मैं ने बहुत से भ्रांसू वहा बहाकर तुम्हें लिखा, इसलिये नहीं, कि तुम उदास हो, परन्तु इसलिये कि तुम

* प्रार्थना मन या कानश्नस।

† या थोड़ा बहुत।

‡ या विश्वासी।

* वू० अपने प्राण पर गवाह।

उस बड़े प्रेम को जान लो, जो मुझे तुम से है ॥

५ और यदि किसी ने उदास किया है, तो मुझे ही नहीं बरन (कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं) कुछ कुछ तुम सब को भी उदास किया है। ६ ऐसे जन के लिये यह दण्ड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया, बहुत है। ७ इसलिये इस से यह भला है कि उसका अपराध क्षमा करो; और शान्ति दो, न हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी में डूब जाए। ८ इस कारण मैं तुम से बिनती करता हूं, कि उस को अपने प्रेम का प्रमाण दो।

९ क्योंकि मैं ने इसलिये भी लिखा था, कि तुम्हें परख लूं, कि सब बातों के मानने के लिये तैयार हो, कि नहीं। १० जिस का तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूं, क्योंकि मैं ने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो, तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर * क्षमा किया है। ११ कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उस की युक्तियों से अनजान नहीं ॥

१२ और जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोग्रास में आया, और प्रभु ने मेरे लिये एक द्वार खोल दिया। १३ तो मेरे मन में चैन न मिला, इसलिये कि मैं ने अपने भाई तितुस को नहीं पाया; सो उन से विदा होकर मैं मकिदुनिया को चला गया। १४ परन्तु परमेश्वर का घन्यवाद हो, जो मसीह में सदा हम को जय के उत्सव में लिये फिरता है, और अपने ज्ञान का सुगन्ध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। १५ क्योंकि हम पर-

मेश्वर के निकट उद्धार पानेवालों, और नाश होनेवालों, दोनों के लिये मसीह के सुगन्ध हैं। १६ कितनों के लिये तो मरने के निमित्त मृत्यु की गन्ध, और कितनों के लिये जीवन के निमित्त जीवन की सुगन्ध, और इन बातों के योग्य कौन है? १७ क्योंकि हम उन बहुतों के समान नहीं, जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं; परन्तु मन की सच्चाई से, और परमेश्वर की ओर से परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं ॥

२ क्या हम फिर अपनी बड़ाई करने लगे? या हमें कितनों की नाई सिफारिश की पत्रियां तुम्हारे पास लानी या तुम से लेनी हैं? २ हमारी पत्री तुम ही हो, जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और उसे सब मनुष्य पहिचानते और पढ़ते हैं। ३ यह प्रगट है, कि तुम मसीह की पत्री हो, जिस को हम ने सेवकों की नाई लिखा; और जो सियाही से नहीं, परन्तु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पटियों पर नहीं, परन्तु हृदय की मांस रूपी पटियों पर लिखी है। ४ हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। ५ यह नहीं, कि हम अपने आप से इस योग्य हैं, कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें; पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। ६ जिस ने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द * के सेवक नहीं बरन आत्मा के; क्योंकि शब्द मारता है, पर आत्मा जिलाता है। ७ और यदि मृत्यु की वह वाचा जिस के

* या मसीह की हाबिर जानकर।

* य० अक्षर।

अक्षर पत्थरों पर छोड़े गए थे, यहां तक तेजोमय हुई, कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। ८ तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? ९ क्योंकि जब दोषी ठहरानेवाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहरानेवाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? १० और जो तेजोमय था, वह भी उस तेज के कारण जो उस से बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न ठहरा। ११ क्योंकि जब वह जो घटता जाता था तेजोमय था, तो वह जो स्थिर रहेगा, और भी तेजोमय क्यों न होगा?

१२ सो ऐसी भाषा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। १३ और मूसा की नाई नहीं, जिस ने अपने मुंह पर परदा * डाला था ताकि इस्राएली उस घटनेवाली वस्तु के अन्त को न देखें। १४ परन्तु वे मतिमन्द हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उन के हृदयों पर वही परदा पड़ा रहता है; पर वह मसीह में उठ जाता है। १५ और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उन के हृदय पर परदा पड़ा रहता है। १६ परन्तु जब कभी उन का हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह परदा उठ जाएगा। १७ प्रभु तो आत्मा है: और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। १८ परन्तु जब हम सब के उपाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी

तेजस्वी रूप में अंध अंध कर के बदलते जाते हैं ॥

४ इसलिये जब हम पर ऐसी दया हुई, कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। २ परन्तु हम ने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परन्तु सत्य को प्रगट करके, परमेश्वर के साम्हने हर एक मनुष्य के विवेक * में अपनी भलाई बैठते हैं। ३ परन्तु यदि हमारे सुसमाचार पर परदा पड़ा है, तो यह नाश होनेवालों ही के लिये पड़ा है। ४ और उन अविश्वासियों के लिये, जिन की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अन्धी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ५ क्योंकि हम अपने को नहीं, परन्तु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं, कि वह प्रभु है; और अपने विषय में यह कहते हैं, कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। ६ इसलिये कि परमेश्वर ही है, जिस ने कहा, कि अन्धकार में से ज्योति चमके; और वही हमारे हृदयों में चमका, कि परमेश्वर की महिमा की पहिचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो ॥

७ परन्तु हमारे पास यह धन मिट्टी के बरतनों में रखा है, कि यह असीम सामयं हमारी ओर से नहीं, बरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। ८ हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते; निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। ९ सताए तो जाते हैं: पर

* या ओदन।

* अर्थात् मन या कानश्नस।

त्यागे नहीं जाते; गिराए तो जाते हैं, पर नाश नहीं होते। १० हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं; कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रगट हो। ११ क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरनहार शरीर में प्रगट हो। १२ सो मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। १३ और इसलिये कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, (जिस के विषय में लिखा है, कि मैं ने विश्वास किया, इसलिये मैं बोला) सो हम भी विश्वास करते हैं, इसी लिये बोलते हैं। १४ क्योंकि हम जानते हैं, कि जिस ने प्रभु यीशु को जिलाया, वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, और तुम्हारे साथ अपने साम्हने उपस्थित करेगा। १५ क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिये हैं, ताकि भनुग्रह बहुतां के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिये धन्यवाद भी बढ़ाए ॥

१६ इसलिये हम हियाव नहीं छोड़ते; यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है, तीभी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। १७ क्योंकि हमारा पल भर का हलका सा क्लेश हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण और अनन्त महिमा उत्पन्न करता जाता है। १८ और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परन्तु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, परन्तु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं ॥

५ क्योंकि हम जानते हैं, कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा

घर गिराया जाएगा तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परन्तु चिरस्थायी है। २ इस में तो हम कहरते, और बड़ी लालसा रखते हैं; कि अपने स्वर्गीय घर को पहिन लें। ३ कि इस के पहिनने से हम नङ्गे न जाएं। ४ और हम इस डेरे में रहते हुए बोरु से दबे कहरते रहते हैं; क्योंकि हम उतारना नहीं, बरन और पहिनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरनहार है जीवन में डूब जाए। ५ और जिस ने हमें इसी बात के लिये तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिस ने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। ६ सो हम सदा ढाढ़स बान्धे रहते हैं और यह जानते हैं; कि जब तक हम देह में रहते हैं, तब तक प्रभु से अलग हैं। ७ क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, पर विश्वास से चलते हैं। ८ इसलिये हम ढाढ़स बान्धे रहते हैं, और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ९ इस कारण हमारे मन की उमंग यह है, कि चाहे साथ रहें, चाहे अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। १० क्योंकि अवश्य है, कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के साम्हने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उस ने देह के द्वारा किए हों पाए ॥

११ सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रगट है; और मेरी आशा यह है, कि तुम्हारे विवेक * पर भी प्रगट हुआ होगा। १२ हम फिर भी अपनी

* अर्थात् मन या कानश्नस।

बड़ाई तुम्हारे साम्हने नहीं करते बरन हम अपने विषय में तुम्हें धमएड करने का भवसर देते हैं, कि तुम उन्हें उत्तर दे सको, जो मन पर नहीं, बरन दिखावटी बातों पर धमएड करते हैं। १३ यदि हम बेसुध हैं, तो परमेश्वर के लिये; और यदि चैतन्य हैं, तो तुम्हारे लिये हैं। १४ क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है; इसलिये कि हम यह समझते हैं, कि जब एक सब के लिये मरा तो सब मर गए। १५ और वह इस निमित्त सब के लिये मरा, कि जो जीवित हैं, वे आगे को अपने लिये न जीएं परन्तु उसके लिये जो उन के लिये मरा और फिर जी उठा। १६ सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हम ने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तोभी अब से उस को ऐसा नहीं जानेंगे। १७ सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है: पुरानी बातें बीत गई हैं; देखो, वे सब नई हो गईं। १८ और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिस ने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। १९ अर्थात् परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, और उन के अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उस ने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है ॥

२० सो हम मसीह के राजदूत हैं; मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता * है: हम मसीह की ओर से निबेदन करते

हैं, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। २१ जो पाप से भ्रजात था, उसी को उस ने हमारे लिये पाप ठहराया, कि हम उस में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं ॥

६ और हम जो उसके सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं, कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ, व्यर्थ न रहने दो *। २ क्योंकि वह तो कहता है, कि अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन में ने तेरी सहायता की: देखो, अभी वह प्रसन्नता का समय है; देखो, अभी वह उद्धार का दिन है। ३ हम किसी बात में ठोकर खाने का कोई भी भवसर नहीं देते, कि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। ४ परन्तु हर बात से परमेश्वर के सेवकों की नाई अपने सदगुणों को प्रगट करते हैं, बड़े धैर्य से, बलेशों से, दरिद्रता से, संकटों से। ५ कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। ६ पवित्रता से, ज्ञान से, धीरज से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से। ७ सच्चे प्रेम से, सत्य के वचन से, परमेश्वर की सामर्थ्य से; धार्मिकता के हथियारों से जो दहिने, बाएं हैं। ८ आदर और निरादर से, दुर्नाम और सुनाम से, यद्यपि भरमानेवालों के ऐसे मालूम होते हैं तोभी सच्चे हैं। ९ अनजानों के सदृश्य हैं; तोभी प्रसिद्ध हैं; मरते हुआओं के ऐसे हैं और देखो जीवित हैं; मारखानेवालों के सदृश्य हैं परन्तु प्राण से मारे नहीं जाते। १० शोक करनेवाले के समान हैं, परन्तु सर्वदा आनन्द करते हैं; कंगालों

* या बिनती करता।

* वा व्यर्थ होने के लिये न ले लो।

के ऐसे हैं, परन्तु बहुतों को धनवान बना देने हैं; ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं ॥

११ हे कुरिनियों, हम ने खुलकर तुम से बातें की हैं, हमारा हृदय तुम्हारी ओर खुला हुआ है। १२ तुम्हारे लिये हमारे मन में कुछ सकेती नहीं, पर तुम्हारे ही मनों में सकेती है। १३ पर अपने लड़के-बाले जानकर तुम से कहना हूँ, कि तुम भी उसके बदले में अपना हृदय खोल दो ॥

१४ प्रविश्वामियों के साथ प्रममान जूए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल? या ज्योति और प्रन्धकार की क्या संगति? १५ और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? या विश्वामी के साथ प्रविश्वामी का क्या नाता? १६ और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मन्दिर का क्या सम्बन्ध? क्योंकि हम तो जीवने परमेश्वर के मन्दिर हैं; जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उन में बसूंगा और उन में चला फिग करूंगा; और मैं उन का परमेश्वर हूंगा, और वे मेरे लोग होंगे। १७ इसलिये प्रभु कहता है, कि उन के बीच में से निकलो और अलग रहो; और अशुद्ध वस्तु को मत छूओ, तो मैं तुम्हें प्रहण करूंगा। १८ और तुम्हारा पिता हूंगा, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे: यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है ॥

७ मो हे प्यारो जब कि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें ॥

२ हमें अपने हृदय में जगह दो: हम ने न किसी से प्रन्याय किया, न किसी को विगाड़ा, और न किसी को ठगा। ३ मैं तुम्हें दापो ठहराने के लिये यह नहीं कहता: क्योंकि मैं पहिले ही कह चुका हूँ, कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बम गए हो कि हम तुम्हारे साथ मरने जीने के लिये तैयार हैं। ४ मैं तुम से बहुत हियाव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा धमण्ड है: मैं शान्ति से भर गया हूँ; अपने मारे क्लेश में मैं प्रानन्द में प्रति भग्पूर रहता हूँ ॥

५ क्योंकि जब हम मकिदुनिया में प्राण, तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परन्तु हम चारों ओर से क्लेश पाने थे; बाहर लड़ाइयां थीं, भीतर भयंकर बातें थीं। ६ तो भी दोनों को शान्ति देनेवाले परमेश्वर ने तितुस के प्राने से हम को शान्ति दी। ७ और न केवल उसके प्राने से परन्तु उम की उस शान्ति में भी, जो उस को तुम्हारी ओर से मिली थी; और उम ने तुम्हारी लालमा, और तुम्हारे दुख और मेरे लिये तुम्हारी धुन का समाचार हमें मुनाया, जिस से मुझे और भी प्रानन्द हुआ। ८ क्योंकि यद्यपि मैं ने अपनी पत्नी से तुम्हें शोकित किया, परन्तु उम से पछताता नहीं जैसा कि पहिले पछताता था क्योंकि मैं देखता हूँ, कि उम पत्नी से तुम्हें शोक तो हुआ परन्तु वह थोड़ी देर के लिये था। ९ अब मैं प्रानन्दित हूँ पर इसलिये नहीं कि तुम को शोक पहुँचा वरन इसलिये कि तुम ने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था, कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुँचे। १० क्योंकि

परमेश्वर-भक्ति का शोक ऐसा पश्चात्ताप उत्पन्न करता है जिस का परिणाम उद्धार है और फिर उस से पछताना नहीं पड़ता : परन्तु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। ११ सो देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर-भक्ति का शोक हुआ तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युत्तर* और रिस, और भय, और लालसा, और घुन और पलटा लेने का विचार उत्पन्न हुआ? तुम ने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया, कि तुम इस बात में निर्दोष हो। १२ फिर मैं ने जो तुम्हारे पास लिखा था, वह न तो उसके कारण लिखा, जिस ने अन्याय किया, और न उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परन्तु इसलिये कि तुम्हारी उत्तेजना जो हमारे लिये है, वह परमेश्वर के साम्हने तुम पर प्रगट हो जाए। १३ इसलिये हमें शान्ति हुई; और हमारी इस शान्ति के साथ तितुस के भ्रानन्द के कारण और भी भ्रानन्द हुआ क्योंकि उसका जो तुम सब के कारण हरा भरा हो गया है। १४ क्योंकि यदि मैं ने उसके साम्हने तुम्हारे विषय में कुछ घमण्ड दिखाया, तो सज्जित नहीं हुआ, परन्तु जैसे हम ने तुम से सब बातें सच सच कह दी थीं, वैसे ही हमारा घमण्ड दिखाना तितुस के साम्हने भी सच निकला। १५ और जब उस को तुम सब के आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है, कि क्योंकि तुम ने डरते और कांपते हुए उस से भेंट की; तो उसका प्रेम तुम्हारी और और भी बढ़ता जाता है। १६ मैं भ्रानन्द करता हूँ, कि तुम्हारी और से मुझे हर बात में ढाढ़स होता है ॥

* या बचाव के लिये उत्तर।

ए अब हे भाइयो, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं, जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है। २ कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उन के बड़े भ्रानन्द और भारी कंगालपन के बढ़ जाने से उन की उदारता बहुत बढ़ गई। ३ और उन के विषय में मेरी यह गवाही है, कि उन्होंने ने अपनी सामर्थ्य भर बरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। ४ और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हम से बार बार बहुत बिनती की। ५ और जैसी हम ने आज्ञा की थी, वैसी ही नहीं, बरन उन्होंने ने प्रभु को, फिर परमेश्वर की इच्छा से हम को भी अपने तई दे दिया। ६ इसलिये हम ने तितुस को समझाया, कि जैसा उस ने पहिले आरम्भ किया था, वैसा ही तुम्हारे बीच में इस दान के काम को पूरा भी कर ले। ७ सो जैसे हर बात में अर्थात् विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में, और उस प्रेम में, जो हम से रखते हो, बढ़ते-जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। ८ मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परन्तु औरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिये कहता हूँ। ९ तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो, कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिये कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। १० और इस बात में मेरा विचार यही है, क्योंकि यह तुम्हारे लिये अच्छा है; जो एक वर्ष से न तो केवल इस काम को करने ही में, परन्तु इस बात के चाहने में भी प्रथम हुए थे। ११ इसलिये

अब यह काम पूरा करो; कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे, वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। १२ क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उमके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है न कि उमके अनुसार जो उमके पास नहीं। १३ यह नहीं, कि औरों को चैन और तुम को क्लेश मिले। १४ परन्तु बगवती के विचार में इस समय तुम्हारी बढ़ती उनकी घटी में काम आए, ताकि उन की बढ़ती भी तुम्हारी घटी में काम आए, कि बगवती हो जाए। १५ जैसा लिखा है, कि: जिम ने बहुत बटोरा उसका कुछ अधिक न निकला, और जिस ने थोड़ा बटोरा उसका कुछ कम न निकला ॥

१६ और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस ने तुम्हारे लिये वही उत्साह तितुम के हृदय में डाल दिया है। १७ कि उम ने हमारा समझाना मान लिया वरन बहुत उत्साही होकर वह अपनी इच्छा में तुम्हारे पास गया है। १८ और हम ने उसके साथ उस भाई को भेजा है जिम का नाम सुसमाचार के विषय में सब कलीसिया में फैला हुआ है। १९ और इतना ही नहीं, परन्तु वह कलीसिया में ठहराया भी गया कि इस दान के काम के लिये हमारे साथ जाए और हम यह सेवा इसलिये करते हैं, कि प्रभु की महिमा और हमारे मन की तैयारी प्रगट हो जाए। २० हम इस बात में चौकम रहते हैं, कि इस उदारता के काम के विषय में जिस की सेवा हम करते हैं, कोई हम पर दोष न लगाने पाए। २१ क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं, परन्तु मनुष्यों के निकट भी भली हैं हम उन की चिन्ता

करते हैं। २२ और हम ने उसके साथ अपने भाई को भेजा है, जिम को हम ने बार बार परब के बहुत बातों में उत्साही पाया है; परन्तु अब तुम पर उस को बड़ा भरोसा है, इस कारण वह और भी अधिक उत्साही है। २३ यदि कोई तितुम के विषय में पूछे, तो वह मेरा साथी, और तुम्हारे लिये मेरा सहकर्मी है, और यदि हमारे भाइयों के विषय में पूछे, तो वे कलीसियाओं के भेजे हुए और मसीह की महिमा है। २४ जो अपना प्रेम और हमारा वह धमएड जो तुम्हारे विषय में है कलीसियाओं के साम्हने उन्हें मिद करके दिखाओ ॥

६ अब उम मेवा के विषय में जो पवित्र लोगों के लिये की जाती है, मुझे तुम को लिखना अवश्य नहीं। २ क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिम के कारण मैं तुम्हारे विषय में मकिदुनियों के साम्हने धमएड दिखाना हूँ, कि अगव्या के लोग एक वर्ष में तैयार हुए हैं, और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभागा है। ३ परन्तु मैं ने भाइयो को इसलिये भेजा है, कि हम ने जो धमएड तुम्हारे विषय में दिखाया, वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे; परन्तु जैसा मैं ने कहा; वैसे ही तुम तैयार हो रहो। ४ ऐसा न हो, कि यदि कोई मकिदुनी मेरे साथ आए, और तुम्हें तैयार न पाए, तो क्या जानें, इस भरोसे के कारण हम (यह नहीं कहते कि तुम) लज्जित हों। ५ इसलिये मैं ने भाइयों से यह बिनती करना अवश्य समझा कि वे पहिले से तुम्हारे पास जाएं, और तुम्हारी उदारता का फल जिस के विषय में

पहिले से बचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह दबाव * से नहीं परन्तु उदारता के फल की नाई तैयार हो ॥

६ परन्तु बात तो यह है, कि जो थोड़ा † बोता है वह थोड़ा काटेगा भी; और जो बहुत ‡ बोता है, वह बहुत काटेगा। ७ हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे; न कुछ कुछ के, और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देनेवाले से प्रेम रखता है। ८ और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है जिस से हर बात में और हर समय, सब कुछ, जो तुम्हें आवश्यक हो, तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिये तुम्हारे पास बहुत कुछ हो।

९ जैसा लिखा है, उस ने विथराया, उस ने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। १० सो जो बोनेवाले को बीज, और भोजन के लिये रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा, और उसे फलवन्त करेगा; और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। ११ कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिये जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। १२ क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से, न केवल पवित्र लोगों की घटियां पूरी होती हैं, परन्तु लोगों की और से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। १३ क्योंकि इस सेवा से प्रमाण लेकर परमेश्वर की महिमा प्रगट करते हैं, कि तुम मसीह के सुसमाचार को मान कर उसके आधीन रहते हो, और उन की, और सब की सहायता करने में उदारता प्रगट करते रहते हो। १४ और

वे तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं; और इसलिये कि तुम पर परमेश्वर का बड़ा ही अनुग्रह है, तुम्हारी लालसा करने रहते हैं। १५ परमेश्वर को उसके उस दान के लिये जो वर्गन से बाहर है, धन्यवाद हो ॥

१० में वही पीलुस जो तुम्हारे साम्हने दीन हूँ, परन्तु पीठ पीछे तुम्हारी और साहम करता हूँ; तुम को ममीह की नम्रता, और कोमलता के कारण समझता हूँ। २ में यह बिनती करता हूँ, कि तुम्हारे साम्हने मुझे निर्भय होकर * साहम करना न पड़े; जैसा मैं कितनों पर जो हम को शरीर के अनुसार चलनेवाले समझते हैं, वीरता दिखाने का विचार करता हूँ। ३ क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तोभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ने। ४ क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिये परमेश्वर के द्वारा † सामर्थ्य है। ५ सो हम कल्पनाओं को, और हर एक ऊंची बात को, जो परमेश्वर की पहिचान के विरोध में उठती है, खण्डन करते हैं; और हर एक भावना को कंद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। ६ और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा मानना पूरा हो जाए, तो हर एक प्रकार के आज्ञा न मानने का पलटा लें। ७ तुम इन्हीं बातों को देखते हो, जो आंखों के साम्हने हैं, यदि किसी का अपने पर यह भरोसा हो, कि मैं मसीह का हूँ, तो वह यह भी जान ले, कि जैसा वह मसीह का है, वैसे ही हम भी हैं। ८ क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के

* यू० लोम। † या कंजूसी से।

‡ या उदारता से।

* यू० भरोसे से। † या लिप।

विषय में और भी घमण्ड दिखाऊँ, जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिये नहीं पर बनाने के लिये हमें दिया है, तो लज्जित न हूँगा। ६ यह मैं इसलिये कहता हूँ, कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डरानेवाला न ठहरे। १० क्योंकि कहते हैं, कि उस की पत्रियाँ तो गम्भीर और प्रभावशाली हैं; परन्तु जब द्रव्यते हैं, तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। ११ सो जो ऐसा कहता है, वह यह समझ रखे, कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन हैं, वैसे ही तुम्हारे साम्हने हमारे काम भी होंगे। १२ क्योंकि हमें यह हियाव नहीं कि हम अपने आप को उन में से ऐसे कितनों के साथ गिनें, या उन से अपने को मिलाएं, जो अपनी प्रशंसा करते हैं, और अपने आप को आपस में नाप तौलकर एक दूसरे में मिलान करके मूख ठहरते हैं। १३ हम तो सीमा से बाहर घमण्ड कदापि न करेंगे, परन्तु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिये ठहरा दी है, और उम में तुम भी आ गए हो और उसी के अनुसार घमण्ड भी करेंगे। १४ क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसे कि तुम तक न पहुँचने की दशा में होता, बरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुँच चुके हैं। १५ और हम सीमा से बाहर औरों के परिश्रम पर घमण्ड नहीं करने; परन्तु हमें आशा है, कि ज्यों ज्यों तुम्हांग विश्वास बढ़ता जाएगा त्यों त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। १६ कि हम तुम्हारे सिवानो से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएँ, और यह नहीं, कि हम औरों की सीमा के

भीतर बने बनाए कामों पर घमण्ड करें। १७ परन्तु जो घमण्ड करे, वह प्रभु पर घमण्ड करे। १८ क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता है, वह नहीं, परन्तु जिस की बड़ाई प्रभु करता है, वही प्रहण किया जाता है ॥

११ यदि तुम मेरी छोड़ी मूल्यता सह लेते तो क्या ही भला होता; हाँ, मेरी सह भी लेते हो। २ क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिये कि मैं ने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को मीप दूँ। ३ परन्तु मैं डरता हूँ कि जैसे साँप ने अपनी चतुर्गई में हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उम सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएँ। ४ यदि कोई तुम्हारे पास आकर, किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे, जिस का प्रचार हम ने नहीं किया: या कोई और आत्मा तुम्हें मिले; जो पहिले न मिला था; या और कोई सुसमाचार जिसे तुम ने पहिले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। ५ मैं तो समझता हूँ, कि मैं किसी बात में बढ़े में बड़े प्रेरितों से कम नहीं हूँ। ६ यदि मैं वक्तव्य में अनाडी हूँ, तोभी ज्ञान में नहीं; बरन हम ने इस को हर बात में सब पर तुम्हारे लिये प्रगट किया है। ७ क्या इस में मैं ने कुछ पाप किया; कि मैं ने तुम्हें परमेश्वर का सुसमाचार सेत मंत सुनाया; और अपने आप को नीचा किया, कि तुम ऊँचे हो जाओ? ८ मैं ने और कलीसियाओ को लूटा अर्थात् मैं ने उन से भजदूरी ली, ताकि तुम्हारी सेवा करूँ। ९ और जब तुम्हारे

साथ या, धीरे मुझे घटी हुई, तो मैं ने किसी पर भार नहीं दिया, क्योंकि भाइयों ने, मकिडुनिया से आकर मेरी घटी को पूरी की: धीरे मैं ने हर बात में अपने आप को तुम पर भार होने से रोका, धीरे रोके रहूंगा। १० यदि मसीह की सच्चाई मुझ में है, तो भ्रष्टाचार देश में कोई मुझे इस घमण्ड से न रोकेगा। ११ किस लिये? क्या हमलिये कि मैं तुम से प्रेम नहीं रखता? परमेश्वर यह जानता है। १२ परन्तु जो मैं करता हूँ, वही करता रहूंगा; कि जो लोग दांव बुंदते हैं, उन्हें मैं दांव पाने दूँ, ताकि जिस बात में वे घमण्ड करते हैं, उम में वे हमारे ही समान ठहरें। १३ क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित, धीरे छल से काम करने-वाले, धीरे मसीह के प्रेरितों का रूप धरनेवाले हैं। १४ धीरे यह कुछ भ्रष्टाचार की बात नहीं क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। १५ सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, तो कुछ बड़ी बात नहीं परन्तु उन का भ्रन्त उन के कामों के अनुसार होगा ॥

१६ मैं फिर कहता हूँ, कोई मुझे मूर्ख न समझे; नहीं तो मूर्ख ही समझकर मेरी सह लो, ताकि पोड़ा सा मैं भी घमण्ड करूँ। १७ इस बेधड़क घमण्ड से बोलने में जो कुछ मैं कहता हूँ वह प्रभु की आज्ञा के अनुसार * नहीं पर मानों मूर्खता से ही कहता हूँ। १८ जब कि बहुत लोग धरीर के अनुसार घमण्ड करते हैं, तो मैं भी घमण्ड करूँगा। १९ तुम तो समझदार होकर आनन्द से मूर्खों की सह

* य० प्रभु की रीति पर।

सेते हो। २० क्योंकि जब तुम्हें कोई वास बना लेता है, या खा जाता है, या फसा लेता है, या अपने आप को बड़ा बनाता है, या तुम्हारे मुंह पर घण्टा मारता है, तो तुम सह लेते हो। २१ मेरा कहना भ्रनादर ही की रीति पर है, मानो कि हम निर्बल से थे; परन्तु जिस किसी बात में कोई हियाव करता है (मैं मूर्खता से कहता हूँ) तो मैं भी हियाव करता हूँ। २२ क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ: क्या वे ही इस्लामी हैं? मैं भी हूँ: क्या वे ही इब्राहीम के वंश हैं? मैं भी हूँ: क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? २३ (मैं पागल की नाई कहता हूँ) मैं उन से बढ़कर हूँ! अधिक परिश्रम करने में; बार बार कैद होने में; कोड़े खाने में; बार बार मृत्यु के जोखिमों में। २४ पांच बार मैं ने यहूदियों के हाथ से उन्तालीस उन्तालीस कोड़े खाए। २५ तीन बार मैं ने बेंतें खाईं; एक बार पत्थरबाह किया गया; तीन बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था, टूट गए; एक रात दिन मैं ने समुद्र में काटा। २६ मैं बार बार यात्राओं में; नदियों के जोखिमों में; डाकुओं के जोखिमों में; अपने जातिवालों से जोखिमों में; भ्रन्तजातियों से जोखिमों में; नगरों में के जोखिमों में; जंगल के जोखिमों में; समुद्र के जोखिमों में; झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में। २७ परिश्रम धीरे कष्ट में; बार बार जागते रहने में; भूख-पियास में; बार बार उपवास करने में; जाड़े में; उष्ण रहने में। २८ धीरे धीरे बातों को छोड़कर जिन का बर्णन मैं नहीं करता सब कलीसियाओं की चिन्ता प्रतिदिन मुझे दबाती है। २९ किस की निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किस के ठाँकर

लाने से मेरा जी नहीं दुखता? ३० यदि घमण्ड करना अवश्य है, तो मैं अपनी निबलता की बातों पर कर्णगा। ३१ प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता जो सदा धन्य है, जानता है, कि मैं भूठ नहीं बोलता। ३२ दमिश्क में अरितास राजा की और से जो हाकिम था, उस ने मेरे पकड़ने को दमिश्कियों के नगर पर पहरा बैठा रखा था। ३३ और मैं टोकरे में खिड़की से होकर भीत पर से उतारा गया, और उसके हाथ से बच निकला ॥

१२ यद्यपि घमण्ड करना तो मेरे लिये ठीक नहीं तोभी करना पड़ता है; सो मैं प्रभु के दिए हुए दर्शनों और प्रकाशों की चर्चा कर्णगा। २ मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, चौदह वर्ष हुए कि न जाने देहसहित, न जाने देहरहित, परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। ३ मैं ऐसे मनुष्य को जानता हूँ न जाने देहसहित, न जाने देहरहित परमेश्वर ही जानता है। ४ कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया, और ऐसी बातें सुनीं जो कहने की नहीं; और जिन का मुंह पर लाना मनुष्य को उचित नहीं। ५ ऐसे मनुष्य पर तो मैं घमण्ड कर्णगा, परन्तु अपने पर अपनी निबलताओं को छोड़, अपने विषय में घमण्ड न कर्णगा। ६ क्योंकि यदि मैं घमण्ड करना चाहूँ भी तो मूर्ख न हूँगा, क्योंकि सच बोलूँगा; तोभी रुक जाता हूँ, ऐसा न हो, कि जैसा कोई मुझे देखता है, या मुझ से सुनता है, मुझे उस से बढ़कर समझे। ७ और इसलिये कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊँ, मेरे शरीर में एक कांटा

चुभाया * गया अर्थात् शैतान का एक दूत कि मुझे घूसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊँ। ८ इस के विषय में मैं ने प्रभु से तीन बार बिनती की, कि मुझ से यह दूर हो जाए। ९ और उस ने मुझ से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिये बहुत है; क्योंकि मेरी सामर्थ्य निबलता में सिद्ध होती है; इसलिये मैं बड़े आनन्द से अपनी निबलताओं पर घमण्ड कर्णगा, कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। १० इस कारण मैं मसीह के लिये निबलताओं, और निन्दाओं में, और दरिद्रता में और उपद्रवों में, और संकटों में, प्रसन्न हूँ; क्योंकि जब मैं निबल होता हूँ, तभी बलवन्त होता हूँ ॥

११ मैं मूर्ख तो बना, परन्तु तुम ही ने मुझ से यह बरबस करवाया: तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए थी, क्योंकि यद्यपि मैं कुछ भी नहीं, तोभी उन बड़े से बड़े प्रेरितों से किसी बात में कम नहीं हूँ। १२ प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्हों, और अद्भुत कामों, और सामर्थ्य के कामों से दिखाए गए। १३ तुम कौन सी बात में और कलीसियों से कम थे, केवल इस में कि मैं ने तुम पर अपना भार न रखा: मेरा यह अन्याय क्षमा करो ॥

१४ देखो, मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आने को तैयार हूँ, और मैं तुम पर कोई भार न रखूँगा; क्योंकि मैं तुम्हारी सम्पत्ति नहीं, बरन तुम ही को चाहता हूँ: क्योंकि लड़के-बालों को माता-पिता के लिये धन बटोरना न चाहिए, पर माता-पिता को लड़के-बालों के लिये।

१५ मैं तुम्हारी आत्माओं के लिये बहुत आनन्द से खर्च करूँगा, बरन प्राप भी खर्च हो जाऊँगा: क्या जितना बढ़कर मैं तुम से प्रेम रखता हूँ, उतना ही घटकर तुम मुझ से प्रेम रखोगे? १६ ऐसा हो सकता है, कि मैं ने तुम पर बोझ नहीं डाला, परन्तु चतुराई से तुम्हें धोखा देकर फंसा लिया। १७ भला, जिन्हें मैं ने तुम्हारे पास भेजा, क्या उन में से किसी के द्वारा मैं ने छल करके तुम से कुछ ले लिया? १८ मैं ने तितुस को समझाकर उसके साथ उस भाई को भेजा, तो क्या तितुस ने छल करके तुम से कुछ लिया? क्या हम एक ही आत्मा के चलाए न चले? क्या एक ही लोक पर न चले?

१९ तुम अभी तक समझ रहे होगे कि हम तुम्हारे सामने प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हम तो परमेश्वर को उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं, और हे प्रियो, सब बातें तुम्हारी उन्नति ही के लिये कहते हैं। २० क्योंकि मुझे डर है, कहीं ऐसा न हो, कि मैं आकर जैसे चाहता हूँ, वैसे तुम्हें न पाऊँ; और मुझे भी जैसा तुम नहीं चाहते वैसा ही पाओ, कि तुम में झगड़ा, डाई, क्रोध, विरोध, ईर्ष्या, चुगली, अभिमान और बखेड़े हों। २१ और मेरा परमेश्वर कहीं मेरे फिर से तुम्हारे यहां आने पर मुझ पर दबाव डाले और मुझे बहुताई के लिये फिर शोक करना पड़े, जिन्होंने ने पहिले पाप किया था, और उस गन्दे काम, और व्यभिचार, और लुचपन से, जो उन्होंने ने किया, मन नहीं फिराया ॥

१२ अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूँ: दो या तीन गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। २ जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था,

सो * वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने ने पहिले पाप किया, और और सब लोगों से अब पहिले से कहे देता हूँ, कि यदि मैं फिर आऊँगा, तो नहीं छोड़ूँगा। ३ तुम तो इस का प्रमाण चाहते हो, कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिये निबल नहीं; परन्तु तुम में सामर्थ्य है। ४ वह निबलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तौभी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है, हम भी तो उस में निबल हैं; परन्तु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिये हैं, उसके साथ जीएंगे। ५ अपने प्राप को परखो, कि विश्वास में हो कि नहीं; अपने प्राप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते, कि यीशु मसीह तुम में हैं? नहीं तो तुम निकम्मे निकले हो। ६ पर मेरी आशा है, कि तुम जान लोगे, कि हम निकम्मे नहीं। ७ और हम अपने परमेश्वर से यह प्रार्थना करते हैं, कि तुम कोई बुराई न करो; इसलिये नहीं, कि हम खरे देख पड़ें, पर इसलिये कि तुम भलाई करो, चाहे हम निकम्मे ही ठहरें। ८ क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिये कर सकते हैं। ९ जब हम निबल हैं, और तुम बलवन्त हो, तो हम आनन्दित होते हैं, और यह प्रार्थना भी करते हैं, कि तुम सिद्ध हो जाओ। १० इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूँ, कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकांश के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिये नहीं पर बनाने के लिये मुझे दिया है, कड़ाई से कुछ करना न पड़े ॥

११ निदान, हे भाइयो, आनन्दित रहो; सिद्ध बनते जाओ; ढाढ़स रखो; एक ही

* या मानो दूसरी बार उपस्थित होकर ।

मन रखो; मेल से रहो, और प्रेम और शान्ति का दाता * परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। १२ एक दूसरे को पवित्र चुम्बन से नमस्कार करो। १३ सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार

* य० स्रोत।

करते हैं। १४ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता * तुम सब के साथ होती रहे ॥

* या संगति।

गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की, जो न मनुष्यों की ओर से, और न मनुष्य के द्वारा, बरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, जिस ने उस को मरे हुएों में से जिलाया, प्रेरित है। २ और सारे भाइयों की ओर से, जो मेरे साथ हैं; गलतिया की कलीसियाओं के नाम। ३ परमेश्वर पिता, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे। ४ उसी ने अपने प्राप को हमारे पापों के लिये दे दिया, ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। ५ उस की स्तुति और बड़ाई युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

६ मुझे आश्चर्य होता है, कि जिस ने तुम्हें मसीह के अनुग्रह से बुलाया उस ने तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर भुक्ने लगे। ७ परन्तु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं: पर बात यह है, कि कितने ऐसे हैं, जो तुम्हें घबरा देते, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। ८ परन्तु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हम ने तुम को सुनाया है, कोई

और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो स्थापित हो। ९ जैसा हम पहिले कह चुके हैं, वंसा ही में अब फिर कहता हूँ, कि उम सुसमाचार को छोड़ जिसे तुम ने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है, तो स्थापित हो। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? १० यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास न होता ॥

११ हे भाइयो, मैं तुम्हें जताए देता हूँ, कि जो सुसमाचार मैं ने सुनाया है, वह मनुष्य का सा नहीं। १२ क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। १३ यहूदी मत में जो पहिले मेरा चाल चलन था, तुम सुन चुके हो; कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नाश करता था। १४ और अपने बहुत से जातिवालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में बढ़ता जाता था और अपने बापदादों के व्यवहारों में बहुत ही उत्तेजित था। १५ परन्तु परमेश्वर की, जिस ने मेरी माता के गर्भ

ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया, १६ जब इच्छा हुई, कि मुझ में अपने पुत्र को प्रगट करे कि मैं अन्यजातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं; तो मैं ने मांस और लोह से सलाह ली; १७ और न यरूशलेम को उन के पास गया जो मुझ से पहिले प्रेरित थे, पर तुरन्त शरब को पला गया : और फिर वहां से दमिश्क को लौट आया ॥

१८ फिर तीन बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, और उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा ।

१९ परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला ।

२० जो बातों में तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ, कि वे झूठी नहीं । २१ इस के बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया । २२ परन्तु यहूदियों की कलीसियाओं ने जो मसीह में थीं, मेरा मुह तो कभी नहीं देखा था । २३ परन्तु यही सुना करती थीं, कि जो हमें पहिले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है, जिसे पहिले नाश करता था । २४ और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थीं ॥

२५ फिर तीन बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, और उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा ।

२६ परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला ।

२७ जो बातों में तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ, कि वे झूठी नहीं । २८ इस के बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया । २९ परन्तु यहूदियों की कलीसियाओं ने जो मसीह में थीं, मेरा मुह तो कभी नहीं देखा था । ३० परन्तु यही सुना करती थीं, कि जो हमें पहिले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है, जिसे पहिले नाश करता था । ३१ और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थीं ॥

३२ फिर तीन बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, और उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा ।

३३ परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला ।

३४ जो बातों में तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ, कि वे झूठी नहीं । ३५ इस के बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया । ३६ परन्तु यहूदियों की कलीसियाओं ने जो मसीह में थीं, मेरा मुह तो कभी नहीं देखा था । ३७ परन्तु यही सुना करती थीं, कि जो हमें पहिले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है, जिसे पहिले नाश करता था । ३८ और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थीं ॥

३९ फिर तीन बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, और उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा ।

४० परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला ।

४१ जो बातों में तुम्हें लिखता हूँ, देखो, परमेश्वर को उपस्थित जानकर कहता हूँ, कि वे झूठी नहीं । ४२ इस के बाद मैं सूरिया और किलिकिया के देशों में आया । ४३ परन्तु यहूदियों की कलीसियाओं ने जो मसीह में थीं, मेरा मुह तो कभी नहीं देखा था । ४४ परन्तु यही सुना करती थीं, कि जो हमें पहिले सताता था, वह अब उसी धर्म का सुसमाचार सुनाता है, जिसे पहिले नाश करता था । ४५ और मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करती थीं ॥

४६ फिर तीन बरस के बाद मैं कैफा से भेंट करने के लिये यरूशलेम को गया, और उसके पास पन्द्रह दिन तक रहा ।

४७ परन्तु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और प्रेरितों में से किसी से न मिला ।

ठहरे । १ परन्तु तितुस भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है; खतना कराने के लिये विवश नहीं किया गया । ४ और वह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ, जो बोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें दास बनाएं । ५ उन के घाचीन होना हम ने एक घड़ी भर न माना, इसलिये कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे ।

६ फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे (वे चाहे कैसे ही थे, मुझे इस से कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता) उन से जो कुछ भी समझे जाते थे, मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ । ७ परन्तु इसके विपरीत जब उन्होंने ने देखा, कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिये सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया वैसा ही खतनारहितों के लिये मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया । ८ (क्योंकि जिस ने पतरस से खतना किए हुए लोगों में प्रेरिताई का कार्य्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझ से भी अन्यजातियों में प्रभावशाली कार्य्य करवाया) । ९ और जब उन्होंने ने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब, और कैफा, और यूहन्ना ने जो कलीसिया के खम्भे समझे जाते थे, मुझ को और बरनबास को दहिना हाथ देकर संग कर लिया, कि हम अन्यजातियों के पास जाएं, और वे खतना किए हुए लोगों के पास ।

१० केवल यह कहा, कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम के करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था ॥

११ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । १२ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

१३ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । १४ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

१५ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । १६ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

१७ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । १८ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

१९ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । २० इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

२१ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । २२ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

२३ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । २४ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

२५ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । २६ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

२७ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । २८ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

२९ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । ३० इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

३१ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । ३२ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

३३ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । ३४ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

३५ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । ३६ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

३७ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । ३८ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

३९ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । ४० इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

४१ पर जब कैफा अन्ताकिया में आया, तो मैं ने उसके मुंह पर उसका साम्हना किया, क्योंकि वह दोषी ठहरा था । ४२ इसलिये कि याकूब की और से कितने लोगों के

माने से पहिले वह अन्यजातियों के साथ खाया करता था, परन्तु जब वे आए, तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे उन से हट गया और किनारा करने लगा। १३ और उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, यहां तक कि बरनबास भी उन के कपट में पड़ गया। १४ पर जब मैं ने देखा, कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैं ने सब के साम्हने कंफा से कहा; कि जब तू यहूदी होकर अन्यजातियों की नाई चलता है, और यहूदियों की नाई नहीं तो तू अन्यजातियों को यहूदियों की नाई चलने को क्यों कहता है? १५ हम तो जन्म के यहूदी हैं, और पापी अन्यजातियों में से नहीं। १६ तोभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हम ने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरें; इसलिये कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। १७ हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकलें, तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। १८ क्योंकि जो कुछ मैं ने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूं, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूं। १९ मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिये मर गया, कि परमेश्वर के लिये जीऊं। २० मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है; और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं, जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिस ने मुझ से प्रेम किया, और मेरे लिये अपने

आप को दे दिया। २१ मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता।

३ हे निर्बुद्धि गलतियों, किस ने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो भ्रातृओं के साम्हने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया! २ मैं तुम से केवल यह जानना चाहता हूं, कि तुम ने आत्मा को, क्या व्यवस्था के कामों से, या विश्वास के समाचार से पाया? ३ क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो, कि आत्मा की रीति पर आरम्भ करके अब शरीर की रीति पर अन्त करोगे? ४ क्या तुम ने इतना दुख योंही उठाया? परन्तु कदाचित् व्यर्थ नहीं। ५ सो जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के सुसमाचार से ऐसा करता है? ६ इब्राहीम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया * और यह उसके लिये धार्मिकता गिनी गई। ७ तो यह जान लो, कि जो विश्वास करनेवाले हैं, वे ही इब्राहीम की सन्तान हैं। ८ और पवित्र शास्त्र ने पहिले ही से यह जानकर, कि परमेश्वर अन्यजातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहिले ही से इब्राहीम को यह सुसमाचार सुना दिया, कि तुम में सब जातियां आशीष पाएंगी। ९ तो जो विश्वास करनेवाले हैं, वे विश्वासी इब्राहीम के साथ आशीष पाते हैं। १० सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब स्राप के आधीन हैं, क्योंकि लिखा है, कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं

रहता, वह स्थापित है। ११ पर यह बात प्रगट है, कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। १२ पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ सम्बन्ध नहीं; पर जो उन को मानेगा, वह उन के कारण जीवित रहेगा। १३ मसीह ने जो हमारे लिये स्थापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के स्नाप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह स्थापित है। १४ यह इसलिये हुआ, कि इब्राहीम की आशीष मसीह यीशु में अन्यजातियों तक पहुंचे, और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें, जिस की प्रतिज्ञा हुई है ॥

१५ हे भाइयो, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, कि मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है, तो न कोई उसे टालता है और न उस में कुछ बढ़ाता है। १६ निदान, प्रतिज्ञाएं इब्राहीम को, और उसके वंश को दी गईं: वह यह नहीं कहता, कि वंशों को; जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को: और वह मसीह है। १७ पर मैं यह कहता हूँ, कि जो वाचा परमेश्वर ने पहिले से पक्की की थी, उस को व्यवस्था चार सौ तीस बरस के बाद आकर नहीं टाल देती, कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। १८ क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है, तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परन्तु परमेश्वर ने इब्राहीम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। १९ तब फिर व्यवस्था क्या रही? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई, कि उस वंश के आने तक रहे, जिस को प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गईं। २० मध्यस्थ तो एक का नहीं

होता, परन्तु परमेश्वर एक ही है। २१ तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि न हो? क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती, तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। २२ परन्तु पवित्र शास्त्र ने सब को पाप के आधीन कर दिया, ताकि वह प्रतिज्ञा जिस का आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करनेवालों के लिये पूरी हो जाए ॥

२३ पर विश्वास के आने से पहिले व्यवस्था की आधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रगट होनेवाला था, हम उसी के बन्धन में रहे। २४ इसलिये व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है, कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। २५ परन्तु जब विश्वास आ चुका, तो हम अब शिक्षक के आधीन न रहे। २६ क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की सन्तान हो। २७ और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने ने मसीह को पहिन लिया है। २८ अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी; न कोई दास, न स्वतंत्र; न कोई नर, न नारी; क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। २९ और यदि तुम मसीह के हो, तो इब्राहीम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो ॥

४ मैं यह कहता हूँ, कि वारिस जब तक वालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तोभी उस में और दास में कुछ भेद नहीं। २ परन्तु पिता के ठहराए हुए समय तक रक्षकों और भण्डारियों के वश में रहता है। ३ वैसे ही हम भी,

जब बालक थे, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। ४ परन्तु जब समय पूरा हुआ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा, और व्यवस्था के आधीन उत्पन्न हुआ। ५ ताकि व्यवस्था के आधीनों को मोल लेकर छोड़ा ले, और हम को लेपालक होने का पद मिले। ६ और तुम जो पुत्र हो, इसलिये परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। ७ इसलिये तू अब दास नहीं, परन्तु पुत्र है; और जब पुत्र हुआ, तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ ॥

८ भला, तब तो तुम परमेश्वर को न जानकर उनके दास थे जो स्वभाव से परमेश्वर नहीं। ९ पर अब जो तुम ने परमेश्वर को पहचान लिया वरन परमेश्वर ने तुम को पहचाना, तो उन निबल और निकम्मी आदि-शिक्षा की बातों की और क्यों फिरते हो, जिन के तुम दोबारा दास होना चाहते हो? १० तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। ११ में तुम्हारे विषय में उस्ता हूँ, कहीं ऐसा न हो, कि जो परिश्रम में ने तुम्हारे लिये किया है, व्यर्थ ठहरे ॥

१२ हे भाइयो, में तुम से बिनती करता हूँ, तुम मेरे समान हो जाओ: क्योंकि में भी तुम्हारे समान हुआ हूँ; तुम ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। १३ पर तुम जानते हो, कि पहिले पहिल में ने शरीर की निबलता के कारण तुम्हें मुसमाचार सुनाया। १४ और तुम ने मेरी शारीरिक दशा को जो तुम्हारी परीक्षा का कारण थी, तुच्छ न जाना; न उस से घृणा की; और परमेश्वर के

दूल वरन मसीह के समान मुझे ग्रहण किया। १५ तो वह तुम्हारा आनन्द मनाना कहां गया? में तुम्हारा गवाह हूँ, कि यदि हो सकता, तो तुम अपनी आँखें भी निकालकर मुझे दे देते। १६ तो क्या तुम से सच बोलने के कारण में तुम्हारा बेरी बन गया हूँ। १७ वे तुम्हें मित्र बनाना तो चाहते हैं, पर भली मनसा से नहीं; वरन तुम्हें अलग करना चाहते हैं, कि तुम उन्हीं को मित्र बना लो। १८ पर यह भी अच्छा है, कि भली बात में हर समय मित्र बनाने का यत्न किया जाए, न केवल उसी समय, कि जब में तुम्हारे साथ रहता हूँ। १९ हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक में तुम्हारे लिये फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। २० इच्छा तो यह होती है, कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलू, क्योंकि तुम्हारे विषय में मुझे सन्देह है ॥

२१ तुम जो व्यवस्था के आधीन होना चाहते हो, मुझ से कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? २२ यह लिखा है, कि इब्राहीम के दो पुत्र हुए; एक दासी से, और एक स्वतंत्र स्त्री से। २३ परन्तु जो दासी से हुआ, वह शारीरिक रीति से जन्मा; और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ, वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। २४ इन बातों में दृष्टान्त है, ये स्त्रियां मानो दो वाचाएं हूँ, एक तो सीना पहाड़ की जिस से दास ही उत्पन्न होते हैं; और वह हाजिरा है। २५ और हाजिरा मानो अब का सीना पहाड़ है, और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। २६ पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वह

हमारी माता है। २७ क्योंकि लिखा है, कि हे बांभ, तू जो नहीं जनती भ्रानन्द कर, तू जिस को पीड़ाएं नहीं उठतीं गला खोलकर जय जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की सन्तान मुहागिन की सन्तान से भी अधिक हैं। २८ हे भाइयो, हम इसहाक की नाई प्रतिज्ञा की सन्तान हैं। २९ और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही भ्रब भी होता है। ३० परन्तु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के हाथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। ३१ इसलिये हे भाइयो, हम दासी के नहीं, परन्तु स्वतंत्र स्त्री की सन्तान हैं।

पू मसीह ने स्वतंत्रता के लिये हमें स्वतंत्र किया है; सो इसी में स्थिर रहो, और दासत्व के जूए में फिर से न जुतो ॥

२ देखो, मैं पौलुस तुम से कहता हूँ, कि यदि खतना कराओगे, तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। ३ फिर भी मैं हर एक खतना करानेवाले को जताए देता हूँ, कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ४ तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। ५ क्योंकि आत्मा के कारण, हम विश्वास से, आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोहते हैं। ६ और मसीह यीशु में न खतना, न खतनारहित कुछ काम का है, परन्तु केवल विश्वास का जो प्रेम के द्वारा प्रभाव करता है। ७ तुम तो मली भांति दीड़ रहे थे, अब किस ने तुम्हें रोक दिया, कि सत्य को

न मानो। ८ ऐसी सीख तुम्हारे बुलाने-वाले की ओर से नहीं। ९ थोड़ा सा खमीर सारे गूंधे हुए आटे को खमीर कर डालता है। १० मैं प्रभु पर तुम्हारे विषय में भरोसा रखता हूँ, कि तुम्हारा कोई दूसरा विचार न होगा; परन्तु जो तुम्हें धबरा देता है, वह कोई क्यों न हो दण्ड पाएगा। ११ परन्तु हे भाइयो, यदि मैं अब तक खतना का प्रचार करता हूँ, तो क्यों अब तक सताया जाता हूँ; फिर तो क्रूस की ठोकर जाती रही। १२ भला होता, कि जो तुम्हें डांढाडोल करते हैं, वे काट डाले जाते!

१३ हे भाइयो, तुम स्वतंत्र होने के लिये बुलाए गए हो परन्तु ऐसा न हो; कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिये भ्रवसर बने, बरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। १४ क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। १५ पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो, तो चौकस रहो, कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो ॥

१६ पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। १७ क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं; इसलिये कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। १८ और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो, तो व्यवस्था के आधीन न रहे। १९ शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात् व्यभिचार, गन्दे काम, लुचपन। २० मूर्ति पूजा, टोना, बंद,

भगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म।
 २१ डाह, मतवालपन, लीलाक्रीड़ा, और
 इन के ऐसे और और काम हैं, इन के
 विषय में मैं तुम को पहिले से कह देता
 हूँ जैसा पहिले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे
 ऐसे काम करनेवाले परमेश्वर के राज्य
 के धारित न होंगे। २२ पर आत्मा का
 फल प्रेम, भ्रानन्द, मेल, धीरज, २३ कृपा,
 भलाई, विश्वास, नम्रता, और संयम है;
 ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी
 व्यवस्था नहीं। २४ और जो मसीह यीशु
 के हैं, उन्होंने शरीर को उस की लालसाओं
 और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया
 है ॥

२५ यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित
 हैं, तो आत्मा के अनुसार चलें भी।
 २६ हम घमण्डी होकर न एक दूसरे
 को छेड़ें, और न एक दूसरे से डाह
 करें ॥

हे भाइयो, यदि कोई मनुष्य किसी
 अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम
 जो आत्मिक हो, नम्रता * के साथ ऐसे
 को संभालो, और अपनी भी चौकसी
 रखो, कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो।
 २ तुम एक दूसरे के भार उठाओ, और
 इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी
 करो। ३ क्योंकि यदि कोई कुछ न होने
 पर भी अपने आप को कुछ समझता है,
 तो अपने आप को धोखा देता है। ४ पर
 हर एक अपने ही काम को जांच ले, और
 तब दूसरे के विषय में नहीं परन्तु अपने
 ही विषय में उसको घमण्ड करने का
 अवसर होगा। ५ क्योंकि हर एक व्यक्ति
 अपना ही बोझ उठाएगा ॥

* यू० नम्रता की आत्मा।

६ जो वचन की शिक्षा पाता है, वह
 सब अच्छी वस्तुओं में सिखानेवाले को
 भागी करे। ७ धोखा न खाओ, परमेश्वर
 ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य
 जो कुछ बोता है, वही काटेगा। ८ क्योंकि
 जो अपने शरीर के लिये बोता है, वह
 शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा;
 और जो आत्मा के लिये बोता है, वह
 आत्मा के द्वारा अनन्त जीवन की कटनी
 काटेगा। ९ हम भले काम करने में
 हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले
 न हों, तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे।
 १० इसलिये जहां तक अवसर मिले हम
 सब के साथ भलाई करें; विशेष करके
 विश्वासी भाइयों के साथ ॥

११ देखो, मैं ने कैसे बड़े बड़े भ्रष्टारों में
 तुम को अपने हाथ से लिखा है।
 १२ जितने लोग शारीरिक दिखाव चाहते
 हैं वे तुम्हारे खतना करवाने के लिये
 दबाव देते हैं, केवल इसनिये कि वे मसीह
 के क्रूस के कारण सताए न जाएं।
 १३ क्योंकि खतना करानेवाले आप तो,
 व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा
 खतना कराना इसलिये चाहते हैं, कि
 तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमण्ड करें।
 १४ पर ऐसा न हो, कि मैं और किसी
 बात का घमण्ड करूं, केवल हमारे प्रभु
 यीशु मसीह के क्रूस का जिस के द्वारा
 संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की
 दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
 १५ क्योंकि न खतना, और न खतना-
 रहित कुछ है, परन्तु नई सृष्टि। १६ और
 जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर, और
 परमेश्वर के इस्त्राएल पर, शान्ति और दया
 होती रहे ॥

१७ आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ ॥

१८ हे भाइयो, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे।
आमीन ॥

इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र ओर मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसुस में हैं ॥

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, कि उस ने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष* दी है। ४ जैसा उस ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहिले उस में चुन लिया, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ५ और अपनी इच्छा की मुमति के अनुसार हमें अपने लिये पहिले से ठहराया, कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों, ६ कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उस ने हमें उस प्यारे में सेंट मेंट दिया। ७ हम को उस में उसके लोहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात् अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ८ जिसे उस ने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर

बहुतायत से किया। ९ कि उस ने अपनी इच्छा का भेद उस मुमति के अनुसार हमें बताया जिसे उस ने अपने आप में ठान लिया था। १० कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबन्ध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है, और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। ११ उसी में जिस में हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहिले से ठहराए जाकर मीरास बने। १२ कि हम जिन्होंने ने पहिले से मसीह पर आशा रखी थी, उस की महिमा की स्तुति के कारण हों। १३ और उसी में तुम पर भी जब तुम ने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुम ने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। १४ वह उसके मोल लिए हुआ के छुटकारे के लिये हमारी मीरास का बयाना है, कि उस की महिमा की स्तुति हो ॥

१५ इस कारण, मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और* सब पवित्र लोगों

* या तुम्हारा प्रेम जो सब पवित्र लोगों से है।

* यू० आशीष से आशीष।

पर प्रगट है। १६ तुम्हारे लिये धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। १७ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। १८ और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हों कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उस की मीरास की महिमा का घन कैसा है। १९ और उस की सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है, उस की शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। २० जो उस ने मसीह के विषय में किया, कि उस को मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहिनी ओर। २१ सब प्रकार की प्रधानता, और अधिकार, और सामर्थ्य, और प्रभुता के, और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में, पर आनेवाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। २२ और सब कुछ उसके पाँवों तले कर दिया : और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। २३ यह उसकी देह है, और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है ॥

२ और उस ने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। २ जिन में तुम पहिले इस संसार की रीति पर, और आकाश के अधिकार के हाकिम पर्यात् उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न माननेवालों में कार्य करता है। ३ इन में हम भी सब के सब पहिले

अपने शरीर की साससाधों में दिन बिताते थे, और शरीर, और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की सन्तान थे। ४ परन्तु परमेश्वर ने जो दया का धनी है; अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिस से उस ने हम से प्रेम किया। ५ जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया; (अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है)। ६ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। ७ कि वह अपनी उस रूपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आनेवाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम घन दिलाए। ८ क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं, बरन परमेश्वर का दान है। ९ और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमण्ड करे। १० क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं; और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिये सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहिले से हमारे करने के लिये तैयार किया ॥

११ इस कारण स्मरण करो, कि तुम जो शारीरिक रीति से धन्यजाति हो, (और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतनावाले कहलाते हैं, वे तुम को खतनारहित कहते हैं)। १२ तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्त्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वररहित थे। १३ पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहिले दूर थे, मसीह के सोहू के द्वारा निकट हो गए हो।

१४ क्योंकि वही हमारा मेल है, जिस ने दोनों को एक कर लिया: और भ्रलग करनेवाली दीवार को जो बीच में थी, ढा दिया। १५ और अपने शरीर में बैर अर्थात् वह व्यवस्था जिस की आजाएँ विधियों की रीति पर थीं, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। १६ और क्रूस पर बैर को नाश करके इस के द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। १७ और उस ने आकर तुम्हें जो दूर थे, और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल-मिलाप का सुसमाचार सुनाया। १८ क्योंकि उम ही के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुँच होती है। १९ इसलिये तुम अब विदेशी और मुमाफिर नहीं रहे, परन्तु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। २० और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नेब पर जिस के कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है, बनाए गए हो। २१ जिम में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मन्दिर बनती जाती है। २२ जिस में तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवासस्थान होने के लिये एक साथ बनाए जाते हो ॥

इसी कारण में पौलुस जो तुम अन्यजातियों के लिये मसीह यीशु का बन्धुभा हैं—२ यदि तुम ने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबन्ध का समाचार सुना हो, जो तुम्हारे लिये मुझे दिया गया। ३ अर्थात् यह, कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रगट हुआ, जैसा मैं पहिले संक्षेप में लिख चुका हूँ। ४ जिस से तुम

पढ़कर जान सकते हो, कि मैं मसीह का वह भेद कहां तक समझता हूँ। ५ जो और और समयों में मनुष्यों को सन्तानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रगट किया गया है। ६ अर्थात् यह, कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्यजातीय लोग मोराम में साभी, और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। ७ और मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ्य के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। ८ मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ, कि मैं अन्यजातियों को मसीह के प्रगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊँ। ९ और सब पर यह बात प्रकाशित कर्ल, कि उस भेद का प्रबन्ध क्या है, जो सब के सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। १० ताकि अब कनीसिया के द्वारा, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, उन प्रधानों और अधिकारियों पर, जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रगट किया जाए। ११ उस सनातन मनसा के अनुसार, जो उस ने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी। १२ जिस में हम को उस पर विश्वास रखने से हियाव और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। १३ इसलिये मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिये मुझे हो रहे हैं, उनके कारण हियाव न छोड़ो, क्योंकि उन में तुम्हारी महिमा है ॥

१४ मैं इसी कारण उस पिता के साम्हने घुटने टेकता हूँ, १५ जिस से स्वर्ग

धौर पृथ्वी पर, हर एक * घराने का नाम रखा जाता है। १६ कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, कि तुम उसके धात्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवन्त होते जाओ। १७ धौर विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर धौर नेव डाल कर। १८ सब पवित्र लोगों ६: साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ; कि उसकी चौड़ाई, धौर लम्बाई, धौर ऊंचाई, धौर गहराई कितनी है। १९ धौर मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ ॥

२० अब जो ऐसा सामर्थ्य है, कि हमारी बिनती धौर समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है, २१ कलीसिया में, धौर मसीह यीशु में, उस की महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। धामीन ॥

४ सो में जो प्रभु में बन्धुआ हूं तुम से बिनती करता हूं, कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। २ अर्थात् सारी दीनता धौर नम्रता सहित, धौर धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। ३ धौर मेल के बन्ध में धात्मा की एकता रखने का यत्न करो। ४ एक ही देह है, धौर एक ही धात्मा; जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही भाशा है। ५ एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। ६ धौर सब का एक ही

* वा सारे।

परमेश्वर धौर पिता है, जो सब के ऊपर, धौर सब के मध्य में, धौर सब में है। ७ पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। ८ इसलिये वह कहता है, कि वह ऊंचे पर चढ़ा, धौर बन्धुवाई को बान्ध से गया, धौर मनुष्यों को दान दिए। ९ (उसके चढ़ने से, धौर क्या पाया जाता है केवल यह, कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। १० धौर जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे)। ११ धौर उस ने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, धौर कितनों को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, धौर कितनों को सुसमाचार सुनानेवाले नियुक्त करके, धौर कितनों को रखवाले धौर उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। १२ जिस से पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, धौर सेवा का काम किया जाए, धौर मसीह की देह उन्नति पाए। १३ जब तक कि हम सब के सब विश्वास, धौर परमेश्वर के पुत्र की पहिचान में एक न हो जाएं, धौर एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं धौर मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं। १४ ताकि हम भागे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग-विद्या धौर चतुराई से उन के भ्रम की युक्तियों की, धौर उपदेश की, हर एक बयार से उछाले, धौर इधर-उधर घुमाए जाते हों। १५ बरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए, सब बातों में उस में जो सिर है, अर्थात् मसीह में बढ़ते जाएं। १६ जिस से सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, धौर एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिमाण से उस में होता है, अपने आप को

बढ़ाती है, कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए ॥

१७ इसलिये मैं यह कहता हूँ, और प्रभु में जाता देता हूँ कि जैसे धन्यजातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। १८ क्योंकि उनकी बुद्धि अन्धेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उन में है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। १९ और वे सुन्न होकर, लुचपन में लग गए हैं, कि सब प्रकार के गन्दे काम लालसा से किया करें। २० पर तुम ने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई।

२१ बरन तुम ने सचमुच उगी को मुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए। २२ कि तुम अगले चालचलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमानेवाली अभिलाषाओं के अनुसार अश्रुत होता जाता है, उतार डालो। २३ और अपने मन के प्रात्मिक स्वभाव में नये बनते जाओ। २४ और नये मनुष्यत्व को पहिन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता, और पवित्रता में सृजा गया है ॥

२५ इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। २६ क्रोध तो करो, पर पाप मत करो: मूर्ख प्रस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। २७ और न क्षान्त * को अबसर दो। २८ चोरी करनेवाला फिर चोरी न करे; बरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे; इसलिये कि जिसे प्रयोजन हो, उसे देने को उसके पास कुछ हो।

२९ कोई गन्दी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिये उत्तम हो, ताकि उस से सुननेवालों पर अनुग्रह हो। ३० और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिस से * तुम पर छुटकारे के दिन के लिये छाप दी गई है। ३१ सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, और कलह, और निन्दा सब दूरभाव समेत तुम से दूर की जाए। ३२ और एक दूसरे पर कृपाल, और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो ॥

५ इसलिये प्रिय, बालको की नाई परमेश्वर के सदृश्य बनो। २ और प्रेम में चलो; जैसे मसीह ने भी तुम से प्रेम किया; और हमारे लिये अपने आप को मुखदायक सुगन्ध के लिये परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ३ और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वंसा तुम में व्यभिचार, और किसी प्रकार अशुद्ध काम, या लोभ की चर्चा तक न हो। ४ और न निर्लज्जता, न मूढ़ता की धानचीन की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, बरन धन्यवाद ही मुना जाए। ५ क्योंकि तुम यह जानते हो, कि किसी व्यभिचारी, या अशुद्ध जन, या लोभी मनुष्य की, जो मूरत पूजनेवाले के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मीरास नहीं। ६ कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे; क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आशा न माननेवालों पर भड़कता है। ७ इसलिये

तुम उन के सहभागी न हो। ८ क्योंकि तुम तो पहले धन्यकार थे परन्तु अब प्रभु में ज्योति हो, तो ज्योति की सन्तान की नाई चलो। ९ (क्योंकि ज्योति * का फल सब प्रकार की भलाई, और धार्मिकता, और मृत्यु है)। १० और यह परलो, कि प्रभु को क्या भाता है? ११ और धन्यकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, बरन उन पर उलाहना दो। १२ क्योंकि उन के गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। १३ पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रगट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रगट करता है, वह ज्योति है। १४ इस कारण वह कहता है, हे सोनेवाले जाग और मुँदों में से जी उठ; तो मसीह की ज्योति तुम्ह पर चमकेगी ॥

१५ इसलिये ध्यान से देखो, कि कैसी चाल चलते हो; निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो। १६ और अक्सर को बहुमोल समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। १७ इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो, कि प्रभु की इच्छा क्या है? १८ और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इस से लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। १९ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के साम्हने गाते और कीर्तन करते रहो। २० और सदा सब बातों के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करत रहो। २१ और मसीह के भय से एक दूसरे के प्राधीन रहो ॥

२२ हे पत्नियो, अपने अपने पति के ऐसे प्राधीन रहो, जैसे प्रभु के। २३ क्योंकि पति पत्नी का सिर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है; और आप ही देह का उद्धारकर्ता है। २४ पर जैसे कलीसिया मसीह के प्राधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के प्राधीन रहें। २५ हे पत्नियो, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिये दे दिया। २६ कि उस को बचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर के पवित्र बनाए। २७ और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिस में न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, बरन पवित्र और निर्दोष हो। २८ इसी प्रकार उचित है, कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे, जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। २९ क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा बरन उसका पासन-मोचण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। ३० इसलिये कि हम उस की देह के अंग हैं। ३१ इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से भिला रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे। ३२ यह भय तो बड़ा है; पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। ३३ पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने ॥

हे बालको, प्रभु में अपने माता-पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। २ अपनी माता और पिता

* कित्ती कित्ती लेख में 'आत्मा' शब्द आया है।

का धावर कर (यह पहिली धाजा है, जिस के साथ प्रतिज्ञा भी है) । ३ कि तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत दिन जोबित रहे । ४ और हे बच्चेवालो अपने बच्चों को रिस न दिलाओ परन्तु प्रभु की शिक्षा, और चितावनी देते हुए, उन का पालन-पोषण करो ॥

५ हे दासो, जो लोग शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सीधार्ई से बरते, और कांपते हुए, जैसे मसीह की, वैसे ही उन की भी धाजा मानो । ६ और मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालों की नाईं दिलाने के लिये सेवा न करो, पर मसीह के दासों की नाईं मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो । ७ और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं, परन्तु प्रभु की जानकर सुइच्छा से करो । ८ क्योंकि तुम जानते हो, कि जो कोई जैसा भ्रच्छा काम करेगा, चाहे बास हो, चाहे स्वतंत्र; प्रभु से वैसा ही पाएगा । ९ और हे स्वामियो, तुम भी धमकियां छोड़कर उन के साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो, कि उन का और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है, और वह किसी का पक्ष नहीं करता ॥

१० निदान, प्रभु में और उस की शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो । ११ परमेश्वर के सारे हथियार बान्ध लो; कि तुम शैतान * की युक्तियों के साम्हने खड़े रह सको । १२ क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध, सोहू और मांस से नहीं, परन्तु प्रधानों से और अधिकारियों से, और इस संसार के भन्धकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की धात्मिक सेनाओं से है जो आकाश

में हैं । १३ इसलिये परमेश्वर के सारे हथियार बान्ध लो, कि तुम बुरे दिन में साम्हना कर सको, और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको । १४ सो सत्य से अपनी कमर कसकर, और धार्मिकता की झिलम पहिन कर । १५ और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहिन कर । १६ और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिस से तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको । १७ और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो । १८ और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, और बिनती करते रहो, और इसी लिये जागते रहो, कि सब पवित्र लोगों के लिये खनातार बिनती किया करो । १९ और मेरे लिये भी, कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए, कि मैं हियाव से सुसमाचार का मेद बता सकूं जिस के लिये मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं । २० और यह भी कि मैं उस के विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं ॥

२१ और तुलिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वासयोग्य सेवक है तुम्हें सब बातें बताएगा, कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूं । २२ उसे मैं ने तुम्हारे पास इसी लिये भेजा है, कि तुम हमारी दशा को जानो, और वह तुम्हारे मनों को शान्ति दे ॥

२३ परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शान्ति और विश्वास सहित प्रेम मिले । २४ जो हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम, जो मसीह यीशु में होकर फिलिपी में रहते हैं, ब्रह्मियों* और सेवकों † समेत। २ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ, तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ४ और जब कभी तुम सब के लिये बिनती करता हूँ, तो सदा भ्रानन्द के साथ बिनती करता हूँ। ५ इसलिये, कि तुम पहिले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। ६ और मुझे इस बात का भरोसा है, कि जिस ने तुम में अच्छा काम आरम्भ किया है, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। ७ उचित है, कि मैं तुम सब के लिये ऐसा ही विचार करूँ क्योंकि तुम मेरे मन में भासे हो, और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिये उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। ८ इस में परमेश्वर मेरा गवाह है, कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूँ। ९ और मैं यह प्रार्थना करता हूँ, कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। १० यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को श्रिय जानो,

और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो; और ठोकर न खाओ। ११ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ जिस से परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे ॥

१२ हे भाइयो, मैं चाहता हूँ, कि तुम यह जान लो, कि मुझ पर जो बीता है, उस से सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। १३ यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रगट हो गया है कि मैं मसीह के लिये कैद हूँ। १४ और प्रभु में जो भाई हैं, उन में से बहुधा मेरे कैद होने के कारण, हियाव बांध कर, परमेश्वर का वचन निघड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। १५ कितने तो डाह और भगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कितने भली मनसा से। १६ कई एक तो यह जान कर कि मैं सुसमाचार के लिये उत्तर देने को ठहराया गया हूँ प्रेम से प्रचार करते हैं। १७ और कई एक तो सीधे से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझ कर कि मेरी कैद में मेरे लिये क्लेश उत्पन्न करें। १८ सो क्या हुआ? केवल यह, कि हर प्रकार से चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इस से भ्रानन्दित हूँ, और भ्रानन्दित रहूंगा भी। १९ क्योंकि मैं जानता हूँ, कि तुम्हारी बिनती के द्वारा, और यीशु मसीह की आत्मा के दान के

* या बिरहियों।

† या डीकनों।

द्वारा, इस का प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। २० में तो यही हार्दिक लालसा प्रीर प्राणा रखता हूँ, कि मैं किसी बात में लज्जित न होऊँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसा ही अब भी हो चाहे मैं जीवित रहूँ वा मर जाऊँ। २१ क्योंकि मेरे लिये जीवित रहना मसीह है, प्रीर मर जाना लाभ है। २२ पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिये लाभदायक है तो मैं नहीं जानता, कि किस को चुनूँ। २३ क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ; जी तो चाहता हूँ कि कूच करके मसीह के पास जा रहूँ, क्योंकि यह बहुत ही प्रच्छा है। २४ परन्तु शरीर में रहना तुम्हारे कारण प्रीर भी आवश्यक है। २५ प्रीर इसलिये कि मुझे इस का भरोसा है सो मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा, बरन तुम सब के साथ रहूँगा जिस से तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ प्रीर उस में आनन्दित रहो। २६ प्रीर जो घमण्ड तुम मेरे विषय में करते हो, वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बड़ जाए। २७ केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल-चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूँ, चाहे न भी आऊँ, तुम्हारे विषय में यह सुनूँ, कि तुम एक ही प्रात्मा में स्थिर हो, प्रीर एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिये परिश्रम करते रहते हो। २८ प्रीर किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते? यह उन के लिये विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परन्तु तुम्हारे लिये उद्धार का, प्रीर

यह परमेश्वर की प्रीर से है। २९ क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ, कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिये दुख भी उठाओ। ३० प्रीर तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है, जैसा तुम ने मुझे करते देखा है, प्रीर अब भी सुनते हो, कि मैं वैसा ही करता हूँ ॥

२ सो यदि मसीह में कुछ शान्ति, प्रीर प्रेम से बाइस प्रीर प्रात्मा की सहभागिता, प्रीर कुछ करुणा प्रीर दया है। २ तो मेरा यह आनन्द पूरा करो कि एक मन रहो प्रीर एक ही प्रेम, एक ही चित्त, प्रीर एक ही मनसा रखो। ३ विरोध या भूठी बड़ाई के लिये कुछ न करो पर दीनता से एक दूसरे को अपने से प्रच्छा समझो। ४ हर एक अपनी ही हित को नहीं, बरन दूसरों की हित की भी चिन्ता करे। ५ जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। ६ जिस ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। ७ बरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, प्रीर दास का स्वरूप धारण किया, प्रीर मनुष्य की समानता में हो गया। ८ प्रीर मनुष्य के रूप में प्रगट होकर अपने आप को दीन किया, प्रीर यहां तक आज्ञाकारी रहा, कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। ९ इस कारण परमेश्वर ने उसको प्रति महान भी किया, प्रीर उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। १० कि जो स्वर्ग में प्रीर पृथ्वी पर प्रीर जो पृथ्वी के नीचे हैं; वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। ११ प्रीर परमेश्वर पिता की महिमा के

लिये हर एक जीव भंगीकार कर से कि यीशु मसीह ही प्रभु है ॥

१२ सो हे मेरे प्यारो, जिस प्रकार तुम सदा से भ्राता मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उदार का कार्य पूरा करते जाओ। १३ क्योंकि परमेश्वर ही है, जिस ने अपनी मुश्किल निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। १४ सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। १५ ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलङ्क सन्तान बने रहो, (जिन के बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों की नाई दिखाई देते हो)। १६ कि मसीह के दिन मुझे घमण्ड करने का कारण हो, कि न मेरा दोड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। १७ और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना सोह भी बहाना पड़े तो भी मैं भ्रान्तित हूँ, और तुम सब के साथ भ्रान्तित करता हूँ। १८ वैसे ही तुम भी भ्रान्तित हो, और मेरे साथ भ्रान्तित करो ॥

१९ मुझे प्रभु यीशु में आशा है, कि मैं तीमथियुस को तुम्हारे पास तुरन्त भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शान्ति मिले। २० क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिन्ता करे। २१ क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु मसीह की। २२ पर उसको तो तुम ने परता और जान भी लिया है,

कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उस ने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। २३ सो मुझे आशा है, कि ज्यों ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरन्त भेज दूंगा। २४ और मुझे प्रभु में भरोसा है, कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। २५ पर मैं ने इपफुदीतुस को जो मेरा भाई, और सहकर्मी और संगी योडा और तुम्हारा दूत, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करनेवाला है, तुम्हारे पास भोजना अवश्य समझा। २६ क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, इस कारण वह व्याकुल रहता था क्योंकि तुम ने उस की बीमारी का हाल सुना था। २७ और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहां तक कि मरने पर था, परन्तु परमेश्वर ने उस पर दया की; और केवल उस ही पर नहीं, पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। २८ इसलिये मैं ने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उस से फिर मेंट करके भ्रान्तित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। २९ इसलिये तुम प्रभु में उस से बहुत भ्रान्तित के साथ मेंट करना, और ऐसों का आदर किया करना। ३० क्योंकि वह मसीह के काम के लिये अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी और से मेरी सेवा में हुई, उसे पूरा करे ॥

निदान, हे मेरे भाइयो, प्रभु में भ्रान्तित रहो: वे ही बातें तुम को बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता, और इस में तुम्हारी कुशलता

है। १२ कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करनेवालों से चौकस रहो, उन काट कूट करनेवालों से चौकस रहो। ३ क्योंकि खतनावाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के प्रात्मा को भ्रगुभाई से उपासना करते हैं, और मसीह यीशु पर घमण्ड करते हैं, और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। ४ पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो, तो मैं उस से भी बढ़कर रख सकता हूँ। ५ आठवें दिन मेरा खतना हुआ, इस्त्राएल के वंश, और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ; इब्रानियों का इब्रानी हूँ; व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ। ६ उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सतानेवाला; और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। ७ परन्तु जो जो बातें मेरे लाभ की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। ८ बरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहिचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ; जिस के कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिस से मैं मसीह को प्राप्त करूँ। ९ और उस में पाया जाऊँ; न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, जो व्यवस्था से है, बरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। १० और मैं उसको और उसके मृत्युञ्जय की सामर्थ्य को, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूँ, और उस की मृत्यु की समानता को प्राप्त करूँ। ११ ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं

में से जी उठने के पद तक पहुँचूँ। १२ यह मतलब नहीं, कि मैं पा चुका हूँ, या सिद्ध हो चुका हूँ; पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिये दोड़ा चला जाता हूँ, जिस के लिये मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। १३ हे भाइयो, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ; परन्तु केवल यह एक काम करता हूँ, कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन को भूल कर, भागे की बातों की ओर बढ़ता हुआ। १४ निगाने की ओर दोड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ, जिस के लिये परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। १५ सो हम में से जितने सिद्ध हैं, यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रगट कर देगा। १६ सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसी के अनुसार चलें।

१७ हे भाइयो, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो, और उन्हें पहिचान रखो, जो इस रीति पर चलते हैं जिस का उदाहरण तुम हम में पाते हो। १८ क्योंकि बहुतेरे ऐसी चाल चलते हैं, जिन की चर्चा मैंने तुम से बार बार किया है, और अब भी रो रोकर कहता हूँ, कि वे अपनी चाल-चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। १९ उन का अन्त विनाश है, उन का ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमण्ड करते हैं, और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। २० पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है; और हम एक उदार-कर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से ध्यान की बात जोह रहे हैं। २१ वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिस के द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीन-हीन देह का

रूप बदलकर, अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा ॥

४ इसलिये हे मेरे प्रिय भाइयो, जिन में मेरा जी लगा रहता है जो मेरे आनन्द और मुकुट हो, हे प्रिय भाइयो, प्रभु में इसी प्रकार स्थिर रहो ॥

२ में यूफ्रोदिया को भी समझाता हूँ, और सुन्तुखे को भी, कि वे प्रभु में एक मन रहें। ३ और हे सच्चे सहकर्मी मैं तुम्ह से भी बिनती करता हूँ, कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में, क्लेमंस और मेरे उन और सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिन के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं ॥

४ प्रभु में सदा आनन्दित रहो; मैं फिर कहता हूँ, आनन्दित रहो। ५ तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रगट हो: प्रभु निकट है। ६ किसी भी बात की चिन्ता मत करो: परन्तु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और बिनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ७ तब परमेश्वर की शान्ति, जो समझ से बिलकुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी ॥

८ निदान, हे भाइयो, जो जो बातें सत्य हैं, और जो जो बातें आदरनीय हैं, और जो जो बातें उचित हैं, और जो जो बातें पवित्र हैं, और जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी * हैं, निदान, जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ९ जो बातें तुम ने मुझ से सीखीं, और ग्रहण की,

और सुनीं, और मुझ में देखीं, उन्हीं का पालन किया करो, तब परमेश्वर जो शान्ति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा ॥

१० मैं प्रभु में बहुत आनन्दित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागृत हुआ है; निश्चय तुम्हें आरम्भ में भी इस का विचार था, पर तुम्हें अवसर न मिला। ११ यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ; क्योंकि मैं ने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ, उसी में सन्तोष करूँ। १२ मैं दोन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ: हर एक बात और सब दशाओं में मैं ने तृप्त होना, भूखा रहना, और बढ़ना-घटना सीखा है। १३ जो मुझे सामर्थ्य देता है उस में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। १४ तौभी तुम ने मला किया, कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। १५ और हे फिलिप्पियो, तुम आप भी जानते हो, कि सुसमाचार प्रचार के आरम्भ में जब मैं ने मकिदोनिया से कूच किया तब तुम्हें छोड़ और किसी मण्डली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की। १६ इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था; तब भी तुम ने मेरी घटी पूरी करने के लिये एक बार क्या बरन दो बार कुछ भेजा था। १७ यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ परन्तु मैं ऐसा फल चाहता हूँ, जो तुम्हारे लाभ के लिये बढ़ता जाए। १८ मेरे पास सब कुछ है, बरन बहुतायत से भी है: जो बस्तुएं तुम ने इपफुदीतुस के हाथ से भेजी थीं उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ, वह तो सुगन्ध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है। १९ और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार

* या सुख्यात।

जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा । २० हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे । आमीन ॥

२१ हर एक पवित्र जन को जो यीशु मसीह में है नमस्कार कहो । जो भाई

मेरे साथ हैं, तुम्हें नमस्कार कहते हैं । २२ सब पवित्र लोग, विशेष करके जो कंसर के घराने के हैं तुम को नमस्कार कहते हैं ॥

२३ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे ॥

कुलुस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री

१ पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से ।

२ मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं ॥

हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शान्ति प्राप्त होती रहे ॥

३ हम तुम्हारे लिये नित प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता प्रपति परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं । ४ क्योंकि हम ने सुना है, कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है, और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो । ५ उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी हुई है, जिस का वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो । ६ जो तुम्हारे पास पहुँचा है और जैसा जगत में भी फल लाता, और बढ़ता जाता है;

प्रपति जिस दिन से तुम ने उस को सुना, और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहिचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है । ७ उसी की शिक्षा तुम ने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफास से पाई, जो हमारे लिये

मसीह का विश्वासयोग्य सेवक है । ८ उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रगट किया ॥

९ इसी लिये जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिये यह प्रार्थना करने और बिनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहिचान में परिपूर्ण हो जाओ । १० ताकि तुम्हारा चाल-चलन प्रभु के योग्य हो, और वह सर्व प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की पहिचान में बढ़ते जाओ । ११ और उस की महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ से बलवन्त होते जाओ, यहां तक कि आनन्द के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको । १२ और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिस ने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीराम में समभागी हों । १३ उसी ने हमें भ्रन्धकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया । १४ जिस में हमें छुटकारा

धर्मात् पापों की क्षमा प्राप्त होती है। १५ वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रति-रूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है। १६ क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिये सृजी गई हैं। १७ और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। १८ और वही देह, धर्मात् कलीसिया का सिर है; वही प्रादि है और मरे हुएों में से जी उठने-वालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। १९ क्योंकि पिता की प्रमन्नता इसी में है कि उस में सारी परि-पूर्णता वास करे। २० और उसके क्रूस पर बहे हुए लोह के द्वारा मेल मिलाप करके, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले चाहे वे पृथ्वी पर की हों, चाहे स्वर्ग में की। २१ और उस ने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया जो पहिले निकाले हुए ये और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे। २२ ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक, और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। २३ यदि तुम विश्वास की नेब पर दृढ़ बने रहो, और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुम ने सुना है न छोड़ो, जिस का प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया; और जिस का मैं पौलस सेवक बना ॥

२४ अब मैं उन दुखों के कारण भ्रान्द करता हूँ, जो तुम्हारे लिये उठाता हूँ, और मसीह के क्लेशों की घटी उस की देह के लिये, धर्मात् कलीसिया के लिये,

अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ। २५ जिस का मैं परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार सेवक बना, जो तुम्हारे लिये मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। २६ धर्मात् उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परन्तु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रगट हुआ है। २७ जिन पर परमेश्वर ने प्रगट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्यायियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? और वह यह है, कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। २८ जिस का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं, कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। २९ और इसी के लिये मैं उस की उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ।

२ मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो, कि तुम्हारे और उन के जो लौदीकिया में हैं, और उन सब के लिये जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा मैं कैसा परिश्रम करता हूँ। २ ताकि उन के मनों में शान्ति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को धर्मात् मसीह को पहचान लें। ३ जिस में बुद्धि और ज्ञान से सारे भएडार * छिपे हुए हैं। ४ यह मैं इस-लिये कहता हूँ, कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभानेवाली बातों से धोखा न दे।

५ क्योंकि मैं यदि शरीर के भाव से तुम से दूर हूँ, तौभी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे विधि-अनुसार चरित्र और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ ॥

६ सो जैसे तुम ने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो । ७ और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ; और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अत्यन्त धन्यवाद करते रहो ॥

८ चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व-ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अंधेर * न कर ले, जो मनुष्यों के परम्पराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं । ९ क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास करती है । १० और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है । ११ उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, जो हाथ से नहीं होता, अर्थात् मसीह का खतना, जिस से शारीरिक देह उतार दी जाती है । १२ और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके, जिस ने उस को मरे हुए में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे । १३ और उस ने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों, और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया । १४ और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर, और हमारे विरोध में था मिटा डाला;

और उस को क्रूस पर कीलों से जड़कर साम्हने से हटा दिया है । १५ और उस ने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उन का खुल्लमखुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय-जय-कार की ध्वनि सुनाई ॥

१६ इसलिये खाने पीने या पब्लं या नए चान्द, या सब्तों के विषय में तुम्हारा कोई फंसला न करे । १७ क्योंकि ये सब भानेवाली बातों की छाया हैं, पर मूल * वस्तुएं मसीह की हैं । १८ कोई मनुष्य दीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे । ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है । १९ और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिस से सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन-पोषण पाकर और एक साथ गठकर, परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है ॥

२० जब कि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर उन के समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की भ्राजाओं और शिक्षानुसार २१ और ऐसी विधियों के बश में क्यों रहते हो ? कि यह न छूना, उसे न चखना, और उसे हाथ न लगाना । २२ (क्योंकि ये सब वस्तु काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी) । २३ इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गड़ी हुई भक्ति की रीति, और दीनता, और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परन्तु शारीरिक लालसाओं के रोकने में इन से कुछ भी लाभ नहीं होता ॥

* या लूट न लें ।

* यू० देह ।

२ सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दहिनी ओर बैठा है। २ पृथ्वी पर की नहीं परन्तु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ३ क्योंकि तुम तो मर गए, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। ४ जब मसीह जो हमारा जीवन है, प्रगट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रगट किए जाओगे ॥

५ इसलिये अपने उन धर्मों को मार डालो, जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात् व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है *। ६ इन ही के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न माननेवालों पर पड़ता है। ७ और तुम भी, जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। ८ पर अब तुम भी इन सब को अर्थात् क्रोध, रोष, वैरभाव, निन्दा और मुंह से गालियाँ बकना ये सब बातें छोड़ दो। ९ एक दूसरे से भूठ मत बोलो क्योंकि तुम ने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। १० और नए मनुष्यत्व को पहिन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार जान प्राप्त करने के लिये नया बनता जाता है। ११ उस में न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना, न खतनारहित, न जङ्गली, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र : केवल मसीह सब कुछ और सब में है ॥

१२ इसलिये परमेश्वर के चुने हुएों की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी

करुणा, और भलाई, और दीनता, और नम्रता, और सहनशीलता धारण करो। १३ और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सह लो, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो : जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी करो। १४ और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबन्ध है बान्ध लो। १५ और मसीह की शान्ति जिस के लिये तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करो, और तुम धन्यवादी बने रहो। १६ मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो; और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, और चिंताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिये भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाओ। १७ और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो ॥

१८ हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के आधीन रहो। १९ हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, और उन से कठोरता न करो। २० हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता-पिता की आज्ञा का पालन करो क्योंकि प्रभु इस से प्रसन्न होता है। २१ हे बच्चेवालों, अपने बालकों को तंग न करो, न हो कि उन का साहस टूट जाए। २२ हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उन की आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करनेवालों की नाई दिखाने के लिये नहीं, परन्तु मन की सीधार्ई और

* या मूरतपूजा है।

परमेश्वर के भय से। २३ और जो कुछ तुम करते हो, तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिये नहीं परन्तु प्रभु के लिये करते हो। २४ क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इस के बदले प्रभु से मोराम मिलेगी : तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो। २५ क्योंकि जो बुरा करता है, वह अपनी बुराई का फल पाएगा; वहां किसी का पक्षपात नहीं।

४ हे स्वामियो, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठीक व्यवहार करो. यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है ॥

२ प्रार्थना में लगे रहो, और धन्यवाद के साथ उस में जागृत रहो। ३ और इस के साथ ही साथ हमारे लिये भी प्रार्थना करते रहो, कि परमेश्वर हमारे लिये वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, कि हम मसीह के उस भेद का बर्णन कर सकें जिस के कारण में कैद में हूँ। ४ और उसे ऐसा प्रगट करूँ, जैसा मुझे करना उचित है। ५ भवसर को बहुमूल्य समझकर बाहरवालों के साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करो। ६ तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और सलोना हो, कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर देना भा जाए ॥

७ प्रिय भाई और विश्वासयोग्य सेवक, तुल्लिकुस जो प्रभु में मेरा सहकर्मी है, मेरी सब बातें तुम्हें बता देगा। ८ उसे मैं ने इसलिये तुम्हारे पास भेजा है, कि तुम्हें हमारी दशा मालूम हो जाए और वह तुम्हारे हृदयों को शान्ति दे। ९ और उसके साथ उनेसिमुस को भी भेजा है जो विश्वासयोग्य और प्रिय भाई और तुम

ही में से है, ये तुम्हें यहां की सारी बातें बता देंगे ॥

१० अरिस्तर्बुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबा का भाई लगता है (जिस के विषय में तुम ने आज्ञा पाई थी कि यदि वह तुम्हारे पास आए, तो उस से अच्छी तरह व्यवहार करना।)

११ और यीशु जो यूस्तुस कहलाता है, तुम्हें नमस्कार कहते हैं। खतना किए हुए लोगों में से केवल ये ही परमेश्वर के राज्य के लिये मेरे सहकर्मी और मेरी शान्ति का कारण रहे हैं। १२ शपफास जो तुम में से है, और मसीह यीशु का दास है, तुम से नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिये प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। १३ मैं उसका गवाह हूँ, कि वह तुम्हारे लिये और लौदीकिया और हियरापुलिसवालों के लिये बड़ा यत्न करता रहता है। १४ प्रिय वैच लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार। १५ लौदीकिया के भाइयों को और नुमफास और उन के घर की क्लीसिया को नमस्कार कहना। १६ और जब यह पत्र तुम्हारे यहां पढ़ लिया जाए, तो ऐसा करना कि लौदीकिया की क्लीसिया में भी पढ़ा जाए, और वह पत्र जो लौदीकिया से आए उसे तुम भी पढ़ना। १७ फिर अर्खिंपुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुम्हें सौंपी गई है, उसे सावधानी के साथ पूरी करना ॥

१८ मुझ पौलुस का अपने हाथ से लिखा हुआ नमस्कार। मेरी जंजीरों को स्मरण रखना; तुम पर अनुग्रह होता रहे। आमीन ॥

थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्री

१ पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम जो परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह में हैं ॥

अनुग्रह और शान्ति तुम्हें मिलती रहे ॥

२ हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते और सदा तुम सब के विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।

३ और अपने परमेश्वर और पिता के साम्हने तुम्हारे विश्वास के काम, और प्रेम का परिश्रम, और हमारे प्रभु यीशु मसीह में प्राप्ता की धीरता को, लगातार स्मरण करते हैं।

४ और हे भाइयो, परमेश्वर के प्रिय लोगों हम जानते हैं, कि तुम चुने हुए हो।

५ क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल वचन मात्र ही में बरन सामर्थ और पवित्र आत्मा, और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है; जैसा तुम जानते हो, कि हम तुम्हारे लिये तुम में कैसे बन गए थे।

६ और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनन्द के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे।

७ यहां तक कि मकिदुनिया और अखिया के सब विश्वासियों के लिये तुम आदर्श बने।

८ क्योंकि तुम्हारे यहां से न केवल मकिदुनिया और अखिया में प्रभु का वचन सुनाया गया, पर तुम्हारे विश्वास की जो परमेश्वर पर है, हर जगह ऐसी चर्चा फैल गई है, कि हमें कहने की आवश्यकता

ही नहीं। ९ क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा प्राणा कैसा हुआ; और तुम क्योंकर मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो।

१० और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो जिसे उस ने मरे हुएों में से जिलाया, अर्थात् यीशु की, जो हमें आनेवाले प्रकोप से बचाता है ॥

२ हे भाइयो, तुम आप ही जानते हो कि हमारा तुम्हारे पास प्राणा ध्यर्थ न हुआ।

२ बरन तुम आप ही जानते हो, कि पहिले पहिल फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाब दिया, कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं।

३ क्योंकि हमारा उपदेश न भ्रम से है और न अशुद्धता से, और न छल के साथ है।

४ पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसा ही बर्णन करते हैं; और इस में मनुष्यों को नहीं, परन्तु परमेश्वर को, जो हमारे मनों को जांचता है, प्रसन्न करते हैं।

५ क्योंकि तुम जानते हो, कि हम न तो कभी लल्लोपती की बातें किया करते थे, और न लोभ के लिये बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है।

६ और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर

बोझ डाल सकते थे, तौभी हम मनुष्यों से आदर नहीं चाहते थे, और न तुम से, न और किसी से। ७ परन्तु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन-पोषण करती है, वैसे ही हम ने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। ८ और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए, न केवल परमेश्वर का सुसमाचार, पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिये कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। ९ क्योंकि, हे भाइयो, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो, कि हम ने इसलिये रात दिन काम धन्धा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया, कि तुम में से किसी पर भार न हों। १० तुम आप ही गवाह हो : और परमेश्वर भी, कि तुम्हारे बीच में जो विश्वास रखते हो हम कौसी पवित्रता और धार्मिकता और निर्दोषता से रहे। ११ जैसे तुम जानते हो, कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ बर्ताव करता है, वैसे ही हम तुम में से हर एक को भी उपदेश करते, और शान्ति देते, और समझाते थे *। १२ कि तुम्हारा चाल-चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है ॥

१३ इसलिये हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरन्तर करते हैं; कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुँचा, तो तुम ने उसे मनुष्यों का नहीं, परन्तु परमेश्वर का वचन समझकर (और सचमुच यह ऐसा ही है) ग्रहण किया : और वह तुम में जो विश्वास रखते हो, प्रभावशाली है।

* यू० गवाही देते थे।

१४ इसलिये कि तुम, हे भाइयो, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे, जो यहूदिया में मसीह यीशु में हैं, क्योंकि तुम ने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया, जैसा उन्होंने ने यहूदियों से पाया था। १५ जिन्होंने ने प्रभु यीशु को और भविष्यद्वक्ताओं को भी मार डाला और हम को सताया, और परमेश्वर उन से प्रसन्न नहीं; और वे सब मनुष्यों का विरोध करते हैं। १६ और वे भ्रन्यजातियों से उन के उद्धार के लिये बातें करने से हमें रोकते हैं, कि सदा अपने पापों का नपुत्रा भरते रहें; पर उन पर भयानक प्रकोप आ पहुँचा है ॥

१७ हे भाइयो, जब हम थोड़ी देर के लिये मन में नहीं बरन प्रगट में तुम से अलग हो गए थे, तो हम ने बड़ी लालसा के साथ तुम्हारा मुँह देखने के लिये और भी अधिक यत्न किया। १८ इसलिये हम ने (अर्थात् मुझ पौलुस ने) एक बार नहीं, बरन दो बार तुम्हारे पास आना चाहा, परन्तु शैतान हमें रोके रहा। १९ भला हमारी आशा, या आनन्द या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? २० हमारी बड़ाई और आनन्द तुम ही हो ॥

२ इसलिये जब हम से और न रहा गया, तो हम ने यह ठहराया कि एथेन्स में अकेले रह जाएं। २ और हम ने तीमुथियुस को जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई, और परमेश्वर का सेवक है, इसलिये भेजा, कि वह तुम्हें स्थिर करे; और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। ३ कि कोई इन क्लेशों के

कारण डगमगा न जाए; क्योंकि तुम आप जानते हो, कि हम इन ही के लिये ठहराए गए हैं। ४ क्योंकि पहिले भी, जब हम तुम्हारे यहां थे, तो तुम से कहा करते थे, कि हमें क्लेश उठाने पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ है, और तुम जानते भी हो। ५ इस कारण जब मुझ से और न रहा गया, तो तुम्हारे विश्वास का हाल जानने के लिये भेजा, कि कहीं ऐसा न हो, कि परीक्षा करनेवाले ने तुम्हारी परीक्षा की हो, और हमारा परिश्रम व्यर्थ हो गया हो। ६ पर अभी तीमुषियुस ने जो तुम्हारे पास से हमारे यहां आकर तुम्हारे विश्वास और प्रेम का सुसमाचार सुनाया और इस बात को भी सुनाया, कि तुम मदा प्रेम के साथ हमें स्मरण करते हो, और हमारे देखने की लालसा रखते हो, जैसा हम भी तुम्हें देखने की। ७ इसलिये हे भाइयो, हम ने अपनी सारी सकेती और क्लेश में तुम्हारे विश्वास से तुम्हारे विषय में शान्ति पाई। ८ क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीरित हैं। ९ और जैसा आनन्द हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के साम्हने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें? १० हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं, कि तुम्हारा मुंह देखें, और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करें।

११ अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु, तुम्हारे यहां आने के लिये हमारी प्रार्थना करे। १२ और प्रभु ऐसा करे, कि जैसा हम तुम से प्रेम रखते हैं; वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में, और सब मनुष्यों के साथ बढ़े, और उन्नति करता जाए। १३ ताकि

वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे, कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के साम्हने पवित्रता में निर्दोष ठहरें।

४ निदान, हे भाइयो, हम तुम से विनती करते हैं, और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं, कि जैसे तुम ने हम से योग्य चाल चलना, और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। २ क्योंकि तुम जानते हो, कि हम ने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। ३ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम पवित्र बनो: अर्थात् व्यभिचार से बचे रहो। ४ और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपने पात्र को प्राप्त करना जाने। ५ और यह काम अभिलाषा से नहीं, और न उन जातियों की नाई, जो परमेश्वर को नहीं जानतीं। ६ कि इस बात में कोई अपने भाई को न ठगे, और न उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेनेवाला है: जैसा कि हम ने पहिले तुम से कहा, और चिताया भी था। ७ क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिये नहीं, परन्तु पवित्र होने के लिये बुलाया है। ८ इस कारण जो तुच्छ जानता है, वह मनुष्य को नहीं, परन्तु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है।

८ किन्तु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह अवश्य नहीं, कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं; क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुम ने आप ही परमेश्वर से सीखा है।

१० और सारे मकिदुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा करते भी हो, पर हे भाइयो, हम तुम्हें समझाते हैं, कि और भी बढ़ते जाओ। ११ और जैसी हम ने तुम्हें आज्ञा दी, वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने, और अपने अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो। १२ कि बाहरवालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो, और तुम्हें किसी वस्तु की घट्टी न हो ॥

१३ हे भाइयो, हम नहीं चाहते, कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, प्रजाग रहो; ऐसा न हो, कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें प्राप्ति नहीं। १४ क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं, कि यीशु मरा, और जो भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं, उसी के साथ ले जाएगा। १५ क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुम से यह कहते हैं, कि हम जो जीवित हैं, और प्रभु के आने तक, बचे रहेंगे तो सोए हुएों से कभी प्राप्ति न बढ़ेंगे। १६ क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा; उस समय ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं, वे पहिले जी उठेंगे। १७ तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उन के साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। १८ सो इन बातों से एक दूसरे को शान्ति दिया करो ॥

५ पर हे भाइयो, इसका प्रयोजन नहीं, कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए।

२ क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर घाता है, वैसा ही प्रभु का दिन आनेवाला है। ३ जब लोग कहते होंगे, कि कुशल है, और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा; और वे किसी रीति से न बचेंगे। ४ पर हे भाइयो, तुम तो ग्रन्थकार में नहीं हो, कि बह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े। ५ क्योंकि तुम सब ज्योति की सन्तान, और दिन की सन्तान हो, हम न रात के हैं, न ग्रन्थकार के हैं। ६ इसलिये हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। ७ क्योंकि जो सोते हैं, वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं, वे रात ही को मतवाले होते हैं। ८ पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहिनकर और उदार की आशा का टोप पहिनकर सावधान रहें। ९ क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिये नहीं, परन्तु इसलिये ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उदार प्राप्त करें। १० वह हमारे लिये इस कारण मरा, कि हम चाहे जागते हों, चाहे सोते हों: सब मिलकर उसी के साथ जाएं। ११ इस कारण एक दूसरे को शान्ति दो, और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो *, निदान, तुम ऐसा करते भी हो ॥

१२ और हे भाइयो, हम तुम से बिनती करते हैं, कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, और प्रभु में तुम्हारे भगुवे हैं, और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें मानो। १३ और उन के काम के कारण प्रेम के साथ उन को

* यू० को स्थापन करो।

बहुत ही धावर के योग्य समझो : आपस में मेल-मिलाप से रहो । १४ और हे भाइयो, हम तुम्हें समझाते हैं, कि जो ठीक चाल नहीं चलते, उन को समझाओ, कायरों को ढाँस दो, निर्बलों को संभालो, सब को और सहनशीलता दिखाओ । १५ सावधान ! कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे; पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो आपस में और सब से भी भलाई ही को चेष्टा करो । १६ सदा प्रानन्दित रहो । १७ निरन्तर प्रार्थना में लगे रहो । १८ हर बात में धन्यवाद करो : क्योंकि तुम्हारे लिये मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है । १९ आत्मा को न बुझाओ । २० भविष्यद्वाणियों को तुच्छ न जानो । २१ सब बातों को परखो : जो अच्छी है उसे पकड़े रहो । २२ सब प्रकार की बुराई से बचे रहो ।

२३ शान्ति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे; और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के पाने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें । २४ तुम्हारा बुलानेवाला सच्चा * है, और वह ऐसा ही करेगा ।

२५ हे भाइयो, हमारे लिये प्रार्थना करो ।

२६ सब भाइयों को पवित्र-चुम्बन से नमस्कार करो । २७ मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूँ, कि यह पत्रो सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए ।

२८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रनुग्रह तुम पर होता रहे ।

* य० विश्वासयोग्य ।

थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रो

१ पौलुस और सिलवानुस और तीमथियुस की ओर से थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है ।

२ हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह से तुम्हें प्रनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ।

३ हे भाइयो, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है इसलिये कि तुम्हारा

विश्वास बहुत बढ़ता जाता है; और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही होता जाता है । ४ यहां तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में धमएड करते हैं, कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रगट होता है । ५ यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है; कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिस के लिये तुम दुख भी

उठाने हो। ६ क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है, कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं, उन्हें बदले में क्लेश दे। ७ और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, हमारे साथ चैन दे; उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थ्यी दूतों के साथ, धधकती हुई प्राग में स्वर्ग से प्रगट होगा। ८ और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते, और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उन से पलटा लेगा। ९ वे प्रभु के साम्हने मे, और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनन्त विनाश का दण्ड पाएंगे। १० यह उस दिन होगा, जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने, और सब विश्वास करने-वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा; क्योंकि तुम ने हमारी गवाही की प्रतीति की। ११ इसी लिये हम सदा तुम्हारे निमित्त प्रार्थना भी करते हैं, कि हमारा परमेश्वर तुम्हें इस व्लाहट के योग्य ममभं, और भलाई की हर एक इच्छा, और विश्वास के हर एक काम को मामर्थ सहित पूरा करे। १२ कि हमारे परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के अनुमार हमारे प्रभु यीशु का नाम तुम में महिमा पाए, और तुम उस में ॥

२ हे भाइयो, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के घाने, और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुम से बिनती करते हैं। २ कि किसी आत्मा, या वचन, या पत्नी के द्वारा जो कि मानो हमारी और से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुँचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए, और न तुम घबराओ। ३ किसी रीति से किसी के धोखे में न घाना क्योंकि वह दिन न आएगा, जब

तक धर्म का त्याग न हो ले, और वह पाप का पुण्य अर्थात् विनाश का पुत्र प्रगट न हो। ४ जो विरोध करता है, और हर एक से जो परमेश्वर, या पूज्य कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहां तक कि वह परमेश्वर के मन्दिर * में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रगट करता है। ५ क्या तुम्हें स्मरण नहीं, कि जब मैं तुम्हारे यहां था, तो तुम से ये बातें कहा करता था? ६ और अब तुम उस वस्तु को जानते हो, जो उसे रोक रही है, कि वह अपने ही समय में प्रगट हो। ७ क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकनेवाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए, वह रोके रहेगा। ८ तब वह अधर्म प्रगट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुह की फूँक से मार डालेगा, और अपने प्रागमन के तेज से भस्म करेगा। ९ उस अधर्म का घाना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की भूठी सामर्थ, और चिन्ह, और अद्भुत काम के साथ। १० और नाश होनेवालों के लिये अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा; क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम को ग्रहण नहीं किया जिस से उन का उद्धार होता। ११ और इसी कारण परमेश्वर उन में एक भटका देनेवाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे भूठ की प्रतीति करें। १२ और जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते, वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, सब दण्ड पाएं ॥

१३ पर हे भाइयो, और प्रभु के प्रिय लोगो चाहिये कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, कि

परमेश्वर ने प्रादि से तुम्हें चुन लिया; कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर, और सत्य की प्रतीति करके उधार पाओ। १४ जिस के लिये उस ने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। १५ इसलिये, हे भाइयो, स्थिर रहो; और जो जो बातें तुम ने क्या वचन, क्या पत्री के द्वारा हम से सीखी है, उन्हें धामे रहो ॥

१६ हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही, और हमारा पिता परमेश्वर जिस ने हम से प्रेम रखा, और अनुग्रह से अनन्त शान्ति और उत्तम प्राशा दी है। १७ तुम्हारे मनों में शान्ति दे, और तुम्हें हर एक अच्छे काम, और वचन में दृढ़ करे ॥

२ निदान, हे भाइयो, हमारे लिये प्रार्थना किया करो, कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फँले, और महिमा पाए, जैसा तुम में हुआ। २ और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहें क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं ॥

३ परन्तु प्रभु सच्चा * है; वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा : और उस दुष्ट † से सुरक्षित रखेगा। ४ और हमें प्रभु में तुम्हारे ऊपर भरोसा है, कि जो जो आज्ञा हम तुम्हें देते हैं, उन्हें तुम मानते हो, और मानते भी रहोगे। ५ परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की प्रगुभाई करे ॥

६ हे भाइयो, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं; कि हर एक ऐसे भाई से अलग रहो, जो अनुचित चाल चलता, और जो शिक्षा उस ने

हम से पाई उसके अनुसार नहीं करता।

७ क्योंकि तुम आप जानते हो, कि किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए; क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले। ८ और किसी की रोटी सँत में न खाई; पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धन्धा करते थे, कि तुम में से किसी पर भार न हो। ९ यह नहीं, कि हमें अधिकार नहीं; पर इसलिये कि अपने आप को तुम्हारे लिये आदर्श ठहराएँ, कि तुम हमारी सी चाल चलो। १० और जब हम तुम्हारे यहां थे, तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे, कि यदि कोई काम करना न चाहे, तो खाने भी न पाए। ११ हम सुनते हैं, कि कितने लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं; और कुछ काम नहीं करते, पर औरों के काम में हाथ डाला करते हैं। १२ ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझते हैं, कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। १३ और तुम, हे भाइयो, भलाई करने में हियाव न छोड़ो। १४ यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को न माने, तो उस पर दृष्टि रखो; और उस की संगति न करो, जिस से वह लज्जित हो; १५ तभी उसे बैरी मत समझो पर भाई जानकर चिताओ ॥

१६ अब प्रभु जो शान्ति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शान्ति दे : प्रभु तुम सब के साथ रहे ॥

१७ मैं पौलुस अपने हाथ से नमस्कार लिखता हूँ : हर पत्री में मेरा यही चिन्ह है : मैं इसी प्रकार से लिखता हूँ। १८ हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे ॥

* य० विश्वासयोग्य। † या बुराई।

तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहिली पत्र

१ पौलुस की ओर में जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, ओर हमारी प्राशा-स्थान मसीह यीशु की प्राज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है ॥

२ पिता परमेश्वर, ओर हमारे प्रभु मसीह यीशु से, तुम्हें प्रनुग्रह, ओर दया, ओर शान्ति मिलती रहे ॥

३ जैसे मैं ने मकिदुनिया को जाते समय तुम्हें समझाया था, कि इफिसुस में रहकर कितनों को प्राज्ञा दे कि ओर प्रकार की शिक्षा न दें। ४ ओर उन ऐसी कहानियों ओर प्रनन्त वंशावलियों पर मन न लगाएं, जिन से विवाद होते हैं; ओर परमेश्वर के उस प्रबन्ध के अनुसार नहीं, जो विश्वास से सम्बन्ध रखता है; वैसे ही फिर भी कहता हूँ। ५ प्राज्ञा का सारांश यह है, कि शुद्ध मन ओर अच्छे विवेक*, ओर कपटरहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। ६ इन को छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं। ७ ओर व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते ओर जिन को दृढ़ता से बोलते हैं, उन को समझते भी नहीं। ८ पर हम जानते हैं, कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए, तो वह भली है। ९ यह जानकर कि व्यवस्था धर्म जन के लिये नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों,

अपवित्रों ओर अशुद्धों, मां-बाप के घात करनेवालों, हत्यारों। १० व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचनेवालों, भूठों, ओर भूठी शपथ खानेवालों, ओर इन को छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिये ठहराई गई है। ११ यही परमधन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है, जो मुझे सोपा गया है ॥

१२ ओर मैं, अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिस ने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूँ; कि उस ने मुझे विश्वासयोग्य समझकर अपनी सेवा के लिये ठहराया। १३ मैं तो पहिले निन्दा करनेवाला, ओर सतानेवाला, ओर अन्धेर करनेवाला था; तीभी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैं ने अविश्वास की दशा में बिन समझ बूके, ये काम किए थे। १४ ओर हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास ओर प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, बहुतायत से हुआ। १५ यह बात सच* ओर हर प्रकार से मानने के योग्य है, कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिये जगत में प्राया, जित में सब से बड़ा मैं हूँ। १६ पर मुझपर इसलिये दया हुई, कि मुझ सब से बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर प्रनन्त जीवन के लिये विश्वास करेंगे, उन के लिये मैं एक प्रादर्श बनूँ। १७ अब सनातन राजा अर्थात् प्रविनाशी प्रनदेखे

* अर्थात् मन या कानशन्त।

* य० विश्वासयोग्य।

प्रद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

१८ हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यद्-वाणियों के अनुसार जो पहिले तेरे विषय में की गई थीं, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ, कि तू उन के अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। १९ और विश्वास और उस अच्छे विवेक * को धामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। २० उन्हीं में से हुमिनयुम और सिकन्दर हैं जिन्हें मैं ने शैतान को सौंप दिया, कि वे निन्दा करना न सीखें ॥

२ अब मैं सब से पहिले यह उपदेश देता हूँ, कि बिनती, और प्रार्थना, और निवेदन, और धन्यवाद, सब मनुष्यों के लिये किए जाएं। २ राजाओं और सब ऊंचे पदवालों के निमित्त इसलिये कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गम्भीरता से जीवन बिताएं। ३ यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता, और भाता भी है। ४ वह यह चाहता है, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो; और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। ५ क्योंकि परमेश्वर एक ही है; और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात् मसीह यीशु जो मनुष्य है। ६ जिस ने अपने आप को सब के छुटकारे के दाम में दे दिया; ताकि उस की गवाही ठीक समयों पर दी जाए। ७ मैं सच कहता हूँ, भूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्वयातियों के लिये विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया ॥

* अर्थात् मन या कल्पशक्त।

८ सो मैं चाहता हूँ, कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। ९ वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ मुहाबने वस्त्रों से अपने आप को संवारे; न कि बाल गूंधने, और सोने, और मोतियों, और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से। १० क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करनेवाली स्त्रियों को यही उचित भी है। ११ और स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। १२ और मैं कहता हूँ, कि स्त्री न उपदेश करे, और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परन्तु चुपचाप रहे। १३ क्योंकि आदम पहिले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। १४ और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। १५ तीमी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित विश्वास, प्रेम, और पवित्रता में स्थिर रहें ॥

३ यह बात सत्य * है, कि जो अध्यक्ष † होना चाहता है, तो वह भले काम की इच्छा करता है। २ सो चाहिए, कि अध्यक्ष निर्दोष, और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पढ़नाई करनेवाला, और सिखाने में निपुण हो। ३ पियक्कड़ या मारपीट करनेवाला न हो; बरन कोमल हो, और न झगड़ानू, और न लोभी हो। ४ अपने घर का अच्छा प्रबन्ध करता हो, और लड़के-वालों को सारी गम्भीरता से आधीन रखता हो। ५ (जब कोई अपने घर ही का प्रबन्ध करना न जानता हो, तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्योंकर

* यूसु विश्वासयोग्य।

† या बिशप।

करेगा) : ६ फिर यह कि नयन चेला न हो, ऐसा न हो, कि अभिमान करके शैतान * का सा दण्ड पाए। ७ और बाहरवालों में भी उसका सुनाम हो ऐसा न हो कि निन्दित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। ८ वैसे ही सेवकों † को भी गम्भीर होना चाहिए, दो रंगी, पिपबकड़, और नीच कमाई के लोभी न हों। ९ पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक ‡ से सुरक्षित रखें। १० और ये भी पहिले परखे जाएं, तब यदि निर्दोष निकलें, तो सेवक का काम करें। ११ इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गम्भीर होना चाहिए; दोष लगानेवाली न हों, पर सचेत और सब बातों में विश्वासयोग्य हों। १२ सेवक § एक ही पत्नी के पति हों और लड़केवालों और अपने घरों का अच्छा प्रबन्ध करना जानते हों। १३ क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वे अपने लिये अच्छा पद और उस विश्वास में, जो मसीह यीशु पर है, बड़ा हियाव प्राप्त करते हैं।

१४ में तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिये लिखती हैं। १५ कि यदि मेरे आने में देर हो, तो तू जान ले, कि परमेश्वर का घर, जो जीवने परमेश्वर की कलीसिया है, और जो सत्य का खंभा, और नेव है; उस में कैसा बर्ताव करना चाहिए। १६ और इस में सन्देह नहीं, कि भक्ति का भेद गम्भीर है; अर्थात् वह जो शरीर में प्रगट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, ग्रन्थजातियों में

उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया, और महिमा में ऊपर उठाया गया।

४ परन्तु आत्मा स्पष्टता से कहता है, कि आनेवाले समयों में कितने लोग भ्रमानेवाली आत्माओं, और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। २ यह उन भूटे मनुष्यों के कपट के कारण होगा, जिन का विवेक * मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। ३ जो व्याह करने से रोकेंगे, और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे; जिन्हें परमेश्वर ने इसलिये सृजा कि विश्वासी, और सत्य के पहिचाननेवाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं। ४ क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है; और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं; पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए। ५ क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है।

६ यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा; और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से, जो तू मानता आया है, तेरा पालन-पोषण होता रहेगा। ७ पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रह; और भक्ति के लिये अपना साधन कर। ८ क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिये लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आनेवाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिये है। ९ और यह बात सच † और हर प्रकार से मानने

* यू० इब्लीस। † या दीकनी।

‡ अर्थात् मन या कानशन्स।

§ या डीकन।

* अर्थात् मन या कानशन्स।

† यू० विश्वासयोग्य।

के योग्य है। १० क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसी लिये करते हैं, कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है; जो सब मनुष्यों का, और निज करके विश्वासियों का उद्धारकर्ता है। ११ इन बातों की आशा कर, और सिखाता रह। १२ कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए; पर वचन, और चाल चलन, और प्रेम, और विश्वास, और पवित्रता में विश्वासियों के लिये आदर्श बन जा। १३ जब तक मैं न आऊँ, तब तक पढ़ने, और उपदेश और सिखाने में लौलीन रह। १४ उस बरदान से जो तुम्हें मैं हूँ, और भविष्यद्वाणी के द्वारा प्राचीनों * के हाथ रखते समय तुम्हें मिला था, निश्चिन्त मत रह। १५ उन बातों को सोचता रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रगट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख। १६ इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा, तो तू अपने, और अपने सुननेवालों के लिये भी उद्धार का कारण होगा ॥

५ किसी बूढ़े को न डांट; पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर; बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर। २ और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहिन जानकर, समझा दे। ३ उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर। ४ और यदि किसी विधवा के लड़केवाले या नातीपोते हों, तो वे पहिले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना, और अपने माता-पिता आदि को उन का हक्क देना सीखें,

* या प्रिसभुतियों।

क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। ५ जो सचमुच विधवा है, और उसका कोई नहीं; वह परमेश्वर पर आशा रखती है, और रात दिन बिनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। ६ पर जो भोग-विलास में पड़ गई, वह जीते जी मर गई है। ७ इन बातों की भी आशा दिया कर, ताकि वे निर्दोष रहें। ८ पर यदि कोई अपने की और निज करके अपने घराने की चिन्ता न करे, तो वह विश्वास से मुकर गया है, और भविष्यदासी से भी बुरा बन गया है। ९ उसी विधवा का नाम लिखा जाए, जो साठ वर्ष से कम की न हो, और एक ही पति की पत्नी रही हो। १० और भले काम में सुनाम रही हो, जिस ने बच्चों का पालन-पोषण किया हो; पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो, और हर एक भले काम में मन लगाया हो। ११ पर जवान विधवाओं के नाम न लिखना, क्योंकि जब वे मसीह का विरोध करके सुख-विलास में पड़ जाती हैं, तो ब्याह करना चाहती हैं। १२ और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्हीं ने अपने पहिले विश्वास को छोड़ दिया है। १३ और इस के साथ ही साथ वे घर घर फिरकर भ्रालसी होना सीखती हैं, और केवल भ्रालसी नहीं, पर बकबक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। १४ इसलिये मैं यह चाहता हूँ, कि जवान विधवाएं ब्याह करें; और बच्चे जन्म और घरबार संभालें, और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर न दें। १५ क्योंकि कई एक तो बड़ककर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। १६ यदि

किसी विश्वासिनी के यहां विधवाएं हों, तो वही उन की सहायता करे, कि कलीसिया पर भार न हो ताकि वह उन की सहायता कर सके, जो सबमुच विधवाएं हैं ॥

१७ जो प्राचीन * प्रच्छा प्रबन्ध करने हैं, विशेष करके वे जो वचन मुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने धादर के योग्य समझे जाएं। १८ क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, कि दांभनेवाले बैल का मुंह न बान्धना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हक्कदार है। १९ कोई दोष किसी प्राचीन * पर लगाया जाए तो बिना दो या तीन गवाहों के उस को न मुन। २० पाप करनेवालों को सब के साम्हने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। २१ परमेश्वर, और मसीह यीशु, और खुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुम्हें चितौनी देता हूं कि तू मन बोलकर इन बातों को माना कर, और कोई काम पक्षपात से न कर। २२ किसी पर धीघ हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना: अपने आप को पवित्र बनाए रख। २३ भविष्य में केवल जल ही का पीनेवाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। २४ कितने मनुष्यों के पाप प्रगट हो जाते हैं, और न्याय के लिये पहिले से पट्टुच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से घाने हैं। २५ वैसे ही कितने भले काम भी प्रगट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते, वे भी छिप नहीं सकते ॥

६ कितने दास तूए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े धादर के

* या प्रिसदुतिर।

योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निन्दा न हो। २ और जिन के स्वामी विषवासी हैं, इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ न जानें; बरन उन की और भी सेवा करें, क्योंकि इस से लाभ उठानेवाले विश्वासी और प्रेमी हैं: इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रह ॥

३ यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है; और खरी बातों को, अर्थात् हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता, जो भक्ति के अनुसार है। ४ तो वह अभिमानी हो गया, और कुछ नहीं जानता, बरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिन से डाह, और झगड़े, और निन्दा की बातें, और बुरे बुरे सन्देश। ५ और उन मनुष्यों में व्ययं रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिन की बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य में विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। ६ पर सन्तोष महिन भक्ति बड़ी कमाई है। ७ क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। ८ और यदि हमारे पास खाने और पहिनने को हो, तो इन्हीं पर सन्तोष करना चाहिए। ९ पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा, और फंदे और बहुतेरे व्ययं और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डूबा देती हैं। १० क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है ॥

११ पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग; और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। १२ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़; और उस अनन्त जीवन को धर ले, जिस के लिये तू बुलाया गया, और बहुत गवाहों के साम्हने अच्छा अंगीकार किया था। १३ मैं तुम्हें परमेश्वर को जो सब को जीवित रखता है, और मसीह यीशु को गवाह करके जिम ने पुन्तियुस पोलातुस के साम्हने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूँ, १४ कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रगट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख। १५ जिसे वह ठीक समयों में दिखाएगा, जो परमधन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा, और प्रभुओं का प्रभु हैं। १६ और प्रमरणा केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने

देखा, और न कभी देखा सकता है; उस की प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन ॥

१७ इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे, कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परन्तु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिये सब कुछ बहुतायत से देता है। १८ और भलाई करें, और भले कामों में धनी बनें; और उदार और सहायता देने में तत्पर हों। १९ और आगे के लिये एक अच्छी नेब डाल रखें, कि सत्य जीवन को वश में कर लें ॥

२० हे तीमुथियुस इस याती की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रह। २१ कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके, विश्वास से भटक गए हैं ॥

तुम पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री

१ पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है। २ प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम ॥

परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुम्हें अनुग्रह और दया और शान्ति मिलती रहे ॥

३ जिस परमेश्वर की सेवा में अपने बापदादों की रीति पर शुद्ध विवेक * से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें लगातार स्मरण करता हूँ। ४ और तेरे आंसुओं को सुधि कर करके रात दिन तुम्हें से भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनन्द से भर

* अर्थात् मन या कानशान्स ।

जाऊं। ५ और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, जो पहिले तेरी नाना लोइस, और तेरी माता यूनीके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है, कि तुझ में भी है। ६ इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, कि तू परमेश्वर के उस बरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे। ७ क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामयं, और प्रेम, और संयम की आत्मा दी है। ८ इसलिये हमारे प्रभु की गवाही से, और मुझ से जो उसका कँदी हूँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामयं के अनुसार सुसमाचार के लिये मेरे साथ दुख उठा। ९ जिस ने हमारा उद्धार किया, और पवित्र बुलाहट से, बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं; पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। १० पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रगट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिस ने मृत्यु का नाश किया, और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। ११ जिस के लिये मैं प्रचारक, और प्रेरित, और उपदेशक भी ठहरा। १२ इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस की मैं ने प्रतीति की है, जानता हूँ; और मुझे निश्चय है, कि वह मेरी धाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। १३ जो खरी बातें तू ने मुझ से सुनी हैं उन को उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख। १४ और पवित्र आत्मा के

द्वारा जो हम में वसा हुआ है, इस अच्छी धाती की रखवाली कर ॥

१५ तू जानता है, कि आसियावाले सब मुझ से फिर गए हैं, जिन में फूगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। १६ अनेसिफुरस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उस ने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया, और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। १७ पर जब वह रोमा में आया, तो बड़े यत्न से ढूँढ़कर मुझ से भेंट की। १८ (प्रभु करे, कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो)। और जो जो सेवा उस ने इफिसुस में की है उन्हें भी तू भली भाँति जानता है ॥

२ इसलिये हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है, बलवन्त हो जा। २ और जो बातें तू ने बहुत गवाहों के साम्हने मुझ से सुनी हैं, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे; जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। ३ मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। ४ जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, तो इसलिये कि अपने भरती करनेवाले को प्रसन्न करे अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता ५ फिर अच्छाड़े में लड़नेवाला यदि विधि के अनुसार लड़े तो मुकुट नहीं पाता। ६ जो गृह परिश्रम करता है, फल का अंश पहिले उसे मिलना चाहिए। ७ जो मैं कहता हूँ, उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। ८ यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ, और मेरे हुआँ में से जी उठा; और यह मेरे सुसमाचार के अनुसार है। ९ जिस के लिये मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहां तक कि

कैद भी हूँ; परन्तु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। १० इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिये सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उदार को जो मसीह यीशु में है अनन्त महिमा के साथ पाए। ११ यह बात सच * है, कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जीएंगे भी। १२ यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे: यदि हम उसका इन्कार करेंगे तो वह भी हमारा इन्कार करेगा। १३ यदि हम अविश्वासी भी हों तोभी वह विश्वासयोग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इन्कार नहीं कर सकता।

१४ इन बातों की सुधि उन्हें दिला, और प्रभु के साम्हने चिन्ता दे, कि शब्दों पर तर्क-वितर्क न किया करें, जिन से कुछ लाभ नहीं होता; वरन मुननेवाले बिगड़ जाते हैं। १५ अपने आप को परमेश्वर का ग्रहणयोग्य और ऐसा काम करनेवाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने न पाए, और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। १६ पर प्रशुद्ध बकवाद से बचा रह; क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। १७ और उन का वचन सड़े-धाव की नाई फँसता जाएगा: हुमिनयुस और फिलेनुस उन्हीं में से हैं। १८ जो यह कहकर कि पुनरुत्थान † हो चुका है सत्य से भटक गए हैं, और कितनो के विश्वास को उलट पुलट कर देने हैं। १९ तोभी परमेश्वर की पक्की नेव बनी रहती है, और उस पर यह छाप लगी है, कि प्रभु अपनेको पहिचानता

है; और जो कोई प्रभु का नाम लेता है, वह प्रथम से बचा रहे। २० बड़े घर में न केवल सोने-चान्दी ही के, पर काठ और मिट्टी के बरतन भी होते हैं; कोई कोई आदर, और कोई कोई अनादर के लिये। २१ यदि कोई अपने आप को इन से शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बरतन, और पवित्र ठहरेगा; और स्वामी के काम आएगा, और हर भले काम के लिये तैयार होगा। २२ जवानी की अभिलाषाओं से भाग; और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उन के साथ धर्म, और विश्वास, और प्रेम, और मेल-मिलाप का पीछा कर। २३ पर मूर्खता, और अविद्या के विवादों से अलग रह; क्योंकि तू जानता है, कि उन से भगड़े होते हैं। २४ और प्रभु के दास को भगड़ानू होना न चाहिए, पर सब के साथ कोमल और शिक्षा में निपुण, और सहनशील हो। २५ और विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, कि वे भी सत्य को पहिचाने। २६ और इस के द्वारा उस की इच्छा पूरी करने के लिये सचेत होकर शैतान * के फंदे से छूट जाए।

२ पर यह जान रख, कि अन्तिम दिनों में कठिन समय आएंगे। २ क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग-मार, अभिमानी, निन्दक, माता-पिता की आज्ञा टालनेवाले, क्रुतघ्न, अपवित्र। ३ मयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने-वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी। ४ विश्वासघाती, ढीठ, धमण्डी, और परमेश्वर के नहीं बरतन मुखविलास ही के

* यू० विश्वासयोग्य।

† या मृतकोत्थार।

* यू० श्वलीस।

चाहनेवाले होंगे। ५ वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, पर उस की शक्ति को न मानेंगे; ऐसों से परे रहना। ६ इन्हीं में से वे लोग हैं, जो घरों में दवे पांव घुस आते हैं और उन छिछोरी स्त्रियों को वश में कर लेते हैं, जो पापों से दबी और हर प्रकार की अभिलाषाओं के वश में हैं। ७ और सदा सीखती तो रहती हैं पर सत्य की पहिचान तक कभी नहीं पहुंचतीं। ८ और जैसे यंत्रेस और यंत्रेस ने मूसा का विरोध किया था वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं: ये तो ऐसे मनुष्य हैं, जिन की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। ९ पर वे इस से भागे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे उन की अज्ञानता सब मनुष्यों पर प्रगट हो गई थी, वैसे ही इन की भी हो जाएगी। १० पर तू ने उपदेश, चाल-चलन, मनमां, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज, और सताए जाने, और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। ११ और ऐसे दुखों में भी जो अन्तःक्रिया और इकुनियुम और लुस्त्रा में मुझ पर पड़े थे और और दुखों में भी, जो मैं ने उठाए हैं; परन्तु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। १२ पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। १३ और दुष्ट, और बहकानेवाले धोखा देते हुए, और धोखा खाते हुए, बिगड़ते चले जाएंगे। १४ पर तू इन बातों पर जो तू ने सीखी है और प्रतीति की थी, यह जानकर दृढ़ बना रह; कि तू ने उन्हें किन लोगों से सीखा था? १५ और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के

लिये बुद्धिमान बना सकता है। १६ हर एक पवित्रशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश, और समझाने, और सुधारने, और धर्म की शिक्षा के लिये लाभदायक है। १७ ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिये तत्पर हो जाए।

४ परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके, जो जीवतों और मेरे दुष्टों का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रगट होने, और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुम्हें चिताता हूँ। २ कि तू वचन को प्रचार कर; समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता, और शिक्षा के साथ उलाहना दे, और डांट, और समझा। ३ क्योंकि ऐसा समय आएगा, कि लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिये बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे। ४ और अपने कान सत्य से फेरकर कथा-कहानियों पर लगाएंगे। ५ पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, मुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। ६ क्योंकि अब मैं धर्म की नाई उडैला जाता हूँ, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। ७ मैं अच्छी कुदती लड़ चुका हूँ मैं ने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैं ने विश्वास की रखवाली की है। ८ भविष्य मे मेरे लिये धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु, जो धर्मी, और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा और मुझे ही नहीं, बरन उन सब को भी, जो उसके प्रगट होने को प्रिय जानते हैं।

९ मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर।
 १० क्योंकि देमास ने इस संसार को
 प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, और
 थिमोथी के को चला गया है, और
 क्रैमॉन्स तलतिया को और तीतुस दल-
 मतिया को चला गया है। ११ केवल
 लूका मेरे साथ हैं: मरकुस को लेकर
 चला आ; क्योंकि सेवा के लिये वह मेरे
 बहुत काम का है। १२ तुलिकुस को
 मैं ने इफिमुस को भेजा है। १३ जो
 बागा में त्रोपास में करपुस के यहां छोड़
 आया है, जब तू आए, तो उसे और
 पुस्तकें विशेष करके चर्मपत्रों को लेते
 आना। १४ सिकन्दर ठंडे ने मुझ से
 बहुत बुराइयां की हैं प्रभु उसे उसके कामों
 के अनुसार बदला देगा। १५ तू भी
 उस से सावधान रह, क्योंकि उस ने
 हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया।
 १६ मेरे पहिले प्रत्युत्तर करने के समय में
 किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, बरन

सब ने मुझे छोड़ दिया था: भला हो,
 कि इस का उनको लेखा देना न पड़े।
 १७ परन्तु प्रभु मेरा सहायक रहा, और
 मुझे सामर्थ्य दो: ताकि मेरे द्वारा पूरा
 पूरा प्रचार हो, और सब भ्रम्यजाति मुन
 ले; और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया
 गया। १८ और प्रभु मुझे हर एक बुरे
 काम से छुड़ाएगा, और अपने स्वर्गीय
 राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा: उसी की
 महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

१९ प्रिसका और प्रनिलता को, और
 उनसिफुस के घराने को नमस्कार।
 २० इरास्तुस कुरिन्थुस में रह गया, और
 थुफिमुस को मैं ने मीलेतुस में बीमार
 छोड़ा है। २१ जाड़े से पहिले चले आने
 का प्रयत्न कर: यूबूलुस, और पूदेंस,
 और लीनुस और क्लौदिया, और सब
 भाइयों का तुझे नमस्कार ॥

२२ प्रभु तेरी आत्मा के साथ रहे: तुम
 पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्र

१ पौलुस की ओर से जो परमेश्वर
 का दास और यीशु मसीह का प्रेरित
 है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास,
 और उस सत्य की पहिचान के अनुसार
 जो भक्ति के अनुसार है। २ उस अनन्त
 जीवन की आशा पर, जिस की प्रतिज्ञा
 परमेश्वर ने जो भूठ बोल नहीं सकता
 सनातन से की है। ३ पर ठीक समय पर
 अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रगट

किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की
 आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया।
 ४ तीतुस के नाम जो विश्वास की सह-
 भागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है:
 परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता
 मसीह यीशु से अनुग्रह और शान्ति होती
 रहे ॥

५ मैं इसलिये तुझे फ्रेते में छोड़ आया
 था, कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे,

श्रीर भेरी आजा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों * को नियुक्त करे। ६ जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हों, जिन के लड़केवाले विश्वासी हों, और जिन्हें लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं। ७ क्योंकि अर्धक्ष† को परमेश्वर का भएडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न श्रेधी, न पियक्कड़, न मारपीट करनेवाला, और न नीच कमाई का लोभी। ८ पर पहनाई करनेवाला, भनाई का चाहनेवाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेन्द्रिय हो। ९ और विश्वासयोग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है, स्थिर रहे; कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके, और विवादियों का मुंह भी बन्द कर सके ॥

१० क्योंकि बहुत से लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देनेवाले हैं; विशेष करके खतनावालों में से। ११ इन का मुंह बन्द करना चाहिए: ये लोग नीच कमाई के लिये अनुचित बातें मिथाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। १२ उन्हीं में से एक जन ने जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, कि श्रेती लांग मदा भूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। १३ यह गवाही मत्र है, इनलिये उन्हें कड़ाई से चितोनी दिया कर, कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं। १४ और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आजाओं पर मन न लगाए, जो सत्य से भटक जाते हैं। १५ शुद्ध लोगों के लिये सब वस्तु शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वागियों के लिये कुछ भी शुद्ध नहीं: बरन उन की बुद्धि और

विवेक * दोनों अशुद्ध हैं। १६ वे कहते हैं, कि हम परमेश्वर को जानते हैं: पर अपने कामों से उसका इन्कार करते हैं, क्योंकि वे धृष्टिग्न और आजा न माननेवाले हैं; और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं ॥

२ पर तू ऐसी बातें कहा कर, जो खरे उपदेश के योग्य हैं। २ अर्थात् बूढ़े पुरुष, मचेत और गम्भीर और संयमी हों, और उन का विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। ३ इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगानेवाली और पियक्कड़ नहीं; पर अच्छी बातें सिखानेवाली हों। ४ ताकि वे जवान स्त्रियों को चितोनी देती रहें, कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। ५ और संयमी, पतिव्रता, घर का कारवार करनेवाली, भली और अपने अपने पति के आधीन रहनेवाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निन्दा न होने पाए! ६ ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर, कि संयमी हों। ७ सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना. नेरे उपदेश में सफाई, गम्भीरता। ८ और ऐसी खराई पाई जाए, कि कोई उसे बुरा न कह सके; जिस से विरोधी हम पर कोई दोष लगाने की गौ न पाकर लज्जित हों। ९ दासों को समझा, कि अपने अपने स्वामी के आधीन रहें, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें, और उलटकर जवाब न दें। १० चोरी चालाकी न करें; पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकलें, कि वे मत्र बातों में हमारे उद्धारकर्त्ता परमेश्वर

* या प्रिसनुतितो। † या विशप।

* अर्थात् मन या कानशन्स।

के उपदेश को शोभा दें। ११ क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है, जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। १२ और हमें चिंताता है, कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। १३ और उस धन्य आशा की अर्थात् अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रगट होने की बात जोहते रहें। १४ जिस ने अपने आप को हमारे लिये दे दिया, कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिये एक ऐसी जाति * बना ले जो भले भले कामों में सरगम हो ॥

१५ पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह : कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए ॥

३ लोगों को सुधि दिला, कि हाकिमों और अधिकारियों के आधीन रहें, और उन की आज्ञा मानें, और हर एक अच्छे काम के लिये तैयार रह। २ किसी को बदनाम न करें; भगडालू न हों: पर कोमल स्वभाव के हों, और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें। ३ क्योंकि हम भी पहिले, निर्बुद्धि, और आज्ञा न माननेवाले, और भ्रम में पड़े हुए, और रंग रंग के अभिलाषाओं और सुखविलास के दासत्व में थे, और वैरभाव, और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से वैर रखते थे। ४ पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा, और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रगट हुई। ५ तो उस ने

हमारा उद्धार किया: और यह धर्म के कामों के कारण नहीं, जो हम ने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार, नए जन्म के स्नान, और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। ६ जिसे उस ने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकारी से उंडेला *। ७ जिस से हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर, अनन्त जीवन की आशा के अनुसार वारिस बनें। ८ यह बात सच † है, और मैं चाहता हूँ, कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले इसलिये कि जिन्होंने परमेश्वर की प्रतीति की है, वे भले-भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखें: ये बातें भली, और मनुष्यों के लाभ की हैं। ९ पर मूर्खता के विवादों, और वशावलियों, और वैर विरोध, और उन भगडों से, जो व्यवस्था के विषय में हों बचा रह; क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ हैं। १० किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उस से अलग रह। ११ यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है, और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है ॥

१२ जब मैं तेरे पास भरतिमास या तुलिकुस को भेजूं, तो मेरे पास नीकुपुलिस आने का यत्न करना : क्योंकि मैं ने वहीं जाड़ा काटने की ठानी है। १३ जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे, और देख, कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। १४ और हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये अच्छे कामों

* या बहाया।

† यू० विश्वासयोग्य।

में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल न रहे ॥

१५ मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

मेरे सब साथियों का तुम्हें नमस्कार

श्रीर जो विश्वास के कारण हम से प्रीति रखते हैं, उन को नमस्कार ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

तीतुस सब पर अनुग्रह होता रहे ॥

फिलेमोन के नाम पौलुस प्रेरित की पत्रि

१ पौलुस को श्रीर से जो मसीह

यीशु का कंदी है, श्रीर भाई तिमू-

थियुस को श्रीर से हमारे प्रिय महकर्म

फिलेमोन । २ श्रीर बहिन प्रफफिया, श्रीर

हमारे साथी योडा, प्रस्विपुस श्रीर

फिलेमोन के घर की कनीसिया के नाम ॥

३ हमारे पिता परमेश्वर श्रीर प्रभु

यीशु मसीह की श्रीर में अनुग्रह श्रीर शान्ति

तुम्हें मिलती रहे ॥

४ मैं तेरे उस प्रेम श्रीर विश्वास को

चर्चा मुनकर, जो सब पवित्र लोगों के

साथ श्रीर प्रभु यीशु पर है । ५ सदा

परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ; श्रीर

अपनी प्रार्थनाओं में भी तुम्हें स्मरण करता

हूँ । ६ कि तेरा विश्वास में सहभागी

होना तुम्हारी मारी भलाई की पहिचान

पड़ा कि प्रेम से बिनती करूँ । १० मैं

अपने बच्चे उनेसिमस के लिये जो मुझ से

मेरी कंद में जन्मा है तुम्ह से बिनती

करता हूँ । ११ वह तो पहिले तेरे कुछ

काम का न था, पर अब तेरे श्रीर मेरे

दोनों के बड़े काम का है । १२ उसी को

अर्थात् जो मेरे हृदय का टुकड़ा है, मैं ने

उमे तेरे पास लौटा दिया है । १३ उसे

मैं अपने ही पास रखना चाहता था कि

तेरी श्रीर से इस कंद में जो सुसमाचार

के कारण है, मेरी सेवा करे । १४ पर

मैं ने तेरी इच्छा बिना कुछ भी करना

न चाहा कि तेरी यह कृपा दबाव से नहीं

पर आनन्द से हो । १५ क्योंकि क्या जानें

वह तुम्ह में कुछ दिन तक के लिये इसी

कारण अलग हुआ कि सदैव तेरे निकट

८ इसलिये यद्यपि मुझे मसीह में बड़ा
हियाव तो है, कि जो बात ठीक है,
उस को आज्ञा तुम्हें दूँ । ९ तोभी मुझ
बड़े पौलुस को जो अब मसीह यीशु के
लिये कंदी हूँ, यह श्रीर भी भना जान

१६ मैं पौलुस अपने हाथ से लिखता हूँ, कि

में आप भर दूंगा; और इस के कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, कि मेरा कर्ज जो तुम्ह पर है वह तू ही है। २० हे भाई यह आनन्द मुझे प्रभु में तेरी ओर से मिले: मसीह में मेरे जी को हरा भरा कर दे। २१ में तेरे आज्ञाकारी होने का भरोसा रखकर, तुम्हें लिखता हूँ और यह जानता हूँ, कि जो कुछ मैं कहता हूँ, तू उस से कहीं बढ़कर करेगा। २२ और यह

भी, कि मेरे लिये उतरने की जगह तैयार रख; मुझे आशा है, कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊँगा।

२३ इफफास जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है। २४ और मरकुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं इन का तुम्हें नमस्कार।

२५ हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन॥

इब्रानियों के नाम पत्र

१ पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप-दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें करके। २ इन दिनों के अन्त में हम से पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उस ने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उस ने सारी सृष्टि रची है। ३ वह उस की महिमा का प्रकाश, और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है: वह पापों को धोकर ऊँचे स्थानों पर महामहिमन के दहिने जा बैठा। ४ और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, जितना उस ने उन से बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। ५ क्योंकि स्वर्गदूतों में से उस ने कब किसी से कहा, कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझ से उत्पन्न हुआ? और फिर यह, कि मैं उसका पिता हूँगा, और वह मेरा पुत्र होगा? ६ और जब पहिलौठे को जगत में फिर

लाता है, तो कहता है, कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दण्डवत करें। ७ और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, कि वह अपने दूतों को पवन, और अपने सेवकों को धधकती प्राण बनाता है।

८ परन्तु पुत्र से कहता है, कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा: तेरे राज्य का राजदण्ड न्याय का राजदण्ड है।

९ तू ने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा; इस कारण परमेश्वर तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्षरूपी तेल से तुम्हें अभिषेक किया। १० और यह कि,

हे प्रभु, आदि में तू ने पृथ्वी की नेव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। ११ वे तो नाश हो जाएंगे; परन्तु तू बना रहेगा; और वे सब वस्त्र की नाई पुराने हो जाएंगे। १२ और तू उन्हें चादर की नाई लपेटेगा, और वे वस्त्र की नाई बदल जाएंगे: पर तू वही है और तेरे वर्षों का अन्त न होगा।

१३ और स्वर्गदूतों में से उस ने किस से कब कहा, कि तू मेरे दहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दू? १४ क्या वे सब सेवा टहल करनेवाली आत्माएं नहीं; जो उदार पानेवालों के लिये सेवा करने को भेजी जाती हैं?

२ इस कारण चाहिए, कि हम उन बातों पर जो हम ने सुनी हैं, और भी मन लगाएं, ऐसा न हो कि बहकर उन से दूर चले जाएं। २ क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला। ३ तो हम लोग ऐसे बड़े उदार से निश्चिन्त रहकर व्योंकर बच सकते हैं? जिस की चर्चा पहिले पहिल प्रभु के द्वारा हुई, और सुननेवालों के द्वारा हमें निश्चय हुआ। ४ और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों, और अभूत कामों, और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों, और पवित्र आत्मा के बरदानों के बांटने के द्वारा इस की गवाही देता रहा ॥

५ उस ने उस आनेवाले जगत को जिस की चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के आधीन न किया। ६ बरन किसी ने कही, यह गवाही दी है, कि मनुष्य क्या है, कि तू उस की सुधि लेता है? या मनुष्य का पुत्र क्या है, कि तू उस पर दृष्टि करता है? ७ तू ने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया; तू ने उस पर महिमा और आदर का मुकुट रखा और उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकार दिया। ८ तू ने सब कुछ उसके पावों के नीचे

कर दिया: इसलिये जब कि उस ने सब कुछ उसके आधीन कर दिया, तो उस ने कुछ भी रख न छोड़ा, जो उसके आधीन न हो: पर हम अब तक सब कुछ उसके आधीन नहीं देखते। ९ पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहिने हुए देखते हैं; ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिये मृत्यु का स्वाद चखे। १० क्योंकि जिस के लिये सब कुछ है, और जिस के द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उन के उदार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। ११ क्योंकि पवित्र करनेवाला और जो पवित्र किए जाते हैं, सब एक ही मूल से हैं: इसी कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। १२ पर कहता है, कि मैं तेरा नाम अपने भाइयों को सुनाऊंगा, सभा के बीच में मैं तेरा भजन गाऊंगा। १३ और फिर यह, कि मैं उस पर भरोसा रखूंगा; और फिर यह कि देख, मैं उन लड़कों सहित जिसे परमेश्वर ने मुझे दिए। १४ इसलिये जब कि लड़के मांस और लोह के भागी हैं, तो वह आप भी उन के समान उन का सहभागी हो गया; ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात् शैतान * को निकम्मा कर दे। १५ और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। १६ क्योंकि वह तो स्वर्गदूतों को नहीं बरन इब्राहीम

के वंश को संभालता है। १७ इस कारण उस को चाहिए था, कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने; जिस से वह उन बातों में जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, एक दयालु और विश्वासयोग्य महायाजक बने ताकि लोगों के पापों के लिये प्रायश्चित्त करे। १८ क्योंकि जब उस ने परीक्षा की दशा में दुःख उठाया, तो वह उन की भी सहायता कर सकता है, जिन की परीक्षा होती है।

२ सो हे पवित्र भाइयो तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम भंगीकार करते हैं ध्यान करो। २ जो अपने नियुक्त करनेवाले के लिये विश्वासयोग्य था, जैसा मूसा भी उसके सारे घर में था। ३ क्योंकि वह मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनानेवाला घर से बढ़कर आदर रखता है। ४ क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनानेवाला होता है, पर जिस ने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। ५ मूसा तो उसके सारे घर में सेवक की नाई विश्वासयोग्य रहा, कि जिन बातों का वर्णन होनेवाला था, उन की गवाही दे। ६ पर मसीह पुत्र की नाई उसके घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर, और अपनी भाषा के घमण्ड पर अन्त तक दृढ़ता से स्थिर रहें। ७ सो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो। ८ तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिसाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ९ जहां तुम्हारे

बापदादों ने मुझे जांचकर परखा और चालीस वर्ष तक मेरे काम देखे। १० इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा, और कहा, कि इन के मन सदा भटकते रहते हैं, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहिचाना। ११ तब मैं ने क्रोध में आकर शपथ खाई, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। १२ हे भाइयो, चौकस रहो, कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी न मन हो, जो जीवते परमेश्वर से दूर हट जाए। १३ वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो, कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। १४ क्योंकि हम मसीह के * भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अन्त तक दृढ़ता से स्थिर रहें। १५ जैसा कहा जाता है, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। १६ भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं, जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? १७ और वह चालीस वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या उन्हीं से नहीं, जिन्होंने पाप किया, और उन की लीयें जंगल में पड़ी रहीं? १८ और उस ने किन से शपथ खाई, कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे: केवल उन से जिन्होंने आज्ञा न मानी? १९ सो हम देखते हैं, कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके।

इसलिये जब कि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक

* या सम्मिलित।

है, तो हमें डरना चाहिए; ऐसा न हो, कि तुम में से कोई जन उस से रहित जान पड़े। २ क्योंकि हमें उन्हीं की नाईं मुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ; क्योंकि सुननेवालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। ३ और हम जिन्हों ने विश्वास किया है, उस विश्राम में प्रवेश करते हैं; जैसा उस ने कहा, कि मैं ने अपने क्रोध में शपथ खाई, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम हो चुके थे। ४ क्योंकि सातवें दिन के विषय में उस ने कहीं यों कहा है, कि परमेश्वर ने सातवें दिन अपने सब कामों को निपटा करके * विश्राम किया। ५ और इस जगह फिर यह कहता है, कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। ६ तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका मुसमाचार पहिले सुनाया गया, उन्हीं ने आज्ञा न मानने के कारण उस में प्रवेश न किया। ७ तो फिर वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहिले कहा गया, कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर न करो। ८ और यदि यहोशू उन्हें विश्राम में प्रवेश कर लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा न होती। ९ सो जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिये सब्त का विश्राम बाकी है। १० क्योंकि जिस ने उसके विश्राम में प्रवेश किया

है, उस ने भी परमेश्वर की नाईं अपने कामों को पूरा करके * विश्राम किया है। ११ सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो, कि कोई जन उन की नाईं आज्ञा न मानकर † गिर पड़े। १२ क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, और प्रबल, और हर एक दोषारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव, और आत्मा को, और गांठ गांठ, और गूदे गूदे को भलग करके, वार पार छेदता है; और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। १३ और सृष्टि की कोई वस्तु उस से छिपी नहीं है वरन जिम से हमें काम है, उस की आँखों के साम्हने सब वस्तुएं खुली और बेपरद हैं ॥

१४ सो जब हमारा ऐसा बड़ा महा-याजक है, जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात् परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आज्ञा, हम अपने प्रगीकार को दृढ़ता से धाम रहे। १५ क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, जो हमारी निबंलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके; वरन वह सब बातों में हमारी नाईं परखा तो गया, तोभी निष्पाप निकला। १६ इसलिये आज्ञा, हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले, कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाएं, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे ॥

५ क्योंकि हर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाता है, और मनुष्यों ही के लिये उन बातों के विषय में जो परमेश्वर से सम्बन्ध रखती हैं, ठहराया जाता है; कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया

* या कामों से।

† या अविश्वासी होकर।

* या कामों से।

करे। २ और वह अज्ञानों, और भूले भटकों के साथ नमी से व्यवहार कर सकता है इसलिये कि वह आप भी निबलता से घिरा है। ३ और इसी लिये उसे चाहिए, कि जैसे गोगों के लिये, वैसे ही अपने लिये भी पाप-बलि चढ़ाया करे। ४ और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता, जब तक कि हासून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया न जाए। ५ वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बढ़ाई अपने आप से नहीं ली, पर उस को उसी ने दी, जिस ने उस से कहा था, कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। ६ वह दूसरी जगह में भी कहता है, तू मलिकिसिदक की रीति पर सदा के लिये याजक है। ७ उस ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकारकर, और आंसू बहा बहाकर उस से जो उस को मृत्यु से बचा * सकता था, प्रार्थनाएं और बिनती की और भक्ति के कारण उस की सुनी गई। ८ और पुत्र होने पर भी, उस ने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। ९ और सिद्ध बनकर, अपने सब आज्ञा माननेवालों के लिये सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। १० और उसे परमेश्वर की ओर से मलिकिसिदक की रीति पर महा-याजक का पद मिला ॥

११ इस के विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी हैं, जिन का समझना भी कठिन है; इसलिये कि तुम ऊंचा मुनने लगे हो। १२ समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तौभी क्या

यह आवश्यक है, कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए ? और ऐसे हो गए हो, कि तुम्हें भ्रम के बदले भ्रम तक दूध ही चाहिए। १३ क्योंकि दूध पीनेवाले बच्चे को तो घर्म के वचन की पहिचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। १४ पर भ्रम सयानों के लिये है, जिन के ज्ञानेन्द्रिय अभ्यास करते करते, भले वुरे में भेद करने के लिये पक्के हो गए हैं ॥

इसलिये आओ मसीह की शिक्षा की आरम्भ की बातों को छोड़कर, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं, और मरे हुए कामों से मन फिराने, और परमेश्वर पर विश्वास करने। २ और बपतिस्मों और हाथ रखने, और मरे हुएओं के जी उठने *, और अन्तिम न्याय की शिक्षारूपी नेव, फिर से न डालें। ३ और यदि परमेश्वर चाहे, तो हम यही करेंगे। ४ क्योंकि जिन्होंने ने एक बार ज्योति पाई है, और जो स्वर्गीय बरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। ५ और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आनेवाले युग की सामर्थों का स्वाद चख चुके हैं। ६ यदि वे भटक जाएं; तो उन्हें मन फिराव के लिये फिर नया बनाना अन्होना है; क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिये फिर नुस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। ७ क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पीकर जिन लोगों के लिये वह जोती-बोई जाती है, उन के काम का साग-पात उपजाती है, वह

* या उद्धार कर।

* या मृतकोत्थान।

परमेश्वर से आशीष पाती है। ८ पर यदि वह भाड़ी और ऊंटकटारे उगाती है, तो निकम्मी और आपत होने पर है, और उसका घ्नत जलाया जाना है ॥

९ पर हे प्रियो यद्यपि हम ये बातें कहते हैं तोभी तुम्हारे विषय में हम इम मे अच्छा और उदारवाली बातों का भरोसा करते हैं। १० क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं, कि तुम्हारे काम, और उस प्रेम को भूल जाए, जो तुम ने उसके नाम के लिये इस रीति से दिखाया, कि पवित्र लोगों की सेवा की, और कर भी रहे हो।

११ पर हम बहुत चाहते हैं, कि तुम में मे हर एक जन घ्नत तक पूरी आशा के लिये ऐसा ही प्रयत्न करता रहे।

१२ ताकि तुम आलसी न हो जाओ; वरन उन का अनुकरण करो, जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिम होते हैं ॥

१३ और परमेश्वर ने इब्राहीम को प्रतिज्ञा देते समय जब कि शपथ खाने के लिये किसी को अपने से बड़ा न पाया, तो अपने ही शपथ खाकर कहा। १४ कि मैं सबमुच तुम्हें बहुत आशीष दूंगा, और तेरी सन्तान को बढ़ाना जाऊंगा। १५ और इस रीति से उस ने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। १६ मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करने है और उन के हर एक विवाद का फँसला शपथ में पक्का होता है। १७ इसलिये जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिमों पर और भी साफ रीति से प्रगट करना चाहा, कि उनकी मनसा बदल नहीं सकती तो शपथ को बीच में लाया। १८ ताकि दो बे-बदल बातों के द्वारा जिन के विषय में परमेश्वर का भूठा ठहरना अनहोना है,

हमारा दृढ़ता से ढाढ़स बन्ध जाए, जो शरण लेने को इमलिये दौड़े हैं, कि उस आशा को जो साम्हने रखी हुई है प्राप्त करें। १९ वह आशा हमारे प्राण के लिये ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है, और परदे के भीतर तक पहुंचता है। २० जहां यीशु मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर, हमारे लिये अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ है ॥

७ यह मलिकिसिदक शालेम का राजा, और परमप्रधान परमेश्वर का याजक, सर्वदा याजक बना रहता है : जब इब्राहीम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उस से भेंट करके उसे आशीष दी। २ इसी को इब्राहीम ने सब वस्तुओं का दसवां अंश भी दिया : यह पहिले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, धर्म का राजा, और फिर शालेम अर्थात् शान्ति का राजा है। ३ जिम का न पिता, न माता, न वशावली है, जिस के न दिनों का आदि है और न जीवन का अन्त है; परन्तु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा ॥

४ अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था जिस को कुलपति इब्राहीम ने अच्छे मे अच्छे माल की लूट का दसवां अंश दिया। ५ लेवी की सन्तान में मे जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है, कि लोगों, अर्थात् अपने भाइयों में चाहे, वे इब्राहीम ही की देह से क्यों न जन्मे हों। व्यवस्था के अनुसार दसवां अंश लें। ६ पर इम ने, जो उन की वशावली में का भी न था इब्राहीम से दसवां अंश लिया और जिसे

प्रतिज्ञाएं मिली थीं उसे आशीष दी। ७ और इस में संदेह नहीं, कि छोटा बड़े से आशीष पाता है। ८ और यहां तो मरनहार मनुष्य दसवां अंश लेते हैं पर वहां वही लेता है, जिस की गवाही दी जाती है, कि वह जीवित है। ९ तो हम यह भी कह सकते हैं, कि लेवी ने भी, जो दसवां अंश लेता है, इब्राहीम के द्वारा दसवां अंश दिया। १० क्योंकि जिस समय मलिकिसिदक ने उसके पिता से भेंट की, उस समय यह अपने पिता की देह में था ॥

११ तब यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है (जिस के सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी) तो फिर क्या आवश्यकता थी, कि दूसरा याजक मलिकिसिदक की रीति पर खड़ा हो, और हारून की रीति का न कहलाए? १२ क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है, तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। १३ क्योंकि जिस के विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है, जिस में से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। १४ तो प्रगट है, कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। १५ और जब मलिकिसिदक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होनेवाला था। १६ जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हो तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रगट हो गया। १७ क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, कि तू मलिकिसिदक की रीति पर युगानुयुग याजक है।

१८ निदान, पहिली आज्ञा निबंल; और निष्फल होने के कारण लोप हो गई। १९ (इसलिये कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं कि) और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आज्ञा रखी गई है जिस के द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। २० और इसलिये कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। २१ (क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए पर यह शपथ के साथ उस की ओर से नियुक्त किया गया जिस ने उसके विषय में कहा, कि प्रभु ने शपथ खाई, और वह उस से फिर न पछताएगा, कि तू युगानुयुग याजक है)। २२ सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। २३ वे तो बहुत से याजक बनते आए, इस का कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। २४ पर यह युगानुयुग रहता है; इस कारण उसका याजक पद अटल है। २५ इसी लिये जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उन का पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उन के लिये बिनती करने को सर्वदा जीवित है ॥

२६ सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, और निष्कपट और निर्मल, और पापियों से अलग, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। २७ और उन महायाजकों की नाईं उसे आवश्यक नहीं कि प्रति दिन पहिले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिये बलिदान चढ़ाए; क्योंकि उस ने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया। २८ क्योंकि व्यवस्था, तो निबंल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है; परन्तु उस शपथ का वचन

जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुन को नियुक्त करता है जो युगानुयुग के लिये निश्चय किया गया है ॥

८ अब जो बातें हम कह रहे हैं, उन में से सब से बड़ी बात यह है, कि हमारा ऐसा महायाजक है, जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दहिने जा बैठा। २ और पवित्र स्थान और उस सच्चे तम्बू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं, बरन प्रभु ने सृष्टा किया था। ३ क्योंकि हर एक महायाजक भेंट, और बलिदान चढ़ाने के लिये ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है, कि इस के पास भी कुछ चढ़ाने के लिये हो। ४ और यदि वह पृथ्वी पर होता, तो कभी याजक न होता, इसलिये कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ानेवाले तो हैं। ५ जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिम्ब की सेवा करते हैं, जैसे जब मूसा तम्बू बनाने पर था, तो उसे यह चिन्तावनी मिली, कि देख, जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था, उसके अनुसार सब कुछ बनाना। ६ पर उस को उन की सेवकाई से बड़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बान्धी गई है। ७ क्योंकि यदि वह पहिली वाचा निर्दोष होती, तो दूसरी के लिये अवसर न दूदा जाता। ८ पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, कि प्रभु कहता है, देखो, वे दिन आते हैं, कि मैं इस्राएल के घराने के साथ, और यहूदा के घराने के साथ, नई वाचा बान्धूंगा। ९ यह उस वाचा के समान न होगी, जो मैं ने उन के बाप-

दादों के साथ उस समय बान्धी थी, जब मैं उन का हाथ पकड़कर उन्हें मिसर देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर न रहे, और मैं ने उन की मुधिन ली; प्रभु यही कहता है। १० फिर प्रभु कहना है, कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बान्धूंगा, वह यह है, कि मैं अपनी व्यवस्था को उन के मनों में डालूंगा, और उसे उन के हृदय पर लिखूंगा, और मैं उन का परपेश्वर ठहरूंगा, और वे मेरे लोग ठहरेंगे। ११ और हर एक अपने देशवाले को और अपने भाई को यह शिक्षा न देगा, कि तू प्रभु को पहिचान क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। १२ क्योंकि मैं उन के अधर्म के विषय में दयावन्त हूंगा, और उन के पापों को फिर स्मरण न करूंगा। १३ नई वाचा के स्थापन से उस ने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीरां हो जाती है उमका मिट जाना अनिवार्य है ॥

९ निदान, उस पहिली वाचा में भी सेवा के नियम थे; और ऐसा पवित्र-स्थान जो इस जगत का था। २ अर्थात् एक तम्बू बनाया गया, पहिले तम्बू में दीबट, और मेज, और भेंट की रोटियां थी; और वह पवित्र स्थान कहलाता है। ३ और दूसरे-परदे के पीछे वह तम्बू था, जो परम पवित्र-स्थान कहलाता है। ४ उस में सोने की धूपदानी, और चारों ओर सोने से मढा हुआ वाचा का संदूक और इस में मन्ना से भरा हुआ सोने का मतंबान और हासन की छड़ी जिस में फूल फल आ गए थे और वाचा की पटिया थी। ५ और उसके ऊपर दोनों

तेजोमय कल्प थे, जो प्रायश्चित्त के ढकने पर छाया किए हुए थे: इन्हीं का एक एक करके बखान करने का भ्रमी भवसर नहीं है। ६ जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकीं, तब पहिले तम्बू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निबाहते हैं। ७ पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है; और बिना लोहू लिए नहीं जाता; जिसे वह अपने लिये और लोगों की भूल चूक के लिये चढ़ावा चढ़ाता है। ८ इस से पवित्र आत्मा यही दिखाता है, कि जब तक पहिला तम्बू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रगट नहीं हुआ। ९ और यह तम्बू तो वर्तमान समय के लिये एक दृष्टान्त है; जिस में ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जिन से आराधना करनेवालों के विवेक* सिद्ध नहीं हो सकते। १० इसलिये कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं, और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिये नियुक्त किए गए हैं ॥

११ परन्तु जब मसीह आनेवाली † भ्रच्छी भ्रच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उस ने और भी बड़े और सिद्ध तम्बू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात् इस सृष्टि का नहीं। १२ और बकरों और बछड़ों के लोहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लोहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, और अनन्त छुटकारा प्राप्त किया। १३ क्योंकि जब बकरों और

बैलों का लोहू और कलोर की राख भ्रपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिये पवित्र करती है। १४ तो मसीह का लोहू जिस ने अपने प्राप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साम्हने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक* को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। १५ और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहिली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिये हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनन्त मीरास को प्राप्त करें। १६ क्योंकि जहां वाचा बान्धी गई † है वहां वाचा बान्धनेवाले ‡ की मृत्यु का समझ लेना भी भवश्य है। १७ क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बान्धनेवाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं होती। १८ इसी लिये पहिली वाचा भी बिना लोहू के नहीं बान्धी गई। १९ क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उस ने बछड़ों और बकरों का लोहू लेकर, पानी और लाल ऊन, और जूफा के साथ, उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। २० और कहा, कि यह उस वाचा का लोहू है, जिस की आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिये दी है। २१ और इसी रीति से उस ने तम्बू और सेवा के सारे सामान पर लोहू छिड़का। २२ और व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं

* अर्थात् मन या कानशन्स।

† और पढ़ते हैं। आई हुई।

* अर्थात् मन या कानशन्स।

† या बसीयत या बिल की हुई।

‡ या बसीयत या बिल लिखनेवाले।

लोहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं; और बिना लोहू बहाए क्षमा नहीं होती ॥

२३ इसलिये अवश्य है, कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन के द्वारा शुद्ध किए जाएं; पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इन से उत्तम बलिदानों के द्वारा ।

२४ क्योंकि मसीह ने उम हाय के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिये अब परमेश्वर के साम्हने दिखाई दे । २५ यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लोहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है । २६ नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उम को बार बार दुख उठाना पड़ता; पर अब युग के अन्त में वह एक बार प्रगट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे । २७ और जैमे मनुष्यों के लिये एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है । २८ वैसे ही मसीह भी बहुतां के पापों को उठा लेने के लिये एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उस को बाट जोहते हैं, उन के उद्धार के लिये दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा ॥

१० क्योंकि व्यवस्था जिस में आने-वाली अच्छी वस्तुओं का प्रति-बिम्ब है, पर उन का असली स्वरूप नहीं, इसलिये उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा, जो प्रति वर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आनेवालों को कदापि मिद्ध नहीं कर सकतीं । २ नहीं तो उन का चढ़ाना बन्द क्यों न हो जाता ?

इसलिये कि जब सेवा करनेवाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उन का विवेक * उन्हें पापी न ठहराता । ३ परन्तु उन के द्वारा प्रति वर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है । ४ क्योंकि अनहोना है, कि वेलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे । ५ इसी कारण वह जगत में आने समय कहता है, कि बलिदान और भेंट तू ने न चाही, पर मेरे लिये एक देह तैयार किया । ६ होम-बलियों और पाप-बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ । ७ तब मैं ने कहा, देख, मैं आ गया हूं, (पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है) ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं । ८ ऊपर तो वह कहता है, कि न तू ने बलिदान और भेंट और होम-बलियों और पाप-बलियों को चाहा, और न उन से प्रसन्न हुआ; यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं । ९ फिर यह भी कहता है, कि देख, मैं आ गया हूं, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं; निदान, वह पहिले को उठा देता है, ताकि दूसरे को नियुक्त करे । १० उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं । ११ और हर एक याजक तो खड़े होकर प्रति दिन सेवा करता है, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकने; बार बार चढ़ाता है । १२ पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिये चढ़ाकर परमेश्वर के दहिने जा बैठा । १३ और उमी समय से इस की बाट जोह रहा

* अर्थात् मन या कानश्चस् ।

है, कि उसके बीरी उसके पांवों के नीचे की पीढ़ी बनें। १४ क्योंकि उस ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिये सिद्ध कर दिया है। १५ और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है; क्योंकि उस ने पहिले कहा था। १६ कि प्रभु कहता है; कि जो वाचा में उन दिनों के बाद उन से बान्धूंगा वह यह है, कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उन के हृदय पर लिखूंगा और मैं उन के विवेक में डालूंगा। १७ (फिर वह यह कहता है, कि) मैं उन के पापों को, और उन के अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। १८ और जब इन की क्षमा हो गई है, तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा।

१९ सो हे भाइयो, जब कि हमें यीशु के लोहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। २० जो उस ने परदे अर्थात् अपने शरीर में से होकर, हमारे लिये अभिषेक किया है, २१ और इसलिये कि हमारा ऐसा महान याजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। २२ तो आओ; हम सच्चे मन, और पूरे विश्वास के साथ, और विवेक * का दोष दूर करने के लिये हृदय पर छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। २३ और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से यामे रहें; क्योंकि जिस ने प्रतिज्ञा किया है, वह सच्चा † है। २४ और प्रेम, और भले कामों में उस्काने के लिये एक दूसरे की चिन्ता किया करें। २५ और एक

दूसरे के साथ झकट्टा होना न छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें; और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो ॥

२६ क्योंकि सच्चाई की पहिचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जान बूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिये फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। २७ हां, दण्ड का एक भयानक बाट जोहना और प्राण का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। २८ जब कि मूसा की व्यवस्था का न माननेवाला बो या तीन जनों की गवाही पर, बिना दया के मार डाला जाता है। २९ तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दण्ड के योग्य ठहरेगा, जिस ने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा, और वाचा के लोहू को जिस के द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है, और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। ३० क्योंकि हम उसे जानते हैं, जिस ने कहा, कि पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा; और फिर यह, कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। ३१ जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है ॥

३२ परन्तु उन पहिले दिनों को स्मरण करो, जिन में तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े भ्रमेले में स्थिर रहे। ३३ कुछ तो यों, कि तुम निन्दा, और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यों, कि तुम उन के सांभी हुए जिन की दुर्दशा की जाती थी। ३४ क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, और अपनी संपत्ति भी आनन्द से लुटने दी; यह जानकर, कि तुम्हारे पास एक और

* अर्थात् मन या कानशन्स।

† यू० विश्वासयोग्य।

भी उत्तम और सबंदा ठहरनेवाली संपत्ति है। ३५ सो अपना हियाव न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ३६ क्योंकि तुम्हें धीरज धरना भवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। ३७ क्योंकि भ्रब बहुत ही योड़ा समय रह गया है जब कि भ्रानेवाला आएगा, और देर न करेगा। ३८ और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उस से प्रसन्न न होगा। ३९ पर हम हटनेवाले नहीं, कि नाश हो जाए पर विश्वास करनेवाले हैं, कि प्राणों को बचाएँ ॥

११ भ्रब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अन-देखी वस्तुओं का प्रमाण है। २ क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की प्रच्छी गवाही दी गई। ३ विश्वास ही से हम जान जाते हैं, कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के बचन के द्वारा हुई है। यह नहीं, कि जो कुछ देखने में आता है, वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। ४ विश्वास ही से हाबिल ने कन ये उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिये चढ़ाया; और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई: क्योंकि परमेश्वर ने उस की भेंटों के विषय में गवाही दी; और उसी के द्वारा वह मरने पर भी भ्रब तक बातें करता है। ५ विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया, कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला; क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहिले उस की यह गवाही दी गई थी, कि

उस ने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। ६ और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास भ्रानेवाले को विश्वास करना चाहिए, कि वह है; और अपने खोजनेवालों को प्रतिफल देता है। ७ विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़नी थीं, चितौनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिये जहाज बनाया, और उसके द्वारा उस ने संगार को दोषी ठहराया; और उम धर्म का वारिस हुआ, जो विश्वास से होता है। ८ विश्वास ही से इब्राहीम जब बुलाया गया तो आशा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मोरास में लेनेवाला था, और यह न जानता था, कि मैं किधर जाता हूँ; तोभी निकल गया। ९ विश्वास ही से उस ने प्रतिज्ञा किए हुए देश में जैसे पराए देश में पर-देशी रहकर इसहाक और याकूब समेत, जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तम्बुओं में वास किया। १० क्योंकि वह उस स्थिर*नेववाले* नगर की बाट जोहता था, जिम का रचनेवाला और बनानेवाला परमेश्वर है। ११ विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई; क्योंकि उस ने प्रतिज्ञा करनेवाले को सच्चा † जाना था। १२ इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू की नाई, अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ ॥

१३ ये सब विश्वास ही की दशा में मरे; और उन्हीं ने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं

* या स्थिर रहनेवाले।

† सू० विश्वासयोग्य।

नहीं पाई; पर उन्हें दूर से देखकर ध्यानन्दित हुए और मान लिया, कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। १४ जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रगट करते हैं, कि स्वदेश की खोज में हैं। १५ और जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उस की सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। १६ पर वे एक उत्तम अर्थात् स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसी लिये परमेश्वर उन का परमेश्वर कहलाने में उन से नहीं सजाता, सो उस ने उन के लिये एक नगर तैयार किया है ॥

१७ विश्वास ही से इब्राहीम ने, परखे जाने के समय में, इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिस ने प्रतिज्ञाओं को सच माना था। १८ और जिस से यह कहा गया था, कि इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा; वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा। १९ क्योंकि उस ने विचार किया, कि परमेश्वर सामर्थी है, कि मरे हुए में से जिलाए, सो उन्होंने में से दृष्टान्त की रीति पर वह उसे फिर मिला। २० विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और एसाव को प्रानेवाली बातों के विषय में आशीष दी। २१ विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी, और अपनी लाठी के मिरे पर सहारा लेकर दण्डवत किया। २२ विश्वास ही से यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो इस्राएल की सन्तान के निकल जाने की चर्चा की, और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। २३ विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उस को, उत्पन्न होने के बाद तीन महीने तक छिपा रखा;

क्योंकि उन्होंने ने देखा, कि बालक सुन्दर है, और वे राजा की आज्ञा से न डरे। २४ विश्वास ही से मूसा ने सबाना होकर फिरोन की बेटी का पुत्र कहलाने से इन्कार किया। २५ इसलिये कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। २६ और मसीह के कारण निन्दित होने की मिसर के भएडार से बड़ा धन समभ्रः क्योंकि उस की आँखें फल पाने की प्रोर लगी थीं। २७ विश्वास ही से राजा के क्रोध से न डरकर उस ने मिसर को छोड़ दिया, क्योंकि वह प्रन-देखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। २८ विश्वास ही से उस ने फसह और लोह छिड़कने की विधि मानी, कि पहिलौठों का नाश करनेवाला इस्राएलियों * पर हाथ न डाले। २९ विश्वास ही से वे लाल समुद्र के पार ऐसे उतर गए, जैसे सूखी भूमि पर से; और जब मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा, तो सब डूब मरे। ३० विश्वास ही से यरीहो की शहरपनाह, जब सात दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। ३१ विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने-वालों † के साथ नाश नहीं हुई; इस-लिये कि उस ने भेदियों को कुशल से रखा था। ३२ अब और क्या कहूँ? क्योंकि समय नहीं रहा, कि गिदोन का, और बाराक और समसून का, और यिफ्तह का, और दाऊद और शामुएल का, और भविष्यद्वक्ताओं का वर्णन करूँ। ३३ इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते; धर्म के काम किए; प्रतिज्ञा की

* या उन।

† या भविष्यद्वक्ताओं।

हुई वस्तुएं प्राप्त कीं, सिंहां के मुंह बन्द किए। ३४ आग की ज्वाला को टडा किया; तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवन्त हुए; लड़ाई में वीर निकले; विदेशियों की फौजों को मार भगाया। ३५ म्त्रियों ने अपने भरे हुआं को फिर जीवते पाया; किन्तु तो मार खाने खाने मर गए; और छुटकारा न चाहा; इसलिये कि उत्तम पुनरुत्थान * के भागी हों। ३६ कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने; और कोड़े खाने; बरल बान्धे जाने; और कैद में पड़ने के ढाग परखे गए। ३७ पत्थरवाह किए गए; आरे से चोरे गए; उन की परीक्षा की गई; तलवार से मारे गए; वे कंगाली में और बलेस में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए, इधर उधर मारे मारे फिरे। ३८ और जंगलों, और पहाड़ों, और गुफाओं में, और पृथ्वी की दगरों में भटकते फिरे। ३९ संसार उन के योग्य न था; और विश्वास ही के द्वारा इन सब के विषय में श्रद्धी गवाही दी गई, तोभी उन्हें प्रतिजा की हुई वस्तु न मिली। ४० क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिये पहिले से एक उत्तम वात ठहराई, कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचें ॥

१२ इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा वादल हम को घेरे हुए है, तो आओ, हर एक रोकनेवाली वस्तु, और उलझानेवाले पाप को दूर करके, वह दौड़ जिस में हमें दौड़ना है, धोरज से दौड़ें। २ और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करनेवाले योग्य को और

* या मृतकोत्थान।

नाकने रहें; जिस ने उम आनन्द के लिये जो उभके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिन्ता न करके, क्रम का दुख सहा; और सिंगमन पर परमेश्वर के दहिने जा बेटे। ३ इसलिये उम पर ध्यान करो, जिस ने अपने विरोध में पापियों का इनना वाद-विवाद सह लिया, कि तुम निराश होकर हियाव न छोड़ दो। ४ तुम ने पाप से लडने हुए उस से ऐसी मूठभेड नहीं की, कि तुम्हारा लोहू बहा हो। ५ और तुम उम उपदेश को जो तुम को पुयों की नाई दिया जाता है, भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हलकी बात न जान, और जब वह तुम्हे घुडके तो हियाव न छोड़। ६ क्योंकि प्रभु, जिस से प्रेम करना है, उस की ताड़ना भी करता है; और जिसे पुत्र बना लेता है, उम को कोड़े भी लगाता है। ७ तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो: परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, वह कौन मा पुत्र है, जिस की ताड़ना पिता नहीं करता? ८ यदि वह ताड़ना जिस के भागी सब होतें हैं, तुम्हारी नहीं हुई, तो तुम पुत्र नहीं, पर व्यभिचार की सन्तान ठहरे। ९ फिर जब कि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करने थे, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी आधीन न रहें जिस से जीवित रहें। १० वे तो अपनी अपनी समझ के अनुमार थोडे दिनों के लिये ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिये करता है, कि हम भी उस की पवित्रता के भागी हो जाएं। ११ और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनन्द की नहीं, पर शोक ही की बात दिखार्ड पड़नी है, तोभी

जो उस को सहते महते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। १२ इसलिये ढीले हाथों श्रीरु निर्वन घुटनों को सीधे करो। १३ श्रीरु अपने पावों के लिये सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक न जाए, * पर भला चंगा हो जाए ॥

१४ मंत्र से मेल मिलाप रखने, श्रीरु उस पवित्रता के खोजी हो जिम के बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। १५ श्रीरु ध्यान में देखते रहो, ऐसा न हो, कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह में वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, श्रीरु उमके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। १६ ऐसा न हो, कि कोई जन व्यभिचारी, या एसाव की नाई अघर्मी हो, जिस न एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठे होने का पद बेच डाला। १७ तुम जानते तो हो, कि वाद को जब उम ने आशीष पानी चाहों, तो अयोग्य गिना गया, श्रीरु प्रांमू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला ॥

१८ तुम तो उस पहाड़ के पास जो छूआ जा सकता था श्रीरु प्राग से प्रज्वलित था, श्रीरु काली घटा, श्रीरु अन्धेरा, श्रीरु आन्धी के पाम। १९ श्रीरु तुरही की ध्वनि, श्रीरु बोलनेवाले के ऐसे शब्द के पाम नहीं आए, जिस के मुननेवालों ने विनती की, कि अब हम में श्रीरु बातें न की जाए। २० क्योंकि वे उस प्राजा को न सह सकें, कि यदि कोई पशु भी पहाड़ को छूए, तो पत्थरवाह किया जाए। २१ श्रीरु वह दर्शन ऐसा डरावना था,

कि मूसा ने कहा; मैं बहुत डरता श्रीरु कांपता हूं। २२ पर तुम सिम्योन के पहाड़ के पास, श्रीरु जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास। २३ श्रीरु लाखों स्वर्गदूतों श्रीरु उन पहिलौठों की साधारण सभा श्रीरु कलीसिया जिन के नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं; श्रीरु सब के न्यायी परमेश्वर के पास, श्रीरु मिट्ट किए हुए धर्मियों की आत्माओं। २४ श्रीरु नई वाचा के मध्यस्थ यीशु, श्रीरु छिड़काव के उस लोह के पास आए हो, जो हावील के लोह से उत्तम बातें कहता है। २५ सावधान रहो, श्रीरु उस कहनेवाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चितावनी देनेवाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चितावनी करनेवाले से मुंह मोड़कर क्योंकर बच सकेंगे? २६ उरा समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया पर अब उम ने यह प्रतिज्ञा की है, कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं, बरन आकाश को भी हिला दूंगा। २७ श्रीरु यह वाक्य 'एक बार फिर' इस बात को प्रगट करता है, कि जो वस्तुएं हिलाई जाती हैं, वे सूजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी; ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती, वे अटल बनी रहें। २८ इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से न जाने दें, जिस के द्वारा हम भक्ति, श्रीरु भय सहित, परमेश्वर का ऐसी आराधना कर सकते हैं जिस से वह प्रसन्न होता है। २९ क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करनेवाली प्राग है ॥

* या लंगड़े की हड्डी उखड़ न जाए।

१३ भाईचारे की प्रीति बनी रहे।
 २ पहनुनाई करना न भूलना, क्योंकि इस के द्वारा कितनों ने अनजाने स्वर्ग-दूतों की पहनुनाई की है। ३ कंदियों की ऐसी सुधि लो, कि मानो उन के साथ तुम भी कंद हो; और जिन के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उन की भी यह समझकर सुधि लिया करो, कि हमारी भी देह है। ४ विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और बिछौना निष्कलंक रहे; क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों, और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। ५ तुम्हारा स्वभाव लोभरहित हो, और जो तुम्हारे पास है, उसी पर सन्तोष करो; क्योंकि उस ने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा, और न कभी तुम्हें त्यागूंगा। ६ इसलिये हम बेधड़क होकर कहते हैं, कि प्रभु, मेरा सहायक है; मैं न डरूंगा; मनुष्य मेरा क्या कर सकता है॥

७ जो तुम्हारे भगुवे थे, और जिन्होंने ने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो; और ध्यान से उन के चाल-चलन का अन्त देखकर उन के विश्वास का अनुकरण करो। ८ यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एकसा है। ९ नाना प्रकार के और ऊपरी उपदेशों से न भरमाए जाओ, क्योंकि मन का अनुग्रह से दृढ़ रहना भला है, न कि उन खाने की वस्तुओं से जिन से काम रखनेवालों को कुछ लाभ न हुआ। १० हमारी एक ऐसी वेदी है, जिस पर से खाने का अधिकार उन लोगों को नहीं, जो तम्बू की सेवा करते हैं। ११ क्योंकि जिन पशुओं का लोह महा-याजक पाप-बलि के लिये पवित्र स्थान में

ले जाता है, उन की देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। १२ इसी कारण, यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोह के द्वारा पवित्र करने के लिये फाटक के बाहर दुख उठाया। १३ सो आओ, उस की निन्दा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चलें। १४ क्योंकि यहां हमारा कोई स्थिर रहनेवाला नगर नहीं, बरन हम एक आनेवाले नगर की खोज में हैं। १५ इसलिये हम उसके द्वारा स्तुतिरूपी बलिदान, अर्थात् उन होठों का फल जो उसके नाम का भंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिये सर्वदा चढ़ाया करें। १६ पर भलाई करना, और उदारता न भूलो; क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। १७ अपने भ्रगुवों की मानो; और उन के आधीन रहो, क्योंकि वे उन की नाई तुम्हारे प्राणों के लिये जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, कि वे यह काम आनन्द से करें, न कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं॥

१८ हमारे लिये प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है, कि हमारा विवेक * शुद्ध है; और हम सब बातों में अच्छी चाल चलना चाहते हैं। १९ और इस के करने के लिये मैं तुम्हें और भी समझाता हूँ, कि मैं शीघ्र तुम्हारे पास फिर आ सकूँ॥

२० अब शान्तिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है सनातन वाचा के लोह के गुण से भरे हुए में से जिलाकर ले आया।

* अर्थात् मन या कानशुन्य।

२१ तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिस से तुम उस की इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उस को भाता है, उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, जिस की बड़ाई युगानुयुग होती रहे।
ग्रामीन ॥

२२ हे भाइयो में तुम से बिनती करता हूं, कि इन उपदेश की बातों को सह लेओ; क्योंकि मैं ने तुम्हें बहुत संक्षेप में

लिखा है। २३ तुम यह जान लो कि तीमुथियुस हमारा भाई छूट गया है और यदि वह शीघ्र प्रा गया, तो मैं उसके साथ तुम से भेंट करूंगा ॥

२४ अपने सब भगुवों और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो। इतालियावाले तुम्हें नमस्कार कहते हैं ॥

२५ तुम सब पर अनुग्रह होता रहे।
ग्रामीन ॥

याकूब की पत्री

१ परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की और से उन बारहों गोत्रों को जो तित्तर बित्तर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे ॥

२ हे मेरे भाइयो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, ३ तो इस को पूरे आनन्द की बात समझो, यह जानकर, कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ४ पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे ॥

५ पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सब को उदारता से देता है; और उस को दी जाएगी। ६ पर विश्वास से मांगे, और कुछ सन्देह न करे; क्योंकि सन्देह करनेवाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ७ ऐसा मनुष्य यह न समझे, कि मुझे प्रभु

से कुछ मिलेगा। ८ वह व्यक्ति दुचित्ता है, और अपनी सारी बातों में चंचल है ॥

९ दोन भाई अपने ऊंचे पद पर घमण्ड करे। १० और धनवान अपनी नीच दशा पर: क्योंकि वह धाम के फूल की नाई जाता रहेगा। ११ क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है, और उस की शोभा जाती रहती है; उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा ॥

१२ धन्य है वह मनुष्य, जो परीक्षा में स्थिर रहता है; क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिस की प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करनेवालों को दी है। १३ जब किसी की परीक्षा हो, तो वह यह न कहे, कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की और से होती है; क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा प्राप्त करता है।

१४ परन्तु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर, और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। १५ फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। १६ हे मेरे प्रिय भाइयो, धोखा न खाओ। १७ क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिस में न तो कोई परिवर्तन हो सकता है, और न बदल बदल के कारण उम्र पर छाया पड़ती है। १८ उम्र ने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उस की सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों।

१९ हे मेरे प्रिय भाइयो, यह बात तुम जानते हो : इसलिये हर एक मनुष्य सुनने के लिये तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। २० क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। २१ इसलिये सारी मलिनता और वैर भाव की बढ़ती को दूर करके, उस वचन की नम्रता में ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। २२ परन्तु वचन पर चलनेवाले बनो, और केवल सुननेवाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। २३ क्योंकि जो कोई वचन का सुननेवाला हो, और उस पर चलनेवाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुह दर्पण में देखता है। २४ इसलिये कि वह अपने आप को देखकर चला जाता, और तुरन्त भूल जाता है कि मैं कैसा था। २५ पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता को सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिये आशीर्ष पाएगा

कि सुनकर रूचना नहीं, पर वैसा ही काम करता है। २६ यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उस की भक्ति व्यर्थ है। २७ हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उन की मुधि लें, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें।

२ हे मेरे भाइयो, हमारे महिमायुक्त प्रभु यीशु मसीह का विश्वास तुम में पक्षपात के साथ न हो। २ क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुन्दर वस्त्र पहिने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मीले कुचैले कपड़े पहिने हुए आए। ३ और तुम उम सुन्दर वस्त्रवाले का मुंह देखकर कहो कि तू वहां अच्छी जगह बैठ; और उम कंगाल से कहो, कि तू यहां खड़ा रह, या मेरे पांवों की पीढ़ी के पाम बैठ। ४ तो क्या तुम ने आपस में भेद भाव न किया और कुविचार से न्याय करनेवाले न ठहरे? ५ हे मेरे प्रिय भाइयो, सुनो; क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी, और उस राज्य के अधिकारी हों, जिस की प्रतिज्ञा उस ने उन से की है जो उम में प्रेम रखते हैं? ६ पर तुम ने उम कंगाल का अपमान किया : क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करने और क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? ७ क्या वे उम उत्तम नाम की निन्दा नहीं करते जिस के तुम कहलाए जाते हो? ८ तोभी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार, कि तू अपने पड़ोसी में अपने समान प्रेम रख, मजमुच उस राज्य व्यवस्था को

पूरी करते हो, तो अच्छा ही करने हो।
 ९ पर यदि तुम पक्षपात करते हो, तो पाप करते हो; और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। १० क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परन्तु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। ११ इसलिये कि जिम ने यह कहा, कि तू व्यभिचार न करना उमी ने यह भी कहा, कि तू हत्या न करना इसलिये यदि तू ने व्यभिचार तो नहीं किया, पर हत्या की तोभी तू व्यवस्था का उलंघन करने वाला ठहरा। १२ तुम उन लोगों की नाई बचन बोलो, और काम भी करो, जिन का न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा। १३ क्योंकि जिम ने दया नहीं की, उसका न्याय बिना दया के होगा : दया न्याय पर जयवन्त होती * है।।

१४ हे मेरे भाइयो, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म न करता हो, तो उस से क्या लाभ ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है ? १५ यदि कोई भाई या बहिन नङ्गे उधाड़े हों, और उन्हें प्रति दिन भोजन की घटी हो। १६ और तुम में मे कोई उन में कहे, कुशल से जाओ, तुम गरम रहो और तृप्त रहो; पर जो वस्तुएं देह के लिये आवश्यक हैं वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ ? १७ वैसे ही विश्वास भी, यदि कर्म महिन न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। १८ बरन कोई कह सकता है कि तुम्हें विश्वास है, और मैं कर्म करता हूँ : तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा; और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुम्हें दिखाऊंगा। १९ तुम्हें विश्वास है कि एक ही परमेश्वर

है : तू अच्छा करता है : दुष्टात्मा भी विश्वास रखते, और थरथरते हैं। २० पर हे निकम्मे मनुष्य क्या तू यह भी नहीं जानता, कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है ? २१ जब हमारे पिता इब्राहीम ने अपने पुत्र इसहाक को बेदी पर चढ़ाया, तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहरा था। २२ सो तू ने देख लिया कि विश्वास ने उस के कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। २३ और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, कि इब्राहीम ने परमेश्वर की प्रतीति की, और यह उसके लिये धर्म गिना गया, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। २४ सो तुम ने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं, बरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। २५ वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उस ने दूतों को अपने घर में उताग, और दूसरे मागं से विदा किया, तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी ? २६ निदान, जेमे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है।।

२ हे मेरे भाइयो, तुम में से बहुत उपदेशक न बनें, क्योंकि जानते हो, कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। २ इसलिये कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं : जो कोई वचन में नहीं चूकता, वही तो सिद्ध मनुष्य है; और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। ३ जब हम अपने वश में करने के लिये घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, तो हम उन की सारी देह को भी फेर सकते हैं। ४ देखो, जहाज भी, यद्यपि ऐसे बड़े होने हैं, और प्रचण्ड वायु से चलाए जाते हैं, तोभी एक छोटी सी पनवाग के द्वारा मांभी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते

हैं। ५ वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगें मारती हैं : देखो, थोड़ी सी अंग से कितने बड़े बन में अंग लग जाती है। ६ जीभ भी एक अंग है; जीभ हमारे अंगों में अग्रमं का एक लोक है, और सारी देह पर कलंक लगाती है, और भवचक्र में अंग लगा देती है और नरक कुण्ड को अंग से जलती रहती है। ७ क्योंकि हर प्रकार के बन-पशु, पक्षी, और रेंगनेवाले जन्तु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। ८ पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता; वह एक ऐसी बला है जो कभी एकती ही नहीं; वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। ९ इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं; और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं स्राप देते हैं। १० एक ही मुंह से धन्यवाद और स्राप दोनों निकलते हैं। ११ हे मेरे भाइयो, ऐसा नहीं होना चाहिए। १२ क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयो, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून, या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता ॥

१३ तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चालचलन से उस नम्रता सहित प्रगट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। १४ पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमण्ड न करना, और न तो भूठ बोलना। १५ यह ज्ञान वह नहीं, जो ऊपर से उतरता है बरन सांसारिक, और शारीरिक, और शैतानी है। १६ इसलिये कि जहां डाह

और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। १७ पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहिले तो पवित्र होता है फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। १८ और मिलाप करानेवालों के लिये धार्मिकता का फल मेल-मिलाप के साथ बोया जाता है ॥

४ तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख-विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते-भिड़ते हैं? २ तुम लालसा रखते हो, और तुम्हें मिलता नहीं; तुम हत्या और डाह करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर सकत; तुम झगड़ते और लड़ते हो; तुम्हें इसलिये नहीं मिलता, कि मांगते नहीं। ३ तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिये कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग-विलास में उड़ा दो। ४ हे व्यभिचारिणियो, क्या तुम नहीं जानतीं, कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बंद करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बंदी बनाता है। ५ क्या तुम यह समझते हो, कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उस ने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है, जिस का प्रतिफल डाह हो? ६ वह तो और भी अनुग्रह देता है; इस कारण यह लिखा है, कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। ७ इसलिये परमेश्वर के आधीन हो जाओ; और शैतान * का साम्हना करो, तो वह तुम्हारे पाम से

भाग निकलेगा। ८ परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा : हे पापियो, अपने हाथ शुद्ध करो; और हे दुचित्ते लोगो अपने हृदय को पवित्र करो। ९ दुखी होओ, और शोक करो, और रोओ : तुम्हारी हंसी शोक से और तुम्हारा आनन्द उदासी से बदल जाए। १० प्रभु के साम्हने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा ॥

११ हे भाइयो, एक दूसरे की बदनामी न करो, जो अपने भाई की बदनामी करता है, या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है, और व्यवस्था पर दोष लगाता है; और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, तो तू व्यवस्था पर चलने-वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। १२ व्यवस्था देनेवाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है; तू कौन है, जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है ?

१३ तुम जो यह कहते हो, कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे, और व्योपार करके लाभ उठाएंगे। १४ और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा : सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या ? तुम तो मानो भाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। १५ इस के विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी करेंगे। १६ पर अब तुम अपनी डींग पर घमण्ड करते हो; ऐसा सब घमण्ड बुरा होता है। १७ इसलिये जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसने लिये यह पाप है ॥

५ हे धनवानो सुन तो लो; तुम अपने आनेवाले बलेशों पर चिल्लाकर रोओ। २ तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। ३ तुम्हारे सोने-चान्दी में काई लग गई है; और वह काई तुम पर गवाही देगी, और आग की नाई तुम्हारा मांस खा जाएगी : तुम ने अन्तिम युग में धन बटोरा है। ४ देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उन की वह मजदूरी जो तुम ने घोखा देकर रख ली है चिल्ला रही है, और लवनेवालों की दोहाई, सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। ५ तुम पृथ्वी पर भोग-विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा; तुम ने इस बध के दिन के लिये अपने हृदय का पालन-पोषण करके मोटा ताजा किया। ६ तुम ने धर्मों को दोषी ठहराकर मार डाला; वह तुम्हारा साम्हना नहीं करता ॥

७ सो हे भाइयो, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, देखो, गृहस्थ पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अन्तिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। ८ तुम भी धीरज धरो, और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। ९ हे भाइयो, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो, देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। १० हे भाइयो, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें कीं, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। ११ देखो, हम धीरज धरनेवालों को धन्य कहते हैं : तुम ने ऐयूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिस से प्रभु की अत्यन्त करुणा और दया प्रगट होती है ॥

१२ पर हे मेरे भाइयो, सब से श्रेष्ठ बात यह है, कि क्षय न खाना; न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हां की हां, और नहीं की नहीं हो, कि तुम दण्ड के योग्य न रहो ॥

१३ यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे: यदि आनन्दित हो, तो वह स्तुति के भज्जत गाए। १४ यदि तुम में कोई रोगी हो, तो कलीसिया के प्राचीनों * को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिये प्रार्थना करें।

१५ और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उस को उठाकर खड़ा करेगा; और यदि उस ने पाप भी किए हों, तो उन की भी क्षमा हो जाएगी।

* या प्रिसबुतियों।

१६ इसलिये तुम आपस में एक दूसरे के साम्हने अपने अपने पापों को मान लो; और एक दूसरे के लिये प्रार्थना करो, जिस से चंगे हो जाओ; धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।

१७ एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख-सुख भोगी मनुष्य था; और उस ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की; कि मैं न बरसे; और साढ़े तीन वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा।

१८ फिर उस ने प्रार्थना की, तो आकाश से वर्षा हुई, और भूमि फलवन्त हुई ॥

१९ हे मेरे भाइयो, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए, और कोई उस को फेर लाए। २० तो वह यह जान ले, कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा, और अनेक पापों पर परदा डालेगा ॥

पतरस की पहिली पत्री

१ पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का, प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम, जो पुन्तुस, गलतिया, कप्पदुकिया, आसिया और बिथुनिया में तित्तर बित्तर होकर रहते हैं। २ और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार, आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने, और यीशु मसीह के लोह के छिड़के जाने के लिये चुने गए हैं ॥

तुम्हें अत्यन्त अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे ॥

३ हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद दो, जिस ने यीशु

मसीह के मरे हुएों में से जो उठने के द्वारा, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित प्राणा के लिये नया जन्म दिया। ४ अर्थात् एक अविनाशी और निर्मल, और अजर मीरास के लिये। ५ जो तुम्हारे लिये स्वर्ग में रखी है, जिन की रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से, विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिये, जो आनेवाले समय में प्रगट होनेवाली है, की जाती है। ६ और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदाम हो। ७ और यह इसलिये

है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो प्राग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रगट होने पर प्रशंसा, और महिमा, और आदर का कारण ठहरे। ८ उस से तुम विन देखे प्रेम रखने हो, और अब तो उम पर विन देखे भी विश्वास करके ऐसे आनन्दित और मगन होते हो, जो बर्गन से बाहर और महिमा से भरा हुआ है। ९ और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात् आत्माओं का उद्धार प्राप्त करने हो। १० इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत बूँद-डाँड़ और जाच-पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था, भविष्यद्वाणी की थी। ११ उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उन में था, और पहिले ही से मसीह के दुखों की और उन के वाद होने-वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कंसे समय की और संकेत करता था। १२ उन पर यह प्रगट किया गया, कि वे अपनी नहीं बरन तुम्हारी सेवा के लिये ये बातें कहा करते थे, जिन का समाचार अब तुम्हें उन के द्वारा मिला जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया : तुम्हें सुसमाचार मुनाया, और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं ॥

१३ इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बान्धकर, और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी प्राशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रगट होने के समय तुम्हें मिलनेवाला है। १४ और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुगनी अभिनायाओं के गदश न बनो। १५ पर

जैसा तुम्हारा बुलानेवाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चालचलन में पवित्र बनो। १६ क्योंकि लिखा है, कि पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। १७ और जब कि तुम, हे पिता, कहकर उस से प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से ब्रिताओ। १८ क्योंकि तुम जानने हो, कि तुम्हारा निकम्मा चालचलन जो बापदाओं से चला आता है उस से तुम्हारा छुटकारा चान्दी सोने अर्थात् नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। १९ पर निर्दोष और निष्कलंक भेम्ने अर्थात् मसीह के बहुमूल्य लोह के द्वारा हुआ। २० उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहिले ही से जाना गया था, पर अब इस अन्तिम युग में तुम्हारे लिये प्रगट हुआ। २१ जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करने हो, जिस ने उसे मेरे हुएों में से जिलाया, और महिमा दी; कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। २२ सो जब कि तुम ने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त मत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। २३ क्योंकि तुम ने नाशमान नहीं पर अविनाशो बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरनेवाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। २४ क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है, और उस की सारी शोभा घास के फूल की नाई है : घास सूख जाती है, और फूल झड़ जाता है। २५ परन्तु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहेगा : और यह ही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें मुनाया गया था ॥

२ इसलिये सब प्रकार का बैरभाव और छल और कपट और डाह और बदनामी को दूर करके। २ नये जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की सालसा करो, ताकि उनके ड्राग उदार पाने के लिये बढ़ते जाओ। ३ यदि तुम ने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। ४ उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परन्तु परमेश्वर के निकट चुना हुआ, और बहुमूल्य जीवना पत्थर है। ५ तुम भी आप जीवने पत्थरों की नाई आत्मिक धर बनते जाने हो, जिम से याजकों का पवित्र समाज बनकर, ऐसे आत्मिक बलिदान बढ़ाओ, जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त हैं। ६ इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है, कि देखो, मैं सिय्योन में कोने के मिररे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ : और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। ७ सो तुम्हारे लिये जो विश्वास करते हो, वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उन के लिये * जिस पत्थर को राजमिस्त्रीयों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का मिरा हो गया। ८ और ठेग † लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चटान हो गया है : क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसी के लिये वे ठहरे भी गए थे। ९ पर तुम एक चुना हुआ वंश, और राज-पदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और (परमेश्वर की) निज प्रजा हो, इसलिये कि जिम ने तुम्हें ग्रन्थकार में से अपनी भद्रभुन ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रगट करो। १० तुम

* भजन संहिता ११८ : २२ को देखो।

† यशायाह ८ : १४ को देखो।

पहिले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो : तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है ॥

११ हे प्रियो में तुम से विनती करता हूँ, कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सामारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, बचे रहो। १२ ग्रन्थजातियों में तुम्हारा चालचलन भला हो; इसलिये कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्म जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर; उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें ॥

१३ प्रभु के लिये मनुष्यों के ठहरे हुए हर एक प्रबन्ध के आधीन में रहो, राजा के इसलिये कि वह सब पर प्रधान है। १४ और हाकिमों के, क्योंकि वे कुकर्मियों को दण्ड देने और मुकर्मियों की प्रशंसा के लिये उमके भेजे हुए हैं। १५ क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, कि तुम भले काम करने से निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बन्द कर दो। १६ और अपने आप को स्वतंत्र जानो पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिये घाड़ न बनाओ, परन्तु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। १७ राब का आदर करो, भाइयों से प्रेम रखा, परमेश्वर से डरो, राजा का सम्मान करो ॥

१८ हे सेवको, हर प्रकार के भय * के साथ अपने स्वामियों के आधीन रहो, न केवल भलों और नम्रों के, पर कुटिलों के भी। १९ क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके † ग्रन्थाय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है, तो यह मुहावना है।

* या आदर।

† यू० के विवेक या कानशन्स से।

२० क्योंकि याद तुम ने अपराध करके धूसे खाए और धीरज धरा, तो इस में क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। २१ और तुम इसी के लिये बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिये दुख उठाकर, तुम्हें एक आदेश दे गया है, कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। २२ न तो उस ने पाप किया, और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। २३ वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने प्राप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। २४ वह प्राप ही हमारे पापों का अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया*, जिस से हम पापों के लिये मर करके धार्मिकता के लिये जीवन बिताएं: उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। २५ क्योंकि तुम पहिले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष † के पास फिर आ गए हो।

२६ हे पत्नियो, तुम भी अपने पति के आधीन रहो। २ इसलिये कि यदि इन में से कोई ऐसे हों जो वचन को न मानते हों, तो भी तुम्हारे भय ‡ सहित पवित्र चाल-चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चालचलन के द्वारा खिंच जाएं। ३ और तुम्हारा सिगार दिखावटी न हो, अर्थात् वान गूयने, और सोने के गहने, या भाँति भाँति के कपड़े पहिनना। ४ वरन तुम्हारा छिगा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व,

* या उस ने प्राप क्रूस पर हमारे पापों को अपनी देह पर उठा लिया।

† या विशप।

‡ या आदर।

नम्रता और मन की दीनता की अभिनायी सजावट से मुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। ५ और पूर्वकाल में पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने प्राप को इसी रीति से सवारती और अपने अपने पति के आधीन रहती थीं। ६ जैसे सारा इब्राहीम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी: सो तुम भी यदि भलाई करो, और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उस की बेटियां ठहरोगी ॥

७ वैसे ही हे पतियो, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्वल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के बरदान* के वारिस हैं, जिस से तुम्हारी प्रायनाएं रुक न जाएं ॥

८ निदान, सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखनेवाले, और करुणामय, और नम्र बनो। ९ बुराई के बदले बुराई मत करो; और न गाली के बदले गाली दो; पर इम के विपरीत प्राशोष ही दो: क्योंकि तुम प्राशोष के वारिस होने के लिये बुलाए गए हो। १० क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से, और अपने हाँठों को छल की बातें करने से रोके रहे। ११ वह बुराई का साथ छोड़े, और भलाई ही करे; वह मेल मिलाप को दूड़े, और उसके यत्न में रहे। १२ क्योंकि प्रभु की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान उन की विनती की ओर लगे रहते हैं, परन्तु प्रभु बुराई करनेवालों के विमुख रहता है ॥

* य० अनुग्रह।

१३ और यदि तुम भलाई करने में उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करनेवाला फिर कौन है? १४ और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ, तो धन्य हो; पर उन के बराने से मत डरो, और न घबराओ।

१५ पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुम से तुम्हारी आज्ञा के विषय में कुछ पूछे, तो उसे उत्तर देने के लिये सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। १६ और विवेक * भी शुद्ध रखो, इसलिये कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उन के विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चालचलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। १७ क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो, कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। १८ इसलिये कि मसीह ने भी, अर्थात् अधर्मियों के लिये धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पाम पहुँचाए: वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। १९ उसी में उस ने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। २० जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न माना जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिस में बैठकर थोड़े लोग अर्थात् आठ प्राणी पानी के द्वारा बच गए। २१ और उसी पानी का दृष्टान्त भी, अर्थात् वपतिस्मा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा, अब तुम्हें वचाता है; (उस में शरीर के मूल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परन्तु शुद्ध

विवेक * से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है)। २२ वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर के दहिनी ओर बैठ गया; और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके आधीन किए गए हैं।।

४ सो जब कि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हँसियार बान्ध लो क्योंकि जिस ने शरीर में दुख उठाया, वह पाप से छूट गया। २ ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की प्रभिलापाओं के अनुसार नहीं बरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। ३ क्योंकि अन्यायियों की इच्छा के अनुसार काम करने, और लुचपन की बुरी प्रभिलापाओं, मतवालापन, लीला-क्रीड़ा, पियकड़पन, और घृणित मूर्तिपूजा में जहाँ तक हम ने पहिले समय गंवाया, वही बहुत हुआ। ४ इस से वे अचम्भा करते हैं, कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उन का साथ नहीं देते, और इसलिये वे बुरा भला कहते हैं। ५ पर वे उस को जो जीवतों और मरे हुएओं का न्याय करने को तैयार है, लेखा देंगे। ६ क्योंकि मरे हुएओं को भी सुसमाचार इसी लिये सुनाया गया, कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उन का न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहे।।

७ सब बातों का अन्त तुरन्त होनेवाला है; इसलिये मयमी हाँकर प्रार्थना के लिये सचेत रहो। ८ और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो; क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। ९ बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहचानाई

* अर्थात् मन या कानशन्स।

* अर्थात् मन या कानशन्स।

करो। १० जिस को जो वरदान मिला है, वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भग्दारियों को नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। ११ यदि कोई बोले, तो ऐसा बोले, मानो परमेश्वर का वचन है; यदि कोई सेवा करे, तो उम शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है; जिस से सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर की महिमा प्रगट हो : महिमा और समगज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन ॥

१२ हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिये तुम में भड़की है, इस से यह समझकर अचम्भा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। १३ पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनन्द करो, जिस से उसकी महिमा के प्रगट होने समय भी तुम आनन्दित और मग्न हो। १४ फिर यदि मसीह के नाम के लिये तुम्हारी निन्दा की जाती है, तो धन्य हो; क्योंकि महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। १५ तुम में से कोई व्यक्ति हत्याग या चोर, या कुकर्मों होने, या पराए काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। १६ पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए, तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिये परमेश्वर की महिमा करो। १७ क्योंकि वह समय आ पहुँचा है, कि पहिले परमेश्वर के लोगो * का न्याय किया जाए, और जब कि न्याय का आग्रह हम ही से होगा तो उन का क्या अन्त होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते? १८ और यदि धर्मो व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या

ठिकाना? १९ इसलिये जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए, अपने अपने प्राण को विश्वासयोग्य मृज्जहार के हाथ में सौंप दें ॥

५ तुम में जो प्राचीन * हैं, मैं उन की नाई प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रगट होनेवाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझता हूँ। २ कि परमेश्वर के उम भुंड की, जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो; और यह दबाव से नहीं, परन्तु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनन्द से, और नीच-कमाई के लिये नहीं, पर मन लगा कर। ३ और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, उन पर अधिकार न जताओ, बरन भुंड के लिये आदर्श बनो। ४ और जब प्रधान रखवाला प्रगट होगा, तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा, जो मुरझाने का नहीं। ५ हे नवयुवको, तुम भी प्राचीनों † के आधीन रहो, बरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिये दीनता से कमर बान्धे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का साम्हना करता है, परन्तु दीनों पर अनुग्रह करता है। ६ इसलिये परमेश्वर के बलवन्त हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिम से वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। ७ और अपनी सारी चिन्ता उसी पर डाल दो, क्योंकि उस को तुम्हारा ध्यान है। ८ मचेत हो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान ‡ गर्जनेवाले सिंह का नाई इस खोज में रहता है, कि किम को फाड़ जाए। ९ विश्वास में दृढ़ होकर, और यह जानकर उसका साम्हना करो, कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही

* या प्रिसबुतिर।

* यू० धर।

† या प्रिसबुतिरों।

‡ यू० श्वलीस।

दुख भुगत रहे हैं। १० प्रभ परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिस ने तुम्हें मसीह में अपनी अनन्त महिमा के लिये बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद प्राय ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवन्त करेगा। ११ उसी का समराज्य युगानुयुग रहे। आमीन ॥

१२ मैं ने सिलवानस के हाथ, जिसे मैं विश्वासयोग्य भाई समझता हूँ, संक्षेप में

लिखकर तुम्हें समझाया है और यह गवाही दी है कि परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यही है, इसी में स्थिर रहो। १३ जो बाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। १४ प्रेम से चुम्बन ले लेकर एक दूसरे को नमस्कार करो ॥

तुम सब को जो मसीह में हो शान्ति मिलती रहे ॥

पतरस की दूसरी पत्री

१ शमोन पतरस की ओर से जो योशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता योशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। २ परमेश्वर के ओर हमारे प्रभु योशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शान्ति तुम में बहुतायत में बढ़ती जाए। ३ क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से सम्बन्ध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिस ने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। ४ जिन के द्वारा उस ने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएँ दी हैं : ताकि इन के द्वारा तुम उम मडाहट में छूटकर जो मंगार में बुरी अभिलाषाओं में होती है, ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाओ। ५ और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ। ६ और

समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति। ७ और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाने जाओ। ८ क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें, और बढ़ती जाएँ, तो तुम्हें हमारे प्रभु योशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। ९ और जिम में ये बाने नहीं, वह ग्रन्था है, और धुन्धला देवता है, और अपने पूर्वकाली पापों में धुलकर गूढ़ होने को भूल बैठे हैं। १० इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने, और चुन लिये जाने को मिट्ट करने का भली भाँति यत्न करने जाओ, क्योंकि यदि ऐंसा करोगे, तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ११ वरन् इस रीति में तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता योशु मसीह के अनन्त राज्य में बड़े प्रादर के साथ प्रवेश करने पाओगे ॥

१२ इसलिये यद्यपि तुम ये बाने जानते हो, और जो मत्स्य वचन तुम्हें मिला है,

उस में बने रहते हो, तभी मैं तुम्हें इन बातों की मुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा।

१३ घोर में यह अपने लिये उचित समझता है, कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें मुधि दिला दिलाकर उभारता रहूँ।

१४ क्योंकि यह जानता हूँ, कि मसीह के वचन के अनुसार मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आनेवाला है। १५ इस-लिये मैं ऐसा यत्न करूंगा, कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। १६ क्योंकि जब हम ने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य का, घोर प्रागमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं किया था बरन हम ने आप ही उसके प्रताप को देखा था। १७ कि उस ने परमेश्वर पिता से घादर, घोर महिमा पाई जब उस प्रतापमय महिमा में से यह बाणी आई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिस से मैं प्रसन्न हूँ। १८ घोर जब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे, तो स्वर्ग से यही बाणी आते सुना। १९ घोर हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है, वह इस घटना से दृढ़ ठहरा घोर तुम यह धृष्टता करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो, कि वह एक दीया है, जो अन्धियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पी न फटे, घोर भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में न चमक उठे।

२० पर पहिले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यदाणी किसी के अपने ही विचारचारा के आघार पर पूर्ण नहीं होती। २१ क्योंकि कोई भी भविष्यदाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा

उभारे जाकर परमेश्वर की घोर सं बोसते थे ॥

२ घोर जिस प्रकार उन लोगों में भूटे भविष्यद्वक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी भूटे उपदेशक होंगे, जो नाश करने-वाले पालण्ड का उदघाटन छिप छिपकर करेंगे घोर उस स्वामी का जिस ने उन्हें मोल लिया है इन्कार करेंगे घोर अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। २ घोर बहुतेरे उन की नाई नुचपन करेंगे, जिन के कारण सत्य के मार्ग की निन्दा की जाएगी।

३ घोर वे लोभ के लिये बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे, घोर जो दण्ड की आज्ञा उन पर पहिले से हो चुकी है, उसके घाने में कुछ भी डेर नहीं, घोर उन का विनाश ऊंचता नहीं। ४ क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने ने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अन्धेरे कुण्डों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बन्दी रहें। ५ घोर प्रथम युग के संसार को भी न छोड़ा, बरन भक्तिहीन संसार पर महा जल-प्रलय भेजकर धर्म के प्रचारक नूह समेत आठ व्यक्तियों को बचा लिया। ६ घोर सदोम घोर घमोराह के नगरों को विनाश का ऐसा दण्ड दिया, कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे घानेवाले भक्तिहीन लोगों की शिक्षा के लिये एक दृष्टान्त बनें। ७ घोर धर्मी सूत को जो अधर्मियों के प्रसुद्ध चाल-चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। ८ (क्योंकि वह धर्मी उन के बीच में रहते हुए, घोर उन के अधर्म के कामों को देख देखकर, घोर सुन सुनकर, हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था)। ९ तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना

और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दण्ड की दशा में रखना भी जानता है। १० निज करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं: वे डीठ, और हठी हैं, और ऊंचे पदवालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। ११ तोभी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उन से बड़े हैं, प्रभु के साम्हने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। १२ पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिये उत्पन्न हुए हैं; और जिन बातों को जानने ही नहीं, उन के विषय में प्रीतियों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। १३ औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा: उन्हें दिन दोपहर सुख-विलास करना भला लगता है; यह कलंक और दोष है: जब वे तुम्हारे साथ खाते-पीते हैं, तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग-विलास करते हैं। १४ उन की आंखों में व्यभिचारिणी बसी हुई है, और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते: वे चंचल मनवालों को फुसला लेते हैं; उन के मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे मन्ताप के मन्तान हैं। १५ वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं, और बपौर के पुत्र विलास के मार्ग पर हो लिए हैं; जिस ने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। १६ पर उसके अपराध के विषय में उलहना दिया गया, यहां तक कि अयोध गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। १७ ये लोग अन्धे कूए, और आन्धी के उड़ाए हुए बादल हैं, उन के लिये अनन्त अन्धकार ठहराया गया है। १८ वे व्यर्थ घमण्ड की बातें कर करके लुचपन के कामों

के द्वारा, उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुएों में से अभी निकल ही रहे हैं। १९ वे उन्हें स्वतंत्र होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस से हार गया है, वह उसका दाम बन जाता है। २० और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, और फिर उन में फंसकर हार गए, तो उन की पिछली दशा पहिली से भी बुरी हो गई है। २१ क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उन के लिये इस से भला होता, कि उसे जानकर, उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते, जो उन्हें सौपी गई थी। उन पर यह कहावत * ठीक बैठती है, २२ कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सूअरनी कीचड़ में लोटने के लिये फिर चली जाती है॥

३ हे प्रियो, अब मैं तुम्हें यह दूसरी पत्री लिखता हूं, और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूं। २ कि तुम उन बातों को, जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहिले से कही हैं और प्रभु, और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो, जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। ३ और यह पहिले जान लो, कि अन्तिम दिनों में हंसी ठट्टा करनेवाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ४ और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहां गई? क्योंकि जब से बाप-दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है, जैसा सृष्टि के आरम्भ से था? ५ वे तो जान बूझकर यह भूल गए, कि परमेश्वर के वचन

के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। ६ इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूब कर नाश हो गया। ७ पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिये रखे हैं, कि जलाए जाएं; और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे ॥

८ हे प्रियो, यह एक बात तुम से छिपी न रहे, कि प्रभु के यहां एक दिन हजार वर्ष के बराबर है, और हजार वर्ष एक दिन के बराबर हैं। ९ प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं; पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, और नहीं चाहता, कि कोई नाश हो; वरन यह कि सब को मन फिराव का प्रवसर मिले। १० परन्तु प्रभु का दिन चोर की नाईं आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा, और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे, और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। ११ तो जब कि ये सब वस्तुएं, इस रीति से पिघलनेवाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चालचलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। १२ और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिये कैसा

यत्न करना चाहिए; जिस के कारण आकाश भाग से पिघल जाएंगे, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। १३ पर उस की प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिन में धार्मिकता बास करेगी ॥

१४ इसलिये, हे प्रियो, जब कि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शान्ति से उसके साम्हने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। १५ और हमारे प्रभु के धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला, तुम्हें लिखा है। १६ वैसे ही उस ने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिन में कितनी बातें ऐसी हैं, जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उन के अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की नाईं खींच तानकर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। १७ इसलिये हे प्रियो तुम लोग पहिले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खो न दो। १८ पर हमारे प्रभु, और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। १९ उसी की महिमा अब भी हो, और युगानुयुग होती रहे। आमीन ॥

यूहन्ना की पहिली पत्री

१ उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हम ने सुना,

और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हम ने ध्यान से देखा; और हाथों से छूआ।

२ (यह जीवन प्रगट हुआ, और हम ने उसे देखा, और उस की गवाही देते हैं, और तुम्हें उम अनन्त जीवन का समाचार देते हैं, जो पिता के साथ था, और हम पर प्रगट हुआ)। ३ जो कुछ हम ने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिये कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो; और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। ४ और ये बातें हम इसलिये लिखते हैं, कि हमारा भ्रान्द पूरा हो जाए ॥

५ जो समाचार हम ने उस से सुना, और तुम्हें सुनाते हैं, वह यह है; कि परमेश्वर ज्योति है; और उस में कुछ भी अन्धकार नहीं। ६ यदि हम कहें, कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, और फिर अन्धकार में चलें, तो हम भूठे हैं; और सत्य पर नहीं चलते। ७ पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं; और उसके पुत्र यीशु का लोह हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ८ यदि हम कहें, कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं; और हम में सत्य नहीं। ९ यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। १० यदि कहें कि हम ने पाप नहीं किया, तो उसे भूठा ठहराते हैं, और उसका वचन हम में नहीं है ॥

२ हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि तुम पाप न करो; और यदि कोई पाप करे, तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, पर्याप्त धार्मिक यीशु मसीह। २ और वही हमारे

पापों का प्रायश्चित्त है; और केवल हमारे ही नहीं, बरन सारे जगत के पापों का भी। ३ यदि हम उस की आज्ञाओं को मानेंगे, तो हम से हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। ४ जो कोई यह कहता है, कि मैं उसे जान गया हूँ, और उस की आज्ञाओं की नहीं मानता, वह भूठा है; और उस में सत्य नहीं। ५ पर जो कोई उसके वचन पर चले, उस में सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है; हमें इसी से मालूम होता है, कि हम उस में हैं। ६ जो कोई यह कहता है, कि मैं उस में बना रहता हूँ, उसे चाहिए, कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था ॥

७ हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरम्भ से तुम्हें मिली है; यह पुरानी आज्ञा वह वचन है, जिसे तुम ने सुना है। ८ फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ; और यह तो उस में और तुम में सच्ची ठहरती है; क्योंकि अन्धकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। ९ जो कोई यह कहता है, कि मैं ज्योति में हूँ; और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अन्धकार ही में है। १० जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है, वह ज्योति में रहता है, और ठोकर नहीं खा सकता। ११ पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, वह अन्धकार में है, और अन्धकार में चलता है; और नहीं जानता, कि कहाँ जाता है, क्योंकि अन्धकार ने उस की आँखें अन्धी कर दी हैं ॥

१२ हे बालको, मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। १३ हे पितरो, मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि जो आदि से है, तुम उसे

जानते हो : हे जबानो, मैं तुम्हें इसलिये लिखता हूँ, कि तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है : हे लड़को, मैं ने तुम्हें इसलिये लिखा है, कि तुम पिता को जान गए हो। १४ हे पितरो, मैं ने तुम्हें इसलिये लिखा है, कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो : हे जबानो, मैं ने तुम्हें इसलिये लिखा है, कि तुम बलवन्त हो, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है, और तुम ने उस दुष्ट पर जय पाई है। १५ तुम न तो संसार से और न संसार में को वस्तुओं से प्रेम रखो : यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, तो उस में पिता का प्रेम नहीं है। १६ क्योंकि जो कुछ संसार में है, प्रपत्ति शरीर की अभिलाषा, और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमण्ड, वह पिता की ओर से नहीं, परन्तु संसार ही की ओर से है। १७ और संसार और उस की अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, वह मरदा बना रहेगा ॥

१८ हे लड़को, यह अन्तिम समय है, और जैसा तुम ने सुना है, कि मसीह का विरोधी आनेवाला है, उसके अनुसार सब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं; इस से हम जानते हैं, कि यह अन्तिम समय है। १९ वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं; क्योंकि यदि हम में के होते, तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिये गए कि यह प्रगट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। २० और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, और तुम सब कुछ* जानते हो। २१ मैं ने तुम्हें इसलिये नहीं लिखा, कि तुम सत्य को नहीं

* या तुम सब के सब जानते हो।

जानते, पर इसलिये, कि उसे जानते हो, और इसलिये कि कोई भूठ, सत्य की ओर से नहीं। २२ भूठ कौन है? केवल वह, जो यीशु के मसीह होने से इन्कार करता है; और मसीह का विरोधी वही है, जो पिता का और पुत्र का इन्कार करता है। २३ जो कोई पुत्र का इन्कार करता है उसके पास पिता भी नहीं : जो पुत्र को मान लेता है, उसके पास पिता भी है। २४ जो कुछ तुम ने आरम्भ से सुना है वही तुम में बना रहे : जो तुम ने आरम्भ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र में, और पिता में बने रहोगे। २५ और जिस की उस ने हम से प्रतिज्ञा की वह अनन्त जीवन है। २६ मैं ने ये बातें तुम्हें उन के विषय में लिखी हैं, जो तुम्हें भ्रमाते हैं। २७ और तुम्हारा वह अभिषेक, जो उस की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है; और तुम्हें इस का प्रयोजन नहीं, कि कोई तुम्हें सिखाए, बरन जैसे वह अभिषेक जो उस की ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है, और भूठ नहीं : और जैसा उस ने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उस में बने रहते हो। २८ निदान, हे बालको, उस में बने रहो; कि जब वह प्रगट हो, तो हमें हियाव हो, और हम उसके आने पर उसके साम्हने लज्जित न हों। २९ यदि तुम जानते हो, कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो, कि जो कोई धर्म का काम करता है, वह उस से जन्मा है ॥

३ देखो पिता ने हम से कौसा प्रेम किया है, कि हम परमेश्वर की सन्तान कहलाएं, और हम हैं भी : इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उस ने उसे

भी नहीं जाना। २ हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की सन्तान हैं, और अब तक यह प्रगट नहीं हुआ, कि हम क्या कुछ होंगे ! इतना जानते हैं, कि जब वह प्रगट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उस को वंसा ही देखेंगे जैसा वह है। ३ और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वह अपने आप को वंसा ही पवित्र करता है, जैसा वह पवित्र है। ४ जो कोई पाप करता है, वह व्यवस्था का विरोध करता है; और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। ५ और तुम जानते हो, कि वह इसलिये प्रगट हुआ, कि पापों को हर ले जाए; और उसके स्वभाव में पाप नहीं। ६ जो कोई उम में बना रहता है, वह पाप नहीं करता: जो कोई पाप करता है, उस ने न तो उसे देखा है, और न उस को जाना है। ७ हे बालको, किसी के भरमाने में न आना; जो धर्म के काम करता है, वही उस की नाई धर्मी है। ८ जो कोई पाप करता है, वह शैतान * की ओर से है, क्योंकि शैतान आरम्भ ही से पाप करता आया है: परमेश्वर का पुत्र इसलिये प्रगट हुआ, कि शैतान के कामों को नाश करे। ९ जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता; क्योंकि उसका बीज उस में बना रहता है: और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। १० इसी से परमेश्वर की सन्तान, और शैतान की सन्तान जाने जाते हैं; जो कोई धर्म के काम नहीं करता, वह परमेश्वर से नहीं, और न वह, जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। ११ क्योंकि जो समाचार तुम ने आरम्भ से सुना, वह यह है, कि हम एक

दूसरे से प्रेम रखें। १२ और कैन के समान न बनें, जो उस दुष्ट से था, और जिस ने अपने भाई को घात किया: और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे, और उसके भाई के काम धर्म के थे।

१३ हे भाइयो, यदि संसार तुम से बँर करता है तो अचम्भा न करना। १४ हम जानते हैं, कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं; क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं: जो प्रेम नहीं रखता, वह मृत्यु की दशा में रहता है। १५ जो कोई अपने भाई से बँर रखता है, वह हत्यारा है; और तुम जानते हो, कि किसी हत्यारे में अनन्त जीवन नहीं रहता। १६ हम ने प्रेम इसी से जाना, कि उस ने हमारे लिये अपने प्राण दे दिए; और हमें भी भाइयों के लिये प्राण देना चाहिए। १७ पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उस में परमेश्वर का प्रेम क्योंकि बना रह सकता है? १८ हे बालको, हम वचन और जीभ ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। १९ इसी से हम जानेंगे, कि हम सत्य के हैं; और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा, उसके विषय में हम उसके साम्हने अपने अपने मन को ढाढ़स दे सकेंगे। २० क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है; और सब कुछ जानता है। २१ हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष न दे, तो हमें परमेश्वर के साम्हने हियाव होता है। २२ और जो कुछ हम मांगते हैं, वह हमें उम से मिलता है; क्योंकि हम उस की आज्ञाओं को मानते हैं; और जो उसे माना है वही करते हैं। २३ और

* य० इब्लिस।

उस की आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उस ने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। २४ और जो उस की आज्ञाओं को मानता है, वह इस में; और यह उस में बना रहता है: और इसी से, अर्थात् उस आत्मा से जो उस ने हमें दिया है, हम जानते हैं, कि वह हम में बना रहता है ॥

४ हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो: बरन आत्माओं को परखो, कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं; क्योंकि बहुत से भूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। २ परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, कि जो कोई आत्मा मान लेती है, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है। ३ और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं; और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है; जिस की चर्चा तुम सुन चुके हो, कि वह आनेवाला है: और अब भी जगत में है। ४ हे बालको, तुम परमेश्वर के हो: और तुम ने उन पर जय पाई है; क्योंकि जो तुम में है, वह उस से जो संसार में है, बड़ा है। ५ वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं; और संसार उन की सुनता है। ६ हम परमेश्वर के हैं: जो परमेश्वर को जानता है, वह हमारी सुनता है; जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता; इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और अम की आत्मा को पहचान लेते हैं ॥

७ हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें; क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है: और जो

कोई प्रेम करता है, वह परमेश्वर से जन्मा है; और परमेश्वर को जानता है। ८ जो प्रेम नहीं रखता, वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। ९ जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, वह इस से प्रगट हुआ, कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है, कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। १० प्रेम इस में नहीं, कि हम ने परमेश्वर से प्रेम किया; पर इस में है, कि उस ने हम से प्रेम किया; और हमारे पापों के प्रायश्चित्त के लिये अपने पुत्र को भेजा। ११ हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हम से ऐसा प्रेम किया, तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। १२ परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा; यदि हम आपस में प्रेम रखें, तो परमेश्वर हम में बना रहता है; और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। १३ इसी से हम जानते हैं, कि हम उस में बने रहते हैं, और वह हम में; क्योंकि उस ने अपने आत्मा में से हमें दिया है। १४ और हम ने देख भी लिया और गवाही देते हैं, कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। १५ जो कोई यह मान लेता है, कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है; परमेश्वर उस में बना रहता है, और वह परमेश्वर में। १६ और जो प्रेम परमेश्वर हम से रखता है, उस को हम जान गए, और हमें उस की प्रतीति है; परमेश्वर प्रेम है: और जो प्रेम में बना रहता है, वह परमेश्वर में बना रहता है; और परमेश्वर उस में बना रहता है। १७ इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ, कि हमें न्याय के दिन हियाव हो; क्योंकि जैसा वह है, वैसे ही संसार में हम भी हैं। १८ प्रेम में भय नहीं होता, बरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि

भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है, वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। १६ हम इसलिये प्रेम करते हैं, कि पहिले उस ने हम से प्रेम किया। २० यदि कोई कहे, कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ; और अपने भाई से बैर रखे; तो वह भूठा है: क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उस ने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उस ने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। २१ और उस से हमें यह आज्ञा मिली है, कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, वह अपने भाई से भी प्रेम रखे ॥

५ जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जो कोई उत्पन्न करनेवाले से प्रेम रखता है, वह उस से भी प्रेम रखता है, जो उस से उत्पन्न हुआ है। २ जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, और उस की आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं, कि परमेश्वर की सन्तानों से प्रेम रखते हैं। ३ और परमेश्वर का प्रेम यह है, कि हम उस की आज्ञाओं को मानें; और उस की आज्ञाएं कठिन नहीं। ४ क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने उत्पन्न हुआ है, वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिस ने संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ५ संसार पर जय पानेवाला कौन है? केवल वह जिस का यह विश्वास है, कि यीशु, परमेश्वर का पुत्र है। ६ यही है वह, जो पानी और लोह के द्वारा प्राया था; अर्थात् यीशु मसीह: वह न केवल पानी के द्वारा, बरन पानी और लोह दोनों के द्वारा * प्राया था। ७ और जो गवाही देता है, वह आत्मा

है; क्योंकि आत्मा सत्य है। ८ और गवाही देनेवाले तीन हैं: आत्मा, और पानी, और लोह; और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। ९ जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, तो परमेश्वर की गवाही तो उस से बढ़कर है; और परमेश्वर की गवाही यह है, कि उस ने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। १० जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है, वह अपने ही में गवाही रखता है; जिस ने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, उस ने उसे भूठा ठहराया; क्योंकि उस ने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया, जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। ११ और वह गवाही यह है, कि परमेश्वर ने हमें अनन्त जीवन दिया है: और यह जीवन उसके पुत्र में है। १२ जिस के पास पुत्र है, उसके पास जीवन है; और जिस के पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं है ॥

१३ मैं ने तुम्हें, जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिये लिखा है; कि तुम जानो, कि अनन्त जीवन तुम्हारा है। १४ और हमें उसके साम्हने जो हिणव होता है, वह यह है; कि यदि हम उस की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, तो वह हमारी सुनता है। १५ और जब हम जानते हैं, कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं, कि जो कुछ हम ने उस से मांगा, वह पाया है। १६ यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे, जिस का फल मृत्यु न हो, तो बिनती करे, और परमेश्वर, उसे, उन के लिये, जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिस का फल मृत्यु न हो, जीवन देगा: पाप ऐसा भी होता है, जिस का फल मृत्यु है: इस के

विषय में मैं बिनती करने के लिये नहीं कहता। १७ सब प्रकार का अधम तो पाप है, परन्तु ऐसा पाप भी है, जिस का फल मृत्यु नहीं ॥

१८ हम जानते हैं, कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, वह पाप नहीं करता; पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, उसे वह बचाए रखता है: और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। १९ हम जानते हैं,

कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। २० और यह भी जानते हैं, कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उस ने हमें समझ दी है, कि हम उस सच्चे को पहचानें, और हम उस में जो सत्य है, अर्थात् उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं: सच्चा परमेश्वर और अनन्त जीवन यही है। २१ हे बालको, अपने आप को मूरतों से बचाए रखो ॥

यूहन्ना की दूसरी पत्री

१ मुझ प्राचीन * की ओर से उस चुनी हुई श्रीमती और उमके लड़केबालों के नाम जिन से मैं उस सच्चाई के कारण सत्य प्रेम रखता हूँ, जो हम में स्थिर रहती है, और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगी। २ और केवल मैं ही नहीं, बरन वह सब भी प्रेम रखते हैं, जो सच्चाई को जानते हैं ॥

३ परमेश्वर पिता, और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, और दया, और शान्ति, सत्य, और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे ॥

४ मैं बहुत आनन्दित हुआ, कि मैं ने तेरे कितने लड़के-बालों को उस आज्ञा के अनुसार, जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलने हुए पाया। ५ अब हे श्रीमती, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरम्भ से हमारे पास है, लिखता हूँ; और तुम्हें से बिनती करता हूँ, कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। ६ और प्रेम यह है,

कि हम उस की आज्ञाओं के अनुसार चलें: यह वही आज्ञा है, जो तुम ने आरम्भ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। ७ क्योंकि बहुत से ऐसे भ्रमाने-वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं मानते, कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया: भ्रमानेवाला और मसीह का विरोधी यही है। ८ अपने विषय में चौकस रहो; कि जो परिश्रम हम ने किया है, उस को तुम न बिगाड़ो: बरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। ९ जो कोई आगे बढ़ जाता है, और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं: जो कोई उस की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है, और पुत्र भी। १० यदि कोई तुम्हारे पास आए, और यही शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने दो, और न नमस्कार करो। ११ क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है, वह उस के बुरे कामों में साझी होता है ॥

* या प्रिसबुतिर।

१२ मुझे बहुत सी बातें तुम्हें लिखनी हैं, पर कागज और सियाही से लिखना नहीं चाहता; पर प्राशा है, कि मैं तुम्हारे पास झाङ्गा, और सम्मुख होकर बातचीत

करूंगा: जिस से तुम्हारा * भ्रान्त्य दूर हो। १३ तेरी बुनी हुई बहिन के लड़के-बाले तुम्हें नमस्कार करते हैं॥

* या हमारा।

यूहन्ना की तीसरी पत्री

१ मुझ प्राचीन * की ओर से उस प्रिय गयुस के नाम, जिस से मैं सच्चा † प्रेम रखता हूँ॥

२ हे प्रिय, मेरी यह प्रायंना है; कि जैसे तू आत्मिक उप्रति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उप्रति करे, और भला चंगा रहे। ३ क्योंकि जब भाइयों ने आकर, तेरे उस सत्य की गवाही दी, जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मैं बहुत ही भ्रान्तित हुआ। ४ मुझे इस से बढ़कर और कोई भ्रान्त्य नहीं, कि मैं सुनूँ, कि मेरे लड़के-बाले सत्य पर चलते हैं॥

५ हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है, जो परदेशी भी हैं, उसे विद्वत्ता की नाई करता है। ६ उन्होंने ने मण्डली के साम्हने तेरे प्रेम की गवाही दी थी: यदि तू उन्हें उस प्रकार विदा करेगा जिस प्रकार परमेश्वर के लोगों के लिये उचित है तो अच्छा करेगा। ७ क्योंकि वे उस नाम के लिये निकले हैं, और अन्य-जातियों से कुछ नहीं लेते। ८ इसलिये ऐसों का स्वागत करना चाहिए, जिस से

हम भी सत्य के पक्ष में उन के सहकमी हों॥

९ मैं ने मण्डली को कुछ लिखा था; पर दियुत्रिफेस जो उन में बड़ा बनना चाहता है, हमें प्रहण नहीं करता। १० सो जब मैं झाङ्गा, तो उसके कामों की जो बह कर रहा है मुधि दिलाऊंगा, कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है; और इस पर भी सन्तोष न करके आप ही भाइयों को प्रहण नहीं करता, और उन्हें जो प्रहण करना चाहते हैं, मना करता है: और मण्डली, से निकाल देता है। ११ हे प्रिय, बुराई के नहीं, पर भलाई के अनुयायी हो, जो भलाई करता है, वह परमेश्वर की ओर से है; पर जो बुराई करता है, उस ने परमेश्वर को नहीं देखा। १२ देमेत्रियुस के विषय में सब ने बरन सत्य ने भी आप ही गवाही दी: और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है, कि हमारी गवाही सच्चा है॥

१३ मुझे तुम्हें को बहुत कुछ लिखना तो था; पर सियाही और कलम से लिखना नहीं चाहता। १४ पर मुझे प्राशा है कि तुम्हें से शीघ्र भेंट करूंगा: तब हम साम्हने

* या प्रिसबुतिर।

† या सत्य में प्रेम।

साम्हने बातचीत करेंगे : तुम्हें शान्ति मिलती रहे। यहां के मित्र तुम्हें नमस्कार करते

हैं : वहां के मित्रों से नाम ले लेकर नमस्कार कह देना ॥

यहूदा की पत्री

१ यहूदा की घोर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुएों के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिये सुरक्षित हैं ॥

२ दया और शान्ति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे ॥

३ हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यन्त परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिस में हम सब सहभागी हैं; तो मैं ने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिये पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ४ क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिन के इस दण्ड का वरान पुराने समय में पहिले ही से लिखा गया था : ये भक्तिहीन हैं, और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इन्कार करते हैं ॥

५ पर यद्यपि तुम सब बात एक वार जान चुके हो, तीभी मैं तुम्हें इस बात की मुधि दिलाना चाहता हूं, कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लानेवालों को नाश

कर दिया। ६ फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा बरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उस ने उन को भी उस भीषण दिन के न्याय के लिये ग्रन्थकार में जो सदा काल के लिये है बन्धनों में रखा है। ७ जिस रीति से सदोम और अमोरा और उन के आस पास के नगर, जो इन की नाई व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे प्राग के अनन्त दण्ड में पड़कर दृष्टान्त ठहरे हैं। ८ उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते, और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं; और ऊंचे पदवालों को बुरा भला कहते हैं। ९ परन्तु प्रधान स्वर्गदूत मीकाईल ने, जब शैतान * से मूसा की लोथ के विषय में वाद-विवाद करता था, तो उस को बुरा भला कहके दोष लगाने का साहस न किया; पर यहू कहा, कि प्रभु तुम्हें डांटे। १० पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते, उन को बुरा भला कहते हैं; पर जिन बातों को अचेतन पशुओं की नाई स्वभाव ही से जानते हैं, उन में अपने प्राप को नाश करते हैं। ११ उन पर हाय!

कि वे कैन की सी चाल चले, और मजदूरी के लिये बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गए हैं: और कोरह की नाई विरोध करके नाश हुए हैं। १२ ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते-पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरोखे हैं, और बेधड़क अपना ही पेट भरनेवाले रखवाले हैं; वे निर्जल बादल हैं; जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है; पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं, जो दो बार मर चुके हैं; और जड़ से उखड़ गए हैं। १३ ये समुद्र के प्रचण्ड हिलकोरे हैं, जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं: ये डांवाडोल तारे हैं, जिन के लिये सदा काल तक घोर अन्धकार रखा गया है। १४ और हनोक ने भी जो आदम से सातवीं पीढ़ी में था, इन के विषय में यह भविष्यवाणी की, कि देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। १५ कि सब का न्याय करे, और सब भक्तिहीनों को उन के अभक्ति के सब कामों के विषय में, जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। १६ ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ानेवाले, और अपने अभिलाषाओं के अनुसार चलनेवाले हैं; और अपने मुंह से घमण्ड की बातें बोलते हैं; और वे लाभ के लिये मुंह देखी बढ़ाई किया करते हैं ॥

१७ पर हे प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो; जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहिले कह चुके हैं। १८ वे तुम से कहा करते थे, कि पिछले दिनों में ऐसे ठट्टा करनेवाले होंगे, जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। १९ ये तो वे हैं, जो फूट डालते हैं; ये शारीरिक लोग हैं, जिन में आत्मा नहीं। २० पर हे प्रियो, तुम अपने प्रति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। २१ अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो; और अनन्त जीवन के लिये हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। २२ और उन पर जो शंका में हैं दया करो। २३ और बहुतों को आग में से झपटकर निकालो, और बहुतों पर भय के साथ दया करो; बरन उस वस्त्र से भी घृणा करो जो शरीर के द्वारा कलंकित हो गया है ॥

२४ अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, और अपनी महिमा की भरपूरी के साम्हने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। २५ उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उदारकर्ता की महिमा, और गौरव, और पराक्रम, और अधिकार, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन ॥

यूहन्ना का प्रकाशितवाक्य

१ यीशु मसीह का प्रकाशितवाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिये दिया, कि अपने दासों को वे बातें, जिन का शोध होना अवश्य है, दिखाए: और उस ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। २ जिस ने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात् जो कुछ उस ने देखा था उस की गवाही दी। ३ धन्य है वह जो इस भविष्यद्वारी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है ॥

४ यूहन्ना की ओर से आसिया की सात कलीसियाओं के नाम: उस की ओर से जो है, और जो था, और जो आनेवाला है; और उन सात आत्माओं की ओर से, जो उसके सिंहासन के साम्हने हैं। ५ और यीशु मसीह की ओर से, जो विश्वात्मयोग्य साक्षी और मरे हुएों में से जो उठनेवालों में पहिलीठा, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शान्ति मिलती रहे: जो हम से प्रेम रखता है, और जिस ने अपने लोह के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ६ और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिये याज्ञक भी बना दिया; उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। ७ देखो, वह बादलों के साथ आनेवाला है: और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था, वे भी

उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हां। आमीन ॥

८ प्रभु परमेश्वर वह जो है, और जो था, और जो आनेवाला है; जो सर्वशक्तिमान है: यह कहता है, कि मैं ही अल्फा और ओमिगा हूं ॥

९ मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई, और यीशु के क्लेश, और राज्य, और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन, और यीशु की गवाही के कारण पतमुम नाम टापू में था। १० कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और अपने पीछे तुम्ही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। ११ कि जो कुछ तू देखता है, उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात् इफिमुम और स्मुरना, और पिरगमुन, और थ्यूमातीरा, और सरदीस, और फिलदिलफिया, और लोदीकिया में। १२ और मैं ने उसे* जो मुझ से बोल रहा था; देखने के लिये अपना मुंह फेरा; और पीछे घूमकर मैं ने सोने की सात दीवटें देखीं। १३ और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सरीखा एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहिने, और छाती पर सुनहला पटुका बान्धे हुए था। १४ उसके सिर और बाल श्वेत उन वरन पाले के से उज्ज्वल थे; और उस की आंखें आग की ज्वाला की नाई थीं। १५ और

* य० उस शब्द को।

उसके पांच उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाए गए हों; और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। १६ और वह अपने दहिने हाथ में सात तारे लिए हुए था: और उसके मुख से चौथी दोघारी तलवार निकलती थी; और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था, जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। १७ जब मैं ने उसे देखा, तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा और उस ने मुझ पर अपना दहिना हाथ रखकर यह कहा, कि मत डर; मैं प्रथम और अन्तिम और जीवता हूँ। १८ मैं मर गया था, और अब देख; मैं युगानुयुग जीवता हूँ; और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। १९ इसलिये जो बातें तू ने देखीं हैं और जो बातें हो रही हैं; और जो इस के बाद होनेवाली हैं, उन सब को लिख ले। २० अर्थात् उन सात तारों का भेद जिन्हें तू ने मेरे दहिने हाथ में देखा था, और उन सात सोने की दीवटों का भेद: वे सात तारे सातों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे सात दीवट सात कलीसियाएं हैं ॥

२ इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जो सातों तारे अपने दहिने हाथ में लिए हुए हैं, और सोने की सातों दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि। २ में तेरे काम, और परिश्रम, और तेरा धीरज जानता हूँ; और यह भी, कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता; और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, और हैं नहीं, उन्हें तू ने परख-कर भूठा पाया। ३ और तू धीरज

धरता है, और मेरे नाम के लिये दुख उठाते उठाते थका नहीं। ४ पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू ने अपना पहिला सा प्रेम छोड़ दिया है। ५ सो चेत कर, कि तू कहां से गिरा है, और मन फिरा और पहिले के समान काम कर; और यदि तू मन न फिराएगा, तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। ६ पर हां तुझ में यह बात तो है, कि तू नीकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिन से मैं भी घृणा करता हूँ। ७ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है: जो जय पाए, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है, फल खाने को दूंगा ॥

८ और स्मरना की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि, जो प्रथम और अन्तिम है; जो मर गया था और अब जीवित हो गया है, वह यह कहता है कि। ९ में तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ; (परन्तु तू धनी है); और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं, पर शैतान की सभा हैं, उन की निन्दा को भी जानता हूँ। १० जो दुख तुझ को भेलेने होंगे, उन से मत डर: क्योंकि देखो, शैतान * तुम में से कितनों को जेलखाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ; और तुम्हें दस दिन तक क्लेश उठाना होगा: प्राण देने तक विश्वासी रह; तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। ११ जिस के कान हों; वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं

से क्या कहता है: जो जय पाए, उस को दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी ॥

१२ और पिरगमून की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जिस के पास दोधारी और चोखी तलवार है, वह यह कहता है, कि। १३ मैं यह तो जानता हूँ, कि तू वहां रहता है जहां शैतान का सिंहासन है, और मेरे नाम पर स्थिर रहता है; और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिन में मेरा विश्वासयोग्य साक्षी अन्तिपास, तुम में उस स्थान पर घात किया गया जहां शैतान रहता है। १४ पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिस ने बालाक को इस्त्राएलियों के प्रागे ठोकर का कारण रखना सिखाया, कि वे मूरतों के बलिदान खाएं, और व्यभिचार करें। १५ वैसे ही तेरे यहां कितने तो ऐसे हैं, जो नीकुलइयों की शिक्षा को मानते हैं। १६ सो मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर, अपने मुख की तलवार से उन के साथ लड़ूंगा। १७ जिस के कान हों, वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है; जो जय पाए, उस को मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा; और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा, जिसे उसके पाने-वाले के सिवाय और कोई न जानेगा ॥

१८ और घुमातीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

परमेश्वर का पुत्र जिस की आंखें प्राग की ज्वाला की नाई, और जिस के

पांश उत्तम पीतल के समान है, यह कहता है, कि। १९ मैं तेरे कामों, और प्रेम, और विश्वास, और सेवा, और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहिलों से बढ़कर हैं। २० पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्विस्तन कहती है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने, और मूरतों के प्रागे के बलिदान खाने को सिखलाकर भरमाती है। २१ मैं ने उस को मन फिराने के लिये भवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। २२ देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ; और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। २३ और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा; और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखनेवाला मैं ही हूँ: और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। २४ पर तुम घुमातीरा के बाकी लोगों से, जितने इस शिक्षा को नहीं मानते, और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहिरा बातें कहते हैं नहीं जानते, यह कहता हूँ, कि मैं तुम पर और बोझ न डालूंगा। २५ पर हां, जो तुम्हारे पास है उस को मेरे प्रागे तक धामे रहो। २६ जो जय पाए, और मेरे कामों के अनुसार अन्त तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। २७ और वह लोहे का राजदण्ड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, जिस प्रकार कुम्हार के

मिट्टी के बरतन चकनाचूर हो जाते हैं: जैसे कि मैं ने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। २८ और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। २९ जिस के कान हों, वह मुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ॥

और सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जिस के पास परमेश्वर को सात आत्माएं और सात तारे हैं, यह कहता है, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कि तू जीवता तो कहलाता है, पर, है मरा हुआ। २ जागृत रह, और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं, और जो मिटने को थी, उन्हें दृढ़ कर; क्योंकि मैं ने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ३ सो चेत कर, कि तू ने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और मुनी थी, और उस में बना रह, और मन फिरा: और यदि तू जागृत न रहेगा, तो मैं चोर की नाईं आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा, कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ४ पर हां, सरदीस में तेरे यहां कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने ने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहिने हुए मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि वे इस योग्य हैं। ५ जो जय पाए, उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहिनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के साम्हने मान लूंगा। ६ जिस के कान हों, वह मुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ॥

७ और फिलेदिलफिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जो पवित्र और सत्य है, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिस के खोलें हुए को कोई बन्द नहीं कर सकता और बन्द किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, कि। ८ मैं तेरे कामों को जानता हूँ, (देख, मैं ने तेरे साम्हने एक द्वार खोल रखा है, जिसे कोई बन्द नहीं कर सकता) कि तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी है, और तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इन्कार नहीं किया। ९ देख, मैं शैतान के उन सभावालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं, पर हैं नहीं, बरन भूठ बोलते हैं—देख, मैं ऐसा करूंगा, कि वे आकर तेरे चरणों में दण्डवत करेंगे, और यह जान लेंगे, कि मैं ने तुझ से प्रेम रखा है। १० तू ने मेरे धीरज के वचन को पामा है, इसलिये मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहनेवालों के परखने के लिये सारे ससार पर आने-वाला है। ११ मैं शीघ्र ही आनेवाला हूँ; जो कुछ तेरे पास है, उसे धामे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। १२ जो जय पाए, उसे मैं अपने परमेश्वर के मन्दिर में एक खंभा बनाऊंगा; और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा; और मैं अपने परमेश्वर का नाम, और अपने परमेश्वर के नगर, अर्थात् नये यरूशलेम का नाम, जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरनेवाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। १३ जिस के कान हों, वह मुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है ॥

१४ और लौदीकिया की क्लीसिया के दूत को यह लिख, कि,

जो धामीन, और विश्वासयोग्य, और सच्चा गवाह है, और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। १५ कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म: भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। १६ सो इसलिये कि तू गुनगुना है, और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुह में से उगलने पर हूँ। १७ तू जो कहता है, कि मैं धनी हूँ, और धनवान हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता, कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अन्धा, और नङ्गा है। १८ इसी लिये मैं तुझे सम्मति देता हूँ, कि प्राग में ताया हुआ सोना मुझ से मोल ले, कि धनी हो जाए; और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहिनकर तुझे अपने नङ्गपन की लज्जा न हो; और अपनी आँखों में लगाने के लिये मुर्मा ले, कि तू देखने लगे। १९ मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ, उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिये सरगमं हो, और मन फिरा। २० देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ; यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा, और वह मेरे साथ। २१ जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊँगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। २२ जिस के कान हों वह सुन ले कि आत्मा क्लीसियाओं से क्या कहता है।

४ इन बातों के बाद जो मैं ने दृष्टि की, तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है; और जिस को मैं ने पहिले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, कि यहां ऊपर आ जा: और मैं वे बातें तुझे दिखाऊँगा, जिन का इन बातों के बाद पूरा होना प्रवश्य है। २ और तुरन्त मैं आत्मा में आ गया; और क्या देखता हूँ, कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। ३ और जो उस पर बैठा है, वह यशब और मानिक सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। ४ और उस सिंहासन के चारों ओर चौबीस सिंहासन हैं; और इन सिंहासनों पर चौबीस प्राचीन श्वेत वस्त्र पहिने हुए बैठे हैं, और उन के सिरों पर सोने के मुकुट हैं। ५ और उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं और सिंहासन के साम्हने प्राग के सात दीपक जल रहे हैं, ये परमेश्वर की सात आत्माएं हैं। ६ और उस सिंहासन के साम्हने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर चार प्राणी हैं, जिन के प्रागे पीछे प्राँखें ही प्राँखें हैं। ७ पहिला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है, तीसरे प्रणी का मुह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। ८ और चारों प्राणियों के छ: छ: पंख हैं, और चारों ओर, और भीतर प्राँखें ही प्राँखें हैं; और वे रात दिन बिना

विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, कि पवित्र, पवित्र, पवित्र प्रभु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, जो था, और जो है, और जो भानेवाला है। ६ और जब वे प्राणी उस की जो सिंहासन पर बैठा है, और जो युगानुयुग जीवता है, महिमा और भादर और धन्यवाद करेंगे। १० तब चौबीसों प्राचीन सिंहासन पर बैठनेवाले के साम्हने गिर पड़ेंगे, और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे; और अपने अपने मुकुट सिंहासन के साम्हने यह कहते हुए डाल देंगे। ११ कि हे हमारे प्रभु, और परमेश्वर, तू ही महिमा, और भादर, और सामर्थ्य के योग्य है; क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थीं, और सृजी गईं ॥

५ और जो सिंहासन पर बैठा था, मैं ने उसके दहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह सात मुहर लगाकर बन्द की गई थी। २ फिर मैं ने एक बलवन्त स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उस की मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? ३ और न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। ४ और मैं फूट फूटकर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने, या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई न मिला। ५ तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा, मत रो; देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह, जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक

को खोलने और उस की सातों मुहरें तोड़ने के लिये जयवन्त हुआ है। ६ और मैं ने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में, मानो एक बघ किया हुआ मेन्ना खड़ा देखा: उसके सात सींग और सात आंखें थीं; ये परमेश्वर की सातों आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ७ उस ने आकर उसके दहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था, वह पुस्तक ले ली। ८ और जब उस ने पुस्तक ले ली, तो वे चारों प्राणी और चौबीसों प्राचीन उस मेन्ने के साम्हने गिर पड़े; और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे, ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। ९ और वे यह नया गीत गाने लगे, कि तू इस पुस्तक के लेने, और उस की मुहरें खोलने के योग्य है; क्योंकि तू ने बघ होकर अपने लोह से हर एक कुल, और भाषा, और लोग, और जाति में से परमेश्वर के लिये लोगों को मोल लिया है। १० और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिये एक राज्य और याजक बनाया; और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ११ और जब मैं ने देखा, तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों की चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिन की गिनती लाखों और करोड़ों की थी। १२ और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, कि बघ किया हुआ मेन्ना ही सामर्थ्य, और धन, और ज्ञान, और शक्ति, और भादर, और महिमा, और धन्यवाद के योग्य है। १३ फिर मैं ने स्वर्ग में, और पृथ्वी पर, और पृथ्वी के नीचे, और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को, और सब कुछ

को जो उन में है, यह कहते सुना, कि जो सिंहासन पर बैठा है, उसका, और मेम्ने का धन्यवाद, और आदर, और महिमा, और राज्य, युगानुयुग रहे। १४ और चारों प्राणियों ने आमीन कहा, और प्राचीनों ने गिरकर दण्डवत् किया ॥

फिर मैं ने देखा, कि मेम्ने ने उन सात मुहरों में से एक को खोला : और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्ज का मा शब्द सुना, कि आ । २ और मैं ने दृष्टि की, और देखा, एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है : और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे ॥

३ और जब उस ने दूसरी मुहर खोली, तो मैं ने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, कि आ । ४ फिर एक और घोड़ा निकला, जो लाल रंग का था; उसके सवार को यह अधिकार दिया गया, कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को बध करें; और उसे एक बड़ी तलवार दी गई ॥

५ और जब उस ने तीसरी मुहर खोली, तो मैं ने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, कि आ : और मैं ने दृष्टि की, और देखा, एक काला घोड़ा है; और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। ६ और मैं ने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, कि दीनार * का सेर भर गेहूं, और दीनार का तीन सेर जब, और तेल, और दाख-रस की हानि न करना ॥

७ और जब उस ने चौथी मुहर

खोली, तो मैं ने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, कि आ । ८ और मैं ने दृष्टि की, और देखा, एक पीला सा घोड़ा है; और उसके सवार का नाम मृत्यु है : और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की एक चौपाई पर यह अधिकार दिया गया, कि तलवार, और अकाल, और मरी, और पृथ्वी के बनपशुओं के द्वारा लोगों को मार डालें ॥

९ और जब उस ने पांचवीं मुहर खोली, तो मैं ने वेदी के नीचे उन के प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, और उस गवाही के कारण जो उन्होंने ने दी थी, बध किए गए थे। १० और उन्होंने ने बड़े शब्द से पुकारकर कहा; हे स्वामी, हे पवित्र, और सन्य; तू कब तक न्याय न करेगा? और पृथ्वी के रहनेवालों में हमारे लोह का पलटा कब तक न लेगा? ११ और उन में से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उन में कहा गया, कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि नुम्हारे संगी दाम, और भाई, जो नुम्हारी नाई बध होनेवाले हैं, उन की भी गिनती पूरी न हो ले ॥

१२ और जब उस ने छठवीं मुहर खोली, तो मैं ने देखा, कि एक बड़ा भुइँडोल हुआ; और सूर्य कमल की नाई काला, और पूरा चन्द्रमा लोह का सा हो गया। १३ और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आन्धी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। १४ और आकाश ऐसा मरक गया, जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है; और हर एक पहाड़, और टापू, अपने अपने स्थान से टल गया।

* देखो मत्ती १८ : २८।

१५ और पृथ्वी के राजा, और प्रधान, और सरदार, और धनवान और सामर्थी लोग, और हर एक दास, और हर एक स्वतंत्र, पहाड़ों की खोहों में, और चटानों में जा छिपे। १६ और पहाड़ों, और चटानों से कहने लगे, कि हम पर गिर पड़ो; और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है, और मेम्ने के प्रकोप से छिपा लो। १७ क्योंकि उन के प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है ?

७ इसके बाद में ने पृथ्वी के चारों कोनों पर चार स्वर्गदूत खड़े देखे, वे पृथ्वी की चारों हवाओं को धामे हुए थे ताकि पृथ्वी, या समुद्र, या किसी पेड़ पर, हवा न चले। २ फिर में ने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरव से ऊपर की ओर आते देखा; उस ने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा। ३ जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचाना। ४ और जिन पर मुहर दी गई, में ने उन की गिनती सुनी, कि इस्त्राएल की सन्तानों के सब गोत्रों में से एक लाख चौआलीस हजार पर मुहर दी गई। ५ यहूदा के गोत्र में से बारह हजार पर मुहर दी गई; रुबेन के गोत्र में से बारह हजार पर; गाद के गोत्र में से बारह हजार पर। ६ आशेर के गोत्र में से बारह हजार पर; नफ्ताली के गोत्र में से बारह हजार पर; मनश्शह

के गोत्र में से बारह हजार पर। ७ शमीन के गोत्र में से बारह हजार पर; लेवी के गोत्र में से बारह हजार पर; इसाकार के गोत्र में से बारह हजार पर। ८ जबलून के गोत्र में से बारह हजार पर; यूमुफ के गोत्र में से बारह हजार पर और बिन्यामीन के गोत्र में से बारह हजार पर मुहर दी गई। ९ इस के बाद में ने दृष्टि की, और देखो, हर एक जाति, और कुल, और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़, जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहिने, और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के साम्हने और मेम्ने के साम्हने खड़ी है। १० और बड़े शब्द से पुकारकर कहती है, कि उद्धार के लिये हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है, और मेम्ने का जय-जय-कार हो। ११ और सारे स्वर्गदूत, उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं, फिर वे सिंहासन के साम्हने मुंह के बल गिर पड़े; और परमेश्वर को दण्डवत करके कहा, आमीन। १२ हमारे परमेश्वर की स्तुति, और महिमा, और ज्ञान, और धन्यवाद, और आदर, और सामर्थ्य, और शक्ति युगानुयुग बनी रहें। आमीन। १३ इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझ से कहा; ये श्वेत वस्त्र पहिने हुए कौन हैं? और कहाँ से आए हैं? १४ में ने उस से कहा; हे स्वामी, तू ही जानता है; उस ने मुझ से कहा; ये वे हैं, जो उस बड़े क्लेश में से निकलकर आए हैं; इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेम्ने के लीह में धोकर श्वेत किए हैं। १५ इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के साम्हने हैं,

धीर उसके मन्दिर * में दिन रात उस की सेवा करते हैं; धीर जो सिंहासन पर बैठा है, वह उन के ऊपर अपना तन्त्रु तानेगा। १६ वे फिर भूखे धीर प्यासे न होंगे; धीर न उन पर घृप, न कोई तपन पड़ेगी। १७ क्योंकि मेम्ना जो सिंहासन के बीच में है, उन की रखवाली करेगा; धीर उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, धीर परमेश्वर उन की भाँखों से सब घाँसू पोंछ डालेगा ॥

८ धीर जब उस ने सातवीं मुहर खोली, तो स्वर्ग में घ्राघ घड़ी तक सभाटा छा गया। २ धीर में ने उन सातों स्वर्गदूतों को जो परमेश्वर के साम्हने खड़े रहते हैं, देखा, धीर उन्हें सात तुरहियां दी गईं ॥

३ फिर एक धीर स्वर्गदूत सोने का घूपदान लिए हुए आया, धीर बेदी के निकट खड़ा हुआ; धीर उस को बहुत घूप दिया गया, कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सोनहली बेदी पर जो सिंहासन के साम्हने है चढ़ाए। ४ धीर उस घूप का घुघ्रां पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के साम्हने पहुंच गया। ५ धीर स्वर्गदूत ने घूपदान लेकर उस में बेदी की घ्राग भरी, धीर पृथ्वी पर डाल दी, धीर गर्जन धीर शब्द धीर बिजलियां धीर भूईंखोल होने लगा ॥

६ धीर वे सातों स्वर्गदूत जिन के पास सात तुरहियां थीं, फूंकने को तैयार हुए ॥

७ पहिले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, धीर लोहू से मिले हुए धोले धीर घ्राग उत्पन्न हुई, धीर पृथ्वी पर डाली गई;

धीर पृथ्वी की एक तिहाई जल गई, धीर पेड़ों की एक तिहाई जल गई; धीर सब हरी घ्रास भी जल गई ॥

८ धीर दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मानो घ्राग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया; धीर समुद्र का एक तिहाई लोहू हो गया।

९ धीर समुद्र की एक तिहाई सूजी हुई वस्तुएं जो सजीव थीं मर गईं, धीर एक तिहाई जहाज नाश हो गया ॥

१० धीर तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, धीर एक बड़ा तारा जो मघाल की नाईं जलता था, स्वर्ग से टूटा, धीर नदियों की एक तिहाई पर, धीर पानी के सोतों पर घ्रा पड़ा। ११ धीर उस तारे का नाम नागदीना कहलाता है, धीर एक तिहाई पानी नागदीना सा कड़वा हो गया, धीर बहुतेरे मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए ॥

१२ धीर चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, धीर सूर्य की एक तिहाई, धीर चान्द की एक तिहाई धीर तारों की एक तिहाई पर घ्रापति आई, यहां तक कि उन का एक तिहाई घ्रांग घन्धेरा हो गया धीर दिन की एक तिहाई में उजाला न रहा, धीर बैसे ही रात में भी ॥

१३ धीर जब मैं ने फिर देखा, तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते धीर ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, कि उन तीन स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिन का फूंकना घमी बाकी है, पृथ्वी के रहनेवालों पर हाय! हाय! हाय!

८ धीर बज पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैं ने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, धीर

उसे अथाह कुण्ड की कुंजी दी गई। २ और उस ने अथाह कुण्ड को खोला, और कुण्ड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुण्ड के धुएं से सूर्य और वायु अन्धकारी हो गई। ३ और उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकलीं, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। ४ और उन से कहा गया, कि न पृथ्वी की घास को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिन के माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। ५ और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर पांच महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया: और उन की पीड़ा ऐसी थी, जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। ६ उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को बूढ़ेंगे, और न पाएंगे; और मरने की लालसा करेंगे, और मृत्यु उन से भागेगी। ७ और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिये तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और उन के सिरों पर मानों सोने के मुकुट थे; और उन के मुंह मनुष्यों के से थे। ८ और उन के बाल स्त्रियों के से, और दांत सिंहों के से थे। ९ और वे लोहे की सी झिलम पहिने थे, और उत के पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई में दौड़ते हों। १० और उन की पूंछ विच्छुओं की सी थीं, और उन में डंक थे, और उन्हें पांच महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ्य थी; वह उन की पूंछों में थी। ११ अथाह कुण्ड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अब्रहोन, और यूनानी में अपुल्लयोन है ॥

१२ पहिली विपत्ति बीत चुकी, देखो, अब इस के बाद दो विपत्तियां और होनेवाली हैं ॥

१३ और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूँकी तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के साम्हने है उसके सींगों में से मैं ने ऐसा शब्द सुना। १४ मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिस के पास तुरही थी, कह रहा है कि उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बन्धे हुए हैं, खोल दे। १५ और वे चारों दूत खोल दिए गए जो उन घड़ी, और दिन, और महीने, और वर्ष के लिये मनुष्यों की एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। १६ और फौजों के सवारों की गिनती बीस करोड़ थी; मैं ने उन की गिनती सुनी। १७ और मुझे इस दर्शन में घोड़े और उन के ऐसे सवार दिखाई दिए, जिन की झिलम में आग, और धूम्रकान्त, और गन्धक की सी थीं, और उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिरों के से थे: और उन के मुंह से आग, और धुआं, और गन्धक निकलती थी। १८ इन तीनों मरियों; अर्थात् आग, और धुएं, और गन्धक से जो उसके मुंह से निकलती थीं, मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई। १९ क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ्य उन के मुंह, और उन की पूंछों में थी; इसलिये कि उन की पूंछे सांपों की सी थीं, और उन पूंछों के सिर भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। २० और बाकी मनुष्यों ने जो उन मरियों से न मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन न फिराया, कि दुष्टात्माओं की, और सोने और चान्दी, और पीतल, और पत्थर, और काठ की मूर्तों की पूजा न

करें, जो न देख, न सुन, न चल सकती हैं। १२ और जो खून, और टोना, और व्यभिचार, और चोरियां, उन्हीं ने की थीं, उन से मन न फिराया ॥

१० फिर मैं ने एक और बली स्वर्गदूत को वादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, उसके सिर पर मेघधनुष था : और उसका मुंह सूर्य का सा और उसके पांव भ्राग के खंभे के से थे। २ और उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी; उस ने अपना दहिना पांव समुद्र पर, और बायां पृथ्वी पर रखा। ३ और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया, जैसा सिंह गरजता है; और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के सात शब्द सुनाई दिए। ४ और जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पर था, और मैं ने स्वर्ग से यह शब्द सुना, कि जो बातें गर्जन के उन सात शब्दों से मुनी हैं, उन्हें गुप्त रख*, और मत लिख। ५ और जिस स्वर्गदूत को मैं ने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था; उस ने अपना दहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया। ६ और जो युगानुयुग जीवता रहेगा, और जिस ने स्वर्ग को और जो कुछ उस में है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उस में है सृजा उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी †। ७ बरन सातवें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरही फूंकने पर होगा, तो परमेश्वर का गुप्त मनोरथ ‡ उस सुसमाचार के अनुसार

जो उस ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। ८ और जिस शब्द करनेवाले को मैं ने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा; कि जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। ९ और मैं ने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे; और उस ने मुझ से कहा ले इसे खा जा, और यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। १० तो मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया, तो मेरा पेट कड़वा हो गया। ११ तब मुझ से यह कहा गया, कि तुझे बहुत से लोगों, और जातियों, और भाषाओं, और राजाओं पर, फिर भविष्यद्वाणी करनी होगी ॥

११ और मुझे लगी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा; उठ, परमेश्वर के मन्दिर और वेदी, और उस में भजन करनेवालों को नाप ले। २ और मन्दिर के बाहर का प्रांगण छोड़ दे; उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्यजातियों को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को बयातीस महीने तक रोंदेंगी। ३ और मैं अपने दो गवाहों को यह अधिकार दूंगा, कि टाट ओढ़े हुए एक हजार दो सौ साठ दिन तक भविष्यद्वाणी करें। ४ ये वे ही जैतून के दो पेड़ और दो दीबट हैं, जो पृथ्वी के प्रभु के साम्हने खड़े रहते हैं। ५ और यदि कोई उन को हानि पहुंचाना चाहता है, तो उन के मुंह से

* यू० उन पर छाप दे।

† या समय न होगा।

‡ यू० भेद।

भाग निकलकर उन के बैरियों को मरम् करती है, और यदि कोई उन को हानि पहुंचाना चाहेगा, तो भ्रवय इसी रीति से मार डाला जाएगा। ६ इन्हें अधिकार है, कि आकाश को बन्द करें, कि उन की भविष्यद्वाणी के दिनों में मेंह न बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है, कि उसे लोढ़ बनाएं, और जब जब चाहें सब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की आपत्ति लाएं। ७ और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो बह पशु जो प्रपाह कुण्ड में से निकलेगा, उन से लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ८ और उन की लोचें उस बड़े नगर के चौक में पड़ी रहेंगी, जो आत्मिक रीति से सयोज और मिसर कहलाता है, जहां उन का प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। ९ और सब लोगों, और कुलों, और भाषाओं, और जातियों में से लोग उन की लोचें साढ़े तीन दिन तक देखते रहेंगे, और उन की लोचें कब में रखने न देंगे। १० और पृथ्वी के रहनेवाले, उन के मरने से धानन्दित और भगन होंगे, और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वाक्ताओं ने पृथ्वी के रहनेवालों को सताया था। ११ और साढ़े तीन दिन के बाद परमेश्वर की धोर से जीवन की आत्मा उन में पैठ गई; और वे अपने पावों के बल खड़े हो गए, और उन के देखनेवालों पर बड़ा भय छा गया। १२ और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा लब्ध सुनाई दिया, कि यहां ऊपर जाओ; वह सुन वे वादस पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। १३ फिर जती चढ़ी एक बड़ा भुइबोल हुआ, और नगर का

दसवां छंश गिर पड़ा; और उस भुइ-बोल से सात हजार मनुष्य मर गए और शेष डर गए, और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की ॥

१४ दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो, तीसरी विपत्ति शीघ्र आनेवाली है ॥

१५ और जब सातवें दूत ने तुरही फूँकी, तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे कि जगत का राज्य हमारे प्रभु का, और उसके मसीह का हो गया। १६ और बह युगानुयुग राज्य करेगा, और चौबीसों प्राचीन जो परमेश्वर के साम्हने अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दरखवत करके। १७ वह कहने लगे, कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, जो है, और जो था, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, कि तू ने अपनी बड़ी सामर्थ्य काम में लाकर राज्य किया है। १८ और धन्य-जातियों ने क्रोध किया, और तेरा प्रकोप घा पड़ा, और वह समय घा पहुंचा है, कि मरे हुषों का न्याय किया जाए, और तेरे दास भविष्यद्वाक्ताओं और पवित्र लोगों को और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं, बदला दिया जाए, और पृथ्वी के बिगाड़नेवाले नाश किए जाएं ॥

१९ और परमेश्वर का जो मन्दिर स्वर्ग में है, वह लोला गया, और उसके मन्दिर में उस की बाबा का शब्दक विलाई दिया. और विजलियां और शब्द और गर्जन और भुइबोल हुए, और बड़े धोल पड़े ॥

१२ फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह विलाई दिया, अर्थात् एक स्त्री जो सूर्य छोड़े हुए थी, और चान्द उसके

पांवों तले था, और उसके सिर पर बारह तारों का मुकुट था। २ और वह गर्भवती हुई, और चिल्लाती थी; क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी; और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। ३ और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो; एक बड़ा लाल अजगर था जिस के सात सिर और दस सींग थे, और उसके सिरों पर सात राजमुकुट थे। ४ और उस की पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिहाई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री के साम्हने जो जच्चा थी, खड़ा हुआ, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। ५ और वह बेटा जनी जो लोहे का दण्ड लिए हुए, सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उनका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास, और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ६ और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई, जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिये एक जगह तैयार की गई थी, कि वहां वह एक हजार दो सौ साठ दिन तक पाली जाए ॥

७ फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मीकाईल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उस से लड़े। ८ परन्तु प्रबल न हुए, और स्वर्ग में उन के लिये फिर जगह न रही। ९ और वह बड़ा अजगर अर्थात् वही पुराना सांप, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमानेवाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया; और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। १० फिर मैं ने

स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, और सामयं, और राज्य, और उसके मसीह का अधिकार प्रगट हुआ है; क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने-वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के साम्हने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। ११ और वे मेम्ने के लोह के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण, उस पर जयवन्त हुए, और उन्होंने ने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। १२ इस कारण, हे स्वर्गों, और उन में के रहनेवालो मगन हो; हे पृथ्वी, और समुद्र, तुम पर हाय! क्योंकि शैतान* बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है; क्योंकि जानता है, कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है ॥

१३ और जब अजगर ने देखा, कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया हूं, तो उस स्त्री को जो बेटा जनी थी, सताया। १४ और उस स्त्री को बड़े उकाव के दो पंख दिए गए, कि सांप के साम्हने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए, जहां वह एक समय, और समयों, और आधे समय तक पाली जाए। १५ और सांप ने उस स्त्री के पीछे अपने मुंह से नदी की नाई पानी बहाया, कि उसे इस नदी से बहा दे। १६ परन्तु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की, और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी, पी लिया। १७ और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ, और उसकी शेष सन्तान से जो परमेश्वर

की आज्ञाओं को मानने, और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया। और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ ॥

१३ और मैं ने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिस के दस सींग और सात सिर थे; और उसके सींगों पर दस राजमुकुट, और उसके सिरों पर निन्दा के नाम लिखे हुए थे। २ और जो पशु मैं ने देखा, वह चींते की नाई था; और उसके पांच भालू के से, और मुंह सिंह का सा था; और उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य, और अपना सिंहासन, और बड़ा अधिकार, उसे दे दिया। ३ और मैं ने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी धाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है; फिर उसका प्राणघातक धाव अच्छा हो गया, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। ४ और उन्होंने ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उस ने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, कि इस पशु के समान कौन है? ५ कौन उस से लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने और निन्दा करने के लिये उसे एक मुंह दिया गया, और उसे बयालीस महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। ६ और उस ने परमेश्वर की निन्दा करने के लिये मुंह खोला, कि उसके नाम और उसके नाम्नु अर्थान् स्वर्ग के रहनेवालों की निन्दा करे। ७ और उसे यह अधिकार दिया गया, कि पवित्र लोगों से लड़े, और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल, और लोग, और

भाषा, और जाति पर अधिकार दिया गया। ८ और पृथ्वी के वे सब रहनेवाले जिन के नाम उस मेम्ने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ९ जिस के कान हों वह मुने। १० जिस को कंद में पड़ना है, वह कंद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा, अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा, पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है ॥

११ फिर मैं ने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेम्ने के से दो सींग थे; और वह अजगर की नाई बोलता था। १२ और यह उस पहिले पशु का सारा अधिकार उसके साम्हने काम में लाता था, और पृथ्वी और उगके रहनेवालों से उस पहिले पशु की जिस का प्राणघातक धाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था। १३ और वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाना था, यहां तक कि मनुष्यों के साम्हने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। १४ और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के साम्हने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था; वह पृथ्वी के रहनेवालों को इस प्रकार भरमाता था, कि पृथ्वी के रहनेवालों से कहता था, कि जिस पशु के तलवार लगी थी, वह जी गया है, उस की मूरत बनाओ। १५ और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, कि पशु की मूरत बोलने लगे; और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा न करें, उन्हें मरवा डाले। १६ और उस ने छोटे, बड़े, धनी, कंगाल, स्वतंत्र, दास सब के दहिने हाथ

या उन के माथे पर एक एक छाप करा दी। १७ कि उस को छोड़ जिस पर छाप अर्थात् उस पशु का नाम, या उसके नाम का अंक हो, और कोई लेन देन न कर सके। १८ ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो, वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है, और उसका अंक छः सौ छियासठ है ॥

१४ फिर मैं ने दृष्टि की, और देखो, वह मन्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है, और उसके साथ एक लाख चौआलीस हजार जन-हैं, जिन के माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। २ और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था, और जो शब्द मैं ने सुना; वह ऐसा था, मानो वीणा बजानेवाले वीणा बजाते हों। ३ और वे सिंहासन के साम्हने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के साम्हने मानो, एक नया गीत गा रहे थे, और उन एक लाख चौआलीस हजार जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। ४ ये वे हैं, जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए, पर कुंवारे हैं: ये वे ही हैं, कि जहां कहीं मन्ना जाता है, वे उसके पीछे हो लेंते हैं: ये तो परमेश्वर के निमित्त पहिले फल होने के लिये मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं। ५ और उन के मुंह से कभी भूठ न निकला था, वे निर्दोष हैं ॥

६ फिर मैं ने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा,

जिस के पास पृथ्वी पर के रहनेवालों की हर एक जाति, और कुल, और भाषा, और लोगों को सुनाने के लिये सनातन मुसमाचार था। ७ और उस ने बड़े शब्द से कहा; परमेश्वर से डरो; और उस को महिमा करो; क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो, जिस ने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए ॥

८ फिर इस के बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, कि गिर पड़ा, वह बड़ा बाबुल गिर पड़ा जिस ने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है ॥

९ फिर इन के बाद एक और स्वर्गदूत बड़े शब्द से यह कहता हुआ आया, कि जो कोई उस पशु और उस की मूरत की पूजा करे, और अपने माथे या अपने हाथ पर उस की छाप ले। १० तो वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है, पीएगा और पवित्र स्वर्गदूतों के साम्हने, और मन्ने के साम्हने आग और गन्धक की पीड़ा में पड़ेगा। ११ और उन की पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उस की मूरत की पूजा करते हैं, और जो उसके नाम की छाप लेंते हैं, उन को रात दिन चैन न मिलेगा। १२ पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, और यीशु पर विश्वास रखते हैं ॥

१३ और मैं ने स्वर्ग से यह शब्द सुना, कि लिख; जो मरते प्रभु में मरते हैं, वे अब से धन्य हैं, आत्मा कहता है, हां क्योंकि वे अपने परिश्रमों से विश्राम

पाएंगे, और उन के कार्य्य उन के साथ हो लेते हैं ॥

१४ और मैं ने दृष्टि की, और देखो, एक उजला बादल है, और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिस के सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौथा हनुम्रा है। १५ फिर एक और स्वर्गदूत ने मन्दिर में से निकलकर, उस से जो बादल पर बैठा था, बड़े शब्द से पुकारकर कहा, कि अपना हनुम्रा लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवने का समय आ पहुंचा है, इसलिये कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। १६ सो जो बादल पर बैठा था, उस ने पृथ्वी पर अपना हनुम्रा लगाया, और पृथ्वी की लवनी को गई ॥

१७ फिर एक और स्वर्गदूत उस मन्दिर* में से निकला, जो स्वर्ग में है, और उसके पास भी चौथा हनुम्रा था। १८ फिर एक और स्वर्गदूत जिसे आंग पर अधिकार था, वेदी में से निकला, और जिस के पास चौथा हनुम्रा था, उस में ऊंचे शब्द से कहा, अपना चौथा हनुम्रा लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले; क्योंकि उस की दाख पक चुकी है। १९ और उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हनुम्रा डाला, और पृथ्वी की दाख लता का फल काटकर, अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रस के कुण्ड में डाल दिया। २० और नगर के बाहर उस रस के कुण्ड में दाख रोदे गए, और रस के कुण्ड में से इतना लोह निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा, और सो काम तक बह गया ॥

* २० पवित्रस्थान।

१५

फिर मैं ने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात् मात स्वर्गदूत, जिन के पास सातों पिछली विपत्तियां थीं, क्योंकि उन के हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अन्त है ॥

२ और मैं ने आंग से मिले हुए कांच का सा एक गमूदा देखा, और जो उस पशु पर, और उस की मूरत पर, और उसके नाम के अक्षर पर जयवन्त हुए थे, उन्हें उस कांच के अमूद के निकट परमेश्वर की बीगाओं को लिए हुए खड़े देखा। ३ और वे परमेश्वर के दाम मूसा का गीत, और नेप्ते का गीत गा गाकर कहते थे कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य्य बड़े, और अद्भुत हैं, हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और मन्वी है। ४ हे प्रभु, कौन तुझ से न डरेगा? और तेरे नाम की महिमा न करेगा? क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, और मारी जानिया आकर तेरे साम्हने दण्डवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रगट हो गए हैं ॥

५ और उस के बाद मैं ने देखा, कि स्वर्ग में माशी के तम्बू का मन्दिर खोला गया। ६ और वे मानों स्वर्गदूत जिन के पास मानों विपत्तियां थीं, शूद्र और चमकती हुई मणि पहिने हुए, छाती पर मुनहले पटुके बांधे हुए मन्दिर से निकले। ७ और उन चारों प्राणियों में से एक ने उन मान स्वर्गदूतों की परमेश्वर के, जो युगानुयुग जीवता है, प्रकोप से भरे हुए मान माने के कटोरे दिए। ८ और परमेश्वर की महिमा, और उस की मामर्थ के कारण मन्दिर धूम में भर गया और जब तक उन मानों स्वर्गदूतों की

सातों विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मन्दिर में न जा सका ॥

१६ फिर मैं ने मन्दिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन सातों स्वर्गदूतों से यह कहने मुना कि जाधों, परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को पृथ्वी पर उडेल दो ॥

२ सो पहिले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उडेल दिया। और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी, और जो उस की मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला ॥

३ और दूसरे ने अपना कटोरा समुद्र पर उडेल दिया और वह मरे हुए का मा लोह बन गया, और समुद्र में का हर एक जीवधारी मर गया ॥

४ और तीसरे ने अपना कटोरा नदियों, और पानी के सोतों पर उडेल दिया, और वे लोह बन गए। ५ और मैं ने पानी के स्वर्गदूत को यह कहने मुना, कि हे पवित्र, जो है, और जो था, तू न्यायी है और तू ने यह न्याय किया। ६ क्योंकि उन्हो ने पवित्र लोगों, और भविष्यद्वक्ताओं का लोह बहाया था, और तू ने उन्हें लोह पिलाया; क्योंकि वे इसी योग्य हैं। ७ फिर मैं ने वेदों से यह शब्द मुना, कि हां हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं ॥

८ और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उडेल दिया, और उसे मनुष्यों को धाग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। ९ और मनुष्य बड़ी तपन से कुलस गए, और परमेश्वर के नाम की

जिस इन विपत्तियों पर अधिकार है, निन्दा की और उम की महिमा करने के लिये मन न फिराया ॥

१० और पाचवें ने अपना कटोरा उम पशु के सिंहासन पर उडेल दिया और उमके राज्य पर अन्धेरा छा गया; और लोग पीड़ा के भारे अपनी अपनी जीभ चवाने लगे। ११ और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निन्दा की; और अपने अपने कामों से मन न फिराया ॥

१२ और छठवें ने अपना कटोरा बड़ी नदी फुरात पर उडेल दिया और उमका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिये मार्ग तैयार हो जाए। १३ और मैं ने उस अजगर के मुंह से, और उम पशु के मुंह से और उम भूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से तीन अशुद्ध आत्माओं को मोंढकों के रूप में निकलते देखा। १४ ये चिन्ह दिखानेवाली दुष्टात्मा हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिये जाती हैं, कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उम बड़े दिन की लड़ाई के लिये इकट्ठा करें। १५ देख, मैं चोर की नाई धाता हूँ; धन्य वह है, जो जागता रहता है, और अपने वस्त्र की चौकसी करता है, कि नङ्गा न फिरे, और लोग उमका नङ्गापन न देखें। १६ और उन्होंने ने उन को उम जगह इकट्ठा किया, जो इब्रानी में हर-मगिदोन कहलाता है ॥

१७ और सातवें ने अपना कटोरा हवा पर उडेल दिया, और मन्दिर* के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, कि 'हो चुका'। १८ फिर विजलियां, और

शब्द, श्रीर गर्जन हुए, श्रीर एक ऐसा बड़ा भुइंडोल हुआ, कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई, तब से ऐसा बड़ा भुइंडोल कभी न हुआ था। १६ श्रीर उस बड़े नगर के तीन टुकड़े हो गए, श्रीर जाति जाति के नगर गिर पड़े, श्रीर बड़ा बाबुल का स्मरण परमेश्वर के यहां हुआ, कि वह अपने क्रोध को जल-जलाहट की मदिरा उसे पिलाए। २० श्रीर हर एक टापू अपनी जगह से टल गया, श्रीर पहाड़ों का पता न लगा। २१ श्रीर आकाश से मनुष्यों पर मन मन भर के बड़े झोले गिरे, श्रीर इसलिये कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने झोलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निन्दा की ॥

१७ श्रीर जिन सात स्वर्गदूतों के पास वे सात कटोरे थे, उन में से एक ने आकर मुझ से यह कहा कि इधर आ, मैं तुम्हें उस बड़ी वेश्या का दण्ड दिखाऊँ, जो बहुत से पानियों पर बंठी है। २ जिस के साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया, श्रीर पृथ्वी के रहनेवाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। ३ तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया, श्रीर मैं ने किरमिजी रंग के पशु पर जो निन्दा के नामा से छिपा हुआ था श्रीर जिस के सात सिर श्रीर दस सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। ४ यह स्त्री, बेजनी, श्रीर किरमिजी, कपड़े पहिने थी, श्रीर सोने श्रीर बहुमोल मणियों श्रीर मोतियों से सजी हुई थी, श्रीर उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से श्रीर उसके व्यभिचार

की प्रशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। ५ श्रीर उसके माथे पर यह नाम लिखा था, "भेद बड़ा बाबुल पृथ्वी की वेश्याओं श्रीर घृणित वस्तुओं की माता।" ६ श्रीर मैं ने उस स्त्री को पवित्र लोगों के लोह श्रीर योशु के गधादों के लोह पीने से मतवाली देखा श्रीर उमे देखकर मैं चकित हो गया। ७ उस स्वर्गदूत ने मुझ से कहा, तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री, श्रीर उस पशु का, जिस पर वह सवार है, श्रीर जिस के सात सिर श्रीर दस सींग हैं, तुम्हें भेद बताया है। ८ जो पशु तू ने देखा है, यह पहिले तो था, पर अब नहीं है, श्रीर प्रयाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, श्रीर पृथ्वी के रहनेवाले जिन के नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की यह दशा देखकर, कि पहिले था, श्रीर अब नहीं, श्रीर फिर आ जाएगा, अब भा करेंगे। ९ उस बुद्धि के लिये जिस में जान है यही अबसर है, वे सातों सिर सात पहाड़ हैं, जिन पर वह स्त्री बंठी है। १० श्रीर वे सात राजा भी हैं, पांच तो हो चुके हैं, श्रीर एक अभी है; श्रीर एक अब तक आया नहीं, श्रीर जब आएगा, तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ११ श्रीर जो पशु पहिले था, श्रीर अब नहीं, वह आप आठवा है; श्रीर उन सातों में से उत्तम हुआ, श्रीर विनाश में पड़ेगा। १२ श्रीर जो दस सींग तू ने देखे वे दस राजा हैं; जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया; पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिये राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। १३ ये सब एक मन होंगे, श्रीर वे अपनी

अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। १४ ये मेम्ने से लड़ेंगे, और मेम्ना उन पर जय पाएगा; क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु, और राजाओं का राजा है; और जो बुलाए हुए, और चुने हुए, और विश्वासी उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। १५ फिर उस ने मुझ से कहा, कि जो पानी तू ने देखे, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग, और भीड़ और जातियां, और भाषा हैं। १६ और जो दस सींग तू ने देखे, वे और पशु उस वेश्या से बँद रखेंगे, और उसे लाचार और नज़्दी कर देंगे; और उसका मांस खा जाएंगे, और उसे प्राग में जला देंगे। १७ क्योंकि परमेश्वर उन के मन में यह डालेगा, कि वे उस की मनसा पूरी करें; और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें, तब तक एक मन होकर अपना अपना राज्य पशु को दे दें। १८ और वह स्त्री, जिसे तू ने देखा है वह बड़ा नगर है, जो पृथ्वी के राजाओं पर राज्य करता है ॥

१८ इस के बाद मैं ने एक स्वर्ग-दूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिस का बड़ा अधिकार था; और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गई। २ उस ने ऊँचे शब्द से पुकारकर कहा, कि गिर गया बड़ा बाबुल गिर गया है; और दुष्टात्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ३ क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है; और पृथ्वी के

व्योपारी उसके सुख-विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए हैं ॥

४ फिर मैं ने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना, कि हे मेरे लोगो, उस में से निकल आओ; कि तुम उसके पापों में भागी न हो, और उस की विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। ५ क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुँच गए हैं, और उसके अधम परमेश्वर को स्मरण आए हैं। ६ जैसा उस ने तुम्हें दिया है, वैसा ही उस को भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे दोगुणा बदला दो, जिस कटोरे में उस ने भर दिया था उसी में उसके लिये दोगुणा भर दो। ७ जितनी उस ने अपनी बड़ाई की और सुख-विलास किया; उतनी उस को पीड़ा, और शोक दो; क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं; और शोक में कभी न पड़ूँगी। ८ इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी, अर्थात् मृत्यु, और शोक, और अकाल; और वह प्राग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्यायी प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। ९ और पृथ्वी के राजा जिन्होंने ने उसके साथ व्यभिचार, और सुख-विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे, तो उसके लिये रोएंगे, और छाती पीटेंगे। १० और उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर, बाबुल! हे दृढ़ नगर, हाय! हाय! घड़ी ही भर में तुम्हें दहड़ मिल गया है। ११ और पृथ्वी के व्योपारी उसके लिये रोएंगे और कल्पेंगे क्योंकि अब कोई उन का माल मोल न लेगा। १२ अर्थात् सोना, चान्दी,

रत्न, मोती, और मलमल, और बैजनी, और रेशमी, और किरमिजी कपड़े, और हर प्रकार का सुगन्धित काठ, और हाथीदांत की हर प्रकार की वस्तुएं, और बहुमोल काठ, और पीतल, और सोहे, और संगमरमर के सब भांति के पात्र। १३ और दारचीनी, मसाले, धूप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मंदा, गेहूँ, गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, घोड़े, रथ, और दास, और मनुष्यों के प्राण। १४ अब तेरे मन भावने फल तेरे पास से जाते रहे; और स्वादिष्ट और भङ्कीली वस्तुएं तुझ से दूर हुई हैं, और वे फिर कदापि न मिलेंगी। १५ इन वस्तुओं के व्योपारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे, और रोते और कलपते हुए कहेंगे। १६ हाय! हाय! यह बड़ा नगर जो मलमल, और बैजनी, और किरमिजी कपड़े पहिने था, और सोने, और रत्नों, और मोतियों से सजा था, १७ घड़ी ही भर में उमका ऐसा भारी धन नाश हो गया: और हर एक मांझी, और जलयात्री, और मल्लाह, और जितने समुद्र से कमाते हैं, सब दूर खड़े हुए। १८ और उसके जलने का धुआँ देखते हुए पुकारकर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है? १९ और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे, और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्लाकर कहेंगे, कि हाय! हाय! यह बड़ा नगर जिस की सम्पत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाजवाले धनी हो गए थे घड़ी ही भर में उजड़ गया। २० हे स्वर्ग, और हे पवित्र लोगो, और प्रेरितो, और भविष्यदक्ताओ, उस पर आनन्द करो,

क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उस से तुम्हारा पलटा लिया है!!

२१ फिर एक बलवन्त स्वर्गवृत्त ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया, और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया, कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा, और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। २२ और वीणा बजानेवालों, और बजिनियों, और बंसी बजानेवालों, और तुरही फूंकनेवालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, और किसी उद्यम का कोई कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा; और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा। २३ और दीया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा; क्योंकि तेरे व्योपारी पृथ्वी के प्रधान थे, और तेरे टोने से सब जातियाँ भरमाई गई थीं। २४ और भविष्यदक्ताओं और पवित्र लोगो, और पृथ्वी पर सब घात किए हुएों का लोह उसी में पाया गया।

२६ इस के बाद मैं ने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, कि हल्लिलूय्याह उद्धार, और महिमा, और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर ही की है। २ क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, इसलिये कि उस ने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया, और उस से अपने दासों के लोह का पलटा लिया है। ३ फिर दूसरी बार उन्होंने ने हल्लिलूय्याह कहा: और उसके जलने का धुआँ युगानुयुग उठता रहेगा।

४ घोर चौबीसों प्राचीनों घोर चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दण्डवत किया; जो सिंहासन पर बैठा था, घोर कहा, प्रामीन, हल्लिलूय्याह। ५ घोर सिंहासन में मे एक शब्द निकला, कि हे हमारे परमेश्वर से सब डरनेवाले दासो, क्या छोटे, क्या बड़े; तुम सब उस की स्तुति करो। ६ फिर मैं ने बड़ी भीड़ का सा, घोर बहुत जल का सा शब्द, घोर गर्जनों का सा बड़ा शब्द मुना, कि हल्लिलूय्याह, इसलिये कि प्रभु हमारा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान राज्य करता है। ७ प्राप्नो, हम प्रानन्दित घोर मगन हो, घोर उस की स्तुति करें; क्योंकि मेम्ने का ब्याह मा पहुचा: घोर उस की पत्नी ने अपने प्राप को नैघार कर लिया है। ८ घोर उम को शुद्ध घोर चमकदार महीन मलमल पहिनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उम महीन मलमल का ग्रयं पवित्र लोगों के धर्म के काम है। ९ घोर उस ने मुभ से कहा; यह लिख, कि धन्य वे हैं, जो मेम्ने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं; फिर उम ने मुभ से कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन हैं। १० घोर मैं उस को दण्डवत करने के लिये उसके पांवों पर गिरा; उस ने मुभ से कहा; देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा घोर तेरे भाइयों का संगी दास हूँ, जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर हूँ, परमेश्वर ही को दण्डवत कर; क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यद्वाणी की प्रात्मा है।

११ फिर मैं ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा; घोर देखता हू कि एक श्वेत घोड़ा है; घोर उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य, घोर सत्य कहलाता है;

घोर वह धर्म के साथ न्याय घोर लड़ाई करता है। १२ उस की प्राखें प्राग की ज्वाला हैं; घोर उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं; घोर उसका एक नाम लिखा है, जिसे उस को छोड़ घोर कोई नहीं जानता। १३ घोर वह लोह से छिड़का हुआ वस्त्र पहिने है; घोर उसका नाम परमेश्वर का वचन है। १४ घोर स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार घोर श्वेत घोर शुद्ध मलमल पहिने हुए उसके पीछे पीछे हैं। १५ घोर जाति जाति को मारने के लिये उनके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, घोर वह लोहे का राजदण्ड लिए हुए उन पर राज्य करेगा, घोर वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जल-जलाहट की मदिरा के कुंड में दास रौदेगा। १६ घोर उसके वस्त्र घोर जाघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु॥

१७ फिर मैं ने एक स्वर्गदूत को मूर्ध पर खड़े हुए देखा, घोर उस ने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में मे उड़ने-वाले सब पक्षियों से कहा, प्राप्नो, परमेश्वर की बड़ी बियारी के लिये इकट्ठे हो जाप्नो। १८ जिस से तुम राजाओं का मांस, घोर सरदारों का मांस, घोर शक्तिमान पुरुषों का मांस, घोर घोड़ों का, घोर उन के सवारों का मांस, घोर क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाप्नो॥

१९ फिर मैं ने उस पशु घोर पृथ्वी के राजाओं घोर उन की सेनाओं को उम घोड़े के सवार, घोर उस की सेना से लड़ने के लिये इकट्ठे देखा। २० घोर वह पशु घोर उसके साथ वह भूटा

भविष्यद्भक्ता पकड़ा गया, जिस ने उसके साम्हने ऐसे चिन्ह दिखाए थे, जिन के द्वारा उस ने उन को भरमाया, जिन्होंने उस पशु की छाप ली थी, और जो उस की मूरत की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस प्राण की भील में जो गन्धक से जलती है, डाले गए। २१ और शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुह से निकलती थी, मार डाले गए; और सब पक्षी उन के मांस से तृप्त हो गए ॥

२० फिर मैं ने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा; जिस के हाथ में अथाह कुंड की कुंजी, और एक बड़ी जंजीर थी। २ और उस ने उस अजगर, अर्थात् पुराने सांप को, जो इव्लीस और शैतान है; पकड़ के हजार वर्ष के लिये बान्ध दिया। ३ और उसे अथाह कुंड में डालकर बन्द कर दिया और उस पर मुहर कर दी, कि वह हजार वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए; इस के बाद प्रवश्य है, कि थोड़ी देर के लिये फिर खोला जाए ॥

४ फिर मैं ने सिंहासन देखा, और उन पर लोग बैठ गए, और उन को न्याय करने का अधिकार दिया गया; और उन की आत्माओं को भी देखा, जिन के सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे; और जिन्होंने ने न उस पशु को, और न उस की मूरत की पूजा की थी, और न उस की छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी; वे जीवित होकर ममोह के साथ हजार वर्ष तक राज्य करते रहे।

५ और जब तक ये हजार वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे; यह तो पहिला मृतकोत्थान है। ६ धन्य और पवित्र वह है, जो इस पहिले पुनरुत्थान * का भागी है; ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और ममोह के याजक होंगे, और उसके साथ हजार वर्ष तक राज्य करेंगे ॥

७ और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे; तो शैतान कंद से छोड़ दिया जाएगा। ८ और उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात् याजूज और माजूज को जिन की गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिये इकट्ठे करने को निकलेगा। ९ और वे मारी पृथ्वी पर फल जाएंगी; और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी; और प्राण स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। १० और उन का भरमानेवाला शैतान † प्राण और गन्धक की उस भील में, जिस में वह पशु और भूटा भविष्यद्भक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे ॥

११ फिर मैं ने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उस को जो उस पर बैठा हुआ है, देखा, जिस के साम्हने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और उन के लिये जगह न मिली। १२ फिर मैं ने छोटे बड़े सब मरे हुएों को सिंहासन के साम्हने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गईं; और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात् जीवन की पुस्तक; और जैसे

* या मृतकोत्थान।

† या इव्लीस।

उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उन के कामों के अनुसार मरे हुएों का न्याय किया गया। १३ और समुद्र ने उन मरे हुएों को जो उस में धे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुएों को जो उन में धे दे दिया; और उन में से हर एक के कामों के अनुसार उन का न्याय किया गया। १४ और मृत्यु और अधोलोक भी प्राण की भील में डाले गए; यह प्राण की भील तो दूसरी मृत्यु है। १५ और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह प्राण की भील में डाला गया ॥

२१ फिर मैं ने नये आकाश और नयी पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहिला आकाश और पहिली पृथ्वी जाती रही थी, और समुद्र भी न रहा। २ फिर मैं ने पवित्र नगर नये यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी, जो अपने पति के लिये सिंगार किए हो। ३ फिर मैं ने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है; वह उन के साथ डेरा करेगा, और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उन के साथ रहेगा; और उन का परमेश्वर होगा। ४ और वह उन की आंखों से सब धूसर पोंछ डालेगा; और इस के बाद मृत्यु न रहेगी, और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी; पहिली बातें जाती रहीं। ५ और जो सिंहासन पर बैठा था, उस ने कहा, कि देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूँ: फिर उस ने कहा, कि लिख ले, क्योंकि

ये बचन विश्वास के योग्य और सत्य हैं। ६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं, मैं अब प्राण और प्रोमिगा, आदि और अन्त हूँ: मैं व्यासे को जीवन के जल के सोते में से संतर्पित पिलाऊंगा। ७ जो जय पाए, वही इन वस्तुओं का वारिस होगा; और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, और वह मेरा पुत्र होगा। ८ पर डरपोकों, और अविश्वासियों, और घिनौनों, और हत्यारों और व्यभिचारियों, और दोन्हों, और मूर्तिपूजकों, और सब भूतों का भाग उस भील में मिलेगा, जो प्राण और गन्धक से जलती रहती है: यह दूसरी मृत्यु है ॥

९ फिर जिन सात स्वर्गदूतों के पास सात पिछली विपत्तियों से भरे हुए सात कटोरे थे, उन में से एक मेरे पास आया, और मेरे साथ बातें करके कहा; इधर आ: मैं तुम्हें दुल्हन अर्थात् मेम्ने की पत्नी दिखाऊंगा। १० और वह मुझे आत्मा में, एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। ११ परमेश्वर की महिमा उम में थी, और उस की ज्योति * बहुत ही बहुमोल पत्थर, अर्थात् बिल्लीर के समान यशव की नाई स्वच्छ थी। १२ और उस की शहरपनाह बड़ी ऊंची थी, और उसके बारह फाटक और फाटकों पर बारह स्वर्गदूत थे; और उन पर इस्त्राएलियों के बारह गोत्रों के नाम लिखे थे। १३ पूव की ओर तीन फाटक, उत्तर की ओर तीन फाटक, दक्खिन की ओर तीन फाटक, और पश्चिम की ओर

* या ज्योति देनेवाला।

तीन फाटक थे। १४ धीर नगर की शहरपनाह की बारह नेवें थीं, धीर उन पर मेम्ने के बारह प्रेरितों के बारह नाम लिखे थे। १५ धीर जो मेरे साथ बातें कर रहा था, उसके पास नगर, धीर उसके फाटकों धीर उस की शहरपनाह को नापने के लिये एक सोने का गज था। १६ धीर वह नगर चौकोर बसा हुआ था धीर उस की लम्बाई चौड़ाई के बराबर थी, धीर उस ने उस गज से नगर को नापा, तो साढ़े सात सौ कोस का निकला: उस की लम्बाई, धीर चौड़ाई, धीर ऊंचाई बराबर थी। १७ धीर उस ने उस की शहरपनाह को मनुष्य के, प्रपात् स्वर्गदूत के नाप से नापा, तो एक सौ चौध्मासीस हाथ निकली। १८ धीर उस की शहरपनाह की जुड़ाई यशब की थी, धीर नगर ऐसे चोखे सोने का था, जो स्वच्छ कांच के समान हो। १९ धीर उस नगर की नेवें हर प्रकार के बहुमोल पत्थरों से संवारी हुई थी, पहिली नेव यशब की थी, दूसरी नीलमणि की, तीसरी लालड़ी की, चौथी मरकत की। २० पांचवी गोमेदक की, छठवीं माणिक्य की, सातवीं पीतमणि की, आठवीं पेरोज की, नवीं पुखराज की, दसवीं लहसलिए की, एग्यारहवीं भूम्नकान्त की, बारहवीं याकूत की। २१ धीर बारहों फाटक, बारह मोतियों के थे; एक एक फाटक, एक मोती का बना था; धीर नगर की सड़क स्वच्छ कांच के समान चोखे सोने की थी। २२ धीर मैं ने उस में कोई मन्दिर* न देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान

प्रभु परमेश्वर, धीर मेम्ना उसका मन्दिर हैं। २३ धीर उस नगर में मूर्त धीर चान्द के उजाले का प्रबोधन नहीं, क्योंकि परमेश्वर के तेज से उस में उजाला हो रहा है, धीर मेम्ना उसका दीपक है। २४ धीर जाति जाति के लोग उस की ज्योति में चले फिरंगे, धीर पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उस में लाएंगे। २५ धीर उसके फाटक दिन को कभी बन्द न होंगे, धीर रात वहां न होगी। २६ धीर लोग जाति जाति के तेज धीर विभव का सामान उस में लाएंगे। २७ धीर उस में कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करनेवाला, या झूठ का गढ़नेवाला, किसी रीति से प्रवेश न करेगा; पर केवल वे लोग जिन के नाम मेम्ने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं ॥

२२ फिर उस ने मुझे विल्सौर की सी झलकती हुई, जीवन के जल की एक नदी दिखाई, जो परमेश्वर धीर मेम्ने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। २ धीर नदी के इस पार; धीर उस पार, जीवन का पेड़ था: उस में बारह प्रकार के फल लगते थे, धीर वह हर महीने फलता था; धीर उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चढ़ते थे। ३ धीर फिर स्नापन होगा धीर परमेश्वर धीर मेम्ने का सिंहासन उस नगर में होगा, धीर उसके दाम उस की सेवा करेंगे। ४ धीर उसका मुंह देखेंगे, धीर उसका नाम उन के माथों पर लिखा हुआ होगा। ५ धीर फिर रात न होगी, धीर उन्हें दीपक

* यू० पवित्रस्नान ।

घोर सूर्य के उजियाले का प्रयोजन न होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा: घोर वे युगानुयुग राज्य करेंगे ॥

६ फिर उस ने मुझ से कहा, ये बातें विश्वास के योग्य, घोर मत्व हैं, घोर प्रभु ने जो भविष्यद्वक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूत को इसलिये भेजा, कि अपने दासों को वे बातें जिन का शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। ७ देख, मैं शीघ्र आनेवाला हूँ; धन्य है वह, जो इस पुस्तक की भविष्यदाणी की बातें मानता है ॥

८ मैं वही यूहन्ना हूँ, जो ये बातें सुनता, घोर देखता था; घोर जब मैं ने सुना, घोर देखा, तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दण्डवत करने के लिये गिर पड़ा।

९ घोर उन ने मुझ से कहा, देख, ऐसा मत कर; क्योंकि मैं तेरा घोर तेरे भाई भविष्यद्वक्ताओं घोर इस पुस्तक की बातों के माननेवालों का संगी दाम हूँ; परमेश्वर ही को दण्डवत कर ॥

१० फिर उस ने मुझ से कहा, इस पुस्तक की भविष्यदाणी की बातों को बन्द मत कर; क्योंकि समय निकट है ॥

११ जो धन्याय करता है, वह धन्याय ही करता रहे; घोर जो मलिन है, वह मलिन बना रहे; घोर जो धर्मी है, वह धर्मी बना रहे; घोर जो पवित्र है, वह पवित्र बना रहे। १२ देख, मैं शीघ्र आनेवाला हूँ; घोर हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिये प्रतिफल मेरे पास है। १३ मैं आलफा घोर

घोमिगा, पहिला घोर सिखला, घादि घोर भन्न हूँ। १४ धन्य वे हैं, जो अपने वस्त्र धो लें हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पाम आने का अधिकार मिलेगा, घोर वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। १५ पर कुत्ते, घोर टोन्हे, घोर व्यभिचारी, घोर हत्यारे घोर मूर्ति-पूजक, घोर हर एक झूठ का चाहनेवाला, घोर गढ़नेवाला बाहर रहेगा ॥

१६ मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इमानले भेजा, कि तुम्हारे प्रागे कबी-मियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे: मैं दाऊद का मूल, घोर वंश, घोर भोर का चमकता हुआ तारा हूँ ॥

१७ घोर आत्मा, घोर दुल्हन दोनों कहती हैं, आ; घोर सुननेवाला भी कहे, कि आ; घोर जो प्यासा हो, वह आए, घोर जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेंटमेंत ले ॥

१८ मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यदाणी की बातें सुनता है, गवाही देता हूँ, कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए, तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं, उस पर बढ़ाएगा। १९ घोर यदि कोई इस भविष्यदाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले, तो परमेश्वर उन जीवन के पेड़ घोर पवित्र नगर में से जिस की चरबा इस पुस्तक में है, उसका भाग निकाल देगा ॥

२० जो इन बातों की गवाही देता है, वह यह कहता है, हां, मैं शीघ्र आनेवाला हूँ। आमीन। हे प्रभु यीशु आ ॥

२१ प्रभु यीशु का धन्यवाद पवित्र लोगों के साथ रहे। आमीन ॥

